

“ते सुकृती रस सिद्ध कवि, वन्दनीय जग माहिं ।  
जिनके सुजस सरिर कहै, जरा-मरन भय नाहिं ॥”

# मिश्रबन्धुविनोद

अथवा

हिन्दी-साहित्य का इतिहास तथा कवि-कीर्तन

(तृतीय भाग)

लेखक

गणेशविहारी मिश्र,

श्यामविहारी मिश्र, एम० ए०

शुकदेवविहारी मिश्र, बी० ए०

(गोलागञ्ज, लखनऊ)

प्रकाशक

हिन्दी-ग्रन्थ-प्रसारक मण्डली

खँडवा व प्रयाग

प्रथम बार  
१००० प्रति

१९७०  
सर्वस्व स्वाधीन

{ मूल्य १॥ }

“ते सुकृती रस सिद्ध कवि, वन्दनीय जग माहिँ ।  
जिनके सुजस सरीर कहँ, जरा-मरन भय नाहिँ ॥”

# मिश्रबन्धुविनोद

अथवा

हिन्दी-साहित्य का इतिहास तथा कवि-कीर्तन

(तृतीय भाग)

लेखक

गणेशविहारी मिश्र,

श्यामविहारी मिश्र, एम० ए०

शुकदेवविहारी मिश्र, बी० ए०

(गोलागञ्ज, लखनऊ)

प्रकाशक

हिन्दी-ग्रन्थ-प्रसारक मण्डली

खँडवा व प्रयाग

प्रथम बार  
१००० प्रति

१९७०  
सर्वस्व स्वाधीन

{ मूल्य १॥॥ }

“ते सुकृती रस सिद्ध कवि, वन्दनीय जग माहिं ।  
जिनके सुजस सरीर कहै, जरा-मरन भय नाहिं ॥”

# मिश्रबन्धुविनोद

अथवा

हिन्दी-साहित्य का इतिहास तथा कवि-कीर्तन

(तृतीय भाग)

लेखक

गणेशविहारी मिश्र,

श्यामविहारी मिश्र, एम० ए०

शुकदेवविहारी मिश्र, बी० ए०

(गोलागञ्ज, लखनऊ)

प्रकाशक

हिन्दी-ग्रन्थ-प्रसारक मण्डली

खँडवा व प्रयाग

प्रथम बार }  
१००० प्रति }

१९७०  
सर्वस्व स्वाधीन

{ मूल्य १॥॥ }

Printed by Apurva Krishna Bose, at the Indian Press,  
Allahabad.

12

## विषय-सूची ।

विषय

पृष्ठ

### परिवर्तन प्रकरणा ।

अध्याय ३२—परिवर्तन कालिक हिन्दी १०७:

अध्याय ३३—द्विजदेव-काल

द्विजदेव—शंकर—देवकाष्ठजिह्वा—गणेशप्रसाद—  
नवीन—कासिम—गिरिधरदास—पजनेस—सेवक—  
म० रघुराजसिंह—सरदार—राजा शिवप्रसाद—  
गुलाबसिंह—बाबा रघुनाथदास—लेखराज—  
ललित किशोरी—अन्य कवि गण ।

१०८:

अध्याय ३४—दयानन्द-काल

महर्षि दयानन्द—राजा लक्ष्मणसिंह—शंकरसहाय—  
गदाधर भट्ट—औध—लछिराम—बलदेव—लखनेस—  
हार्नली—बालकृष्ण भट्ट—ब्रज—अन्य कवि गण ।

११७:

## वर्तमान प्रकरणा ।

पृष्ठ

अध्याय ३५—वर्तमान हिन्दी

१२२५

अध्याय ३६—पूर्व हरिश्चन्द्र-काल

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र—जगमोहनसिंह—श्रीनिवासदास—  
रसिकेश—ललित—सहज राम—हनुमान—गोविन्द—  
मुंशीराम—शिवसिंह सेंगर—अन्य कवि गण ।

१२४७

अध्याय ३७—उत्तर हरिश्चन्द्र-काल

भीमसेन—पिनकाट—अम्बिकादत्त व्यास—बदरी  
नारायण चौधरी—भुवनेश—प्रियर्सन—द्विजराज—  
सुधाकर—प्रतापनारायण मिश्र—शिवनन्दनसहाय—  
सीताराम—महावीरप्रसाद द्विवेदी—ज्वालाप्रसाद  
मिश्र—मदनमोहन मालवीय—ब्रजराज—गोपालराम—  
श्रीधर पाठक—गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा—विशाल—  
अन्य कवि गण ।

१३०४

अध्याय ३८—पूर्व गद्य-काल

दीन—लज्जाराम महता—देवीप्रसाद पूर्ण—ग्रीवस—  
राधाकृष्ण दास—बलदेवप्रसाद मिश्र—देवकीनन्दन  
खत्री—अयोध्यासिंह उपाध्याय—किशोरीलाल—  
गदाधरसिंह—मुरारि दान—ब्रजनन्दनसहाय—

गंगाप्रसाद अग्निहोत्री—भगवान दीन—श्यामसुन्दर दास—मन्नन द्विवेदी—अन्य कवि गण ।	१३७६
<b>अध्याय ३६—उत्तर गद्यकाल</b>	
रूप नारायण पांडे—भुवनेश्वर मिश्र—बुन्देला वाला— सत्यदेव—अन्य कवि गण—वर्त्तमान अन्य लेखक ।	१४५४
<b>परिशिष्ट—कविनामावली</b>	१५२२
<b>परिशिष्ट २—हिन्दी के मुख्य ग्रन्थ</b>	१५८१
<b>परिशिष्ट ३—शुद्धिपत्र</b>	१५९१





# परिवर्तन-प्रकरणा ।

( १८९०—१९२५ )

## बत्तीसवाँ अध्याय ।

### परिवर्तन-कालिक हिन्दी ।

यों तो प्रौढ़ माध्यमिक काल ही में हिन्दी भाषा परिपक्व हो चुकी थी, पर अलंकृत काल में उसे हमारे कविजनों ने आभूषणों से सुसज्जित कर ऐसी मनमोहिनी बना दी, कि उसमें किसी प्रकार की कमी न रह गई, बरन् यों कहना चाहिए कि उत्तरालंकृत काल में भूषणों की ऐसी भरमार मच गई कि उसके कोमल कलेवर पर उनका बोझ प्रायः असह्य प्रतीत होने लगा । हम स्वीकार करते हैं कि कोई शशिबदनी चाहे जितनी स्वरूपवती हो, पर कुछ आभूषण पिन्हा देने से उसकी शोभा बढ़ जाती है । फिर भी कहना ही पड़ता है कि जैसे अंग-प्रत्यंगों को आभरणों से आच्छादित कर देने से कुछ ग्रामीणता एवं भद्दापन बोध होने लगता है, उसी प्रकार कविता को भी विशेष रूप से अलंकृत करने पर उसकी नैसर्गिक सुघराई में बढ़ा लग जाना स्वाभाविक ही है । अन्य भाषाओं में प्रायः माध्यमिक काल के पीछेही परिवर्तन

समय आजाता और कुछही दिनों के बाद उनकी वर्तमान दशा का वर्णन होने लगता है, पर हिन्दी में यह विलक्षण विशेषता है कि माध्यमिक और परिवर्तन काल के बीच में दो शताब्दियों से भी कुछ अधिक समय तक हमारे कविजन भाषा को अलंकृत करने ही में लगे रहे। इसका परिणाम यह अवश्य हुआ कि हिन्दी जैसी मधुर एवं अलंकारयुक्त दूसरी भाषा का ढूँढ़ना कठिन है और इस अंग की प्रौढ़ता हमारी भाषा में प्रायः एक दम अद्वितीय और अभूतपूर्व है, तो भी मानना ही पड़ेगा कि कम से कम उत्तरालंकृत काल में इस अंग की पूर्ति में आवश्यकता से कहीं विशेष श्रम कर डाला गया। इसके अतिरिक्त उस समय कवियों का झुकाव शृंगार रस की ओर इतना अधिक रहा कि उनमें से अधिकांश का रुझान दूसरे विषयों पर न हो सका। हमारी समझ में पूर्वालंकृत काल तक हिन्दी को जितने आभूषण पिन्हाये जा चुके थे उन पर यदि हमारे कविजन संतोष कर लेते और शृंगार रस को छोड़ उपकारी बातों का उचित समादर करते, तो आज दिन हमें अपने भाषाभंडार में नूतन विषयों की न्यूनता पर शोक न प्रकट करना पड़ता। स्मरण रखना चाहिए कि उत्तरालंकृत काल में, जब कि हमारे यहाँ लोग भाषा को बाह्याडम्बरों से ही सुसज्जित करने में विशेष रूप से बद्धपरिकर थे, अन्य देशी भाषायें और ही छटा दिखलाने लगी थीं। बँगला में भी हमारे पूर्वालंकृत काल एवं उत्तरालंकृत काल के विशेषांश में भाषा अलंकृत रही, परन्तु वहाँ संवत् १८७५ में ही सिरामपुर के पादरियों द्वारा एक समाचारपत्र निकला और इसी समय से गद्य का प्रचार बढ़ने लगा। संवत् १८८५ के लग-

भग मृत्युंजय नामक लेखक ने बँगला का प्रबोधचन्द्रिका नामक प्रथम गद्य-ग्रन्थ लिखा। इसी कवि ने पुरुषपरीक्षा नामक एक द्वितीय गद्य ग्रन्थ रचा। इसी समय ईश्वरचन्द्र गुप्त ने संवाद-प्रभाकर नामक एक उत्कृष्ट पत्र निकाला और राजा राममोहन राय ने सुधावर्षिणी लेखनी से संसार को पवित्र किया। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और अक्षयकुमारदत्त बंगाली गद्य के मुख्य उन्नायक हो गये हैं। इनका रचना-काल १९१० के लगभग था। इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट गद्य-ग्रन्थ रचे और इनके समय से प्रायः सभी विषयों में बँगला भाषा ने बहुत अच्छी उन्नति की। इसी समय के बंकिमचन्द्र चैटर्जी, मधुसूदनदत्त और दीनबन्धु बड़े भारी लेखक और कवि थे। रमेशचन्द्रदत्त ने भी अच्छे ग्रन्थ रचे। आज कल रवीन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े कवि हैं, और उनके भाई द्विजेन्द्रनाथ तथा यतीन्द्रनाथ परमोत्कृष्ट गद्यलेखक तथा नाटकरचयिता हैं। बँगला ने वर्तमान उन्नत विषयों में बड़ी अच्छी उन्नति कर ली है। गुजराती एवं मराठी भाषा भी उन्नत दशा में है। अस्तु।

चन्द्र के समय से उन्नति करते करते इतने दिनों में हिन्दी ने वह उत्कर्ष प्राप्त कर लिया था कि जिसके सहारे अन्य भाषाओं की अपेक्षा उसके काव्यांग इतने हृदयतर हैं कि प्रायः उन सभी को इसके सामने सिर झुकाना पड़ता है, पर नवीन उपयोगी विषयों की अब तक कुछ भी संतोषदायक उन्नति नहीं हो पाई थी। इस परिवर्तनकाल में अनेक लेखकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और विविध विषयों पर लेखनी चंचल करने की प्रथा पड़ने

लगी। यों तो आज दिन तक अन्य भाषाओं को देखते हिन्दी में इस विभाग की न्यूनता अगत्या स्वीकार करनी ही पड़ती है, पर जो प्रथा परिवर्तन काल के कतिपय विचारशील हिन्दीहितैषियों ने चलाई उस पर क्रमशः उन्नति होती ही आई है। उत्तरालंकृत काल में कथाप्रासंगिक ग्रन्थों के लिखने की रीति प्रायः जैसी की तैसी ज़ोरों पर रही थी, पर परिवर्तनकाल में उसका कुछ हास हो चला। शृंगार रस एवं रीतिग्रन्थों का प्राधान्य भी अब घटने लगा, पर उसीके साथ काव्योत्कर्ष में भी विशेष न्यूनता आ गई और ठाकुर, दूल्हा, सूदन, बोधा, रामचन्द्र, सीतल, थान, देवीप्रवीन और परताप के जोड़ वाले प्रायः कोई भी कवि इस परिवर्तनकाल में दृष्टिगोचर नहीं होते। इतना ही नहीं, बरन् यों कहना चाहिए कि लेखराज, ललितकिशोरी, पजनेस, आदि को छोड़ प्रायः कोई भी वास्तव में बढ़िया कवि इस समय में न हुआ। इसी के साथ इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि यह परिवर्तनकाल केवल ३६ वर्ष का है और उत्तरालंकृतकाल प्रायः एक सौ वर्ष पर विस्तृत है। भक्तिपक्ष की कविता प्रौढ़ माध्यमिक काल में पूरे ज़ोरों पर थी और तत्पश्चात् उसमें कमी हो चली। पूर्वालंकृत समय की अपेक्षा उत्तरालंकृत काल में उसने फिर कुछ कुछ उन्नति की, पर परिवर्तनकाल में सिवा महाराजा रघुराजसिंहजी, लेखराज और ललित-किशोरी के और किसी भी नामी कवि ने उसकी ओर ध्यान न दिया। इस काल में ललितकिशोरी (साह कुन्दनलालजी) ने उस ढंग की कविता की, जो प्रायः तीन सौ वर्ष पहले प्रचलित

थी । वीर-काव्य अब बन्द सा हो गया और गद्य लिखने की प्रथा पहले पहल ज़ोरों के साथ चली । टीका लिखने की रीति सब से पहले प्रसिद्ध महाराणा कुम्भकर्ण ने चलाई थी और उनके बहुत दिनों पीछे अलंकृत काल में इस पर कतिपय लोगों ने ध्यान दिया था । कृष्ण और सुरति मिश्र ने बिहारी-सतसई पर अनेक प्रकार से टीकायें कीं, पर अब तक दो चार को छोड़ किसी दूसरे भाषाकवि को उत्कृष्ट टीकाकार बनने का गौरव नहीं प्राप्त हुआ था । इस परिवर्तन-काल में सरदार कवि ने सुर, केशव आदि अन्य नामी कवियों के उत्तमोत्तम ग्रन्थों पर भी टीकायें बनाईं और अन्य अनेक लेखकों ने भी टीकाओं पर श्रम किया ।

इस काल में सब से बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि हिन्दी-साहित्य से चार पाँच सौ वर्ष के बाद ब्रजभाषा और पद्य विभाग का आधिपत्य हटने लगा । जहाँ तक हम को विदित है, सब से पहले भूपति और सारंगधर ने संवत् १३५० के लगभग ब्रजभाषा का हिन्दी कविता में प्रयोग किया । प्रायः तीस वर्ष पीछे अमीर खुसरो ने भी इसे अपनाया, पर वे पहले पहल खड़ी बोली में भी कविता करते थे । १४५० के आसपास नारायण देव ने ब्रजभाषा ही में हरिश्चन्द्रपुराण नामक ग्रन्थ रचा और १४८० में नामदेव ने उसमें अनेक ग्रन्थ निर्माण किये । इनके पश्चात् चरणदास और वल्लभाचार्य जी ने ब्रजभाषा को ही प्रधानता दी और तदनन्तर सुरदास और अष्टछाप के अन्य कवीश्वरों ने उसका सिक्रा हमारी भाषा पर मानों अटल कर दिया । अवश्यही बीच बीच में कोई कोई लेखक अवधी, खड़ी बोली, और अन्य प्रकार की

भाषाओं में कविता करते रहे और स्वयं गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपनी अधिकांश रचनाओं में अवधी भाषा को ही विशेष आदर दिया, तो भी प्रायः १० सैकड़े कविजन बराबर ब्रजभाषा ही से अनुरक्त रहे । उत्तरालंकृत काल में लल्लू लाल ने प्रेमसागर की रचना ब्रजभाषामिश्रित बड़ीबोली में की, पर उसमें भी उन्होंने छन्द ब्रजभाषा ही के रक्खे । परिवर्तनकाल में गणेशप्रसाद, राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह, स्वामी दयानन्द, बालकृष्ण भट्ट आदि महानुभावों के प्रयत्न से लोगों को समझ पड़ने लगा कि हिन्दी गद्य एवं पद्य तक में यह आवश्यकता नहीं कि ब्रजभाषा का ही सहारा लिया जाय । पद्य में तो कुछ कुछ आज दिन तक ब्रजभाषा का प्रभुत्व कई अंशों में वर्तमान है और अभी कुछ समय तक हमारे कविजन इसकी ममता छोड़ते नहीं दिखाई पड़ते, पर गद्य में इसी परिवर्तन-काल से खड़ी बोली का पूर्ण प्रभुत्व जम गया और पद्य में भी उसका आदर होने लगा है ।

✓ अँगरेजी साम्राज्य स्थापित होने से जहाँ देश को अन्य अनेक लाभ हुए वहाँ साहित्य ही कैसे विमुख रह जाता ! जीवन-होड़ के प्रादुर्भाव से ही उन्नति का सुविशाल द्वार खुला करता है । जब तक किसी को बिना हाथ पैर डुलाये कुछ मिलता जाता है तब तक विशेष उन्नति की ओर उस का चित्त नहीं आकर्षित होता, पर जब मनुष्य देखता है कि अब तो बिना परिश्रम के काम नहीं चलता और आलसी बने रहने से अन्य उन्नत पुरुषों के सामने उसे नित्य प्रति नीचे ही खिसकना पड़ेगा, तभी उसमें उन्नति के विचार जागृत होते हैं और जातीय एवं व्यक्तिगत हौड़ में उसे

क्रमशः सफलता प्राप्त होने लगती है। जब हम लोगों में अँगरेजी राज्य स्थापित होने पर अन्य प्रकार के उन्नत विचार आने लगे, तभी अपनी भाषा की उपयोगी उन्नति की इच्छा भी अंकुरित हुई। वस, भाषा में परिवर्तन-काल उपस्थित हो जाने का यही एक प्रधान कारण था।

इस समय में महाराजा मानसिंह, शंकर दरियावादी, नवीन, पजनेस, सेवक, लेखराज, ललितकिशोरी, गदाधर भट्ट, श्रौध, लछिराम, बलदेव प्रभृति प्राचीन प्रथा के सत्कवियों में हुए, तथा उमादास, निहाल जीवनलाल, सूरजमल, माधव, कासिम, गिरिधर दास, प्रतापकुँअरि, महाराजा रघुराजसिंह, शम्भुनाथ मिश्र, और रघुनाथदास रामसनेही ने कथाप्रासंगिक कविता की। ललितकिशोरी जी ने एक बार सौरकाल की छटा फिर से दिखला दी, और कासिम ने अपने हंस जवाहिर में जायसी के पैरों पर पैर रखना चाहा, पर कासिम की रचना तादृश प्रशंसनीय नहीं है। महाराजा रघुराजसिंह जी ने अनेक विषयों पर अनेक भारी ग्रन्थ निर्माण करके हिन्दी का अच्छा उपकार किया। स्वामी काष्ठजिह्वा, बाबा रघुनाथदास और महंत सीतारामशरण इस समय के उन महात्माओं में हैं, जिन्होंने हिन्दी को अपनी लेखनी द्वारा पुनीत किया। कृष्णानन्द व्यास ने एक संग्रहग्रन्थ बनाया। गणेशप्रसाद फर्रुखावादी के खड़ी बोली वाले पद और लावनियाँ प्रसिद्ध हैं और उनका पतद्देश में अच्छा प्रचार है। टीकाकारों में सरदार और गुलाबसिंह का श्रम विशेषतया प्रशंसनीय है। यह दोनों महाशय कवि भी अच्छे थे। राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द, महर्षि दया-

नन्द सरस्वती, डाकूर रुडालफ हार्नली, नवीनचन्द्रराय, और बालकृष्ण भट्ट नवीन प्रकार के लेखकों में हैं और सच पूछिए तो विशेषतया ऐसे ही महानुभावों के श्रम का यह फल हुआ कि हिन्दी में प्राचीन अलंकृतकाल दूर होकर परिवर्तन होते होते वर्तमान उन्नति का समय हम लोगों को नसीब हुआ ।

राजा शिवप्रसाद का हिन्दी पर यह ऋण सदा बना रहेगा कि यदि वह समुचित उद्योग न करते तो सम्भव है कि शिक्षा-विभाग में हिन्दी बिलकुल स्थान ही न पाती और कल की छोकरी उर्दू ही उत्तरीय भारत वर्ष की एक मात्र देशी भाषा बन बैठती । महर्षि दयानन्द सरस्वती ने देश और जाति का जो महान् उपकार किया, उसे यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है । अनेक भूलों और पाखंडों में फँसे हुए लोगों को सीधा मार्ग दिखला कर उन्होंने वह काम किया है जो अपने अपने समय में महात्मा गौतम बुद्ध, स्वामी शंकराचार्य, रामानन्द, कबीरदास, बाबा नानक, बल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और राजा राममोहन राय ठौर ठौर कर गये । हम आर्यसमाजी नहीं हैं, तो भी हमारी समझ में ऐसा आता है कि हम लोगों का जो वास्तविक हित इस ऋषि के प्रयत्नों द्वारा हुआ और होना सम्भव है, उतना उपरोक्त महात्माओं में से बहुतों ने नहीं कर पाया । दयानन्दजी ने हिन्दी में सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादिभूमिका, इत्यादि अनुपम ग्रन्थ साधु और सरल भाषा में लिख कर उसकी भारी सहायता की और उनके द्वारा स्थापित आर्यसमाज से उसका दिनों दिन हित हो रहा है ।



## तीसवाँ अध्याय ।

### द्विजदेव-काल ।

( १८९०—१९१५ )

( १७८३ ) महाराजा मानसिंह, उपनाम द्विजदेव ।

ये महाराजा अयोध्या-नरेश तथा अवध-प्रदेशान्तर्गत ताल्लुक-दरों की असोसियेशन (सभा) के सभापति थे । इनका स्वर्गवास संवत् १९३० में संभवतः पचास वर्ष की अवस्था में हुआ था । ये महाशय कवियों के कल्पवृक्ष थे । इनके आश्रय में बहुत से कवि रहते थे । इसी कारण बहुतेरे पर सन्तापी मनुष्यों ने डाँड दिया था कि ये महाराज स्वयं कवि न थे, बरन् लछिराम कवि से बनवा कर अपने नाम से कविता प्रकाशित करते थे । यह बात सर्वथा अशुद्ध थी और इससे ऐसी बातें उड़ानेवालों की क्षुद्रता प्रकट होती है । वास्तव में इनकी कविता के बराबर लछिराम का कोई भी ग्रन्थ या छन्द नहीं पहुँचता है । ये महाराज शाकद्वीपी ब्राह्मण थे । अपने मरणकाल में ये अपने दौहित्र महामहोपाध्याय महाराजा सर प्रतापनारायणसिंह के० सी० आई० ई० उपनाम ददुआ साहेब को अपना उत्तराधिकारी नियत कर गये थे । थोड़े दिन हुए महाराज ददुआ साहेब ने 'रसकुसुमाकर' नामक एक मनोरंजक सचित्र भाषा-साहित्य का संग्रह प्रकाशित किया । इसमें द्विजदेव जी के बहुत से छन्द हैं । इनके भतीजे भुवनेशजी ने लिखा है कि इन्होंने शृंगारवत्तीसी और शृंगारलतिका नामक दो ग्रन्थ बनाये । इनका द्वितीय ग्रन्थ हमारे पास वर्तमान है, जिसमें १०५

पृष्ठ हैं। ये महाराज ब्रजभाषा में ही कविता करते थे। इनकी भाषा बड़ी ललित और कविता परम मनोहर होती थी। इन्होंने अनुप्रास बहुत रक्खा है। इनका षट्श्रुतु बहुत ही बढ़िया बना है और शेष ग्रन्थ में शृंगार रस के स्फुट छन्द हैं। इनकी कविता में बहुत से परमोत्तम छन्द हैं जिन के बराबर बड़े बड़े कवियों के अतिरिक्त सधारण कवियों के छन्द नहीं पहुँचते। इनके शेष छन्द भी बुरे नहीं हैं। हम इनको पद्याकर की श्रेणी में रखते हैं।

उदाहरण लीजिए :—

सोंधे समीरन को सरदार, मलिन्दन को मनसा फल दायक ।  
 किंसुक जालन को कलपद्रुम, मानिनी बालन हूँ को मनायक ॥  
 कन्त इकन्त अनन्त कलीन को, दीनन के मन को सुखदायक ।  
 साँचा मनोभव राज को साज, सु आवत आज इतै श्रुतुनायक ॥

चहकि चकोर उठे सोर करि भौर उठे,

बोलि ठौर ठौर उठे कोकिल सोहावने ।

खिलि उठौं एकै बार कलिका अपार,

हिलि हिलि उठे मारुत सुगन्ध सरसावने ॥

पलक न लागी अनुरागी इन नैनन पै,

पलटि गये धौं कबै तरु मन भावने ।

उमँगि अनन्द अँसुवान लौं चहुँघा लागे,

फूलि फूलि सुमन मरन्द बरसावने ॥

इनका कविता-काल संवत् १९०६ के इधर उधर था। इनकी भाषा बहुत अच्छी थी।

नाम—(१७८४) चन्द कवि संवत् १८९० के लगभग थे ।

कोई कोई इन्हें शाहजहाँगीर के समय का समझते हैं

नाम—(१७८५) गोस्वामी गुलाललाल, वृन्दावनवाँसी,  
अनन्य सम्प्रदाय वाले ।

ग्रन्थ—अनन्यसुभामण्डल ।

कविता-काल—संवत् १८९२ ।

विवरण—पहले पूजा इत्यादि का वर्णन किया । उसके पीछे साल  
भर के उत्सव कहे हैं । ग्रन्थ ७०० श्लोकों के बराबर है ।  
यह हमने दरबार छतरपूर में देखा । काव्य इसका  
निम्न श्रेणी का है । समय जाँच से मिला है ।

नाम—(१७८६) उमादास ।

ग्रन्थ—१ महाभारत भाषामाला (१८९४), २ कुरुक्षेत्रमाहात्म्य  
(१८९४), ३ नवरत्न, ४ पंचरत्न, ५ पंचयज्ञ ।

कविता-काल—१८९४ ।

विवरण—महाराजा करणसिंह पटियालानरेश के यहाँ थे । इनकी  
कविता साधारण श्रेणी की है ।

उदाहरण ।

कृपाहू के पारावार गुन जाके हैं अपार,  
सुन्दर विहार मन हार है उदार है ।  
जाके बल को निहार चीर ना धरँ सँभार,  
अरिन की नार बेग चढ़त पहार है ॥  
श्री गुरु गोविन्द सिंह सोढ़ बंस महा बाहु,  
बार बार सेषक को सदा रखवार है ।

नराकार निराकार निराधार असधार भू-  
उधार जगधार धर्म धार धार है ॥

नाम—(१७८७) जीवनलाल ब्राह्मण नागर, बूँदी ।

ग्रन्थ—१ ऊषाहरण, २ दुर्गाचरित्र, ३ भागवत-भाषा, ४ रामायण,  
५ गंगाशतक, ६ अवतारमाला, ७ संहिता-भाष्य ।

जन्मकाल—१८७० ।

रचनाकाल—१८९५ मृत्यु १९२६ ।

विवरण—ये संस्कृत, फ़ारसी, और भाषा के अच्छे ज्ञाता थे ।  
संवत् १८९८ में ये रावराजा बूँदी के प्रधान नियुक्त  
हुए, जिस पद का काम इन्होंने बड़ी योग्यता से  
किया । संवत् १९१४ के ग़दर में इन्होंने बहुत अच्छा  
प्रबन्ध किया, जिस पर दरबार से इनको ताजीम  
हाथी, कटारी इत्यादि मिली । संवत् १९१९ में आगरे  
में दरबार हुआ, जिसमें इन्हें जी० सी० यस० आई०  
का खिताब मिला । संवत् १९२३ में दरबार में  
महारुद्रयाग हुआ, जिसका प्रबन्ध आपने उत्तम  
किया । आप दस्तकारी में भी बड़े चतुर थे । कविता  
भी आप की सरस, तथा प्रशंसनीय होती थी । आप  
की गणना तोष की श्रेणी में की जाती है ।

उदाहरण ।

बदन मयंक पै चकोर हूँ रहत नित,  
पंकज नयन देखि भौर लौं गयो फिरै ।

अधर सुधारस के चाखिचे को सुमनस,  
 पूतरी है नैनन के तारन फयो फिरै ॥  
 अंग अंग गहन अनंग को सुभट होत,  
 बानि गान सुनि ठगे मृग लैं ठयो फिरै ।  
 तेरे रूप भूप आगे पिय को अनूप मन,  
 धरि बहु रूप बहुरूप सो भयो फिरै ॥ १ ॥  
 चन्द्र मिस जा को चन्द्रसेखर चढ़ावैं  
 सोस पट मिस धारै गिरा मूरति सबाब की ।  
 चन्दन के मिस चारु चर्चत अगर मार,  
 राममिस हरि हिय धारै सित आब की ॥  
 भूप रामसिंह तेरी कीरति कला की कांति,  
 भांति भांति बढ़ै छबि कवि के किताब की ।  
 मित्र सुखसंगकारी आब माहताब की ल्यौं,  
 सत्रुमुख रंगहारी ताब आफताब की ॥ २ ॥

(१७८८) शंकर कवि ।

ये महाशय कवि धनीराम के पुत्र और कवि सेवकराम के  
 ज्येष्ठ भ्राता, असनीनिवासी थे । आप बाबू रामप्रसन्नसिंह रईस काशी  
 के यहाँ रहे । इनका जन्मकाल निश्चित रूप से विदित नहीं है,  
 परन्तु सेवकराम के पूर्वज होने से अनुमान किया जा सकता है  
 कि ये लगभग संवत् १८६९ में उत्पन्न हुए होंगे । इनके वंश इत्यादि  
 का विशेष विवरण कवि सेवकराम के वर्णन में द्रष्टव्य है । इनका  
 कोई ग्रंथ हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ, परन्तु सेवकजी की जीवनी

से विदित होता है कि इन्होंने ग्रंथ भी बनाये हैं । यह समालोचना इनकी स्फुट कविता के आधार पर लिखी गई है । इनकी रचना रसपूर्ण एवं भाषा प्रशंसनीय है । ये महाशय तौष कवि की श्रेणी के हैं । उदाहरणस्वरूप तीन छन्द उद्धृत किये जाते हैं :—

सोहत अकास मैं अनिन्द इंदु-रूप साजि  
 संकर बखानै दीहदुति को धरत है ।  
 सीतल विमल गंग जल है महीतल मैं  
 परम पुनीत पापपुञ्जनि दरत है ॥  
 पैठि कै पताल मैं रसाल सेस-रूप राजै  
 कहाँ लौं गनाऊँ यौं समंत बिहरत है ।  
 रावरो सुजस भूप रामपरसन सिंह  
 ओक ओक तीनौ लोक पावन करत है ॥१॥  
 कैधौं तेज बाड़व की सोहै धूम धार कैधौं  
 दीन्हौं उपहार बज्र वासव प्रमान की ।  
 संकर बखानै डसै खल को भुअङ्गिनी सी  
 देखी चारु कीरति निकेत या बिधान की ॥  
 कैधौं तेरे वैरिन के बंस तारिबो को  
 रन-सागर मैं सेतु मग सुर-पुर जान की ।  
 राम परसन तेरे कर मैं कृपान कै  
 फते की फरमान राखै सान हिन्दुअन की ॥२॥  
 मंजु मलयाचल के पौन के प्रसंगन ते  
 लाल लाल पल्लव लतान लहकै लगे ।

फूलै लगे कमल गुलाब आब वारे घने  
संकर पराग भू अकास अहकै लगे ॥

बोलै लगे कोकिल भनंत भौर डोलै लगे  
चोप सों अमोलै मकरंद चहकै लगे ।

नेकौ ना अटक चढ़चो काम को कटक चारु  
चारचौ ओर चटक सुगंध महकै लगे ॥

विवरण—इनका कविता-काल १८९५ जान पड़ता है ।

नाम—(१७८६) निहाल ।

ग्रन्थ—(१) महाभारत भाषा, (२) साहित्यशिरोमणि (१८९३), (३)  
सुनीतिपन्थप्रकाश (१८९६), (४) सुनीतिरत्नाकर (१९०२) ।

रचना-काल—१८९६ ।

विवरण—ये राजा करमसिंह और नरेन्द्रसिंह (दोनों) पटियाला-  
नरेश के यहाँ थे । हम इन्हें साधारण श्रेणी में रक्खेंगे ।

उदारण ।

जल बिनु सर जैसे, फल बिनु तर जैसे,  
सुत बिनु घर जैसे, गुन बिनु रूप है ।

सख बिनु बीर जैसे, फर बिनु तीर जैसे,  
खाँड़ बिनु खीर जैसे, दिन बिनु धूप है ॥

दया बिनु दान, गुन बिनु ज्यों कमान,  
जैसे तान बिनु गान, जैसे नीर हीन कूप है ।

बुधि बिनु नर जैसे, पंछी बिनु पर जैसे,  
सेवा बिनु डर जैसे, नीति बिनु भूप है ॥

## (१७६०) देव कवि काष्ठ-जिह्वा बनारसी ।

ये महाराज संस्कृत के बड़े भारी विद्वान् थे । आपने एक दफे गुरु से विवाद करके प्रायश्चित्तार्थ अपनी जीभ पर काष्ठ की खोल चढ़ा कर सदा को बोलना बंद कर दिया । इन्होंने ये ग्रन्थ बनाये :— विनयामृत, रामलगन रामायणपरिचर्या, वैराग्यप्रदीप और पदावली सात कांड (१८९७) । इनकी कविता विशेषतया भगवद्भक्ति के विषय पर होती थी । वह प्रशंसनीय है । इनकी गणना साधारण श्रेणी में की जाती है । महाराज बनारस के यहाँ इनका बड़ा आदर होता था ।

उदाहरण :—

जग मङ्गल सिय जू के पद हैं । (टेक)  
जस तिरकोण यन्त्र मङ्गल के अस तरवन के कद हैं ॥  
मलहि गलावहिँ ते तन मन के जिनकी अटक विरद हैं ।  
मङ्गल हू के मङ्गल हरि जहँ सदा बसे ये हद हैं ॥ १ ॥

नाम—(१७६१) रत्नहरि ।

ग्रन्थ—सत्योपाख्यान, अर्थात् रामरहस्य का भाषा उलथा ।

रचना-काल—१८९९ ।

विवरण—साधारण श्रेणी । ग्रन्थ दोहा, चौपाइयों में है । कहीं कहीं और छन्द भी हैं । इसमें ५२५ पृष्ठ हैं । यह ग्रन्थ हमने दरबारपुस्तकालय छतरपुर में देखा ।



उदाहरण ।

यह रामराय रहस्य दुरलभ परम प्रतिपादन कियो ।  
 श्रीराम कहना करि लहिय बिन तासु नहिँ पावन बियो ॥  
 श्रुतिसार सर्वसु सर्व सुकृत विपाक जिय जानो यही ।  
 रघुबीर व्यास प्रसाद ते पायो कह्यो तुम सो सही ॥  
 नाम—(१७६२) किशोरदास, पीताम्बरदास के शिष्य निंबार्क  
 सम्प्रदाय के ।

ग्रन्थ—(१) निजमनसिद्धांतसार, (२) गणपतिमाहात्म्य, (३) अध्यात्म-  
 रामायण ।

रचनाकाल—१९०० ।

विवरण—प्रथम ग्रन्थ में भक्तों के विस्तारपूर्वक कथन, एवं मन के  
 सिद्धांत वर्णित हैं । इस के तीन खंड ५५८ सफ़ा फूलसकैप  
 साइज के हैं । यह ग्रन्थ हमने दरबार छतरपूर में देखा  
 है । काव्यलालित्य साधारण श्रेणी का है ।

उदाहरण ।

लखि दारा सब सार लुख परसत हँसत उदार ।  
 मरकट जिमि निरतत हँसत सिक्किलि उतारि उतारि ॥  
 बढत अधिक ताते रस रीती, घटत जात गुरुजन पर प्रीती ।  
 सोखत सुनत विषय की बातें, ऐंठत चलत निरखि निज गातें ॥  
 बल दै बाँधत पाग बिसाला, पँच रँग कुसुम गुच्छ उर माला ।  
 हास करत पितु मातु ते अटत करत उतपात ॥  
 धन दै करि निज बाम को, पितु जननी तजि भ्रात ॥

नाम—(१७६३) कृष्णानन्द व्यास, गोकुल ।

ग्रन्थ—रागसागरोद्भव रागकल्पद्रुमसंग्रह ।

रचना-काल—१९०० ।

इन महाराज ने संवत् १९०० के लगभग रागसागरोद्भव नामक एक बृहत् ग्रन्थ संग्रहीत कर के कलकत्ते में मुद्रित कराया था, जिसमें २०५ भक्त तथा कवियों के पद संगृहीत थे । इसमें बहुत से ऐसे कवियों के पद संगृहीत हैं कि जिनकी कविता अन्यत्र प्रायः नहीं मिलती । इस संग्रह से इतिहास साहित्य का भी बड़ा उपकार हुआ है । यदि यह संग्रह न हुआ होता तो शायद इतने सब कवियों के नामों का मिलना असम्भव था । इनकी कविता तोष कवि की श्रेणी की समझनी चाहिए ।

उदाहरण ।

सैननि बिसरै बैननि भोर ।

बैन कहत का सों, पिय हिय ते बिहसत काहि किसोर ।

दुख भेटत भेटत तुमको नहि चुंबन देत न थोर ॥

(१७६४) गणेशप्रसाद फ़र्रुखाबादी ।

ये महाशय जाति के कायस्थ थे और फ़र्रुखाबाद में हलवाई का व्यापार करते थे । ऐसा साधारण व्यापार करके भी इन्होंने कविता की ओर ध्यान दिया । ये परमोत्तम रचना करने में समर्थ हुए । इन्होंने फ़िसानेचमन, बारहमासा, ऋतुवर्णन, शिखनख और छन्दलावनी नामक ग्रन्थ रचे हैं, जो प्रायः सब प्रकाशित हो चुके हैं और सभी पुस्तक बेचनेवालों के यहाँ मिलते हैं ।

इनकी समस्त कविता बहुत करके पदों में है और उसका विशेषांश खड़ी बोली को लिये हुए है। इनकी लावनियाँ इतनी प्रसिद्ध हैं कि उतने बड़े बड़े कवियों तक के काव्य नहीं हैं। उनमें अलौकिक स्वाद, अनूठापन, एवं बल है। ऐसी सजीव कविता बड़े बड़े कवि रचने में समर्थ नहीं हुए हैं। हमने इनके कई ग्रन्थ देखे हैं, पर इस समय हमारे पास इनका फिसानेचमन मात्र है। इनकी रचना के हमने बड़े बड़े चमत्कारिक तथा उड़ते हुए पद देखे हैं, पर इस समय साधारण ही पद हमें उपलब्ध हैं। आपके छन्द बहुत प्रचलित हैं, सो हमने उत्कृष्ट उदाहरण ढूँढ़ने का श्रम नहीं किया। इनकी भाषा साधारण बोलचाल को लिये हुए बड़ी जोरदार है। हम इनको पढ़ाकर कवि की श्रेणी में रखते हैं। संवत् १९३० के लगभग तक ये विद्यमान थे। इनका कविता-काल संवत् १९०० से १९३० तक समझना चाहिए। इनका हाल इनके मिलनेवालों ने सराय मीरा में हमसे कहा था। उदाहरण—

किया पिय किन सौतिन घर बास ।

बिकल उन बिन जिय बारह मास ॥

गरज आली असाढ़ आया । घटा ना गम दुख दिखलाया ॥

अबर हो बर बिदेस छाया । कहीं बरसा कहीं तरसाया ॥१॥

जोबन पर जिसके शम्सोकमर वारी है ।

हर गुल्शन में उस गुल की गुलजारी है ॥

जंजीर जुल्फ़ जाना ने लटकाली है ।

काली है फ़िदा जिस पर नागिन काली है ॥

अबरू कमान कुदरत ने परकाली है ।

वह आँख आँखआहू ने भूपकाली है ॥

बदन ससि मदनभरी प्यारी । अदा की बाँकी ब्रजनारी ॥  
 सीस धर गोरस की गगरी । रूप रस जोबन की अगरी ॥  
 बजा छमछम पायल पगरी । गई ग्वालनि गोकुल नगरी ॥२॥

### (१७६५) नवीन ।

ये महाशय नाभानरेश महाराजा देवेन्द्रसिंहजी के यहाँ थे ।  
 इन्होंने अपने को ब्रजवासी कहा है परन्तु कुल कुटुम्ब का कुछ भी  
 हाल नहीं लिखा है । इन्होंने नाभानरेश के यहाँ गज, ग्राम, एवं  
 रूपया पैसा सभी कुछ पाया । इनका वहाँ पूरा सम्मान हुआ ।  
 इन्होंने महाराजा साहब की आज्ञा से भाषा-साहित्य के सुधासर,  
 सरसरस, नेहनिदान और रंगतरंग नामक चार ग्रन्थ बनाये ।  
 हमारे पास इनका तृतीय ग्रन्थ है और उसी में उपरोक्त बातों का  
 वर्णन है । यह रंगतरंग संवत् १८९९ में सबसे पीछे बना था ।

नवीन कवि ने इस ग्रन्थ में रसों का वर्णन किया है । इसमें  
 अनुप्रासों का बाहुल्य है । इस कवि की कविताशैली पद्माकर  
 से बहुत कुछ मिलती है और उत्तमता में भी उसी कवि के समान  
 है । इस कवि की रचना बहुत ही प्रशंसनीय है । हम इन्हें पद्मा-  
 कर की श्रेणी में रखते हैं । उदाहरणार्थ इनके कुछ छन्द नीचे  
 लिखे जाते हैं ।

राजैँ गजराज पेसे दाहन दराज दुति

जिनकी गराज परैँ वैरी के तहलके ।

सुँडादंड मंडित जँजीर भकशोरैँ

गुन जीरन लैं तौरैँ जे भरैया मर्द जल के ॥

श्रीमनि नरिन्द मालवेन्द्र देव इन्द्रसिंह  
 तेरी पौरि पेखिये हजारन के हलके ।  
 औज के सिंगार बड़ी मौज के सिंगार  
 निज फौज के सिंगार जैतवार पर-दल के ॥१॥  
 सूरज के रथ के से पथ के चलैया चार  
 नै थके थिराहिँ थान चौकरी भरत हैं ।  
 फाँदत अलंगें जब बाँधत छलंग  
 जिन जीनन ते जाहिर जवाहिर भरत हैं ॥  
 मालवेन्द्र भूप की सवारी के  
 अनूप रूप गौन में दपेठि पौनहू को पकरत हैं ।  
 करि करि बाजी जिन्हें लाजै चपलाजी देखि  
 तेरे तेज बाजी पर-बाजी सी करत हैं ॥२॥  
 चम्पक के चौसर चमेलिन की चम्पकली  
 गजरे गुलाबन के गलते उमाह के ।  
 कदम तरौना तरे कंजलक झूमका की  
 भलक कपोलन पै बाजू जुही जाह के ॥  
 बेनी बीच माधुरी गुही है बार बार तपै  
 रंग पहिराये हैं बसन अंग लाह के ।  
 बिन बिन कुसुमकलीन के नवीन सखी  
 भूखन रचे हैं ब्रजभूषन की चाह के ॥३॥  
 ( १७६६ ) रसरंग ।

ये महाशय लखनऊ के रहनेवाले थे । इनका समय संवत्  
 १९०० के लगभग था । इनकी कविता सरस और मनोहर है ।

इनका कोई ग्रन्थ हमने नहीं देखा है, परन्तु स्फुट छन्द देखने में आये हैं। इनकी रचनाश्रेणी साधारण कवियों में है। इन्होंने ब्रज-भाषा में कविता की है और वह सराहनीय है।

सुखमा के सिन्धु को सिँगार के समुन्दर ते  
मथि कै सरूप सुधा सुखसों निकारे हैं ।  
करि उपचारे तासों स्वच्छता उतारे तामैं  
सौरभ सोहाग श्री सो हास रस डारे हैं ॥  
कवि रसरंग ताको सत जो निसारे  
तासों राधिका बदन बेस बिधि ने सँवारे हैं ।  
बदन सँवारी बिधि धोयो हाथ जम्यो रंग  
तासों भयो चन्द, कर भारे भये तारे हैं ॥

नाम—(१७६७) ब्रजनाथ बारहट, चारण, जयपुर ।

रचना—स्फुट ।

कविताकाल—१९०० । मृत्यु—१९३४ ।

विवरण—ये जयपुरदरबार के कवि महाराज रामसिंह के समय में थे। कविता इनकी साधारण श्रेणी की है। नीचे लिखा कवित्त इन्होंने महाराज तख्तसिंह जोधपुर के मरने पर बनाया था ।

आजु छिति छत्रिन को भानु सो असत भयो  
आजु पात पंछिन को पारिजात परिगो ।  
आजु भान सिन्धु फूटो मंगन मरालन को  
आजु गुन गाढ़ को गरीस गंज दरिगो ॥

आजु पंथ पुन्न को पताका टूटो बिजैनाथ

आजु हैस हरख हजारन को हरिगो ।

हाय हाय जग के अभाग तखतेस राज

आजु कलिकाल को कन्हैया कूच करिगो ॥

नाम—(१७६८) बाबा रघुनाथ दास महंत अयोध्या, ब्राह्मण

पाँडे पैतैपुर, ज़िला बाराबंकी ।

ग्रन्थ—हरिनामसुभिरनी ।

जन्मकाल—१८७३ । मरणकाल—१९३९ ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—ये महाराज बड़े तपस्वी, भगवद्भक्त, महात्मा हुए हैं । इनकी सिद्धता की बहुत सी जनश्रुतियाँ विख्यात हैं । ये सरयू जी के निकट छावनी में रहा करते थे । इन्होंने भक्तिसम्बन्धी उत्कृष्ट काव्य किया है जो साधारण श्रेणी का है ।

उदाहरण ।

मारा मारा कहे ते मुनीस ब्रह्मलीन भयो

राम राम कहे ते न जानौं कौन पद है ।

जमन हराम कह्यो राम जू को धाम पायो

प्रगट प्रभाव सब पोथिन में गद है ॥

कासिहू मरत उपदेसत महेस जाहि

सूभि न परत ताहि माया मोह मद् है ।

पेसहू समुभि सीताराम नाम जो न भजै

जन रघुनाथ जानौ तासों फेरि हद है ॥

## (१७६६) माधव रीवाँ-निवासी ।

इन्होंने आदिरामायण नामक ग्रन्थ संवत् १९०० के लगभग रीवाँ-नरेश महाराज विश्वनाथसिंह की आज्ञानुसार बनाया । माधवजी ने अपने को काशीराम का पुत्र और गङ्गाप्रसाद का नाती कहा है । इनका ग्रन्थ छतरपूर में है । इसमें ३५९ बड़े पृष्ठ हैं । यह ग्रन्थ पद्मपुराण के आधार पर बना है । इसमें ब्रह्मा और काकभुशुंड का संवाद है । ग्रन्थ सुन्दर है । ये छत्र कवि की श्रेणी में हैं ।

## उदाहरण ।

अति सुन्दर नैन सुरंग रंगे मद झूमत नीके सनोंद लसैं ।  
 अंगिरात जम्हात औ तोरत गात दोऊ झुकि जात निहारि हसैं ।  
 अरुभी नथ कुंडल मालनि में मुकता मनि फूलनि औलि खसैं ।  
 लघु ब्रह्मसुखौ तिनको दरसात लुभात जे प्रात के ध्यान रसैं ॥

## (१८००) कासिमशाह ।

इन्होंने हंसजवाहिर ग्रन्थ संवत् १९०० के लगभग बनाया । आप दरियाबाद, जिला बारहबंकी के निवासी थे । ग्रन्थ की वन्दना जायसी-कृत पद्मावत की भाँति उठी है । काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा को इसकी अपूर्ण प्रति खोज में प्राप्त हुई है, जिसमें फूलसकैप आकार के २०० पृष्ठ हैं । ग्रन्थ दोहा चौपाइयों में कहा गया है, जिसमें रचना-चमत्कार मधुसूदनदास की श्रेणी का है । इसमें एक प्रेम-कहानी वर्णित है ।



### (१८०१) जानकीचरणा, उपनाम प्रिया सखी ।

इन्होंने 'श्री रामरत्नमंजरी' नामक ११५ पृष्ठों का एक ग्रन्थ रचा, जो छतरपूर में है। इसमें कई छन्द हैं, पर विशेषतया दोहे हैं। इसमें साधारण कविता में राम का वर्णन है। इनका कविताकाल जाँच से संवत् १९०० जान पड़ा। इन्होंने जुगलमंजरी और भगवानामृत-कादम्बिनी नामक दो ग्रन्थ और रचे थे, जो छतरपूर में हैं। इनमें भी रामचन्द्र का ही रसात्मक वर्णन है।

उदाहरण ।

नाना विधि लीला ललित गावत मधुरे रंग ।

नृत्य करत सखि सुन्दरी बाजत ताल मृदंग ॥

चन्दन चरचे अंग सब कुंकुम अतर कपूर ।

रचि सुमनन की माल बहु पहिराई भरपूर ॥

### (१८०२) परमानन्द ।

इनके केवल दो छन्द हमने देखे हैं। इनका कोई भी हाल हमें ज्ञात न हुआ। इनकी कविता और बोलचाल अच्छी है। सुनते हैं कि इस नाम के दो कवि हो गये हैं, एक अजयगढ़ रियासत (बुन्देलखंड) के रहने वाले संवत् १९०० के आस पास हुए हैं और दूसरे पदमाकरवंशी दतिया में संवत् १९३० में रहते थे। जो कवित्त हमने देखे हैं वे किस परमानन्द के हैं सो हम नहीं कह सकते। ये महाशय साधारण श्रेणी के कवियों में हैं।

छाई छवि अमल जुन्हाई सी बिछौनन पै

तापर जुन्हाई जुदी दीपति रही उमंग ।

कवि परमानंद जुन्हाई अवलोकियत

जहाँ तहाँ नील कंज पुंजन परै प्रसंग ॥

खानजुही माल किधौं माल मालती की

पहिँ चानियत कैसे सनी पंकज सुगंध संग ।

आवत निहारी हौं तिहारे सेज प्यारे

पग धरत खुवेई परै गहब गुलाबी रंगी ॥ १ ॥

### (१८०३) गिरिधरदास ।

सुप्रसिद्ध बाबू हरिश्चन्द्र के पिता काशीनिवासी बाबू गोपाल चन्द्रजी इस उपनाम से काव्य करते थे । कहीं कहीं इन्होंने अपना नाम गिरिधारी एवं गिरिधारन भी रक्खा है । यह हिन्दी के अच्छे कवि थे । छोटे बड़े सब मिला कर इन्होंने चालीस ग्रन्थ रचे हैं, जैसा कि हरिश्चन्द्रजी ने भी लिखा है, “जिन श्री गिरिधर दास कवि रचे ग्रंथ चालीस ।” इनके ग्रंथों में “जरासंधवध” प्रसिद्ध है । इन्होंने दशावतार, भारतीभूषण, बारहमास, षट्ऋतु एवं अन्य अनेक विषयों पर ग्रन्थ निर्माण किये हैं । इनकी कविता सरस और अच्छी होती थी । इन्हें यमक का बहुत ज्यादा शौक था, जिस से कभी कभी पद्माकरजी की भाँति अपने भाव तक बिगाड़ देने, एवं भरती पदों के रखने में भी कोई संकोच न होता था । इनका समय संवत् १९०० के लगभग था । इनका देहान्त २६ या २७ वर्ष की ही अवस्था में हो गया । ये काशी के प्रतिष्ठित रईसों में से थे । हम इन्हें तौष की श्रेणी का कवि मानते हैं ।

## उदाहरण ।

आनन की उपमा जो आनन को चाहै,  
तऊ आन न मिलैगी चतुरानन विचारे को ।

कुसुमकमान के कमान को गुमान गयो,  
करि अनुमान भौह रूप अति प्यारे को ॥

गिरिधरदाँस दौऊ देखि नैन बारिजात,  
बारिजात बारिजात मान सर वारे को ।

राधिका को रूप देखि रति को लजात रूप,  
जातरूप जातरूप जातरूप वारे को ॥ १ ॥

लाल गुलाल समेत अरी जब सों यह अम्बर और उठी है ।  
देखत हैं तब सों तितही लखि चन्द चकोर की चाह झुठी है ॥  
डारतही गिरिधारन दीठि अबीरन के कन साथ लुठी है ।  
मोहन के मन मोहन को भट्ट मोहनमूठि सी तेरी मुठी है ॥ २ ॥

(१८०४) पजनेस ।

ठाकुर शिवसिंहजी ने लिखा है कि ये महाशय पन्ना में हुए और इन्होंने मधुप्रिया और नखशिख नामक दो ग्रन्थ बनाये हैं । उन्होंने इनका जन्म संवत् १८७२ लिखा है । इनका कविताकाल १९०० जान पड़ता है । बुन्देलखंड में जाँच करने से भी जान पड़ा कि ये महाशय पन्ना के रहने वाले थे । हमने इनके उपरोक्त ग्रन्थों में एक भी नहीं देखा है और न ये ग्रंथ अब साधारणतया मिलते हैं । भारतजीवन प्रेस के स्वामी ने इन के ५६ छन्दों का एक ग्रन्थ पजनेसपन्नासा नाम से प्रकाशित किया था । फिर

बहुत खोज करके पीछे उन्होंने पजनेसप्रकाश में इनके १२७ छन्द ढापे । इससे अधिक इनके छन्द देखने में नहीं आते । इनकी कविता बड़ी भोजस्विनी है । इतनी उद्दंडता बहुत कम कवियों में पाई जाती है । परन्तु इन्होंने उद्दंडता के स्नेह में मधुर भाषा को तिलांजलि दे दी, और इसी कारण इनकी कविता में टवर्ग एवं मिलित वर्णों का बाहुल्य है । इन्होंने अनुप्रास का बड़ा आदर किया है तथा जमकानुप्रास का भी विशेष प्रयोग इनकी रचना में हुआ है, परन्तु भाषा ब्रजभाषा ही है । फिर भी एकाध स्थान पर फ़ारसी-मिली कविता भी आप ने बनाई । इनकी रचना देखने से विदित होता है कि ये फ़ारसी और संस्कृत के पंडित थे । इनकी कविता में अश्लीलता की मात्रा विशेष है । इन्होंने उपमार्यें बहुत अच्छी खोज खोज कर दी हैं । कुल मिलाकर हम इनको सुकवि समझते हैं, क्योंकि इनके छन्द बहुत ललित बने हैं । इतने कम छन्दों में इतने उत्तम छन्द बहुत कम कविजन बना सके हैं । हम इनको पद्माकर की श्रेणी में रखते हैं । इनके छन्द थोड़े होने पर भी बहुत फैले हुए हैं, अतः हम इनका एक ही छन्द यहाँ लिखते हैं:—

मानसी पूजा मई पजनेस मलिच्छन हीन करी ठकुराई ।  
रोके उदेत सबै सुर गौत बसेरन पै सिकराली बसाई ॥  
जानि परै न कला कछु आजु की काहे सखी अजया यक लाई ॥  
पोसे मराल कहै केहि कारन परी भुजंगिनि क्यों पोसवाई ॥

इनके छन्द देखने से अनुमान होता है कि इन्होंने एक नख-  
शिख भी बनाया होगा ।

## (१८०५) सेवक ।

इनका जन्म संवत् १८७२ वि० में हुआ था और छालठ वर्ष की अवस्था भोग कर संवत् १९३८ में काशीपुरी में इन्होंने स्वर्गवास पाया । ये महाशय असनी के ब्रह्मभट्ट थे । इनके पूर्वपुरुष देवकी-नन्दन सरयूपारीण पयासी के मिश्र थे, परन्तु उन्होंने राजा मँझौली के यहाँ बरात में भाटों की भाँति छन्द पढ़े और उनका पुरस्कार भी लिया, अतः उनके स्वजनों ने उन्हें जातिच्युत कर दिया । इस पर विवश होकर उन्होंने असनी के भाट नरहरि कवि की लड़की के साथ अपना विवाह करके असनी में ही रहना स्वीकार किया । उस समय से वे और उनके वंशज सचमुच भाट हो गये । उन्हीं के वंश में ऋषिनाथ कवि परम प्रसिद्ध हुए । इन्हीं महाशय के पुत्र सुप्रसिद्ध ठाकुर कवि हुए । ठाकुर कवि काशी के बाबू देवकीनन्दन के यहाँ रहते थे । ठाकुर ने इन्हीं के नाम पर सतसई का तिलक बनाया था । ठाकुर के पुत्र धनीराम हुए, जो देवकीनन्दन के पुत्र जानकीप्रसाद के कवि थे और जिन्होंने उन्हीं के यहाँ रामचन्द्रिका तथा रामायण के तिलक, एवं रामाश्वमेध तथा काव्यप्रकाश के उलथा बनाये । इन्होंने बहुत से स्फुट छन्द भी रचे । इनके शंकर, सेवकराम, शिवगोपाल, और शिवगोविन्द नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए । शंकरजी भी अच्छे कवि थे । सेवक के पुत्र मान और उनके काशीनाथ हुए, जो आज कल असनी में वैद्यक करते हैं । शिवगोपाल के पुत्र मुरलीधर और पौत्र देवदत्त हुए । शिवगोविन्द के श्रीकृष्ण, नागेश्वर, और मूल-

चन्द नामक तीन पुत्र हुए । इन्हों श्रीकृष्ण ने सेवक-कृत वाग्वि-  
लोक ग्रन्थ में उनका जीवनचरित्र और उपरोक्त वंश वर्णन  
लिखा है । स्वयं सेवक ने भी अपने कुटुम्ब का वर्णन निम्न छन्द  
द्वारा किया है :—

श्रीऋषिनाथ को हैं मैं पनाती

औ नाती हैं श्री कवि ठाकुर केरो ।

श्रीधनीराम को पूत मैं सेवक

शंकर को लघु बन्धु ज्यों चैरो ॥

मान को बाप बवा कसिया को

चचा मुरलीधर कृष्णहू हेरो ।

अश्विनी मैं घर काशिका मैं

हरिशंकर भूपति रच्छक मेरो ॥

सेवक उपरोक्त जानकीप्रसाद के पौत्र हरिशंकर के यहाँ  
रहते थे । सो इन आश्रयदाता एवं आश्रयी, दोनों के कुटुम्बों की  
स्थिरचित्तता प्रशंसनीय है कि जिन्होंने चार पुत्रों तक अपना  
सम्बन्ध निबाह दिया । सेवक महाशय हरिशंकरजी को छोड़ कर  
किसी भी अन्य राजा महाराजा के यहाँ नहीं जाते थे, यहाँ  
तक कि महाराजा काशीनरेश वही रहते थे, परन्तु इस कुटुम्ब  
ने उनसे आश्रयदाता से भी सम्बन्ध कभी नहीं जोड़ा । सेवक का  
यह भी प्रण था कि काशी में चाहे जितना बड़ा महाराज भी आवे,  
परन्तु ये उससे मिलने नहीं जाते थे और बाबू हरिशंकरजी के  
ही आश्रय से सन्तुष्ट रहते थे । एक बार काशी के प्रसिद्ध ऋषि  
स्वामी विशुद्धानन्दजी सरस्वती ने इनके ऊपर कृपा करके अपने

शिष्य महाराजा कश्मीर के यहाँ इन्हें ले जाने को कहा । स्वामीजी कहते थे कि सेवक की बिदाई वहाँ पच्चीस हजार रुपये से कम की न होगी, परन्तु सेवक ने अपने बाबू साहब के रहते वहाँ जाना उचित न समझा । धन्य है इस संतोष को ।

इन्होंने वाग्विलास नामक नायिकाभेद का एक बड़ा ग्रन्थ बनाया है, जिसमें १९८ पृष्ठ हैं । इसमें नृपयश, रस-रूप, भावभेद और उसके अन्तर्गत नायिकाभेद, नायकभेद, सखी, दूती, षट्श्रुतु, अनुभाव और दश दशाग्रों का वर्णन किया गया है । सेवक ने नायिकाभेद की भाँति बड़े विस्तारपूर्वक नायक भेद भी कहा है और उसमें भी लगभग उतने ही भेद लिखे हैं जितने कि नायिकाभेद में । इनके बनाये हुए पीपाप्रकाश, ज्योतिषप्रकाश और बरवै नखशिख ग्रन्थ भी हैं । इनमें से वाग्विलास और बरवै नखशिख हमारे पास प्रस्तुत हैं । बरवै नायिकाभेद भी अच्छा है । इसमें ९८ छन्दों में नायिकाभेद का संक्षेप में वर्णन है । पण्डित अम्बिकादत्त व्यास ने लिखा है कि ये महाशय एक छन्दोग्रन्थ भी लिखते थे, परन्तु उसका कहीं पता नहीं है ।

इन्होंने सब विषयों पर अच्छी कविता की है । इनका षट्श्रुतु तो बहुत ही प्रशंसनीय है । ये अपने पितामह ठाकुर की भाँति आशिक न थे और इनकी कविता में वैसी तल्लीनता नहीं देख पड़ती, परन्तु इनके सवैया ठाकुर की भाँति प्रसिद्ध हैं, एवं बहुत लोग इन्हें वैसाही आदर देते हैं । इन की भाषा ब्रजभाषा है और वह सराहनीय है । ये महाशय अपने ग्रन्थों में टीका के ढंग पर वार्त्ताग्रों में शंकार्ये

लिख लिख कर उनका समाधान भी करते गये हैं । इनके ग्रन्थों में चामत्कारिक छन्द भी पाये जाते हैं, परन्तु उनकी बहुतायत नहीं है । इन्की कविता में प्रशस्त छन्दों की अपेक्षा साधारण छन्द बहुत अधिक हैं । हम इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में करते हैं ।

उदाहरणार्थ इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं :—

उनये घन देखि रहैं उनये दुनये से लताद्रुम फूलो करै ।  
 सुनि सेवक मत्त मयूरन के सुर दादुर ऊ अनुकूलो करै ॥  
 तरपै दरपै दवि दामिनि दीह यही मन माँह कबूलो करै ।  
 मनभावती के सँग मैनमई घन स्याम सबै निसि झूलो करै ॥१॥  
 दधि आछत आछत भाल में देखि गए अँग के रँग छीन से है ।  
 दुख औचक वारो कहे न बनै विधु सेवक सौंहे अरीन से है ॥  
 मृगराज के दावे विँधे बनसी के विचारे मले मृगमीन से है ।  
 हरि आप विदा को भटू केतहीं भरि आप दोऊ दृग दीन से है ॥२॥  
 बंसी बजावत आनि कढ़े बनिता घनी देखन को अनुरागी ।  
 हौं हूँ अभाग भरी डगरी मगरी गिरे चौंकि सबै डरि भागी ॥  
 लागै कलंक न सेवक सों इन्हें फेरि हौं सौति सुभाव लै जागी ।  
 हाय हमारी जरै अँखियाँ विष वान है मोहन के उर लागी ॥३॥

जहाँ जोम कै अनीन कीन कठिन कनीन कन,

लोहे में बिलीन जिन्हें घूमत विमान ।

जहाँ धोयन धमकि घाव बोलत बमकि नहीं,

लोहू की लमकि लेन लागी लहरान ॥

जहाँ हंडन पै हंड मुंड भुंडन के भुंड कटै,

कोटिन वितुंड विंध्य बंधु की सभान ।



तहाँ सेवक दिसान भीम रुद्र के समान,  
हरिशंकर सुजान झुकि भारी किरवान ॥४॥

(१८०६) प्रताप कुँवरि बाई ।

ये जाखँण गाँव परगना जोधपुर के भाटी ठाकुर गायंददासजी की पुत्री और माड़वार के महाराजा मानसिंह जी की रानी थीं । इनका विवाह संवत् १८८९ में हुआ था । इन्होंने कई मंदिर बनवाये और ये बहुत दान, पुण्य किया करती थीं । ७० वर्ष की अवस्था में, संवत् १९४३ में इनका स्वर्गवास हुआ । इन्होंने अपने पिता के यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी और संवत् १९०० में विधवा हो जाने पर देवपूजन तथा काव्य की ओर अधिक ध्यान लगाया । इनकी कविता देवपक्ष की है, जो मनोहर है । इनके निम्न-लिखित ग्रन्थ हैं :—

ज्ञानसागर, ज्ञानप्रकाश, प्रतापपञ्चीसी, प्रेमसागर, रामचन्द्र-नाममहिमा, रामगुणसागर, रघुबरस्नेहलीला, रामप्रेमसुख सागर, रामसुजसपञ्चीसी, पत्रिका संवत् १९२३ चैत्रवदी ११ की, रघुनाथजी के कवित्त, और भजनपदहरजस । इनकी गणना मधुसूदनदास की श्रेणी में है । उदाहरणार्थ हम इनके कुछ छन्द नीचे देते हैं :—

धरि ध्यान रटौ रघुवीर सदा धनुधारि को ध्यानु हिए धरु रे ।  
पर पीर में जाय कै बेगि परौ करते सुभ सुकृत को करु रे ॥  
तरु रे भवसागर को भजि कै लजि कै अघ औगुन ते डरु रे ।  
परताप कँवारि कहै पद पंकज पाव घरी जनि बीसरु रे ॥

हारी खेलन की रितु भारी ॥ टेक ॥  
 नर तन पाय भजन करि हरि को है औसर दिन चारी ।  
 अरे अर्बु चेतु अनारी ।  
 ज्ञान गुलाल अबीर प्रेम करि प्रीत तणी पिचकारी ।  
 सास उसास राम रँग भरि भरि सुरति खरी सी नारी ।  
 खेल इन संग रचारी ।  
 सुलटो खेल सकल जग खेलै उलटो खेल खेलारी ।  
 सतगुर सोख धारु सिर ऊपर सतसंगति चलि जारी ।  
 भरम सब दूरि गँवारी ।  
 धुव पहलाद विभीखन खेले मीराँ करमा नारी ।  
 कहे प्रताप कुँवरि इमि खेले सो नहिँ आवै हारी ।  
 सोख सुनि लेहु हमारी ।

(१८०७) महाराजा रघुराजसिंहजू देव जी० सी०

एस० आई० रीवाँनरेश ।

रीवाँ-नरेशों में महाराजा जयसिंह, उनके पुत्र महाराजा विश्वनाथ सिंह और तत्पुत्र महाराजा रघुराजसिंह तीनों बहुत अच्छे कवि थे । ये महाराजा गण बघेल ठाकुर थे ।

महाराजा वीरध्वज सोलंकी के पुत्र महाराजा व्याघ्रदेव ने गुजरात से आकर भोरों, गोडों, लोघियों आदि से बघेलखंड जीत कर वहाँ शासन जमाया । कहते हैं कि इस कुटुम्ब के पूर्व-पुरुष ब्रह्मचालक अंजली के पानी एवं सूर्यांश से उत्पन्न हुए थे और इसी लिए सूर्यवंशी कहलाये । ब्रह्मचालक से करणशाह



श्री १०८ महाराजा रघुराजसिंह जू देव बहादुर मृत रीवा-नरेश ।



पर्यन्त ५०७ पुश्तें चालकवंशी कहलाती रहीं । करणशाह का पुत्र सुलंकदेव हुआ । तब से वीरध्वज पर्यन्त ५८२ पीढ़ियाँ सोलंकी कहलाईं । वीरध्वज के पुत्र व्याघ्रदेव से वर्त्तमान महाराजाधिराज श्रीव्यंकटरमण रामानुजप्रसाद सिंह जू देव बहादुर तक ३२ पुश्तें हुई हैं । ये लोग बघेल कहलाते हैं । ब्रह्मचालक से अब तक ११२१ पीढ़ियाँ हुई हैं ।

महाराजा व्याघ्रदेव का जन्म संवत् ६०६ में हुआ और आप संवत् ६३१ में गद्दी पर बैठे । इनके उत्पन्न होने पर ज्योतिषियों ने इनके प्रतिकूल बहुत कुछ कहा था और ये जंगल में छोड़ दिये गये थे । कहते हैं कि वहाँ यह शिशु एक बाघिनी का स्तन पान करता पाया गया था । इसी से यह बघेला कहलाया । वास्तव में यह नाम बाघेल ग्राम से निकला है, जो रियासत बरोदा में है, जहाँ से यह वंश बघेलखंड गया था । व्याघ्रदेव ने अपना पैत्रिक राज्य अपने भाई सुखदेव को देकर कठेर देश को जीता, जो इनके नाम पर बघेलखंड कहलाने लगा । कहते हैं कि यहाँ के राजा रामचन्द्र ने एक दिन में प्रसिद्ध गायक तानसेन को दस करोड़ रुपये दिये थे । महाराजा विक्रमादित्य ने बान्धव-गढ़ छोड़ कर रीवाँ को राजधानी बनाया ।

महाराजा जयसिंह जू देव ( नम्बर ११३२ ) का जन्म संवत् १८२१ में हुआ और सं० १८६५ में आप गद्दी पर बैठे । संवत् १८६० वाली बसीन की सन्धि द्वारा पेशवा ने बघेलखंड का वह भाग अँगरेजों को दिया कि जो बाँदा के नवाब अलीबहादुर ने जीता था । अँगरेजों ने कहा कि इस सन्धि द्वारा रीवाँ राज्य भी उन्हें

मिल गया था, किन्तु उन्हें यह दावा छोड़ना पड़ा और सं० १८६९ से दो वर्ष तक तीन सन्धियाँ अँगरेजों से हुईं जिनसे रीवाँ राज्य स्थिर हुआ। महाराजा जयसिंह ने सं० १८६९ में नाम छोड़ राज्य के प्रायः सब अधिकार अपने पुत्र विश्वनाथसिंह को दे दिये। राज्य में पहली अदालत (धर्मसभा) सं० १८८४ में कचहरी मिताक्षरा के नाम से स्थापित हुई। उसका मान बढ़ाने को एक बार स्वयं विश्वनाथसिंह जू देव प्रतिवादी के स्वरूप में उसमें पधारे। महाराजा जयसिंह का स्वर्गवास सं० १८९१ में हुआ।

महाराजा विश्वनाथसिंह जू देव ( नम्बर ६४४ ) का जन्म संवत् १८४६ में हुआ था और अपने पिता के स्वर्गवास होने पर आप सं० १८९१ में गद्दी पर बैठे। आप ने संवत् १९११ तक राज्य किया। आपका हाल इस ग्रन्थ के ६२९ वें पृष्ठ से आरम्भ होता है। भ्रमवश इनके समय के संवत् सनों से निकालने में ५७ बढ़ाने के स्थान पर हमने घटा दिये। इसलिए इनके समय में ११३ वर्षों की भूल होगई। पाठक महाशय कृपया इसे सुधार लेंगे। इन महाराज के समय में उत्क्रोच की चाल फैली और कई कारणों से इनके पुत्र रघुराजसिंह से इनका वैमनस्य हो गया। भगड़ों से इन्होंने कई बड़े सरदारों को देशनिकाले का दंड दिया। अन्त को संवत् १८९९ में आपने अपने पिता की भाँति राज्य-प्रबन्ध अपने पुत्र रघुराजसिंह को दे दिया, जो बड़ी बड़ी बातों में इनकी सम्मति ले लेते रहे। रघुराजसिंह ने देशनिर्वासित सरदारों को लौटने की आज्ञा दी और क्षत्रियों में कन्यावध की

प्रथा हटाई । आपका विवाह उदयपुर के महाराणा सरदारसिंह की पुत्री से हुआ । आपके शासन से क्रूर दंड और सती की प्रथायें उठ गईं ।

नम्बर ६४४ के नीचे लिखे हुए ग्रन्थों के अतिरिक्त महाराजा विश्वनाथसिंह ने परमतत्व, संगीतरघुनन्दन, गीतरघुनन्दन, तत्वमस्य सिद्धान्त भाषा, ध्यानमंजरी और विश्वनाथप्रकाश नामक अन्य ग्रन्थ भी रचे । आपने निम्नलिखित ग्रन्थ संस्कृत भाषा में भी बनाये:—राधावल्लभी भाष्य, सर्वसिद्धान्त, आनन्द रघुनन्दन (दूसरा), दीक्षानिर्णय, भुक्ति मुक्ति सदानन्द सन्देश, रामचन्द्राह्निक सतिलक, रामपरत्व, धनुर्विद्या और संगीत-रघुनन्दन (दूसरा) भाषा आनन्द रघुनन्दन बनारस में छप चुका है । इन महाराज के ग्रन्थ अप्रकाशित बहुत हैं । आपका विशाल पांडित्य अनेकानेक उत्कृष्ट हिन्दी और संस्कृत-ग्रन्थों से प्रकट है और इतने अधिक ग्रन्थों की रचना से आपका भारी साहित्य-प्रेम एवं श्रमशीलता प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है । आप बड़े दानी थे और कवियों का सदैव अच्छा मान करते थे । अपने पुत्र रघुराजसिंह के जन्मोत्सव में आपने सोने की जंजीर समेत एक भारी हाथी दे डाला था ।

महाराजा रघुराजसिंह का जन्म संवत् १८८० में हुआ था और अपने पिता के स्वर्गवास पर आप सं० १९११ में गद्दी पर बैठे । आपका मृत्यु १९३६ में हुआ । आपके बारह विवाह हुए थे । आप पूर्ण पांडित, हिन्दी और संस्कृत के अच्छे कवि और मृगयाव्यसनी थे । आपने अनेकानेक छोटे बड़े ग्रन्थ बनाये

और ९१ शेर, एक हाथी, १६ चोते और हज़ारों अन्य मृग भी अर्पने हाथ से मारे । आप मड़े दानी और भारी भक्त भी थे और २०००० विष्णुनाम नित्यप्रति जपते थे । उपर्युक्त बातों में समय अधिक लगाने के कारण आप राज्यप्रबन्ध कम कर सकते थे । मरण-काल के ५ वर्ष पूर्व आप ने राज्यप्रबन्ध बिल्कुल छोड़ दिया और अँगरेज़ी सरकार की ओर से प्रबंध होने लगा । सिपाहीविद्रोह में आप ने सरकार का साथ दिया था । रीवाँ के वर्तमान महाराजा का जन्म सं० १९३३ में हुआ ।

महाराजा रघुराजसिंहजी बड़े ही कवितारसिक और कवियों के कल्पवृक्ष हो गये हैं । इन्होंने कविता प्रकृष्ट बनाई है । इनके रचे हुए ग्रन्थों के नाम ये हैं :—

सुन्दरशतक (सं० १९०३), विनयपत्रिका (१९०६), हक्मिमणी-परिणय (१९०६), आनन्दाशुनिधि (१९१०), भक्तिविलास (१९२६), रहस्यपंचाध्यायी, भक्तमाल, राम-स्वयंवर (१९२६), यदुराज विलास (१९३१), विनयमाला, रामरसिकावली, गद्यशतक, चित्र-कूट-माहात्म्य, मृगया-शतक, पदावली, रघुराजविलास, विनय-प्रकाश, श्रीमद्भागवत-माहात्म्य, रामअष्टयाम, भागवत-भाषा, रघु-पतिशतक, गंगाशतक, धर्मविलास, शम्भुशतक, राजरंजन, हनुमतचरित्र, भ्रमर-गीत, परमप्रबोध, और जगन्नाथशतक । इनमें से सब ग्रन्थ इन्होंने महाराज ने नहीं बनाये हैं, किन्तु दो एक के कुछ भाग इन्होंने स्वयं रचे और कुछ उनके आश्रित कवीश्वरों ने बनाये, जिनके नाम रसिक-नारायण, रसिकविहारी, श्रीगोविन्द, बालगोविन्द, और रामचन्द्र शास्त्री हैं । इन लोगों का पता इनके



लिखित ग्रन्थों तथा नागरीप्रचारिणी सभा के खोज की रिपोर्ट से लगा है। इनमें से कई ग्रन्थ बहुत बड़े बड़े हैं।

इनकी कविता बहुत विशद और मनमोहनी होती है। इन्होंने विविध छन्दों में कविता की है। उपर्युक्त ग्रन्थों में से कई हमने देखे हैं।

रुक्मिणीपरिणय में रास, शिखनख, जरासंध और दंतवक्र के युद्ध अच्छे हैं। फाग आदि भी बढ़िया कहे गये हैं।

ये महाराज राम के भक्त थे, सो इनका रामाष्टयाम रुक्मिणी-परिणय से बढ़ कर है। इनकी भक्ति दासभाव की थी। इनकी कविता में छन्दों की छटा और अनुप्रास दर्शनीय हैं, तथा युद्ध, मृगया और भक्ति के वर्णन सुन्दर हैं। ये परम प्रशंसनीय कवि थे। इनके अनेकानेक ग्रन्थ बड़े ही सुन्दर हैं।

अनल उदंड का प्रकाश नव खंड छाया

ज्वाला चंड मानो ब्रह्मंड फोरै जाय जाय ।

पुरी ना लखाति ज्वालमालै दरसाति

एक लेहित पयोधि भयो छाया एक छाय छाय ॥

देवता मुनीस सिद्ध चारण गंधर्व जैते

मानि महाप्रलै वेगि व्योम और धाय धाय ।

देखि रामराय हेत दीन्ही लंक लाय

सबै चाय भरे चले कपि राय यश गाय गाय ॥ १ ॥

बसुधा धर मैं बसुधा धर मैं त्यों सुधाधर मैं त्यों सुधा मैं लसै ।

अलि वृन्दन मैं अलि वृन्दन मैं अलि वृन्दन मैं अतिसै सरसै ॥

हिय हारन मैं हर हारन मैं हिमि हारन मैं रघुराज लसै ।  
 ब्रज बारन बारन बारन बारन बारन बार बार बसन्त बसै ॥ २ ॥

### (१८०८) शंभुनाथ मिश्र ।

ये महाशय कान्यकुब्ज ब्राह्मण खजूरगाँव के राना यदुनाथसिंह के यहाँ थे और उन्हीं की आज्ञानुसार इन्होंने शिवपुराण के चतुर्थ खण्ड का भाषानुवाद संवत् १९०१ में विविध छन्दों में किया । शिवसिंहसरोज में इनका एक ग्रन्थ बैसवंशावली का बनाना लिखा है । यह हमने नहीं देखा । शिवपुराण की भाषा बहुत उत्तम व मधुर है, जिसमें ब्रजभाषा व बैसवाड़ी मिश्रित हैं । यह ग्रन्थ बहुत ही ललित और विविध छन्दों में शिवकथा रसिकों व काव्यप्रेमियों के पढ़ने योग्य है । हम इस ग्रन्थ को कथाविषयक ग्रन्थों में बहुत ही बढ़िया समझते हैं । इस ग्रन्थ में १००० अनुष्टुप् छन्दों का आकार है । हम इस महाशय की गणना कवि छत्र की श्रेणी में करते हैं । उदाहरण के लिए कुछ छन्द यहाँ उद्धृत किये जाते हैं :—

इन्द्रवज्रा ।

हूँगो तुरंतै सोइ बाल नीको । जाके लखे लागत चंद फीको ॥  
 अनूप जाके सब अंग सोहै । बिलोकि कै रूप अनंग मो है ॥  
 ऐसे महा सुन्दर नैन राज । जाके लखे खंजन कंज लाजै ॥  
 निकासि कै सार मनौ ससी को । रच्यौ बिधातै निज हाथ जी को ॥

हरिगीती ।

शुभ श्रवन नैन कपोल कुंतल भृकुटि बर नासा बनी ।  
 अति अरुन अधर विसाल चिबुक रसालफल स्रम छवि घनी ॥

कर चरन नवल सरोज तहँ नख जौति उडगन राजहँ ।  
जनु पदुम बैर विचारि उर करि सरन तिन की भ्राजहँ ॥

(१८०६) सरदार ।

ये महाशय महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह काशी-नरेश के यहाँ थे। इनका कविताकाल संवत् १९०२ से १९४० पर्यन्त रहा। इन्होंने कविप्रिया, रसिकप्रिया, सूर के दृष्टकूट और बिहारी सतसई पर परमोत्तम टीकायें गद्य में लिखी हैं। पद्य में इन्होंने साहित्यसरसी, व्यंग्यविलास, षटक्रतु, हनुमतभूषण, तुलसीभूषण, मानसभूषण, शृंगारसंग्रह, रामरनरत्नाकर, रामरसजन्त्र, साहित्यसुधाकर, और रामलीलाप्रकाश नामक अद्भुत ग्रन्थ बनाये हैं। इनकी रचना में एक अलौकिक स्वाद मिलता है। इनके भाव और भाषा दोनों प्रशस्त हैं। इनकी काव्य-पटुता टीकाओं से विदित होती है। वर्त्तमान काल में इन्होंने अपनी कविता पुराने सत्कवियों में मिला दी है। इनके शृंगार-संग्रह में घनआनन्द के करीब १५० बाँके छन्द मिलेंगे। इन्होंने अश्लील विषय के भी दो चार छन्द कहे हैं। हम इनकी गणना पञ्जाकर की श्रेणी में करेंगे। उदाहरण :—

वा दिन ते निकसो न बहेरि कै जा दिन आगि दै अन्दर पैठो ।

हाँकत हूँकत ताकत है मन माखत मार मरोर उमैठो ॥

पीर सहँ न कहँ तुम सों सरदार विचारत चार। कुटैठो ।

ना कुच कंचुकी छोरौ लला कुच कन्दर अन्दर बन्दर वैठौ ॥

मनि मन्दिर चन्द मुखी चितवै हित मंजुल मोद मवासिन को ।  
 कमनीय करोरिन काम कला करि थामि रही पिय पासिन को ।  
 सरदार चहुँ दिसि छाये रहे सब छन्द छरा रस रासिन को ।  
 मन मन्द उसासन लेन लगी मुख देखि उदास खवासिन को ॥

### (१८१०) पूरनमल भाट उपनाम पूरन ।

इनका जन्म संवत् १८७८ के लगभग हुआ । ये दरबार अलवर के कवि थे । कविता अच्छी की है । इनके पौत्र जयदेवजी अभी अलवर दरबार में हैं । इनकी कविता साधारण है ।

उदाहरण ।

ललित लवंग लवलीन मलयाचल की  
 मंजु मृदु मारत मनोज सुखसार है ।  
 मौलसिरी मालती सु माधवी रसाल मौर  
 झौरन पै गुंजत मलिंदन को भार है ॥  
 कोकिल कलाप कल कोमल कुलाहल कै  
 पूरन प्रतिच्छ कुहू कुहू किलकार है ।  
 बाटिका बिहार बाग बीथिन बिनोद बाल  
 बिपिन बिलोकिए बसंत की बहार है ॥ १ ॥

### (१८११) बिरंजी कुँवरि ।

ये गाँव गढ़वाड़ ज़िले जमनपूर के दुर्गवंशी ठाकुर साहबदीन की धर्मपत्नी थीं । इन्होंने संवत् १९०५ में सतीविलास नामक ग्रंथ सती स्त्रियों के विषय में बनाया, जिससे विदित होता है

कि इन्होंने उसी भाषा में कविता की है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने की। इनकी रचना प्रायः दोहा चौपाइयों में है। सवैया आदि में इन्होंने ब्रजभाषा भी लिखी है। इनकी कविता का चमत्कार साधारण है और हम इन्हें मधुसूदन दासजी की श्रेणी में रखते हैं। इनका एक सवैया नीचे लिखा जाता है।

होय मलीन कुरूप भयावनि जाहि निहारि घिनात हैं लोमू ।  
 सोऊ भजे पति के पदपंकज जाय करै सति लोक मैं भोगू ॥  
 ताहि सराहत हैं बिधि शेष महेश बखानै बिसारि कै जोगू ।  
 याते बिरंजि विचारि कहै पति के पद की तिय किंकरि होजू ॥

### (१८१२) जानकीप्रसाद ।

ये महाशय भवानीप्रसाद के पुत्र पँवार ठाकुर ज़िला राय-बरेली के निवासी थे। शिवसिंहजी ने इन्हें विद्यमान लिखा है। इनका “नीतिविलास” नामक ग्रंथ हमने देखा है जो सं० १९०६ का छपा हुआ है। इसमें अनेक छन्दों में नीति वर्णित है। इसमें ४९ पृष्ठ और ३६१ छंद हैं। इस ग्रंथ की कविता-छटा साधारण है। शिवसिंहजी ने इनके रघुवीरध्यानावली, रामनवरत्न, भगवतीविनय, रामनिवास रामायण और रामानंदविहार नामक ग्रन्थ और लिखे हैं। इन्होंने उर्दू में एक हिन्दुस्तान की तारीख भी लिखी है। हम इनको साधारण श्रेणी का कवि समझते हैं। उदाहरणार्थ एक छंद नीचे देते हैं:—

बीर बली सरदार जहाँ तहँ जोति बिजै नित नूतन छाजै ।  
 दुर्ग कठोर सुडौर जहाँ तहँ भूपति संग सो नाहर गाजै ॥

पल्लै प्रजाहि महीपै जहाँ तहँ संपति श्रीपति धाम सी राजै ।  
 है चतुरंग चमू असवार पँवार तहाँ छिति छत्र बिराजै ॥  
 नाम—(१८१३) बलदेवसिंह क्षत्रिय, अवध ।

रचनाकाल—१९०७ ।

विवरण—ये द्विजदेव महाराजा मानसिंह और राजा माधवसिंह  
 अमेठी के कवितागुरु थे । इनकी कविता तोष की  
 श्रेणी की है, जो बड़ी उत्तम, मनोहर, सानुप्रास, एवं  
 यमकयुक्त है:—

चंदन चमेली चोप चौसर चढ़ाय चारु  
 मधु मदनारे सारे न्यारे रस कारे हैं ।  
 सुगति समीर मद स्वेद मकरंद बुंद  
 बसन पराग सों सुगंध गंध धारे हैं ॥  
 बारन बिहीन सुनि मंजुल मल्लिंद धुनि  
 बलदेव कैसे पिकवारे लाज हारे हैं ।  
 फूल मालवारे रति बल्लरी पसारे  
 देखौ कंत मतवारे कै बसंत मतवारे हैं ॥

(१८१४) ( पंडित प्रवीन )० पं ठकारप्रसादमिश्र ।

ये महाशय अवधप्रदेशान्तर्गत पयासी के निवासी ब्राह्मण  
 थे और महाराजा मानसिंह अयोध्यानरेश के यहाँ रहते थे ।  
 इनकी कविता जोरदार और सरस है । हम इनकी गणना तोष  
 कवि की श्रेणी में करते हैं । हमने इनका कोई ग्रंथ नहीं देखा ।

उदाहरण ।

भाजे भुजदंड के प्रचंड चाट बाजे

बीर सुंदरी समेत सेवें मंदर की कंदरी ।

मुगल पठान सेख सैयद असेख धीर

आवत हजारन बजार कैसे चौधरी ॥

पंडित प्रवीण कहै मानसिंह भूपति कमान पै

अरोपत यों तीखो तीर कैबरी ।

सिंघ के ससेटे गज बाज के लपेटे लवा

तैसे भूलै भूतल चकत्तन की चौकरी ॥ १ ॥

आयो रितुराज आजु देखत बनैरी आली

छायो महामोद सों प्रमोद बनभूमि भूमि ।

नाचत मयूर मन मुदित मयूरनि को

मधुर मनोज सुख चाखै मुख चूमि चूमि ॥

पंडित प्रवीण मधुलंपट मधुप पुंज कुंजनि में

मंजरी को चाखैँ रस घूमि घूमि ।

हेली पौन प्रेरित नबेली सी द्रुमन बेली

फैली फूल दोलन में झूलि रहीं झूमि झूमि ॥ २ ॥

सानो शिवराज की न मानी महाराज भयो

दानी रुद्रदेव सो न सूरत सितारा लैं ।

दाना मवलाना रूम साहिबी में बद्धर लैं

आकिल अकद्धर लैं बलख बुखारा लैं ॥

पंडित प्रवीण खानखाना लैं नबाव

नवसेरवां लैं आदिल दराजदिल दारा लैं ।

बिक्रम समान मानसिंह सम साँची कहैं

प्राची दिसि भूप है न पारावार धारा लैं ॥३॥

कवि—(१८१५) अनीस ।

रचना-काल—१९११ ।

विवरण—इनके छन्द दिग्विजयभूषण में हैं । कविता सरस और प्रशंसनीय है । इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में है । इनका निम्नलिखित अन्योक्ति का छन्द परम प्रसिद्ध है ।

सुनिष बिटप प्रभु सुमन तिहारे संग,

राखिहौ हमैं तौ सोभा रावरी बढाय हैं ।

तजि हौ हरखि कै तौ बिलगु न मानै कछू,

जहाँ जहाँ जैहैं तहाँ दूनो जसु छाय हैं ॥

सुरन चढ़ेंगे नर सिरन चढ़ेंगे बर,

सुकवि अनीस हाट बाट में बिकाय हैं ।


देस में रहेंगे परदेस में रहेंगे,

काहू बेस में रहेंगे तऊ रावरे कहाय हैं ॥

(१८१६) राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द, काशी ।

ये महाशय संवत् १८८० में उत्पन्न हुए थे और १९५२ में इन का स्वर्गवास हुआ । इन्होंने सिक्ख युद्ध के समय अँगरेजों की सहायता जी तोड़ कर की थी । इस पर आप शिक्षाविभाग के सरकारी उच्च कर्मचारी अर्थात् इंस्पेक्टर नियत हुए और इन्हें राजा तथा सी० एस० आई० की उपाधियाँ मिलीं । ये महाशय हिन्दी के बड़े





राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ।



ही पक्षपाती थे, विशेषतया उर्दू और संस्कृत मिश्रित खिचड़ी हिन्दी के। इसी खिचड़ी हिन्दी का उन्नत स्वरूप खड़ी बोली है। इन्होंने अनेकानेक पाठ्य पुस्तकें लिखीं और शिक्षाविभाग में हिन्दी को स्थिर रखकर उसका बड़ाही उपकार किया। उस समय यह विचार उठा था कि शिक्षा-विभाग से हिन्दी उठाही दी जाय। ऐसे अवसर पर राजा साहब के ही परिश्रम से वह रुक गई। इनकी रची हुई पुस्तकों की नामावली यह है :—

वर्णमाला, बालबोध, विद्यांकुर, बामामनरंजन, हिन्दी-व्याकरण, भूगोलहस्तामलक, छोटा हस्तामलक भूगोल, इतिहास-तिमिर-नाशक, गुटका, मानवधर्मसार, सैंडफोर्ड पेण्ड मारटिस स्टोरी, सिक्खों का उदाय और अस्त, स्वयम्बोध उर्दू, अँगरेजी अक्षरों के सीखने का उपाय, बच्चों का इनाम, राजा भोज का सपना, और बीरसिंह का वृत्तान्त। इन ग्रन्थों में से कई संग्रह-मात्र हैं और अधिकतर राजा साहब के ही बनाये हैं। राजा साहब की भाषा वर्तमान भाषा से बहुत मिलती है, केवल वह साधारण बोल चाल की और अधिक झुकती है और उस में कठिन संस्कृत अथवा फ़ारसी के शब्द नहीं हैं। उस में उर्दू शब्दों का भी कुछ आधिक्य है। इन्होंने कुछ छन्द भी बनाये हैं, पर विशेष-तया गद्य ही लिखा है। ये महाशय जैनधर्मावलम्बी थे।

(१८१७) गुलाबसिंह जी कविराव (गुलाब) ।

इनका जन्म सं० १८८७ में बूँदी में हुआ। ये संस्कृत के बड़े विद्वान् तथा डिंगल प्राकृत और भाषा के अच्छे ज्ञाता, बूँदी

दरबार के राजकवि एवं कामदार थे । ये बूँदी के स्टेट कौंसिल और वाल्टर-कृत राजपुत्रहितकारिणी सभा के सभासद तथा रजिस्टरी के हाकिम थे । आप भाषा की कविता सरस और मधुर करते थे । इनके रचित ये ग्रंथ हैं:—

गुलाबकोश १ नामचन्द्रिका २ नामसिंधुकोष ३ व्यंग्यार्थ-  
चन्द्रिका ४ बृहद् व्यंग्यार्थचन्द्रिका ५ भूषणचन्द्रिका ६ ललितकौमुदी  
७ नीतिसिंधु ८ नीतिमंजरी ९ नीतिचन्द्र १० काव्यनियम ११ वनिता  
भूषण १२ बृहद्वनिताभूषण १३ चिंतातंत्र १४ मूर्खशतक १५  
कृष्णचरित्र १६ आदित्यहृदय १७ कृष्णलीला १८ रामलीला १९  
सुलोचनालीला २० विभीषणलीला २१ लक्षणकौमुदी २२ कृष्ण-  
चरित्र में गोलोक खंड, वृंदावन-खंड, मथुरा-खंड, द्वारिका-खंड,  
विज्ञान-खंड, और सूची २३ तथा ९ छोटे छोटे अष्टक इत्यादि ।  
इनकी कविता सरस तथा मनोहर होती थी । इनकी गणना पद्मा-  
कर की श्रेणी में की जाती है । संवत् १९५८ में इनका देहांत  
हुआ ।

### उदाहरण ।

पूरन गँभीर धीर बहु बाहिनी को पति,

धारत रतन महा राखत प्रमान है ।

लखि दुजराज करै हरष अपार मन,

पानिप बिपुल अति दानी छमावान है ॥

सुकवि गुलाब सरनागत अभयकारी,

हरि उरधारी उपकारी हू महान है ।

बलाबंध शैलपति साह कवि कौल भानु,  
 रामसिंह भूतलेंद्र सागर समान है ॥ १ ॥  
 मृदुता ललाई माँहि पल्लव कतल करै,  
 सुचिसुभ ताने करे कमल निकाम हैं ।  
 लालो ने लुटाय दियो लालन प्रबालन को,  
 सुख मानै सोखे थल कमल तमाम हैं ॥  
 सुकवि गुलाब तो सी तुही है तिलोक माँह,  
 सुमिरत तौँहि घनश्याम आठौ जाम हैं ।  
 कीरति किसोरी तेरी समता करै को आन,  
 चरन कमल तेरे कमला के धाम हैं ॥ २ ॥  
 छै हैं बकमंडली उमड़ि नभ मंडल में,  
 जूगुनू चमक ब्रजनारिन जरै हैं री ।  
 दादुर मयूर भीने भीँगुर मचै हैं सोर,  
 दैरि दैरि दामिनी दिसान दुख दै हैं री ॥  
 सुकवि गुलाब हूँ हैं किरचँ करंजन की,  
 चौँकि चौँकि चोपन सों चातक चिचैहैं री ।  
 हंसिनि लै हंस उड़ि जै हैं रितु पावस में,  
 पेहें घनश्याम घनश्याम जो न पेहें री ॥ ३ ॥

(१८१८) बाबा रघुनाथदास रामसनेही ।

इन महाशय ने संवत् १९११ विक्रमीय में विश्रामसागर नामक एक बृहत् ग्रन्थ बनाया । ये महाशय रामानुज सम्प्रदाय के महन्त थे । इस सम्प्रदाय के महन्त गोविन्दराम अग्रदास के द्वारा में हुए ।

उनके शिष्य सन्तराम, उनके कृपाराम, उनके रामचरण, उनके रामजन्म, उनके कान्हर और उनके हरिराम हुए । रघुनाथदास के गुरु देवादासजी इन्हीं महात्मा हरिरामजी के शिष्य थे । इन्होंने फ़कीर होने के अतिरिक्त अपने कुल गोत्र आदि का कुछ व्योरा नहीं लिखा है । ये सब महात्मा अयोध्या में बड़े महन्त थे । अयोध्या में रामघाट के रास्ते पर रामनिवास नामक एक स्थान है । उसी पर ये लोग रहते थे और उसी स्थान पर इस महात्मा ने यह ग्रन्थ बनाना आरम्भ किया । इन्होंने भाषा का लक्षण और अपने ग्रन्थ का संवत् इस प्रकार कहा है :—

संस्कृत प्राकृत फ़ारसी विविधि देस के बैन ।

भाषा ताको कहत कवि तथा कीन्ह मैं ऐन ॥

संवत् मुनि बसु निगम शत हद्र अधिक मधु मास ।

शुक्ल पक्ष कवि नौमि दिन कीन्हों कथा प्रकास ॥

विश्रामसागर रायल अठपेजी आकार में छपा हुआ ६१३ पृष्ठों का एक बड़ा ग्रन्थ है । इसमें तीन प्रधान खंड हैं, अर्थात् पृष्ठ २८६ तक इतिहास, ३७४ तक कृष्णायन और ६०८ तक रामायण । इसके पीछे पृष्ठ ६१३ तक प्रश्नावली है । प्रथम खंड में मंगलाचरण के अतिरिक्त नारद, कृष्णदत्त, वाल्मीकि, गज, गणिका, यवन, अजामिल, यमदूत, बधिक कपोत, यमपुरी, कर्मविपाक, सुबर्त्ता, गौतमी सुबर्त्ता, मुद्रल, बीरभद्र, हरिश्चन्द्र, सुधन्वा, शिवि, देवदत्त, सुदर्शन, बहुला, मोरध्वज, ध्रुव, प्रह्लाद नृसिंह, ब्रह्मा, अयोध्या, स्वयम्भुव मनु, सप्त द्वीप नवखंड, गंगा उत्पत्ति, एकादशी, तुलसी, युधिष्ठिर यज्ञ, जाजुल्य तुलाधार, मक्की दत्तात्रेय,

पितापुत्र, शयनजीत, सत्संग, अम्बरीष, चन्द्रहास, सन्त लक्षण, कास, नवधा भक्ति, और षट्शास्त्र का वर्णन है। द्वितीय में कृष्ण की उत्पत्ति से लेकर हस्तिमणीविवाह और प्रद्युम्न उत्पत्ति एवं विवाह तक की कथा वर्णित है। तृतीय खंड में रावण की उत्पत्ति और विजय तथा राम की उत्पत्ति से लेकर राम राज्य तक का वर्णन है।

प्रत्येक खंड के अन्त में इस कवि ने उस खंड के छन्दों की संख्या कह दी है। यह ग्रन्थ विशेषतया दोहा चौपाइयों में कहा गया है। इसमें यत्र तत्र और छन्द भी कहे गये हैं। रघुनाथदास ने बन्दना में गोस्वामी तुलसीदास का अनुकरण किया है, यहाँ तक कि कई स्थानों पर गोस्वामीजी के भाव भी विश्रामसागर में आ गये हैं। इस ग्रन्थ के पढ़ने से जान पड़ता है कि रघुनाथदासजी पूरे भक्त थे और उन्होंने भक्तों के बिनोदार्थ यह ग्रन्थ बनाया था। इसकी रचना ब्रजविलास और रामाश्वमेध के समान है। इन तीनों ग्रन्थों का रचनाचमत्कार साधारण है, परन्तु इनमें कथायें रोचक वर्णित हैं। इस ग्रन्थ के उदाहरणस्वरूप हम कुछ छन्द नीचे लिखते हैं:—

पैहैं सुख सम्पति यश पावन । ह्वैहैं हरि हरि जन मन भावन ॥  
 कल्पित ग्रन्थ कहै जो कोऊ । याचौं ताहि जोरि कर दोऊ ॥  
 राम कथा शुभ चिन्तामन सी । दायक सकल पदारथ जन सी ॥  
 अभिमत फलप्रद देवधेनु सी । स्वच्छ करन गुरु चरन रेनु सी ॥  
 हरि भय हरणि बिभाव सुतासी । दुखद अविद्या तूल हुता सी ॥  
 धर्म कर्म बर बीज \*रसा सी । सुमति बढ़ावन सुख सुदसासी ॥

इस महात्मा ने संस्कृत के ग्रन्थों की बहुत सी कथायें लिखी हैं और कुछ श्लोक भी बनाये हैं । इससे विदित होता है कि ये संस्कृत के जानने वाले थे । इनकी भाषा गोस्वामी तुलसीदास की भाषा से मिलती जुलती है और उत्तमता में ब्रजविलास के समान है । इनके वर्णन साधारण उत्तमता के हैं ।

### (१८१६) लेखराज (नन्दकिशोर मिश्र) ।

ये महाशय भगवन्त नगर के मिश्र संवत् १८८८ में उत्पन्न हुए थे । इनकी पितामही लखनऊ के वाजपेयियों के घराने की थीं । उन के मातामह भट्टाचार्य पाँडे थे जो अवध के बादशाह के यहाँ से इलाहाबाद प्रान्त के शासक नियत थे । जब वह प्रान्त अँगरेजों को मिल गया तब वह लखनऊ में रहने लगे । उनके दोनों पुत्र बड़े विख्यात चकलेदार थे । इनके यहाँ करोड़ों की सम्पत्ति थी । कोई अन्य उत्तराधिकारी न होने से लेखराज की पितामही इस सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी हुईं । इनका महल वहाँ था जहाँ अब विकटोरिया पार्क बना हुआ है । समय पाकर यह सब धन लेखराज के हाथ आया और ये महाशय सुखपूर्वक लखनऊ में रहते रहे । संवत् १९१४ वाले सिपाहीविद्रोह की गड़ बड़ में इन्हें लखनऊ से बाहरी ज़िमीदारी गँधौली ज़िला सीतापूर में सब सम्पत्ति छोड़ कुछ दिनों को भाग जाना पड़ा । दैववश विद्रोहियों ने इनका महल खोद कर सब खज़ाना तथा माल असबाब रक्षकों के रहते हुए भी लूट लिया । इन के हाथ जो कुछ धन ये ले गये थे वही लगा और गँधौली तथा सिंहपूर की ज़िमींदारी इनके पास रह गई । फिर भी



ये महाशय ऐसे शान्तचित्त और सन्तोषी थे कि कभी यह इत्स आपत्ति का नाम भी नहीं लेते थे ।

इनको कविता का सदैव शौक रहा और बहुत प्रकार के उत्तम पदार्थ अपने हाथ से ये बना सकते थे । इनके यहाँ कविगण प्रायः आया करते थे । ये तथा इनके अनुज बनवारीलाल काव्य के पूर्ण ज्ञाता थे । इन्होंने रसरत्नाकर ( नायिकाभेद ), राधानखशिख, गंगा भूषण और लघुभूषण नामक चार ग्रन्थ बनाये थे । रसरत्नाकर इनके बड़े पुत्र की असावधानी से लुप्त हो गया । यह बड़ा विशद ग्रन्थ था । गंगाभूषण में इन्होंने गंगाजी की स्तुति में ही सब अलङ्कार निकाले हैं । लघुभूषण में बरवै छन्दों द्वारा अलङ्कारों के लक्षण तथा उदाहरण कहे गये हैं । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त स्फुट छन्द बहुत हैं । इनका शरीरपात काशीजी में मणिकर्णिका घाट पर शिवरात्रि के दिन संवत् १९४८ में हुआ । इनके लालबिहारी (द्विजराज कवि) जुगुलकिशोर ( ब्रजराज कवि ), और रसिकविहारी नामक तीन पुत्र हुए, जिनमें से अन्तिम दो अब भी वृत्तमान हैं । इनके तीनों पुत्र कविता में पूर्णज्ञ हुए और प्रथम दो ने उत्कृष्ट कविता भी की । हमारे पिता के ये महाशय मित्र थे और इनके पितामह हमारे पिता-मह के विमात्र भाई थे । हमको कविता की बहुत बातें ये महाशय बताया करते थे । इनकी गणना हम किसी श्रेणी में नहीं कर सकते ।

उदाहरण ।

राति रतिरंग पिय संग सो उमंग भरि

उरज \* उतंग अंग अंग जम्बूनद के ।

ललकि ललकि लपटात लाय लाय उर  
 बलकि बलकि बोल बोलत उलद के ॥  
 लेखराज पूरे किये लाख लाख अभिलाष  
 लोयन लखात लखि सूखे सुख खद के ।  
 दोऊ हद रद के सुदेत छद रद के  
 बिबसमैन मद के कहै मैं गई सदके ॥

गाजि कै घोर कढ़ा गुफा फोरि कै पूरि रही धुनि है चहुँ देसरी ।  
 दोऊ कगार बगारि कै आनन पाप मृगान को खात जु बेसरी ॥  
 तापै अघात कबौ न लख्यो गनि नेकु सकै नाहिँ सारद सेसरी ।  
 सो लेखराज है गंग को नीर जो अद्भुतकेसरी बेसरी केसरी ॥

( १८२० ) रघुवरदयाल ।

ये महाशय मध्य प्रदेशान्तर्गत दुर्ग जिला रायपूर के वासी थे । इन्होंने संवत् १९१२ में छन्दरत्नमाला नामक एक ग्रन्थ बनाया, जिसमें प्रत्येक छन्द का लक्षण तथा उदाहरण उसी छन्द में कह दिया । इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित है और कहीं कहीं इन्होंने श्लोक भी कहे हैं । इस ग्रन्थ में कुल मिलाकर १६२ छन्द हैं । ये महाशय अच्छे पंडित थे । हम इन्हें साधारण श्रेणी में रक्खेंगे । उदाहरण—

मालती सवैया ।

सुन्दर सात निवास जहाँ गण इन्दु अमंगल कर्ष लिवैया ।  
 है पुनि कर्ष सबै पद अन्तनि मो मन नचित मोद दिवैया ॥

तेइस वर्ण पदेक सुभ्राजत ये विधि चारिहु चर्ण रचैया ।  
काव्य बिचच्छन ते सु कहैं यह लच्छन मालति छन्द सवैया ॥

(१८२१) ललितकिशोरी साह कुंदनलाल ।

तथा (१८२२) ललित माधुरी ।

इनका जन्म-स्थान लखनऊ था । ये जाति के वैश्य प्रसिद्ध साह विहारीलालजी के पौत्र थे । ये संवत् १९१३ में श्रीवृन्दावन चले गये और वहाँ गोस्वामी राधागोविंदजी के शिष्य हो गये । संवत् १९१७ में इन्होंने वृन्दावन में प्रसिद्ध साहजी का मन्दिर बनवाना आरम्भ किया, जिसकी स्थापना सं० १९२५ में हुई । सं० १९३० कार्तिक शु० २ को इनका स्वर्गवास हुआ । इन्होंने कई बड़े बड़े ग्रंथ निर्मित किये, जिनका वर्णन नीचे किया जायगा । उनमें विषय प्रायः एक ही है । सब में श्रीकृष्णचंद्र का अष्टयाम या समयप्रबंध विशेषतया वर्णित है । समयप्रबंध व अष्टयाम में यह भेद है कि अष्टयाम में श्रीकृष्णचन्द्रजी के हर घड़ी और पहर का शृंगारपूर्ण वर्णन है और समयप्रबंध में दिन की पृथक् पृथक् पूजा और उपासनाओं का सविस्तर कथन है । इसके अतिरिक्त श्रीकृष्णजी की विविध लीलाओं का वर्णन भी इन्होंने विस्तारपूर्वक किया है । श्रीसूरदासजी के व इन लोगों के कथनों में यह भेद है कि सूर ने सूक्ष्मतया समस्त भागवत की और मुख्यतया पूर्वाद्ध दशम स्कंध की कथायें कही हैं जिससे उनके ग्रन्थ में विविध विषय आगये हैं, परंतु इन लोगों ने सिवाय ब्रज वर्णन के और कुछ भी नहीं कहा, और उसमें भी कृष्ण की

बाललीला इत्यादि की कथायें छोड़ दी हैं। इस कारण इनके कथनों में सिवाय प्रेमालाप, मान, मानमोचन, रास, भोजन, सोने, जागने आदि के और विषय बहुत कम आये हैं। ये कविगण विशेष भक्त तथा भक्ति विषय में लीन थे, सो इनको इतने ही विषय अलम् थे, परंतु सर्वसाधारण तो इस लीला तथा विहार में उतना आनंद नहीं पा सकते, अतः इन गोसाईं सम्प्रदाय वाले कवियों की कविता उतनी रुचिकर नहीं होती। इन लोगों की रचनाओं से सर्वसाधारण को क्या शिक्षा मिलती है? इस प्रश्न पर विचार करने से शोकपूर्वक कहना ही पड़ता है कि इस कवितासमुदाय से साधारण जनों के चरित्र शुद्ध होने की जगह बिगड़ने की अधिक सम्भावना है। इस प्रथा के संचालक लोग बहुधा भक्त और विरक्त थे। उनको ये वर्णन बाधा नहीं कर सकते थे, परंतु सर्व साधारण तो इन वर्णनों को पठन करके अपने चित्तों को वश में नहीं रख सकते। हम लोग संसारी जीव हैं। हमारे वास्ते जो कविता या प्रबंध रचे जावें वे शिक्षापूर्ण होने चाहिए। ऐसा न होकर यह काव्य उसका उलटा प्रभाव हम लोगों पर छोड़ता है। तिस पर भी भाषा-साहित्य को इन लोगों से लाभ ही हुआ, क्योंकि यदि इस सम्प्रदाय के कविगण इतनी काव्यरचना न किये होते तो हिन्दी-साहित्य आज इतना परिपूर्ण तथा मनोरंजक न होता, अस्तु। इनके छोटे भाई साह फुंदनलाल भी कवि थे और इनके जो ग्रंथ अपूर्ण रह गये थे उनकी पूर्ति उन्होंने कर दी थी, परंतु उन्होंने अपना नाम पृथक् कहीं नहीं लिखा, न कोई ग्रंथ ही अलग

बनाया । उनकी यह महानुभावता प्रशंसनीय है । किसी किसी छंद में ललितमाधुरी नाम पड़ा है । यही उनका उपनाम था ।

ललितकिशोरीजी का काव्य बड़ा ही सरस, मधुर और प्रेम-पूर्ण है । इनकी रचना से जान पड़ता है कि ये भाषा, फ़ारसी तथा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे । जगह जगह पर इन्होंने फ़ारसी, अरबी और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है । खड़ी बोली की भी कविता इन्होंने यत्र तत्र की है और कहीं कहीं कूट भी कहे हैं । सब बातों पर निगाह करने से इनकी रचना बहुत ही उत्कृष्ट और प्रशंसनीय है । हम इनको दास की श्रेणी का कवि मानते हैं । इनके रचे ये ग्रंथ हैं:—

अष्टयाम १ से ६ तक १ जिल्द	} १०८६ पृष्ठ ।
अष्टयाम ७ से ११ तक २ „	
लीलासंग्रह अष्टयाम ३ „	
ज्वालादिक मानलीला ४ „	

रसकलिकादल १ से २४ तक ४ जिल्द ११७ पृष्ठ फ़ुल्सकैप साइज़ । कहीं कहीं गद्य भी इन्होंने लिखा है ।

उदाहरण ।

गज़ल ।

मटकी को आबरू की चट चौरहे में फोड़ै ।

क्या भाई वंद गुरजन सब दुरजनों को छोड़ै ॥

उल्फत जहाँ कि तिनसी ललिताकिशोरी तोड़ै ।

चंचल छबीले ज़ालिम जानाँ से नैन जोड़ै ॥

इस रस के पावे चसके जेहि लोकलाज खोई ।  
मैं बेचती हूँ मन के माखन को लेवे कोई ॥ १ ॥

पद ।

चालिस द्वै अथ चन्द थके ।

चंचल चारु चारि खंजन बर चितै परसपर रूप लुके ॥

दामिनि तीनि अनेक मधुप गन ललित भुजंगम संग जके ।

अष्टादस अरबिंद अचल अलि ललितकिशोरी आजु टके ॥ २ ॥

दोहा ।

अंग अंग सों अंबुकन भरि भरि आवत नीर ।

चन्द स्रवन पीयूष कै बरसत दामिनि वीर ॥ ३ ॥

नील बरन जल जमुन तिय चपल इतै उत जाहिँ ।

धसौँ अनेकन दामिनी सिंधु स्याम घन माहिँ ॥ ४ ॥

पद ।

कमल मुख खोलौ आजु पियारे ।

बिकसित कमल कुमोदिनि मुकुलित अलिगन मत्त गुँजारे ।

प्राची दिसि रवि थार आरती लिप ठनी निवछारे ॥

ललितकिशोरी सुनि यह बानी कुरकट विसद पुकारे ।

रजनी राज बिदा माँगै बलि निरखौ पलक उघारे ॥ ४ ॥

केकी कीर कोकिला कोयल सामुहि करै जुहार ।

परसन दृगनि कंज हित बोलैं भृंगी जैजैकार ॥

मूँदौ रंघ्र बेगि प्राची दिसि इति अब कहत पुकार ।

ललितकिशोरी निरख्यो चाहत रवि नवकुंज विहार ॥ ५ ॥

लाभ कहा कंचन तन पाए ।

वचननि मृदुल कमलदललोचन दुखमोचन हरि हरखि न घ्याए ॥

तन मन धन अरपन नहीं कीनौ प्रान प्रानपति गुननि न गाए ।

येवन धन कलघौत धाम सब मिथ्या सिगरी आयु गँवाए ॥

गुरजन गरव विमुख रँग राते डोलत सुख सगपति बिसराए ।

ललितकिशोरी मिटै ताप नहीं बिन दृढ़ चिंतामनि उर लाए ॥६॥

प्रिया मुख राजत कुटिली अलकै ।

मानहुँ चिबुक कुँड रस चाखन द्वै नागिनि अति उमगीं थलकै ।

बेनी छूटि परी पंड़ी लैं बिथुरि लटै घुघुरारी हलकै ।

यह अरबिंद सुधारस कारन भँवर वृंद जु रि मानहुँ ललकै ॥

चंदन भाल कुटिल भ्र मोरी ता पर यक उपमा है भलकै ।

गै चढ़ि अरध चंद तट अहिनी अमी लूटिवे मन करि चलकै ॥

पुहुप सचिंत उरमाल विराजत चरन कमल परसत ढलढलकै ।

मनहुँ तरङ्ग उठत पुनि ठिठुकत रूप सरोवर माहिँ बिमलकै ॥

ललित माधुरी बदनसरोजहि रास करत पिय श्रमकन भलकै ।

भृङ्ग दृगनि पिय छबि मकरंदहि घूँटत मुदित परत नहिँ

पलकै ॥ ७ ॥

मधुकर मेरे ढिग जनि आय ।

तैं हरजाई वंसकलंकी सब फूलन बसिजाय ॥

कारे सबै कुटिल जग जाने कपटी निपट लवार ।

अमृत पान करैं विष उगिलैं अहिकुल प्रतछ निहार ॥

देखत चिकनी सुभग चमकनी राखी मंजु बनाय ।

कारी अनी बान की पैनी लगत पार है जाय ॥

कारी निसि चौरन को प्यारी औगुन भरी अनेक ।  
ललितकिशोरी प्रीति न करि हौं कारे सों यह टेक ॥ ८ ॥  
इस समय के अन्य कविजन ।

नाम—(१८२३) आजम ।

ग्रन्थ—(१) षट्क्रतु, (२) नखशिख ।

कविताकाल—१८९० ।

नाम—(१८२४) उदयचंद ओसवाल भंडारी ।

ग्रन्थ—(१) रसनिवास, (२) रसशृंगार, (३) दूषणदर्पण, (४) ब्रह्म-  
प्रबोध, (५) ब्रह्मविलास, (६) भ्रमबिहंडन ।

कविताकाल—१८९० ।

विवरण—आश्रयदाता महाराजा मानसिंह ।

नाम—(१८२५) दास दलसिंह ।

ग्रन्थ—दलसिंहानन्दप्रकाश ।

कविताकाल—१८९० ।

नाम—(१८२६) परमेश्वरीदास कायस्थ, कालिंजर ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

जन्मकाल—१८६० । मृत्यु १९१२ ।

कविताकाल—१८९० ।

विवरण—चौबे नाथूराम जागीरदार मालदेव बुँदैलखंड के दरबारी  
कवि थे ।

नाम—(१८२७) लक्ष्मणसिंह, बिजावर के राजा ।

ग्रन्थ—(१) नृपनीतिशतक, (२) समयनीतिशतक, (३) भक्तिशतक  
(४) धर्मप्रकाश ।



जन्म—१८६७ ।

रचनाकाल—१८९० से १९०४ तक ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—( १८२८ ) सन्तोषसिंह पट्टियाला ।

ग्रन्थ—वाल्मीकीय रामायण भाषा ।

रचनाकाल—१८९० ।

नाम—( १८२६ ) गणेशबख्श, रामपूर मथुरा, जिला सीतापूर ।

ग्रन्थ—प्रियाप्रीतमविलास ।

रचनाकाल—१८९१ के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—( १८३० ) नवलसिंह प्रधान ।

ग्रन्थ—अद्भुतरामायण ।

रचनाकाल—१८९१ ।

विवरण—मधुसूदन दास श्रेणी ।

नाम—( १८३१ ) भावन पाठक, मौरावाँ, जिला उन्नाव ।

ग्रन्थ—काव्यशिरोमणि ( या काव्यकल्पद्रुम ) ।

रचनाकाल—१८९१ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—( १८३२ ) बेनीदास बंदीजन ।

जन्मकाल—१८६५ ।

रचनाकाल—१८९२ ।

विवरण—मेवाड़ के इतिहासलेखक थे ।

नाम—(१८३३) शङ्कर पाँडे ।

ग्रन्थ—सारसंग्रह पृ० ८० ।

रचनाकाल—१८९२ ।

विवरण—नीति ।

नाम—(१८३४) शङ्करदयाल, दरियाबादी ।

ग्रन्थ—(१) अलंकृतमाला, (२) वज्रसूची ।

रचनाकाल—१८९२ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१८३५) नैनयोगिनी ।

ग्रन्थ—सावर तंत्र ।

रचनाकाल—१८९३ के पूर्व ।

नाम—(१८३६) शिवदयाल खत्री, प्रयाग ।

ग्रन्थ—(१) सिद्धिसागर तंत्र (१८९३ सं०) (२) शिवप्रकाश  
(१९१०-३२)

कविताकाल—१८९३ ।

विवरण—तंत्र और आयुर्वेद ।

नाम—(१८३७) बालकृष्ण चौबे, बूंदी ।

ग्रन्थ—स्फुट काव्य ।

कविताकाल—१८९४ ।

विवरण—विहारीलाल के वंशज ।

नाम—(१८३८) सीतलराय बन्दीजन, बैाँडी, बहरायच ।

कविता काल—१८९४ ।

विवरण—साधारण श्रेणी । राजा गुमानसिंह के यहाँ थे ।

नाम—(१८३६) उत्तमदास मिश्र ।

ग्रन्थ—(१) स्वरोदय, (२) शालिहोत्र ।

कविताकाल—१८९५ के पूर्व ।

नाम—(१८४०) धनश्यामदास कायस्थ ।

ग्रन्थ—(१) अश्वमेध पर्व, (२) वसुदेवमोचिनीलीला ।

कविताकाल—१८९५ ।

विवरण—महाराजा रत्नसिंह चरखारी वाले के यहाँ थे ।

नाम—(१८४१) प्राणसिंह कायस्थ, चरखारी ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

जन्मकाल—१८७० । मृत्यु १९०७ ।

कविताकाल—१८९५ ।

विवरण—रियासत चरखारी में फौज के बख्शी थे ।

नाम—(१८४२) विष्णुदत्त, चैमलपुरा ।

ग्रन्थ—(१) राजनीतिचन्द्रिका, (२) दुर्गाशतक ।

कविताकाल—१८९५ ।

विवरण—ठाकुर जैगोपालसिंह के यहाँ थे ।

नाम—(१८४३) बुधजन जैन ।

ग्रन्थ—योगीन्द्रसार भाषा ।

कविताकाल—१८९५ ।

नाम—(१८४४) लालदास ।

ग्रन्थ—(१) ऊषाकथा, (२) वामनचरित्र ।

कविताकाल—१८९६ के पूर्व ।

विवरण—मनोहरदास के पुत्र ।

नाम—(१८४५) गणेशप्रसाद ।

ग्रन्थ—हनूमतपच्चीसी (पृ० १२) ।

कविताकाल—१८९६ ।

विवरण—श्रीकाशीनरेशजी की आज्ञा से रचना की ।

नाम—(१८४६) बलदेव ब्राह्मण चरखारी ।

कविताकाल—१८९६ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१८४७) भोलासिंह, पन्ना ।

कविताकाल—१८९६ ।

नाम—(१८४८) हरिदास कायस्थ, पन्ना ।

ग्रन्थ—(१) नखशतक, (२) रसकौमुदी, (३) राधिकाभूषण,  
(४) इतिहाससूर्यवंश, (५) अलंकारदर्पण, (६) श्रीराधा-  
कृष्णजी को चरित्र, (७) लीलामहिमा समय बर सैन को,  
(८) गोपालपच्चीसी ।

जन्मकाल—१८७६ । मृत्यु १९०० ।

कविताकाल—१८९६ ।

विवरण—पन्नानरेश महाराज हरवंशराय के यहाँ थे ।

संवत् १८८९ वाले सूर्यमल्ल नामक कवि ने नीचे लिखे हुए कवियों के नाम अपने १८९७ में बने हुए ग्रन्थ में लिखे हैं । इससे प्रकट होता है कि ये कवि १८९७ तक हुए थे । नाम ये हैं :—  
 (१८४९) अजिता, (१८५०) अतीत, (१८५१) आस, (१८५२) उदय,  
 (१८५३) कमलानाथ, (१८५४) करनी, (१८५५) कलंक, (१८५६)  
 कल्याणपाल, (१८५७) कृपाल चारण, (१८५८) कंकाली, (१८५९)  
 कंजुली, (१८६०) गजानन, (१८६१) चक्रधर, (१८६२) चामुंड,  
 (१८६३) चिमन, (१८६४) दयालाल, (१८६५) दान, (१८६६) देवक,  
 (१८६७) देवमणि (आपने १६ अध्याय तक चाणक्यनीति भाषा  
 रची), (१८६८) धनपति, (१८६९) धनसुख, (१८७०) धनंजय,  
 (१८७१) धराधर, (१८७२) धर्मसिंह यती (स्फुट काव्य), (१८७३)  
 नल, (१८७४) नाज़िर, (१८७५) निर्मल (भक्तिकविता), (१८७६)  
 नंदकेसरीसिंह (सगारथलीला रची, जिसमें साधारण श्रेणी का  
 काव्य है), (१८७७) परिचारण, (१८७८) पुरान, (१८७९) बोरी,  
 (१८८०) भगंड, (१८८१) भरतेस, (१८८२) भागु, (१८८३) भैरव-  
 चारण (बटुकपचासा), (१८८४) मदन, (१८८५) मधुकर, (१८८६)  
 मधुप, (१८८७), रच्छपाल, (१८८८) रामकृष्ण की बधू, (१८८९)  
 शिवपाल, (१८९०) सरूपदास, (१८९१) सर्वाई राम, (१८९२) सिरा,  
 (१८९३) सुन्दरिका, (१८९४) हरिसुख, (१८९५) हून और (१८९६)  
 हृदयानंद । (१८९७) जयलाल का भी नाम सूर्यमल्ल ने लिखा है । ये  
 उनके भाई थे । इनका समय १८९७ समझना चाहिए ।

नाम—(१ ८६ ८) बिहारी उपनाम भोजराज (भोज) ।

ग्रन्थ—(१) भोजभूषण, (२) रसविलास ।

कविताकाल—१८९७ ।

विवरण—साधारण श्रेणी । महाराजा रतनसिंह चरखारी-नरेश के यहाँ थे ।

नाम—(१ ८६ ९) बिहारीलाल त्रिपाठी, टिकमापुर जिला कानपुर ।

कविताकाल—१८९७ ।

विवरण—ये मतिराम कवि के वंशधर हैं । तोष श्रेणी ।

नाम—(१ ९ ० ०) बुद्धसिंह कायस्थ, बुन्देलखंडी ।

ग्रन्थ—(१) सभाप्रकाश, (२) माधवानल ।

कविताकाल—१८९७ ।

नाम—(१ ९ ० १) रामदीन त्रिपाठी तिकवाँपूर, कानपूर ।

कविताकाल—१८९७ ।

विवरण—मतिरामवंशी साधारण कवि ।

नाम—(१ ९ ० २) रावराना बन्दीजन ।

कविताकाल—१८९७ ।

विवरण—साधारण श्रेणी । रतनसिंह चरखारी-नरेश के यहाँ थे ।

नाम—(१ ९ ० ३) शिवराम ।

ग्रन्थ—तद्वतविलास ।

कविताकाल—१८९७ ।

नाम—(१६०४) साहबराजजी जोशी ।

ग्रन्थ—(१) रोज़नामचा, (२) लाला साहब री मुलाखान ।

कविताकाल—१८९७ ।

नाम—(१६०५) सीतल, तिकवाँपूर, कानपूर ।

कविताकाल—१८९७ ।

विवरण—साधारण श्रेणी । मतिरामवंशी ।

नाम—(१६०६) सेवक, चरखारी वाले ।

कविताकाल—१८९७ ।

विवरण—राजा रतनसिंह चरखारीनरेश के यहाँ थे ।

नाम—(१६०७) हरप्रसाद कायस्थ, पन्ना तथा ठीकमगढ़ ।

ग्रन्थ—(१) रसकौमुदी, (२) हिसाब ।

कविताकाल—१८९७ ।

विवरण—साधारण श्रेणी । कड़ा में जन्म हुआ था । हिसाब का  
ग्रन्थ बनाया ।

नाम—(१६०८) अजित दास जैन जौनपूर ।

ग्रन्थ—जैनरामायण ।

कविताकाल—१८९८ ।

विवरण—वृन्दावन, जैन कवि के पुत्र ।

नाम—(१६०९) बादेराय भाट, डलमऊ, ज़िला राय बरेली ।

जन्मकाल—१८८२ ।

कविताकाल—१८९८ ।

विवरण—राजा दयाकृष्ण राय लखनऊ वाले के यहाँ थे । साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६१०) हरिप्रसाद ।

ग्रन्थ—अलंकारदर्पण ।

कविताकाल—१८९८ ।

विवरण—महाराजा हरि वंश के यहाँ थे ।

नाम—(१६११) श्रीनिवास ।

ग्रन्थ—जानकीसहस्र नाम ।

कविताकाल—१८९९ के पूर्व ।

नाम—(१६१२) धीरज सिंह कायस्थ ।

ग्रन्थ—(१) गणितचन्द्रिका, (२) दस्तूरचिन्तामणि, (३) दफ्तर-मोदतरंग ।

कविताकाल—१८९९ के पूर्व ।

विवरण—धौरवाई उरछा राज्य । आप दतिया में भी थे ।

नाम—(१६१३) रसानंद भट्ट ।

ग्रन्थ—संग्रामरत्नाकर ।

कविताकाल—१८९९ ।

विवरण—भरतपुरनरेश महाराजा बलवंतसिंह की आज्ञानुसार रचा ।

नाम—(१६१४) आशुतोष ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।



विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६१५) कमलाकर ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६१६) करतालिया ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६१७) करुणानिधान ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६१८) कल्याण स्वामी ।

ग्रन्थ—स्फुट पद ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

नाम—(१६१९) कृपामिश्र ।

ग्रन्थ—(१) रसपद्धति, (२) सवैयाप्रबोध ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

नाम—(१६२०) कृपासिन्धुलाल ।

ग्रन्थ—स्फुट पद ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६२१) गोपालनायक ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६२२) गोपीलाल ।

ग्रन्थ—स्फुट पद ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६२३) चन्द सखी ।

ग्रन्थ—स्फुट पद ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—जयपूरवासी । सम्भव है कि ये १६३८ वाली चन्द सखी हों ।

नाम—(१६२४) जगराज ।

कविताकाल—१९०० के प्रथम ।

नाम—(१६२५) जनार्दन भट्ट ।

ग्रन्थ—(१) कवि-रत्न, (२) वैद्य-रत्न, (३) बाल-विचेक, (४) हाथी को सालिहोत्र ।

कविताकाल—१९०० के प्रथम ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६२६) जितऊ ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६२७) ठंडी सखी ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६२८) धुरन्धर ।

ग्रन्थ—शब्दप्रकाश ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनकी रचना दिग्विजयभूषण में है । साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६२९) नरसिंहदयाल ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६३०) नीलमणि ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६३१) भरथरी ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में संगृहीत हैं ।

नाम—(१६३२) माननिधि ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

नाम—(१६३३) मीठाजी ।

ग्रन्थ—स्फुट पद ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६३४) मुरारीदास ।

ग्रन्थ—गुणविजयविवाह ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६३५) मंदिनि श्रीपति ।

ग्रन्थ—जनकपचीसी ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

नाम—(१६३६) युगलमञ्जरी ।

ग्रन्थ—भावनामृत ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

नाम—(१६३७) रघु महाशय ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६३८) रामजस ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६३६) रामराय राठौर ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६४०) रायमोहन ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६४१) रूप सनातन ।

ग्रन्थ—शृङ्गारसुख ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं । कहते हैं कि रूप और सनातन दो भाई थे । रूप रहते थे राधाकुण्ड पर और सनातन वृन्दावन में ।

नाम—(१६४२) रँगीला प्रीतम ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६४३) रँगीली सखी ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६४४) लच्छनदास राजा खेमपाल राठौर के पुत्र ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी, पदरचयिता ।

नाम—(१६४५) शिवचन्द्र ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६४६) शङ्कर कायस्थ, बिजावर ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

कविताकाल—१९०० के कुछ पूर्व ।

विवरण—कवि ठाकुर के पौत्र ।

नाम—(१६४७) श्याममनोहर ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—हीन श्रेणी ।

नाम—(१६४८) श्यामसुन्दर ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६४९) सगुणदास ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६५०) साँवरी सखी ।

ग्रन्थ—भजन ।

द्विजदेव काल ]

परिवर्तन-प्रकरण ।

११४७

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६५१) सोनादासी ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

नाम—(१६५२) हरिदत्तसिंह ब्राह्मण ।

ग्रन्थ—राधाविनोद ।

कविताकाल—१९०० के पूर्व ।

विवरण—शाकद्वीपी ब्राह्मण, महाराजा अयोध्या के वंशज ।

नाम—(१६५३) अम्बुज ।

ग्रन्थ—नखशिक्ष ।

जन्मकाल—१८७५ ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—इनके नीति के छंद भी अच्छे हैं । साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६५४) इच्छाराम कायस्थ छतरपूर ।

ग्रन्थ—(१) द्रौपदीविनय, (२) राधामाधवशतक ।

जन्मकाल—१८७६ । मृत्यु १९४५ ।

कविताकाल—१९०० ।

नाम—(१६५५) उमापति त्रिपाठी, उपनाम कौविद ।

ग्रन्थ—(१) दोहावली, (२) रत्नावली ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—साधारण श्रेणी । ये महाशय अयोध्या में रहते थे । इन की संस्कृत की कविता उत्तम है । ये महाराज महात्मा ऋषियों की तरह माने जाते थे और ये संवत् १९२५ तक जीवित रहे हैं । अतः इनका कविताकाल संवत् १९०० हो सकता है । भाषाकविता भी भक्तिपक्ष में उत्तम की है ।

नाम—(१६५६) ऋषिजू ।

जन्मकाल—१८७२ ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६५७) कमलेश ।

ग्रन्थ—नायिकाभेद का एक ग्रन्थ ।

जन्मकाल—१८७० ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६५८) कृष्ण ।

ग्रन्थ—विदुरप्रजागर ।

जन्मकाल—१८७० ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६५९) गुलाल ।

ग्रन्थ—शालिहोत्र ।



जन्मकाल—१८७५ ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६६०) गोकुल कायस्थ, वलरामपुर ।

ग्रन्थ—(१) नामरत्नाकर (पृ० ६२), (२) वामविनोद (पृ० २०४)  
(१९२९)

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—धर्म एवं नीति कही ।

नाम—(१६६१) गोपाल कायस्थ, रीवाँ ।

ग्रन्थ—गोपालपचीसी ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—महाराज विश्वनाथसिंह रीवाँनरेश के समय में थे ।

नाम—(१६६२) गोपाल कायस्थ, पन्ना ।

ग्रन्थ—(१) शालिहोत्र, (२) गजविलास ।

कविताकाल—१९०० । मृत्यु १९२० ।

विवरण—पन्नानरेश हरवंशराय और नरपतिसिंह के समय में थे ।  
ये अजयगढ़ में भी रहे थे ।

नाम—(१६६३) गोपालराय भाट ।

ग्रन्थ—दम्पति वाक्यविलास ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—साधारणश्रेणी ।

नाम—(१६६४) चतुर्भुज मिश्र, आगरा ।

ग्रन्थ—(१) व्रजपरिक्रमां सतसई, (२) वंशविनोद ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—ये महाशय प्रसिद्ध कवि कुलपति मिश्र के वंशज थे ।

कविता साधारण श्रेणी की है ।

नाम—(१६६५) जवाहिरसिंह कायस्थ पन्ना ।

ग्रन्थ—वैद्यप्रिया ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—महाराजा मानसिंह के समय में थे ।

नाम—(१६६६) दीनानाथ अध्वर्यु, मोहार ।

ग्रन्थ—ब्रह्मोत्तरखंड भाषा ।

जन्मकाल—१८७६ ।

कविताकाल—१९०० ।

नाम—(१६६७) डुलीचंद, जयपूर ।

ग्रन्थ—महाभारत भाषा ।

कविताकाल—१९०० के लग भग ।

विवरण—महाराज रामसिंह जयपुरनरेश की आज्ञा से बनाया था ।

नाम—(१६६८) नंदकुमार कायस्थ, बाँदा ।

कविताकाल—१९०० के लग भग ।

विवरण—पन्ना से कुछ पेंशन पाते थे ।

नाम—(१६६९) परमबन्दीजन महोबा वाले ।

ग्रन्थ—नखशिख ।

जन्मकाल—१८७१ ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—तौष-श्रेणी ।

नाम—(१६७०) प्रधान ।

जन्मकाल—१८७५ ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६७१) बलिरामदास ।

ग्रन्थ—चित्तविलास ।

जन्मकाल—१८७० ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—निम्न श्रेणी ।

नाम—(१६७२) बंसगोपाल बुँदेलखंडी ।

ग्रन्थ—भाषासिद्धान्त ( गद्य ब्रजभाषा ) ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—साधारण भाषा । ग्रन्थ छतरपूर में है । जालवन वासी  
वन्दीजन ।

नाम—(१६७३) भारतीदान जोधपूरवासी ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—ये महाशय मुरारिदान के पिता थे । इनकी कविता  
अनुप्रासविभूषित साधारण श्रेणी की थी ।

नाम—(१६७४) मदनगोपाल शुक्ल, फतूहाबादी ।

ग्रन्थ—(१) अर्जुनविलास, (२) वैद्यरत्न ।

जन्मकाल—१८७६ ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६७५) माखन ।

जन्मकाल—१८७० ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६७६) रणजीतसिंह धंधेरे क्षत्रिय, पंचमपुर ।

ग्रन्थ—कलाभास्कर ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—हीन श्रेणी ।

नाम—(१६७७) रामनाथ उपाध्याय ।

ग्रन्थ—(१) रसभूषण ग्रन्थ, (२) महाभारत भाषा ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—महाराजा नरेन्द्रसिंह पटियाले वाले के समय में थे ।

नाम—(१६७८) लक्ष्मण ।

ग्रन्थ—धर्मप्रकाश (१९०५), (२) भक्तप्रकाश (१९०२), (३) नृप-  
नीतिशतक (१९००), (४) समयनीतिशतक (१९०१),  
(५) शालिहोत्र, (६) रामलीलानाटक, (७) भावनाशतक ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—भावनाशतक व शालिहोत्र हमने दरबार छतरपुर के  
पुस्तकालय में देखे ।

नाम—(१६७६) लक्ष्मणप्रसाद उपाध्याय, बाँदा

ग्रन्थ—नामचक्र ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—गुन्नूलाल के पुत्र ।

नाम—(१६८०) लोने वन्दीजन, बुँदेलखंडी ।

जन्मकाल—१८७६ ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६८१) सम्पति ।

जन्मकाल—१८७० ।

कविताकाल—१९०० ।

विवरण—हीन श्रेणी ।

नाम—(१६८२) हरिजन कायस्थ, टीकमगढ़ ।

ग्रन्थ—कविप्रिया टीका, (२) तुलसीचिन्तामणि (१९०३) ।

कविताकाल—१९०० ।

नाम—(१६८३) हिमंचलसिंह कायस्थ, छतरपूर ।

ग्रन्थ—सतसई की टीका ।

कविताकाल—१९०० ।

नाम—(१६८४) रामजू ।

ग्रन्थ—बिहारीसतसई टीका ।

कविताकाल—१९०१ के पूर्व ।

नाम—(१६८५) अरुंधती, चरखारी बुँदेलखंड ।

कविताकाल—१९०१ ।

विवरण—ये महाराज रतनसिंह चरखारीनरेश के यहाँ थे ।  
सरोजकार ने भूषा वाले बुँदेलखंडी का एक और नाम  
दिया है । जान पड़ता है कि ये दोनों नाम एक ही हैं ।  
साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६८६) जय कवि ।

कविताकाल—१९०१ ।

विवरण—लखनऊ के नवाब वाजिदअलीशाह के यहाँ थे । ब्रज-  
भाषा व खड़ी बोली मिश्रित रचना की है । साधारण  
श्रेणी ।

नाम—(१६८७) वंशीधर वाजपेयी, चिंताखेड़ा जिला  
रायवरेली ।

जन्मकाल—१८७४ ।

कविताकाल—१९०१ ।

विवरण—स्फुट काव्य ।

नाम—(१६८८) वंशीधर भाट, बनारसी ।

ग्रन्थ—(१) बिदुर प्रजागर (साहित्य वंशीधर), (२) मित्रमनोहर  
(भाषा राजनीति) ।

जन्मकाल—१८७० ।

कविताकाल—१९०१ ।

नाम—(१६८६) वंसरूप बनारसी ।

जन्मकाल—१८७४ ।

कविताकाल—१९०१ ।

विवरण—स्फुट कविता काशीराज महाराज की की है और नायिकाभेद भी कहा है । साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६६०) रामगुलाम द्विवेदी ।

ग्रन्थ—(१) संकटमोचन, (२) प्रबंधरामायण, (३) किष्किन्धा-कांड, (४) विनयनवपंचक ।

कविताकाल—१९०१ ।

विवरण—मिरजापुरनिवासी । आप तुलसीकृत रामायण के प्रसिद्ध अनुसन्धानकर्त्ता हैं । आपके पद रागसागरोद्भव में भी हैं ।

नाम—(१६६१) चैनदान चारण ।

ग्रन्थ—विस्म (मरसिया) ।

कविताकाल—१९०२ के प्रथम ।

नाम—(१६६२) भैरववल्लभ ।

ग्रन्थ—युद्धविलास ।

कविताकाल—१९०२ के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६६३) अयोध्याप्रसाद शुक्ल, गोला गोकरणनाथ,

ज़िला खीरी । °

कविताकाल—१९०२ ।

विवरण—ये राजा भूङ्ग के यहाँ थे । कविता साधारण श्रेणी की है ।

नाम—(१६६४) कालीचरण वाजपेयी, बिगहपुर, ज़िला उन्नाव ।

ग्रन्थ—वृन्दावनप्रकरण ।

कविताकाल—१९०२ ।

नाम—(१६६५) भवानीदास ।

जन्मकाल—१८७५ ।

कविताकाल—१९०२ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६६६) सुखलाल भाट, ओड़छा ।

ग्रन्थ—(१) दस्तूरअमल, (२) नसीहतनामा, (३) राधाकृष्ण-कटाक्ष ।

कविताकाल—१९०२ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६६७) हरी आचार्य्य ।

ग्रन्थ—अष्टयाम ।

कविताकाल—१९०३ के पूर्व ।

नाम—(१६६८) गजराज उपाध्याय ।

ग्रन्थ—(१) वृत्तहार पिंगल, (२) सुवृत्तहार, (३) रामायण ।

जन्मकाल—१८७४ ।



कविताकाल—१९०३ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१६६६) सर्वसुखशरण ।

ग्रन्थ—तत्त्वबोध ।

कविताकाल—१९०३ के पूर्व ।

विवरण—अयोध्या के महन्त ज्ञात होते हैं ।

नाम—(२०००) नरेन्द्रसिंह ।

ग्रन्थ—बालकचिकित्सा ।

कविताकाल—१९०३ ।

नाम—(२००१) अमीर, बुँदेलखंडो ।

ग्रन्थ—रिसालातीरन्दाज़ी ।

कविताकाल—१९०४ ।

नाम—(२००२) अवधवक्स ।

जन्मकाल—१८८० ।

कविताकाल—१९०४ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२००३) चन्द कवि ।

ग्रन्थ—भेदप्रकाश ।

कविताकाल—१९०४ ।

विवरण—सवाई राजा रामसिंह जयपुरनरेश इनके आश्रयदाता थे ।

नाम—(२००४) जनकलाडिलीशरण साधु, अयोध्या ।

ग्रन्थ—(१) नेहप्रकाशिका ( पृ० ८४ ), (२) नेहप्रकाश बालअली  
रचित पर टीका, (३) ध्यानमंजरी ।

कविताकाल—१९०४ ।

नाम—(२००५) भीषमदास ।

ग्रन्थ—रामरत्न दोहाई ।

कविताकाल—१९०४ ।

नाम—(२००६) परमसुख ।

ग्रन्थ—सिंहासनवत्तीसी ।

कविताकाल—१९०५ के पूर्व ।

नाम—(२००७) कृष्णाकर चारण, करौली ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

कविताकाल—१९०५ के लगभग ।

नाम—(२००८) थानसिंह ( कान्ह ) कायस्थ, चरखारी ।

ग्रन्थ—हयग्रीवनखशिख ।

जन्मकाल—१८८२ ।

कविताकाल—१९०५—मृत्यु १९१४ ।

विवरण—चरखारीनरेश रतनसिंह के समय में थे ।

नाम—(२००६) फ़ाजिलसाह बनिया, छतरपूर ।

ग्रन्थ—प्रेमरत्न ।

कविताकाल—१९०५ ।

विवरण—मधुसूदनदास श्रेणी ।

नाम—(२०१०) हरिभक्तसिंह, भिनगानरेश ।

ग्रन्थ—(१) ज्ञानमहोदधि (पृ० ४०), (२) दानमहोदधि ।

कविताकाल—१९०५ ।

नाम—(२०११) अलखसनेही नैनदास ।

ग्रन्थ—गीतासार ।

कविताकाल—१९०६ के पूर्व ।

नाम—(२०१२) सुखविहार साधु ।

ग्रन्थ—सुखविहार ।

कविताकाल—१९०६ ।

नाम—(२०१३) ठाकुरप्रसाद (उपनाम पंडित प्रवीन) पयासी ।

कविताकाल—१९०७ ।

विवरण—तौष श्रेणी । अयोध्या के महाराजा मानसिंह के यहाँ थे ।

नाम—(२०१४) भानुनाथ झा ।

ग्रन्थ—प्रभावतीहरण ।

ग्रन्थकाल—१८८० ।

कविताकाल—१९०७ ।

विवरण—महाराजा महेश्वरसिंहजी दरभंगा के यहाँ थे । मैथिली भाषा में कविता की है ।

नाम—(२०१५) रमैया बाबा ।

ग्रन्थ—(१) रमैया की कविता, (२) रमैया बाबा की कविता, (३)  
रमैया के कवित्त ।

कविताकाल—१९०७ ।

नाम—(२०१६) साहबदीन साधु बनारसी ।

ग्रन्थ—सन्देहबोध ।

कविताकाल—१९०७ ।

विवरण—महाराजा ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह के समय में थे ।

नाम—(२०१७) धीरसिंह महाराजा ।

ग्रन्थ—अलंकारमुक्तावली ।

कविताकाल—१९०८ के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२०१८) विष्णुसिंह चारण, करौली ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

कविताकाल—१९०८ ।

विवरण—ये भाषा तथा संस्कृत के अच्छे कवि और पंडित थे ।  
करौलीदरबार के आप वंशपरम्परा से कवि थे ।

नाम—(२०१९) देवीदत्त ।

ग्रन्थ—अरकपचीली ।

कविताकाल—१९०९ ।

नाम—(२०२०) मनराज ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

कविताकाल—१९०९ ।

विवरण—शृंगारसंग्रह में काव्य है ।

नाम—(२०२१) लक्ष्मीप्रसाद ।

ग्रन्थ—(१) शृंगारकुण्डली, (२) नायिकाभेद ।

कविताकाल—१९०९ ।

विवरण—साधारण श्रेणी । ये महाराजा भानुप्रताप छत्रसाल वंसी के मुसाहब थे ।

नाम—(२०२२) सुन्दरलाल (उपनाम रसिक) बाँदानिवासी ।

ग्रन्थ—(१) सुन्दरचन्द्रिकारसिक, (२) कुंजकौतुक, (३) पूजा-विभास ।

कविताकाल—१९०९ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२०२३) अजबेस (द्वितीय) भाट ।

ग्रन्थ—त्रयेलवंशवर्णन ।

जन्मकाल—१८८६ ।

कविताकाल—१९१० ।

विवरण—महाराजा विश्वनाथसिंह बाँधवनरेश के यहाँ थे । तौष कवि की श्रेणी ।

नाम—(२०२४) औघड़ ।

ग्रन्थ—तरंगचिलास ।

कविताकाल—१९१० के लगभग ।

विवरण—बनारसनरेश ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह के यहाँ थे ।

नाम—(२०२५) ईश्वरीप्रसाद कायस्थ, कनौज ।

ग्रन्थ—(१) विहारीसतसई पर कुण्डलिया, (२) जीवरक्षावली,  
(३) व्याकरणमूलावली, (४) नाटकरामायण, (५) ऊषा-  
अनिरुद्ध नाटक, (६) तवारीख महोबा ।

जन्मकाल—१८८६ ।

कविताकाल—१९१० ।

नाम—(२०२६) ऋतुराज ।

ग्रन्थ—बसन्तविहारी नीति ।

कविताकाल—१९१० ।

नाम—(२०२७) ऋषिराम मिश्र, पट्टीवाले ।

ग्रन्थ—वंशीकल्पलता ।

कविताकाल—१९१० ।

विवरण—साधारण श्रेणी । लखनऊ के महाराजा बालकृष्ण के  
यहाँ थे ।

नाम—(२०२८) कुँवर रानाजी क्षत्रिय, बलरामपुर ।

ग्रन्थ—फोलनामा (पृ० ६१ गद्य, तथा पृ० ४६ पद्य) ।

कविताकाल—१९१० ।

नाम—(२०२६) गदाधरदास, समोगरा वाले ।

ग्रन्थ—दिग्विजयचम्पू (पृ० २७८) ।

कविताकाल—१९१० ।

विवरण—आश्रयदाता बलरामपुर राज्य ।

नाम—(२०३०) गुणसिन्धु, बुँदेलखंड ।

जन्मकाल—१८८२ ।

कविताकाल—१९१० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२०३१) गौरचरण गोस्वामी, श्रीवृन्दावन ।

ग्रन्थ—(१) जालीकुञ्जलाल, (२) भूषणदूषण, (३) विचित्रजाल,  
(४) श्रीगौराङ्गचरित्र, (५) चोरी है कि दशावाजी,  
(६) चैतन्यविजय की समालोचना पर समालोचना, (७)  
अभिमन्यु-वध, (८) भवानी ।

कविताकाल—१९१० । वर्त्तमान ।

नाम—(२०३२) चैनसिंह खत्री, लखनऊ, उपनाम (हरचरण) ।

ग्रन्थ—(१) शृङ्गारसारावली, (२) भारतदीपिका, (३) बृहत्कवि-  
बल्लभ ।

कविताकाल—१९१० ।

विवरण—निम्न श्रेणी ।

नाम—(२०३३) जदुनाथ ।

जन्मकाल—१८८१ ।

कविताकाल—१९१० ।

विवरण—इनके कवित्त तुलसी के संग्रह में हैं । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२०३४) दास ।

ग्रन्थ—केदारपंथप्रकाश ।

कविताकाल—१९१० ।

विवरण—राजा नरेन्द्रसिंह पटियाला वाले की केदारनाथयात्रा का वर्णन है ।

नाम—(२०३५) द्रोणाचार्य त्रिवेदी ।

ग्रन्थ—प्रियादास चरितामृत ।

कविताकाल—१९१० ।

नाम—(२०३६) बलदेवदास माथुर ।

ग्रन्थ—(१) कृष्णखंड भाषा, (२) करीमा हिन्दी ।

कविताकाल—१९१० ।

नाम—(२०३७) भैरवप्रसाद कायस्थ, पन्ना ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

जन्मकाल—१८८४ ।

कविताकाल—१९१० ।

नाम—(२०३८) मकरन्द राय, पुवाँयाँ, शाहजहाँपूर ।

ग्रन्थ—हास्यरस ।

जन्मकाल—१८८० ।

कविताकाल—१९१० ।



नाम—(२०३६) मंगलदास कायस्थ, पैतैपुर ज़ि० बारहबंकी ।

ग्रन्थ—(१) ज्ञानतरंग, (२) विजय-चंद्रिका, (३) कृष्णप्रिया, (४) सहस्रसाखी ।

जन्मकाल—१८८५ ।

कविताकाल—१९००, मृत्यु १९६४ ।

विवरण—ये ठाकुर महेश्वरबख्श तालुक़ेदार रामपुर मथुरा के यहाँ थे । इन्होंने छोटे बड़े ४८ ग्रन्थ निर्मित किये थे । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२०४०) रसाल, विलग्राम हरदोई ।

ग्रन्थ—(१) बरवै अलंकार, (२) नखशिख ।

जन्मकाल—१८८० ।

कविताकाल—१९१० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२०४१) रामप्रसाद अग्रवाल, मिर्ज़ापुर ।

ग्रन्थ—(१) धर्मतत्त्वसार, (२) चौंतीस अक्षरी, (३) श्रीभक्तस-  
चौंतीसी ।

कविताकाल—१९१० ।

नाम—(२०४२) हलधर ।

ग्रन्थ—सुदामाचरित्र ।

कविताकाल—१९९० के पूर्व ।

नाम—(२०४३) तुलसीराम अग्रवाल, मीरापुर ।

ग्रन्थ—भक्त-माल (उर्दू-अक्षरों में) ।

कविताकाल—१९११ ।

नाम—(२०४४) दीनानाथ बुँदेलखंडी ।

ग्रन्थ—भक्तिमञ्जरी ।

कविताकाल—१९११ ।

विवरण—निम्न श्रेणी ।

नाम—(२०४५) भूमिदेव ।

कविताकाल—१९११ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२०४६) भूसुर ।

जन्मकाल—१८८५ ।

कविताकाल—१९११ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२०४७) किशोरीशरण (उपनाम रसिक वा रसिक-  
विहारी) ।

ग्रन्थ—(१) रघुवर का कर्णाभरण, (२) सीतारामरसदीपिका,  
(३) कवितावली, (४) सीतारामसिद्धान्तमुक्तावली, (५)  
बारहखड़ी ।

कविताकाल—१९१२ के पूर्व ।

विवरण—सुदामापुर के गुजराती ब्राह्मण, सखी सम्प्रदाय के वैष्णव  
थे । अयोध्या में बसे ।

नाम—(२०४८) रसिकसुन्दर ।

ग्रन्थ—प्रियाभक्तिरसबोधिनी राधामंगल ।

कविताकाल—१९१२ के पूर्व ।

नाम—(२०४६) गुरुप्रसाद क्षत्रिय आजमगढ़ ।

ग्रन्थ—सन्निपातचन्द्रिका (पृ० ५० पद्य) ।

कविताकाल—१९१२ ।

विवरण—वैद्यक ।

नाम—(२०५०) नरहरिदास ।

ग्रन्थ—(१) नरहरिप्रकाश, (२) नरहरिदास की बानी ।

कविताकाल—१९१२ ।

नाम—(२०५१) मृगेन्द्र ।

ग्रन्थ—(१) प्रेमपयोनिधि (१९१२), (२) कवित्तकुसुमवाटिका (१९१७) ।

कविताकाल—१९१२ ।

नाम—(२०५२) रामनाथ मिश्र आजमगढ़वाले ।

ग्रन्थ—प्रस्तुतचिकित्सा ।

कविताकाल—१९१२ ।

नाम—(२०५३) ध्यानदास ।

ग्रन्थ—(१) दानलीला, (२) मानलीला, (३) हरिचंद्रशत ।

कविताकाल—१९१३ के पूर्व ।

नाम—(२०५४) दामोदर जी (दास) तैलंग भट्ट, अलवर ।

ग्रन्थ—स्फुट काव्य ।

जन्मकाल—१८८७।

कविताकाल—१९१३।

विवरण—ये अलवरदरवार के आश्रित थे। साधारण श्रेणी।

नाम—(२०५५) देवीसिंह।

ग्रन्थ—(१) अर्बुदविलास, (२) देवीसिंहविलास, (३) आयुर्वेदविलास।

कविताकाल—१९१४ के पूर्व।

नाम—(२०५६) गोविन्द, गोपालपुर, ज़िला-गोरखपुर।

ग्रन्थ—विलासतरंग (कोकसार)।

कविताकाल—१९१४।

विवरण—बलवे में मारे गए।

नाम—(२०५७) घनश्याम ब्राह्मण, आजमगढ़।

ग्रन्थ—वैद्यजीवन (पृ० ४४)।

कविताकाल—१९१४।

नाम—(२०५८) छत्रधारी रामजीवन के पुत्र।

ग्रन्थ—वाल्मीकीय रामायण भाषा।

कविताकाल—१९१४।

नाम—(२०५९) धिरपाल, सामर गाँव, मारवाड़।

ग्रन्थ—गुलाबचम्पा।

कविताकाल—१९१४।

विवरण—कहानी (श्लोकसंख्या ४१०)।

नाम—(२०६०) नरेन्द्रसिंह पटियाला के महाराज ।

कविताकाल—१९१४ ।

नाम—(२०६१) ब्रजजीवन ।

ग्रन्थ—(१) भक्तरसमाल, (२) अरिल्लभक्तमाल, (३) चौरासीसार,  
(४) चौरासीजी को माहात्म्य, (५) छदम चौवनी, (६) हितजी  
महाराज की बधाई, (७) हरिसहचरीविलास, (८) हरि-  
रामविलास, (९) माभक्तमाल, (१०) प्रिया जी की  
बधाई, (११) रामचन्द्रजी की सवारी, (१२) सतसंगसार ।

कविताकाल—१९१४ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२०६२) शालिग्राम चौबे, वूँदी ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

कविताकाल—१९१४ ।

विवरण—वूँदी दरबार में थे । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२०६३) अछेलाल भाट, कन्नौज ।

जन्मकाल—१८८९ ।

कविताकाल—१९१५ ।

नाम—(२०६४) काशी ।

ग्रन्थ—(१) गदर रायसो, (२) धूसा रायसो ।

कविताकाल—१९१५ ।

नाम—(२०६५) कृपालुदत्त, काशीवासी ।

कविताकाल—१९१५ ।

विवरण—ये महाशय महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी के पिता और एक अच्छे कवि थे ।

नाम—(२०६६) कृष्ण ।

जन्मकाल—१८८८ ।

कविताकाल—१९१५ ।

नाम—(२०६७) गयादीन कायस्थ, बाँदा ।

ग्रन्थ—चित्रगुप्तवृत्तान्त ।

जन्मकाल—१८९० ।

कविताकाल—१९१५ ।

विवरण—फ़तेहपूर में तहसीलदार थे । यह ज्ञानसागर प्रेस में छपा है ।

नाम—(२०६८) गोमतीदास, अवध ।

ग्रन्थ—रामायण ।

कविताकाल—१९१५ ।

नाम—(२०६९) गुरुदत्त ।

जन्मकाल—१८८७ ।

कविताकाल—१९१५ ।

विवरण—शिवसिंह सर्वाई के पुत्र के दरबार में थे । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२०७०) ठाकुरदास के पिता खुमानसिंह कायस्थ

चरखारी ।

ग्रन्थ—(१) रामायण, (२) गोवर्द्धनलीला ।

जन्मकाल—१८९० के लगभग । मृ० सं० १९५५ ।

कविताकाल—१९१५ ।

विवरण—श्रीमान् वर्तमान चरखारी-नरेशजी ने कविता पर प्रसन्न हो पारितोषिक दिया था ।

नाम—(२०७१) तुलसीराम मिश्र, कानपुर ।

ग्रन्थ—सत्यसिन्धु ।

जन्मकाल—१८८८ ।

कविताकाल—१९१५ से ५८ तक ।

नाम—(२०७२) निर्भयानन्द स्वामी ।

ग्रन्थ—शिक्षाविभाग की कुछ पुस्तकें ।

कविताकाल—१९१५ ।

नाम—(२०७३) महेशदास ।

ग्रन्थ—एकादशीमाहात्म्य ।

कविताकाल—१९१५ ।

नाम—(२०७४) शिवदीन, भिनगा, बहराइच ।

ग्रन्थ—कृष्णदत्तभूषण ।

कविताकाल—१९१५ ।

विवरण—राजा भिनगा के नाम ग्रन्थ रचा । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२०७५) हरिदास बंदीजन, बाँदा ।

ग्रन्थ—राधाभूषण ।

जन्मकाल—१८९१ ।

कविताकाल—१९१५ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

## चौतीसवाँ अध्याय ।

दयानन्द-काल


( १९१६—२५ ) ।

( २०७६ ) महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती और

आर्यसमाज ।

स्वामी जी का जन्म संवत् १८८१ में औदीच्य ब्राह्मण अम्बा-शंकर के यहाँ मोरवी शहर काठियावाड़ प्रदेश में हुआ था जहाँ पर इनका नाम मूलशङ्कर रक्खा गया । इनके पिता ने २१ बरस की अवस्था में इनका विवाह करना चाहा, परन्तु इन्होंने छिपकर घर से प्रस्थान कर दिया । एक ब्रह्मचारी ने इनको शुद्ध चेतन नाम का ब्रह्मचारी बनाया । पीछे से श्रीपूर्णानंद सरस्वती से संन्यास लेकर स्वामी जी ने दयानंद सरस्वती नाम धारण किया । इन्होंने कृष्ण शास्त्री से व्याकरण पढ़ा और योगानंद स्वामी तथा दो और महात्माओं से योग सीखकर आबू पर्वत पर उसका अभ्यास किया । इधर उधर भ्रमण करते हुए ये ३० वर्ष की अवस्था में हरिद्वार पहुँचे और बहुत दिन तक हिमालय पर्वत पर घूमते रहे । जहाँ





महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ।



जहाँ जो कोई विद्वान् इनको मिला उससे ये विद्या ग्रहण करते गये । इन्होंने सं० १९१७ से २० तक स्वामी विरजानंद जी शास्त्री से मथुरापुरी में विद्याध्ययन किया और उन्हीं के उपदेश से लोक-सुधार का बीड़ा उठाया ।

सं० १९२० से इन्होंने लोगों से शास्त्रार्थ करना प्रारम्भ किया । आपने शैव, वैष्णव, बह्मभीय, जैन, रामानंदी आदि मतों का खंडन और इन मतों के बहुत से पंडितों को परास्त करके सं० १९२३ तक निम्न बातों को अशुद्ध ठहराया:—मूर्तिपूजा, वाममार्ग, वैष्णव-मत, चोलीमार्ग, बीजमार्ग, अवतार, कंठी, तिलक, छाप, पुराण, गंगा आदि तीर्थ स्थानों की पवित्रता, और नाम-स्मरण तथा व्रत आदि । इसके पीछे १९२३ में हरिद्वार वाले कुम्भ-मेले के अवसर पर पाखंडखंडिनी ध्वजा स्थापित करके आप ने बहुत से पंडितों और साधुओं को शास्त्रार्थ में पराजित किया । इसके बाद फर्रुखाबाद, कानपुर इत्यादि में स्वामी जी से बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते रहे, जहाँ हर जगह इन की जीत होती रही । अंततो-गत्वा सं० १९२६ में इस महात्मा ने आर्यावर्त की केन्द्रस्वरूपा श्री काशीपुरी में पहुँचकर वहाँ के महात्माओं और पंडितों को शास्त्रार्थ के वास्ते ललकारा । आप तीन वर्ष के भीतर ५ या ६ दफ्ता काशी-घाम में गये । काशी के भारी शास्त्रार्थ में हिन्दू लोग विशुद्धानंद स्वामी को और समाजी लोग इन स्वामी जी को जीता हुआ कहते हैं । इसके बाद स्वामीजी पटना, कलकत्ता, मुंगेर इत्यादि पूर्वी शहरों में घूम घूम कर शास्त्रार्थ करते रहे । अनन्तर इन्होंने दक्षिण की यात्रा की, और ये जबलपुर, पूना इत्यादि होते हुए बम्बई होकर

काठियावाड़ पहुँचे । वहाँ भी खूब शास्त्रार्थ हुए । इनका विचार बहुत दिनों से “आर्य्यसमाज” स्थापित करने का था, परन्तु उसके स्थापन में विघ्न पड़ते रहे । अंत में चैत्र शु० ५ सं० १९३२ को बम्बई के मुहल्ला गिरगाम में डाकूर मानिकचन्द जी की वाटिका में पहले पहल आर्य्यसमाज की स्थापना हुई और उसके २८ नियम बनाये गये । फिर वहाँ से पूना आदि घूमते हुए ये महाशय दिल्ली पहुँचे । वहाँ से पंजाब के प्रायः सभी शहरों में आप ने शास्त्रार्थ करके हर जगह विजय पाई । इसके बाद आपने मध्य-प्रदेश, राजपूताना इत्यादि में घूम घूम कर धर्मप्रचार किया । इस समय तक अन्य धर्म वाले कुछ कट्टर मूर्ख इनके घोर शत्रु हो गये । उन के षडयन्त्रों से २९ सितम्बर सं० १९४० को स्वामी जी को दूध में पीस कर काँच दिया गया जिस से बहुत व्यथित होकर ये अजमेर को चले गये और बहुत समय तक पीड़ित रहे । अन्त को यह भारतभानु कार्तिक वदी १५ सं० १९४० को ५९ बरस तक भारत को प्रकाशित रख कर इस असार संसार को छोड़ ६ बजे संध्या को अस्त हो गया ।

इन महाशय की रचना के ये ग्रंथ हैं:—सत्यार्थप्रकाश, वेदाङ्ग-प्रकाश, पंचमहायज्ञविधि, संस्कारविधि, गौकरुणानिधि, आर्य्योद्देश्य-रत्नमाला, भ्रमोच्छेदन; भ्रांतिनिवारण, आर्य्याभिविनय, व्यवहार-भानु, वेदविरुद्धमतखंडन, स्वामिनारायणमतखंडन, वेदान्तध्वांत-निवारण, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, ऋग्वेदभाष्य, और यजुर्वेद-भाष्य । इन्होंने जितने भाषा-ग्रन्थ लिखे, उनमें वर्तमान शुद्ध हिन्दी का प्रयोग किया । आप की भाषा बहुत ही सरल होती थी ।

संस्कृत के बड़े भारी विद्वान् होने पर भी आपने विशेषतया हिन्दी को आदर दिया और अपने प्रायः सभी ग्रन्थ हिन्दी में लिखे ।

ऐसे महात्मा पुरुष इस संसार में बहुत कम हुए हैं । इन्होंने यावज्जीवन अखंड ब्रह्मचर्य्य व्रत रक्खा और सदैव परोपकार तथा देशसेवा की। अपने उपदेशों में आप भारतोन्नति का बहुत बड़ा ध्यान रखते थे। यदि इनका मत पूरा पूरा स्थिर हो जावे तो भारत की बहुत सी अवनतिकारिणी रस्में यकवारगी मिट जावे । जैसे महात्मा बुद्ध-देव ने अपने समय की भारतमूलाच्छेदनकारिणी सभी चालों को हटाकर सीधा सादा बौद्ध-धर्म चलाया था, उसी प्रकार इस महर्षि ने भारतमुखोज्ज्वलकारी आर्य्यसमाज के सिद्धांतों को स्थिर किया है। यह एक ऐसा औषध है जिसके भले प्रकार सेवन से भारत के सभी भारी रोग दोष शांत हो सकते हैं। अर्थ-शास्त्र को धर्म-सिद्धांतों से मिलाकर इह लोक और परलोक दोनों में सुखद मत स्थापित करने में यह महात्मा समर्थ हुआ है। वेदों को इसी महात्मा ने पुनर्जन्म सा दिया। भारतवर्ष में बुद्धदेव, शंकर स्वामी, और स्वामी दयानंद-यही तीन मुख्य धर्मप्रचारक हुए हैं। इस महात्मा से संस्कृत तथा हिन्दी-प्रचार को भी बहुत बड़ा लाभ पहुँचा और आर्य्यसमाज के नियमानुसार हिन्दी का उन्नत करना भी एक धर्म है। ये महाशय गुजराती थे, तथापि राष्ट्र भाषा समझ कर इन्होंने हिन्दी ही को आदर दिया। यदि संसार के सर्वोत्कृष्ट महानुभावों की गणना की जावे तो उसमें स्वामी दयानंदजी का नम्बर अच्छा होगा। इस प्रबंध के लेखक आर्य्यसमाजी नहीं हैं और प्रतिमापूजन तथा श्राद्ध इत्यादि पर पूरा

विश्वास रखते हैं, तथापि उन्होंने ने औचित्य न छोड़ने के कारण उपरोक्त बातें कही हैं।

२७ वर्षों में ही आर्य्यसमाज ने बहुत बड़ी उन्नति करली है और इस समय लाखों मनुष्य पंजाब, युक्तप्रान्त, राजपूताना, मध्यदेश आदि में आर्य्यसमाजी हैं। इस मत की विशेष उन्नति पंजाब में है। पंजाबियों ही ने थोड़े दिन हुए कांगड़ी में गुरुकुल स्थापित किया जिसमें प्राचीन प्रथा के अनुसार शिक्षा दी जाती है। दयानंद-पेग्लो वैदिक कालिज भी स्वामीजी के अनुयायियों का स्थापित किया हुआ बहुत ही उत्तमता से चल रहा है। उसमें बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से स्कूल, अनाथालय, कन्यापाठशाला, समाज द्वारा स्थापित और परिचालित हो रहे हैं। भारतोन्नति में समाजियों ने खूब अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। जाति को कर्मभव मानकर स्वामीजी और समाज ने पतित जातियों के उद्धार में बहुत सहायता दी। भारतधर्ममहामंडल को भी हिन्दुओं ने स्वामीजी एवम् आर्य्यसमाज ही के कारण स्थापित किया, जिससे संस्कृत और भाषा-प्रचार को बहुत लाभ हुआ और होने की आशा है। यदि समाज द्वारा हिन्दू-धर्म की बुराइयों का कथन न होता, तो हिन्दू उसके रक्षणार्थ कोई उपाय कभी न करते और न सनातन-धर्ममहामंडल स्थापित होता। इस मंडल की उत्तेजना से हरिद्वार में एक ऋषिकुल खोला गया है जिसमें भी हिन्दूधर्म के अनुसार विद्यार्थियों की शिक्षा होती है। समाज एवम् मंडल ने उपदेशकों द्वारा सर्वसाधारण के ज्ञान वृद्धि की रीति चलाई है, जिससे हिन्दी में वक्तृता देने वालों और वक्तृता शक्ति की अच्छी उन्नति हो रही

है। इस प्रथा के कारण बहुत से उपदेशक और व्याख्यानदाता हुए हैं, जिनका वर्णन यथास्थान किया जावेगा। हमें खेद के साथ यह भी लिखना पड़ता है कि ऐसे बड़े बड़े प्रसिद्ध एवम् प्रवीण व्याख्यानदाताओं में भी पंडितमोहिनी विद्या के स्थान पर मूर्ख-मोहिनी विद्या अधिक पाई जाती है। इसका कारण शायद भारतवर्ष के साधारण जनसमुदाय की मूर्खता ही है और उनके युक्तिपूर्ण व्याख्यान न समझने के कारण ही मूर्खमोहक व्याख्यान दिये जाते हैं, परंतु फिर भी बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यानों में भी मूर्खमोहिनी शक्ति का प्रयोग देख कर परम शोक होता है। उपदेशकों की प्रशंसा में इतना अवश्य कहना चाहिए कि बहुतों की जिह्वा में ईश्वर ने इतना बल दिया है कि वे अपने श्रोताओं को सलाह तक सकते हैं। समाज और मंडल दोनों के सहायक हिन्दी की अच्छी उन्नति कर रहे हैं और उन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथ भी रचे हैं। समाज और मंडल के द्वारा कई अच्छे अच्छे पत्र भी परिचालित हो रहे हैं। इस निबंध को हम स्वामीजी की भाषा का एक नमूना देकर समाप्त करते हैं।

उदाहरण:—

जो असम्भूति अर्थात् अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात् अज्ञान और दुःख-सागर में डूबते हैं; और सम्भूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि भूत, पापाण और वृक्ष आदि अवयव और मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अंधकार से भी अधिक अंधकार अर्थात् महामूर्ख चिरकाल घोर दुःख रूप नरक में गिर के महाक्लेश भोगते हैं। जो सब जगत् में व्यापक है,

उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मूर्त्ति नहीं है। जो वाणी की इयत्ता, अर्थात् यह जल है लीजिए, वैसा विषय नहीं और जिसके धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है, उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर, और जो उससे भिन्न है, वह उपासनीय नहीं। जो मन से इयत्ता कर मन में नहीं आता, जो मन को जानता है, उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर, जो उससे भिन्न जीव और अंतःकरण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर।

### ✓(२०७७) राजा लक्ष्मणसिंह ।

ये महाशय आगरा के रहने वाले थे। इनका कविताकाल संवत् १९१६ के इधर उधर है। ये संवत् १९१३ में डेपुटी कलेक्टर नियत हुए और १९४६ में इन्हें पेंशन मिली। संवत् १९२७ में सरकार से इन्हें राजा की पदवी राजभक्ति के कारण मिली। इनका जन्म संवत् १८८३ में हुआ और १९५३ में इनका स्वर्गवास हुआ। राजा साहब ने पहले पहल खड़ी बोली में कालिदास कृत “शकुंतलानाटक” का अनुवाद गद्य में करके संवत् १९१९ में प्रकाशित किया। इस पुस्तक का हिन्दी-रसिकों में बहुत बड़ा सम्मान हुआ और प्रथम संस्करण की सब प्रतियाँ बहुत जल्द बिक गईं। राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने शिक्षाविभाग के लिए बने हुए अपने गुटका में इसे भी उद्धृत किया। संवत् १९३२ में विलायत के प्रसिद्ध हिन्दीप्रेमी फ्रेडरिक पिनकाट महाशय ने इसे इंग्लिस्तान में छपवाया। इस पुस्तक को इंग्लैण्ड में यहाँ तक आदर मिला कि यह इंडियन सिविल-सर्विस की परीक्षापुस्तकों में सम्मिलित की गई। संवत् १९५३ में





राजा लक्ष्मणसिंह ।



यह फिर प्रकाशित की गई। इस बार राजा साहब ने मूल श्लोकों का अनुवाद गद्य के स्थान पर पद्य में कर दिया। संवत् १९३४ में राजा साहब ने रघुवंश का अनुवाद गद्य में मूल श्लोकों के साथ प्रकाशित किया। यह एक बहुत बड़ी पुस्तक है। इसके अनुवाद की भाषा सरल एवं ललित है, और उसमें एक विशेषता यह भी है कि अनुवाद शुद्ध हिन्दी में किया गया है; यथासाध्य कोई शब्द फ़ारसी अरबी का नहीं आने पाया है।

संवत् १९३८ में इन महाशय ने प्रसिद्ध मेघदूत के पूर्वाद्ध का पद्यानुवाद छपवाया और संवत् १९४० में उसके उत्तराद्ध का भी अनुवाद प्रकाशित करके ग्रन्थ पूर्ण कर दिया। यह ग्रन्थ चौपाई, दोहा, सोरठा, शिखरिणी, सवैया, छप्पै, कुण्डलिया, और घनाक्षरी छन्दों में बनाया गया है, जिनमें भी सवैया और घनाक्षरी अधिक हैं। इन्होंने दोहा, सोरठा और चौपाइयों में तुलसीदास की भाषा रक्खी है और शेष छन्दों में ब्रज भाषा। इनके गद्य में भी दो चार स्थानों पर ब्रज भाषा मिल गई है, परन्तु उसकी मात्रा बहुत ही कम है। इनकी भाषा मधुर एवम् निर्दोष है, परन्तु इनका पद्य-भाग उतना अधिक प्रशंसनीय नहीं है जितना कि गद्य-भाग। इनके पद्य-भाग की गणना छत्र कवि की श्रृण्णी में की जाती है, और गद्य के लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाय वह सब योग्य है। वर्तमान हिन्दी-भाषा का प्रचार जब तक भारत-वर्ष में रहेगा तब तक विद्वन्मंडली में राजा साहब का नाम बड़े आदर के साथ लिया जावेगा। इनकी रचना में से कुछ उदाहरण नीचे उद्धृत किये जाते हैं:—

## शकुन्तला नाटकः—

“अनसूया—( हैले प्रियम्बदा से ) सखी मैं भी इसी सोच विचार में हूँ ॥ अब इससे कुछ पूछूंगी ॥ ( प्रगट ) महात्मा तुम्हारे मधुर बचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो ? और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहां पधारे हो ? क्या कारण है जिस से तुमने अपने कोमल गात को इस कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है ?”

“( १६२ ) पृथ्वी ऐसी जान पड़ती है मानो ऊपर को उठते हुए पहाड़ों की चोटी से नीचे को खिसलती जाती है वृक्षों की पोंड जो पत्तों में ढकी हुई सी थीं खुलती आती हैं नदियों का पतलापन मिटता जाता है और भूमंडल हमारे निकट आता हुआ ऐसा दीखता है मानो किसी ने ऊपर को उछाल दिया है ॥”

## मेघदूतः—

रसबीच मैं लै चलियो निरविन्ध कौ जो मग तेरो निहारती हूँ ।  
 कटि किंकिनि मानो विहंगम पाँति तरङ्ग उठे भनकारती हूँ ॥  
 मनरञ्जनि चालि अनेखी चले अरु भोर की नाभि उधारती हूँ ।  
 बतरात है मीत सों आदि यही तिय विभ्रम मोहनी डारती हूँ ॥  
 मीत के मंदिर जाति चली मिलि हूँ तहँ केतिक राति में नारी ।  
 मारग सूझ तिन्हें न परै जब सूचिका भेदि झुकै अँधियारी ॥  
 कंचन रेख कसोटी सी दामिनि तू चमकाइ दिखाइ अगारी ।  
 कीजियो ना कहुँ मेह की घोर मरै अबला अकुलाइ बिचारी ॥

रघुवंशः—

मूल

वागर्थ्याविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।

जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ १ ॥

अनुवाद

वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त मैं वन्दना करता हूँ  
वाणी और अर्थ की नाईं मिले हुए जगत के माता पिता शिव  
पार्वती को ॥ १ ॥

क सूर्यप्रभवो वंशः क चालपविषया मतिः ।

तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ॥ २ ॥

अनुवाद

कहाँ वह वंश जिसका पिता सूर्य है और कहाँ थोड़े व्यवहार  
वाली (मेरी) बुद्धि, मैं अज्ञानता से कठिन समुद्र को फूस की नाव  
से उतरना चाहता हूँ ॥ २ ॥

मूल

मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् ।

प्रांशु लभ्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः ॥ ३ ॥

अनुवाद

कवियों के यश का अभिलाषी मैं मन्दबुद्धि हँसी को पडुँ-  
चूँगा, जैसे लम्बे मनुष्य के हाथ लगने योग्य फल की ओर लोभ  
से ऊँची बाँह करने वाला बौना ॥ ३ ॥

## ( २०७८ ) शंकरसहाय अग्निहोत्री ( शंकर ) ।

ये महाशय दरियाबाद ज़िला वारहवंकी-निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं । इनका जन्म संवत् १८९२ विक्रमीय का है । छः सौ वर्ष से इनके पूर्व पुरुष इसी ग्राम में रहे । इनके पिता का नाम पंडित बचचूलाल और मातामह का पं० रामबक्स तेलारी था । ११ वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ । इनके कोई पुत्र नहीं है, परन्तु दो पुत्री व दो दौहित्र वर्तमान हैं, जिनके नाम संगमलाल और कृष्णदत्त हैं । ये दोनों इन्हीं के साथ रहते हैं । संगमलाल कविता भी करते हैं । शंकरसहायजी ने ३२ वर्ष की अवस्था से काम करना प्रारम्भ किया । पहले १६ वर्ष तक इन्होंने पाठशालाओं में अध्यापकी की और फिर २२ वर्ष पर्यंत राय शंकरवली तम्रल्लुकदार के यहाँ ज़िलेदारी की । अब तीन साल से पेंशन पाते हैं । इन्होंने कविता-मंडन नामक एक अलङ्कारग्रंथ बनाया है, जिसमें ३७८ छंद हैं, जिन में सवैया बहुतायत से हैं और घनाक्षरी कम । यह ग्रंथ अभी मुद्रित नहीं हुआ है और न क्रमबद्ध लिखा ही गया है । हम इनसे मिलने दरियाबाद गये थे, जहाँ उपर्युक्त हाल इन्हीं महाशय के द्वारा हमें विदित हुआ, परन्तु अपना ग्रंथ ये हमें नहीं दिखा सके । इसके अतिरिक्त इन्होंने स्फुट छंद भी बनाये हैं । इस कवि में समालोचना-शक्ति बहुत तीव्र है । हमारे करीब ३ घंटे बातचीत करने में अग्नि-होत्रीजी ने बहुत कम कवियों के विषय पूज्यभाव प्रकट किया । ये महाशय तुलसीदास और सेनापति को बहुत अच्छा समझते और पद्माकर एवम् ठाकुर को बहुत निंद्य मानते थे । इनकी समा-

लोचना में रियायत का नाम नहीं है । आप प्रत्येक विषय पर अपना स्वतंत्र विचार प्रकट किये बिना नहीं रहते थे, चाहे वह श्रोता को अप्रिय ही क्यों न हो । कविता के इतने प्रेमी हैं कि जब ९॥ वजे दिन को हम इनके यहाँ गये, तब आप स्नान के लिए जा रहे थे, परन्तु बिना स्नान किये ही ३ घंटे तक हमारे पास बैठे रहे और हमारे बहुत कहने पर भी हमारे चले आने के प्रथम आपने स्नान करना स्वीकार न किया । इनसे बात करने में हमें निश्चय हुआ कि इनके चित्त में कविता-प्रेमपादप का सच्चा अंकुर है, परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी इनको प्राचीन कवियों के पद तथा भाव उठा लेने की पेशी कुछ बालि सी पड़ गई है कि इनके उत्तम छन्दों में भी चोरी का संदेह उपस्थित रहता है । फिर भी इनकी भाषा उत्तम और कविता प्रशंसनीय है । हम इनकी गणना कवि तोष की श्रेणी में करते हैं । उदाहरण—

अँग आरसी से जुपै भाखत है हरि आरसी ही को निहारा करौ ।  
 सम नैन जो खंजन जानत तौ किन खंजन ही सों इसारा करौ ॥  
 भनि संकर संकर से कुच तौ कर संकर ही पर धारा करौ ।  
 मुख मेरो कहौ जो सुधाकर सो तौ सुधाकरै क्यों न निहारा करौ ॥  
 प्रवाल से पाँय चुनी से लला नख दंत दिपै मुकतान समान ।  
 प्रभा पुखराज सो अंगनि में बिलसै कच नीलम से दुतिमान ॥  
 कहै कवि संकर मानिक से अधराहन हीरक सी मुसकान ।  
 बिभूषन पंनन के पहिरे बनिता बनी जौहरी कीसी दुकान ॥

क्रोध में आकर इस कवि ने बहुत से भँडौआ भी बनाये हैं ।

थोड़े दिनों से ये विचारे कुछ विक्षिप्त से हो गये थे और संवत् १९६७ में स्वर्गवासी हुए ।

(२०७६) गदाधर भट्ट ।

ये महाशय मिहींलाल के पुत्र और प्रसिद्ध कवि पद्माकर के पौत्र थे । इनका स्वर्गवास दतिया में ८० वर्ष की अवस्था में संवत् १९५५ के लगभग हुआ था । जैपुर, दतिया और सुठालिया के महाराजाओं के यहाँ इनका विशेष मान था । जैपुर के महाराजा सवाई रामसिंह की इच्छानुसार इन्होंने संवत् १९४२ में कामांधक नामक संस्कृत-नीति का भाषा-छन्दों में अनुवाद किया । अलंकारचन्द्रोदय, गदाधर भट्ट की बानी, कैसरसभाविनोद, और छन्दोमंजरी नामक इनके ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । अन्तिम ग्रन्थ कविजी ने सुठालिया के राजा माधवसिंह के आश्रय में बनाया । इसकी कवि ने वार्तिक व्याख्या भी लिखी थी । गदाधरजी का काव्य परम प्रशंसनीय और मनोहर है । इनकी भाषा खूब साफ़, सानुप्रास और श्रुतिमधुर है । हम इनको तोष कवि की श्रेणी में रखेंगे । उदाहरण ।

चारों ओर अटवी अट्ट अवनी पै

बनी तड़िनी तड़ाग धेनुसिंह न भगर है ।

गदाधर कहै चारु आश्रम वरन चार

सौल सत्य बादी दानी भूपति सगर है ॥

आपगा दुरग गज बाजि रथ प्यादे

घने अम्बिका महेस प्रभु भक्ति में पगर है ।



ऊमट नरेस माधवेस महाराज

जहाँ बैरिन को मारिया सुठारिया नगर है ॥

जौलौं जन्हुकन्यका कलानिधि कलानिकर

जटिल जटानि विच भाल छवि छन्द पै ।

गदाधर कहै जौलौं अश्विनी कुमार

हनुमान नित गावै राम लुजस अनन्द पै ॥

जौलौं अलकेस वेस महिमा सुरेस सुर

सरिता समेत सुर भूतल फनिन्द पै ।

विजै नृप नन्द श्री भवानीसिंह भूप

मनि बखत विलन्द तौलौं राजौ मसनन्द पै ॥

मौर को मौर विहाय गदाधर छोरि लटै नट वेस बनायो ।

(२०८०) बालदत्त मिश्र (पूरन) ।

आपका जन्म संवत् १८९१ में भगवन्तनगर जिला हरदोई में प्रसिद्ध माँभगाँव के मिश्रों वाले देवमणि वंश में हुआ था । आप के पिता पण्डित बालगोविन्द मिश्र बड़े ही दृढ़ आचरण के मनुष्य थे और प्राचीन प्रथा के ऐसे विकट अनुयायी थे कि गुरु-जनों की लाज निभाने को इनसे उन्होंने यावज्जीवन सम्भाषण नहीं किया । इनके बड़े भाई मुखलालजी के कोई पुत्र जीवित नहीं रहा, सो इनकी स्त्री ने अपने एक मात्र पुत्र बालदत्तजी को प्रपती जेठानी को दे दिया । इस समय आपकी अवस्था सात वर्ष की थी । इसी समय से अपने काका के साथ आप इटाँजा जिला रखनऊ में रहने लगे । काका के पीछे आपने उनका काम काज

सँभाला और अपनी व्यापारपटुता से थोड़ी सी सम्पत्ति को बढ़ा कर अच्छा धन उपाज्जन किया । आपने संवत् १९५६ में अपने मृत्युकाल तक साधारणतया बड़ी ज़िम्मेदारी पैदा करली । याव-ज्जीवन आपने गम्भीरता को निबाहा । सुरलोकयात्रा से ३ वर्ष प्रथम आप इटौंजा छोड़ सकुटुम्ब लखनऊ में रहने लगे थे । बालकपन में आपने हिन्दी तथा संस्कृत का कुछ अभ्यास किया और कुछ गीता को भी पढ़ा, परन्तु इनके काका को इनका गीता पढ़ना इस कारण अरुचिकर हुआ कि गम्भीर स्वभाव को बढ़ाकर कहें ये संसार-त्यागी न हो जावें । काका की आज्ञा मान कर इन्होंने गीता छोड़ दिया । गंधौली के लेखराज कवि इनके एक अन्य काका के पौत्र थे । गंधौली इटौंजा से केवल १२ मील पर है, सो इन दोनों महाशयों में प्रीति बहुत थी और जाना आना भी बहुधा रहता था । लेखराजजी इनसे ३ वर्ष बड़े थे । इन कारणों एवं स्वभावतः रुचि होने से आपका कविता की ओर भी रुझान हो गया और सैकड़ों छन्द बन गये, पर पीछे से व्यापार में विशेष रूप से पड़ जाने के कारण आपकी कविता रचना बिल्कुल छूट गई, यहाँ तक कि प्राचीन छन्दों के रक्षित रखने का भी आपने प्रयत्न न किया । फिर भी प्राचीन कवियों के ग्रन्थ देखने की रुचि आपकी वैसीही रही और हम लोगों को काव्य तत्त्व बताने में आप सदैव चाव रखते रहे । आपकी रचना में अब केवल थोड़े से छन्द सुरक्षित हैं, जिनमें से उदाहरणस्वरूप दो छन्द यहाँ लिखे जावेंगे । आपके चार पुत्र और दो कन्यायें दीर्घजीवी हुईं, जिनमें से बड़े भाई लखनऊ में वकालत करते हैं और छोटे

तीन इस इतिहास-ग्रन्थ के लेखक हैं। विशाल कवि आपके छोटे जामातृ थे। इनकी बड़ी पुत्री के दो पुत्र हैं, जिनमें छोटा भाई अनन्तराम वाजपेयी गद्य-लेखन का बड़ा उत्साही है। वह अभी यफ़० ए० दर्जे में पढ़ता है। इनका पौत्र लक्ष्मीशंकर मिश्र विलायत में पढ़ता है। वह भी कुछ कुछ छन्द बनाने और गद्य लिखने में रुचि रखता है। आप कविता में अपना नाम पूर्ण अथवा पूरन रखते थे। उदाहरण।

लाल से लाल बने हृग लाल के

जाचक भाल विसाल रह्यो फवि ।

स्यों अघरान में अंजन लीक है

पीक भरे कहि देत महाछवि ॥

पीत पटी बदली कटि में लखि

नारि सकोचनहीं सां रही दवि ।

पूरन प्रीति की रीति यही पिय

दच्छिन झूठ कहैं तुम को कवि ॥

पानी धूम इन्धन मसाला संग आतस

के हिकमति कोठरी अनूप हहरानी है ।

उठत प्रभंजन कै घन घहरात ठौर ठौर

ठहरात जात जोर की निसानी है ॥

चाल की न थाह जाकी पूरन विचारि

कहै पवन विमान वान गति तरसानी है ।

नर लै समूह जूह भार लै अपार कूह

करत न रूह फेरि ताकी दरसानी है ॥

(२०८१) सीतारामशरण भगवानप्रसाद  
(रूपकला) ।

आपका जन्म संवत् १८९७ में सारन ज़िला के अंतर्गत गोआ परगने के मुवारकपुर ग्राम में कायस्थ कुल में हुआ। इन्होंने फ़ारसी, उर्दू, हिन्दी और अँगरेज़ी की शिक्षा पाई। ये पहले ही शिक्षा-विभाग के सब-इन्स्पेक्टर नियत हुए। आप रामानन्दी सम्प्रदाय के वैष्णव थे। इन्होंने सन् १८९३ ई० तक बहुत योग्यता के साथ एसिस्टेंट-इन्स्पेक्टरी का काम किया। इस समय आपका मासिक वेतन ३००) था। इसी समय आपने पेंशन लेली। आपके कोई सन्तान न थी, गृहिणी का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था और चित्त में भगवद्भक्ति तथा वैराग्य की मात्रा पहले ही से अधिक थी, अतः पेंशन लेने के पश्चात् आप श्रीअयोध्याजी में जाकर साधुओं की तरह वास करने लगे। इनके वनाये कुल १३ ग्रन्थ हैं, जिनमें से ४ उर्दू के हैं और शेष ९ हिन्दी के। आप बड़े ही मिलनसार तथा सरल-हृदय और भक्त हैं। आपके रचित ग्रन्थों के नाम ये हैं :—  
तनमन की स्वच्छता १, शरीरपालन २, भागवत गुटका ३, पीपाजी की कथा ४, भगवद्भवनामृत ५, भक्तमाल की टीका ६, सीताराम-मानसपूजा ७, भगवन्नामकीर्तन ८, श्रीसीतारामीय प्रथम पुस्तक ९, ।

(२०८२) फेरन ।

इनका जन्म-स्थान, समय इत्यादि कुछ ज्ञात नहीं है, परन्तु इनकी कविता से विदित होता है कि ये महाराज विश्वनाथसिंहजी

चाँधवनरेश के कवि थे । कविता इनकी सारगर्भित और प्रशंसनीय है । हम इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में करते हैं । महाराजा विश्वनाथसिंहजी सं० १९२० में राज्य पर थे । उसी समय यह भी विद्यमान थे । इनका कविताकाल १९२० के लगभग समझना चाहिए ।

अमल अनार अरविंदन को वृंद वारि

विग्वाफल विद्रुम निहारि रहे तूलि तूलि ।

गेंदा औ गुलाव गुललाला गुलावास

आव जामें जीव जावक जपा को जात भूलि भूलि ॥

फेरन फवत तैसी पायन ललाई लोल

ईंगुर भरेसे डोल उमड़त झूलि झूलि ।

चाँदनी सी चन्द्रमुखी देखौ ब्रजचन्द्र उठै

चाँदनी विछैना गुलचाँदनी सी फूलि फूलि ॥१॥

गृहिन दरिद्र गृह त्यागिन विभूति

दियो पापिन प्रमोद पुन्यवंतन छलो गयो ।

प्रसित प्रहेश कियो सति को सुचित्त

लघु व्यालन अनन्द शेष भारन दलो गयो ॥

फेरन फिरावत गुनीन नित नीच द्वार

गुनन विहीन तिन्हें बैठे ही भलो भयो ।

कहाँ लौ गनाऊँ दोख तेरे एक आनन सों

नाम चतुरानन पै चूकतै चलो गयो ॥२॥

जनम समै मैं ब्रज रच्छन समै मैं

सजि समर समै मैं ज्ञान यज्ञ जप जूट मैं ।

देव देवनाथ रघुनाथ विश्वनाथ  
 करी फूल जल दान वान बरखा अटूट मैं ॥  
 फेरन विचारयो शुभ वृष्टि को विचार यश  
 चारिहू जनेन को प्रसिद्ध चारि खूट मैं ।  
 अवध अकूट मैं गोवरधन कूट मैं  
 सुतरल त्रिकूट मैं विचित्र चित्रकूट मैं ॥ ३ ॥  
 चंदन चहल चावा चादनी चंदौवा चारु  
 घनो घनसार घेर साँच महबूबी के ।  
 अतर उसीर सीर सौरभ गुलाब नीर  
 गजव गुजारै अंग अजव अजूबी के ॥  
 फेरन फवत फैलि फूलन फरस तामें  
 फूल सी फबी है बाल सुंदर सु खूबी के ।  
 विसद विताने ताने तामें तहखाने  
 बीच वैठी खसखाने मैं खजाने खोलि खूबी के ॥४॥

(२०८३) मोहन ।

इस नाम के चार कवि हुए हैं, जिनमें से हम इस समय चर-  
 खारी वाले मोहन का वर्णन करते हैं, जिन्होंने १९१९ में शृंगार-  
 सागर नामक ग्रन्थ बनाया । यह ग्रन्थ हमने देखा है । इनकी कविता  
 अच्छी होती थी । ये साधारण श्रेणी के कवि हैं ।

चन्द सो वदन चारु चन्द्रमा सी हाँसी परि-  
 पूरन उमासी खासी सुरति सोहाती है ।  
 नीति प्रीति रीति रति रीति रस रीति गीत

गीत गुन गीत सील सुख सरसाती है ॥  
 मोहन मसगल दीप माल मन माल जोति  
 जाल महताव आव दुरि दुरि जाती है ।  
 आछे अति अमल अनूप अनमोल तन  
 अतन अतोल आभा अंग उफनाती है ॥

(२०८४) मुरारिदासजी कविराज ।

ये सूरजमल कविराज के दत्तक पुत्र थे । इनका जन्म संवत् १८१५ में वूँदी में हुआ और मृत्यु संवत् १९६४ में । ये संस्कृत, प्राकृत, डिंगल तथा हिन्दी भाषा के अच्छे ज्ञाता और कवि थे । इन्होंने वूँदीनरेश रामसिंहजी की आज्ञा से वंश-भास्कर का पूरा किया, जिस पर इन्हें बड़ा पुरस्कार दिया गया । इनकी जागीर में पाँच गाँव थे । इन्होंने वंशसमुच्चय तथा डिंगल-कोष नामक ग्रन्थ बनाये । इनकी कविता प्राकृत-मिश्रित ब्रजभाषा में होती थी । इनकी गणना तोष की श्रेणी में की जाती है ।  
 उदाहरण :—

कीरति तिहारी सेत सत्रुन के आनन में  
 ठौर ठौर अहो निसि मेवक मिलावै है ।  
 बहुत प्रताप तप्त साधु जन मानस को  
 ऐसो सीर अमृत ज्यों सीतल करावै है ॥  
 प्रभु से प्रतापी प्रजापालन प्रचंड दंड  
 उत्तम प्रजाद चित्त सज्जन चुरावै है ।

महाराज राजा श्रीदिवान रघुवीर

धीर रावरे गुनूँ के रवि लच्छन स्वभावै है ॥१॥

सेस अमरेस औ गनेस पार पावै

नाहिँ जाके पद देखि देखि आनँद लियो करै ।

अक्षर है मूल फेरि व्यक्त औ अव्यक्त भेद

ताही के सहाय सब उपमा दियो करै ॥

अव्यय है संज्ञा तीनों काल में अमोघ

क्रिया वाके रसलीन होय पीयुष पियो करै ।

रचना रचावै केहि भाँति तैँ मुरारिदास

ऐसे शब्द ईश्वर को मनन कियो करै ॥२॥

नाम—(२०८५) शालिग्राम शाकद्वोपी (ब्राह्मण) । कोपागंज,

ज़िला आजमगढ़ ।

ग्रन्थ—१ काव्यप्रकाश की समालोचना, २ भाषाभूषण की समालोचना ।

विवरण—इनका जन्म संवत् १८९६ में हुआ था और १९६० में स्वर्गवास हो गया । कविता साधारण श्रेणी की है । इनका कविताकाल संवत् १९२० मानना चाहिए ।

उदाहरण ।

रहुरे वसन्त तोहि पावस करौंगी

आजु कोकिल के रचना कै मोर सेाँ नचावौंगी ।

टुक टुक चन्द्र कै कै जुगुनु उड़ाय दैहैं

तानि नभलीलपट घटा दरसावौंगी ॥



कहैं शालिग्राम यह चन्द्रिका धनुष

ज्याति स्वदनके कनिकासे बुन्द भरिलावैंगी ।

कपटी कुटिल जिन भाल में लिखो है

ऐसै आज करतार मुखकार खलगावैंगी ॥

(२०८६) श्रौध (अयोध्याप्रसाद वाजपेयी) ।

ये महाशय सातन पुरवा, जिला रायवरेली के रहनेवाले महा-  
कवि और सभाचतुर हो गये हैं। इनका स्वर्गवास वृद्धावस्था में  
अभी १९५० के लगभग हुआ है। इन्होंने साहित्य-सुधासागर,  
छन्दानन्द, राससरवस्य, रामकवितावली, और शिकारगाह  
नामक उत्तम ग्रन्थ बनाये हैं। इनको अनुप्रास से विशेष प्रेम था।  
इनके मिलनेवालों ने हम से इनके विषय में बहुत सी मज़ाक की  
बाते कही हैं। एक बार एक राजा ने इन्हें मखमली अचकन और  
पायजामा दिया, पर सर के लिए कोई वस्तु टोपी आदि का देना  
वह भूल गया। इस पर आपने कहा कि 'वाह महाराज ! आपने  
मुझे ऐसा सिरोपाव दिया है कि घटाटोप।' इस पर लोगों ने भट  
टोप का भी घटना पूरा कर दिया। इनका काव्य प्रशंसनीय और  
सरस होता था। हम इन्हें पढ़ाकर कवि की श्रेणी में रक्खेंगे।  
उदाहरण ।

बाटिका त्रिहंगल पै, बारि गात रंगन पै,

वायु वेग गंगन पै बसुधा बगार है ।

वाँकी बेनु तानन पै, बंगले बितानन पै,

बेस श्रौध पानन पै बीथिन बजार है ॥

वृन्दावन बेलिन पै, वनिता नबेलिन पै,  
 ब्रजचन्द्र केलिन पै वंसी बट मार है ।  
 बारि के कनाकन पै, बद्दलन वांकन पै,  
 बीजुरी बलाकन पै बरषा बहार है ॥१॥

चारौ और राजैं औध राजै धर्मराजै  
 दुसमन की पराजै है सदाजै खतरान की ।  
 ब्रह्मायच वासी भगवान ने उदासी  
 कहैं वीवियाँ मियाँ है तुम्हें खता खरुकान की ॥

जानकी जहान की इमान की खराबी  
 हाय डूना मनसूना तूना कलम कुरान की ।  
 रामजी की सादी फिरँगान की मनादी  
 हिंदुवान की अवादी बरवादी तुरकान की ॥२॥

आई देखि गुय्यां में नरेस अँगनैया  
 जहँ खेलै चारौ भैया रघुरैया सुख पाय पाय ।  
 लोनी लरिकैया दै भँकैया में बलैया  
 जाउँ वैयाँ वैयाँ चलत चिरैयाँ गहँ धाय धाय ॥

पीछे पीछे मैया हेत लैया जैसे गैया हाथ  
 मेवा औ मिटैया गहि देतीं मुख नाय नाय ।  
 वारैं नोन रैया औध आनँद बढ़ैया  
 मेरे निधनी के छैया डुलरावैं गुन गाय गाय ॥३॥

इनका राससर्वस्व हमने छत्रपूर में देखा है । उसमें १३  
 बढिया छन्द हैं ।

## (२०८७) लछिराम ब्रह्मभट्ट ।

ये महाशय संवत् १८१८ में स्थान अमोढ़ा, जिला बस्ती में उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम पलटनराय था । इनका एक २६ पृष्ठ का जीवनचरित्र हुनराय-निवासी पंडित नकछेदी तिवारी ने लिखा है जो हमारे पास वर्तमान है । इस वर्ष की अवस्था में लछिरामजी ने लामाबक, जिला मुल्तापुर-निवासी ईश कवि से काव्य संरचना आरम्भ किया । सोलह वर्ष की अवस्था में ये अवध-नरेश महाराजा नानसिंह के यहाँ गये और उन्होंने कृपा करके इन्हें कविता में और भी परिपक्व किया । महाराजा साहब की इन पर उसी समय से बड़ी कृपा रहती थी । उन्होंने पीछे से इन्हें कविराज की पदवी भी दी और सदैव इनका मान किया । वे तो लछिरामजी बहुत से राजाओं महाराजाओं के यहाँ गये, परन्तु ये महाराजा अयोध्या और राजा बस्ती को अपना सरकार समझते थे । राजा सीतलाचूड़सिंह (राजा बस्ती) ने इन्हें ५०० बीघा भूमि का चरथी ग्राम, हाथी आदि भी दिया । इनका मान बड़े बड़े महाराजाओं के यहाँ होता था और इन्होंने लिख महाशयों के नाम ग्रन्थ भी बनाये :—

१ मानसिंहाष्टक, २ प्रतापरत्नाकर (महाराजा प्रतापनारायणसिंह अयोध्या-नरेश के नाम), ३ प्रेमरत्नाकर (राजा बस्ती के नाम), ४ लक्ष्मीश्वररत्नाकर (महाराजा दरभंगा के नाम), ५ रावणेश्वर कल्पतरु (राजा गिद्धौर के नाम), ६ महेश्वरविलास (ताल्लुकदार रामपुर मथुरा जिला सीतापुर के नाम), ७ मुनीश्वर-कल्पतरु (राव-

मल्लापुर के नाम), ८ महेन्द्रभूषण (राजा टीकमगढ़ के नाम),  
९ रघुवीरविलास (बाबू गुरुप्रसादसिंह गिद्धोर के नाम), और  
१० कमलानन्दकल्पतरु (राजा पूर्निया के नाम)। इन ग्रन्थों के अति-  
रिक्त इन्होंने नीचे लिखे हुए और भी ग्रन्थ बनाये:—

११ रामचन्द्रभूषण, १२ हनुमतशनक, १३ सरयूलहरी,  
१४ रामरत्नाकर, और १५ नायिकाभेद का एक और अपूर्ण ग्रन्थ ।

इनमें से बहुत से रीति, अलंकार, भावभेद, रसभेद तथा स्फुट  
विषयों पर बड़े बड़े ग्रन्थ हैं। प्रेमरत्नाकर में इन्होंने बस्ती के वर्त-  
मान राजा पटेश्वरीप्रसाद नारायण का भी नाम लिखा है। इनका  
स्वर्गवास संवत् १९६१ में अयोध्या नगर में हुआ था। इनके एक  
छोटा सा पुत्र भी है जो अब ११ वर्ष का है।

लछिगाम की भाषा ब्रजभाषा है और वह सराहनीय है। इनके  
वर्त्तमान कवि होने के कारण इनकी ख्याति बड़ी विस्तीर्ण है। इन  
की कविता उत्तम और ललित होती थी। हम इन को तोष कवि  
की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण:—

पन्नालाल माले गज गौहर दुसाल साले

हीरालाल मोती मनि माले परसत हैं ।

महा मतवाले गजराजन के जाले

बरवाजी खेतवाले जड़े जीन दरसत हैं ॥

कवि लछिगाम सनमानि कै लुटावै नित

सावन सुमेघ साहिबी ते सरसत हैं ।

महाराज सीतला बकस कर मौजन सेां

बारिद लैं बारहौ महीने बरसत हैं ॥

चैत चन्द्र चाँदनी प्रकाश छोर छिति पर

मंजुल मरीचिका तरंग रंग बरसो ।

कोकनद, किंजुक, अनार, कचनार, लाल,

बेला, कुन्द, बकुल, चमेली, मोतीलर सो ॥

श्रीपति सरस स्याम सुन्दरी विहारथल

लछिगम राजें दुज आनंद अमर सो ।

दोँही ब्रजबागन विधेरात रतन फैल्यो

नागर बसन्त रतनाकर सुग्र सो ॥

लछिगम जी के ग्रंथ प्रायः सब प्रकाशित हो चुके हैं और वे बहुत करके भारतजीवन प्रेस में मुद्रित हुए हैं । हमारे पास इनके प्रेमरत्नाकर और रामचन्द्रभूषण नामक दो ग्रंथ वर्तमान हैं । ये दोनों बड़े ग्रंथ हैं ।

(२०८८) बलदेव ।

पंडित बलदेवप्रसाद अवस्थी उपनाम द्विज बलदेव कान्यकुब्ज ब्राह्मण कार्तिक वड़ी १२ संवत् १८९७ को मैजा, मानपूर जिला सीतापूर में उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम ब्रजलाल था । वे कृषिकार्य करते थे । बलदेवजी के तीन विवाह हुए, जिनसे इनके छः पुत्र और तीन कन्यायेँ वर्तमान हैं । इनके गंगाधर नामक एक और पुत्र था जो द्विज गंग के उपनाम से कविता करता था और जिसने शृंगारचन्द्रिका, महेश्वरभूषण, और प्रमदा पारिजात नामक तीन ग्रंथ संवत् १९५१, १९५४ और १९५७ में बनाये थे । परन्तु दुर्भाग्यवश सम्भवतः संवत् १९६१ में करीब ३५ वर्ष की अवस्था

में अपने पिता के सामने वह गौशोकवासी हुआ । इन तीन ग्रन्थों में से प्रथम में स्फुट रस काव्य, द्वितीय में अलंकार एवं तृतीय में भावभेद और रसभेद का वर्णन है । प्रथम में २० और द्वितीय में ११४ पृष्ठ हैं । तृतीय ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुआ है । द्विज बलदेवजी ने प्रथम ज्योतिष, कर्मकांड और व्याकरण को पढ़ा था । इनके चित्त में प्रेम की मात्रा विशेष थी, इसी कारण इनको काव्य करने का शौक हुआ । इन्होंने १८ वर्ष की अवस्था में दासापुर की भक्तेश्वरी देवी पर अपनी जिह्वा काट कर चढ़ा दी थी । अपनी जिह्वा का कटा हुआ शेष भाग भी इन्होंने हमें दिखाया है । अब वह ठीक हो गई है परन्तु उसमें काटने का चिह्न अब भी बना हुआ है । इन्होंने काशीवासी स्वामी निजानन्द सरस्वती से ३२ वर्ष की अवस्था में काव्य पढ़ा । इसके पहले भी ये महाशय काव्य करते थे । संवत् १९२९ में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बन्दकपाठक, शास्त्री बेचनराम, सरदार, सेवक, नारायण, रत्नाकर, गणेशदत्त व्यास आदि कवियों ने इन्हें उत्तम कवि होने की सनद दी । इस पर इन सब महाशयों के हस्ताक्षर हैं और यह अवस्थी जी ने हमें दिखाई है । संवत् १९३३ में इनके पिता का देहान्त हुआ । ये महाशय काव्य से ही अपनी जीविका प्राप्त करते हैं और बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के यहाँ जाते आते हैं । ये महाशय काशिराज, रीवाँनरेश, महाराजा जयपुर और महाराजा दरभंगा के यहाँ क्रम से गये हैं और उन सब के यहाँ इनका सम्मान हुआ है । रामपुर मथुरा ( जिला सीतापुर वाले ) और इटौंजा ( जिला लखनऊ ) के राजाओं ने इनका विशेष सम्मान किया है । इन राजाओं के नाम बलदेव जी ने ग्रन्थ भी

बनाये हैं । इनकी कविता से प्रसन्न होकर बहुत से राजाओं ने इन्हें भूमि और अन्य वस्तुओं का पुरस्कार दिया है । अब इनके पास इसी प्रकार पाई हुई दो हजार बीघा भूमि है, जिसमें से ५०० बीघा बाग लगाने को मिली थी । रामपुर के ठाकुर महेश्वरबख्श जी ने संवत् १९५४ में एक हाथी भी इन्हें दिया था । बहुत स्थानों पर इन्हें हज़ारों रुपये मिले हैं । वर्तमान अथवा थोड़े ही दिनों के मरे हुए कवियों में निम्न लिखित कविगण इनके मित्र अथवा मुलाकाती हैं:— औध, लछिराम, सेवक, सरदार, हरिश्चन्द्र, लेखराज, द्विजराज, ब्रजराज, दान, आनन्द, अनिलसिंह, विशाल, लच्छन, वैवीदत्त, जंगली, महाराज रघुराजसिंह ( रीवा ), गुरुदीन इत्यादि । ये महाशय हम लोगों पर भी कृपा करते हैं और अपने बनाये हुए सब ग्रन्थों की एक एक प्रति आपने हमें दी है । आप जब लखनऊ आते हैं तब हमारा ही यहाँ ठहरने की कृपा करते हैं । अपना उपर्युक्त वृत्तान्त एवं अपने ग्रन्थों का हाल हमें इन्होंने बताया है जो याथातथ्यरूपण हमने यहाँ लिख दिया । इनके ग्रन्थों का हाल हम नीचे लिखते हैं ।

( १ ) प्रताप-विनोद में पिंगल, अलंकार, चित्रकाव्य, रसभेद और भावभेद का वर्णन है । यह १७९ पृष्ठ का ग्रन्थ संवत् १९२६ में रामपुर मथुरा ज़िला सीतापुर के ठाकुर प्रतापसूद के नाम पर बना था ।

( २ ) शृंगारसुधाकर में शृंगाररस, शान्तरस, सज्जनों और अजस्रों का वर्णन है । यह हथिया के पवार दलधम्भनसिंह की आज्ञा से संवत् १९३० में बना था । इसमें पचास पृष्ठ हैं । इन दलधम्भनसिंह के पुत्र बजरंगसिंह हमारे

- मित्र हैं। ये महाशय भी अच्छा काव्य करते हैं और काशी-कोत-वाल की पचीसी नामक एक ग्रन्थ भी इन्होंने बनाया है।
- (३) मुक्तमाल में शान्तिरस के १०८ छन्द हैं। यह संवत् १९३१ में रानी मौजा कटेसर ज़िला सीतापूर के कहने से बना था। इसी ग्रन्थ के साथ इन्होंने रानी साहिबा की आज्ञा से रागाष्टयाम और समस्याप्रकाश नामक ५८ पृष्ठ के दो ग्रन्थ और भी बन कर तीनों एकी ग्रन्थ की भाँति ९७ पृष्ठ में छपे थे। रागाष्टयाम में आठ पहर के चौंसठ राग हैं और यह संवत् १९३१ में बना था। समस्याप्रकाश संवत् १९३२ में बना था और इसमें स्फुट समस्याओं की पूर्तियाँ हैं।
- (४) शृंगारसरोज ११ पृष्ठ का एक छोटा सा ग्रन्थ है, जिस में शृंगाररस के कवित्त हैं और जो संवत् १९५० में बना था।
- (५) हीराजुबिन्धी में १३ पृष्ठों द्वारा संवत् १९५३ में महारानी के साठ वर्ष राज्य करने का आनन्द मनाया गया है।
- (६) चन्द्रकलाकाव्य में वृंदा की चन्द्रकला वाई की प्रशंसा है। यह भी संवत् १९५३ में बना था और इसमें २० पृष्ठ हैं।
- (७) अन्योक्तिमद्देश्वर संवत् १९५४ में रामपुर मथुरा के ठाकुर मद्देश्वरवल्श के नाम पर बना था। इसमें ५६ पृष्ठों द्वारा अन्योक्तियाँ कही गई हैं।



- (८) ब्रजराजविहार २७० पृष्ठ का एक बड़ा ग्रन्थ इटौंजा के राजा इन्द्रविक्रमसिंह की आज्ञानुसार संवत् १९५४ में समाप्त हुआ। इनमें श्री कृष्णचन्द्र की कथा विविध छन्दों में सविस्तर वर्णित है।
- (९) प्रेमतरंग बलदेवजी की कविता का संग्रह सा है। इसमें २३ पृष्ठ हैं और यह संवत् १९५८ में बना था। इस ग्रन्थ में स्फुट विषयों की कविता है।
- (१०) बलदेव विचाराके एक सौ पृष्ठ का गद्य-पद्य-मय ग्रन्थ संवत् १९६२ में बना था। इसमें पद्य का भाग बहुत ही न्यून है। इस ग्रन्थ में अवस्थीजी ने बहुत से विषयों पर अपनी अनुमति प्रकट की है और सब विषयों में इनका यही मत है कि असम्भव बातों के दिखानेवाले, ज्योतिष के कहने वाले, बड़ी बड़ी भड़कीली दवाइयों के बेचने वाले आदि प्रायः बंचक हुआ करते हैं। इन्होंने यत्र तत्र ऐसे लोगों से बचने के भी अच्छे उपाय लिखे हैं। यद्यपि अवस्थीजी अँगरेजी नहीं पढ़े हैं, तो भी यह ग्रन्थ वर्तमान काल के विचारों के अनुकूल है। इस से अवस्थीजी की स्वाभाविक बुद्धि-प्रखरता प्रकट होती है।

अवस्थीजी ने समस्यापूर्ति पर भी बहुत सी रचना की है। आशु कविता का भी इन्हें अच्छा अभ्यास है यहाँ तक कि इन्होंने बीस पच्चीस साल से यह दर्पोक्ति का वचन कह रक्खा है कि—

“देइ जो समस्या तापै कवित बनाऊँ चट कलम रुकै तो कर कलम कराइये।” इस कथन के पुष्ट्यर्थ इन्होंने बहुत से छन्द बहुत

स्थानों पर बनाये, परन्तु कहीं इन का कलम नहीं रुका । इन्होंने ब्रजभाषा में कविता की है और वह अच्छी है । इन की कविता के उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं:—

( द्विजवलदेव कृत )

कहा हूँ है कछु नहीं जानि परै सब अंग अनंग सों जोरि जरे ।  
 उतै वीथिन में बलदेव अचानक दीठि प्रकाशक प्रेम परे ॥  
 हंसि कै गे अयान दया न दई है सयान सबै हियरे के हरे ।  
 चले कौन ये जात लिये मन मो सिर मोर की चन्द्रकला को धरे ॥  
 सागर सनेह सील सज्जन सिरामनि त्यों हंस कैसो न्याव लोक  
 लायक कै लेख्यो है । गुन पहिँचानिये को कवन कसौटी मनो द्विज  
 बलदेव विश्व विशद विशेष्यो है ॥ आछे रहै जौलों लोक लोमस  
 सुजस जूह धरम धुग्न्धर रुचिर रीति रेख्यो है । राधाकृष्ण प्रेम-  
 पात्र महाराज राजन में इन्द्र विकरमसिंह जम्बूदीप देख्यो है ॥  
 खुर्द घटै बढ़ै राहु गसै विरही हियरे घने घाय घला है ।  
 सो तौ कलंकित त्यों विष बन्धु निसाचर वारिज वारि बला है ॥  
 प्रेम समुद्र बढ़ै बलदेव के चित्त चकोर को चोप बला है ।  
 काव्य सुधा बरषै निकलंक उदै जससी तुही चन्द कला है ॥

( द्विज गंग कृत )

दमकत दामिनी लौं दीपति दुचन्द दुति दरसै अमन्द मनि  
 मन्दिर के दर तै । भांकति भरोखे चलि बाल ब्रजराज जू को सारी  
 सेत सुन्दरि सरकि गई सर तै ॥ द्विज गंग अंग पर अलकै कुटिल  
 लुरै मुक्तमाल सहित सुधारै कंज कर तै । मानो कढ़यो चन्द लै कै  
 पन्नग नछत्र वृन्द मन्द मन्द मंजुल मनोज मानसर तै ॥

हम इन की गणना तोप कवि की श्रेणी में करेंगे ।

(२०८६) विडम्बित्तिहजा उपनाम (माधव) ।

इनका जन्म संवत् १८९७ में अलवर के अन्तर्गत किशुनपुर में हुआ था । आप जाति के चौहान हैं । आपके पूर्वजों को ३ गाँव दरवार अलवर से मिले हैं, जो अब तक इनके अधिकार में हैं । आपकी कविता सरस होती है । उदाहरण :—

कायल कूकतें हूक हिए उठि है चपलान तैं प्रान डरेंगे ।  
 देखि कै बुंदन की भरि लोचन सोचन सो अंनुवान भरेंगे ॥  
 माधव पाँध की याद दिवाय पपीहरा चित्त को चेत हरेंगे ।  
 प्राति छिरी प्रव क्यौं रहिहै सखि ए बदरा बदनाम करेंगे ॥१॥  
 कलंक धरै पुनि दोष करै निसि में विचरै रहि बंक हमस ।  
 उदै लखि मित्र को हान मलीन कमेदिनि को सुखदानि विसेस ॥  
 रखै रुचि माधव वारुनी की वपुरे विरहीन को देत कलेस ।  
 न जानिए काह विचारि विरचि धरयो यहि चंद को नाम दुजेस ॥२॥

(२०६०) लखनेस ।

पाँडे लक्ष्मणप्रसादजी उपनाम लखनेस कवि रीवाँ-नरेश महाराजा विश्वनाथसिंह के मन्त्री पंडित वंसीधर पाँडे सरयू-पारीण ब्राह्मण के पुत्र थे । ये पण्डितजी महाराजा के बड़ेही कृपा-पात्र थे और इन्हें सेनापति और मित्र का भी पद प्राप्त था । महाराजा विश्वनाथसिंहजी के पुत्र प्रसिद्ध कवि महाराजा रघुराजसिंहजी हुए । इन्हीं के आश्रय में लखनेसजी रहते थे ।

इन्होंने संवत् ११२१ में रसतरंग नामक ११६ पृष्ठों का एक ग्रन्थ कृष्णचरितामृत के गान में बनाया, जिसमें कुल मिलाकर ५७२ छन्द हैं। यद्यपि यह कथाप्रासंगिक ग्रन्थ है, तथापि इस रीति से बनाया गया है कि शृंगाररस के अन्य काव्यों में इससे बहुत अन्तर नहीं है। इसमें विविध छन्द हैं, जैसे कि केशवदास की रामचन्द्रिका में पाये जाते हैं, परन्तु फिर भी सवैयाओं और घनाक्षरियों का प्राधान्य है। इसकी भाषा ब्रज भाषा की ओर अधिक झुकती है, यद्यपि इसमें अवध की भाषा भी मिल जाती है। ग्रन्थारम्भ में कवि ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है और फिर क्रमशः राजनगर, और श्रीकृष्ण की उत्पत्ति से लेकर उद्धव-सन्देश-पर्यन्त कथा का अच्छा वर्णन किया है। रास का भी वर्णन बड़ा विशद हुआ है। इनकी कविता में जहाँ कहीं अलंकार अथवा रस आगये हैं, वहाँ उनका नाम लिख दिया गया है। इन्होंने चित्रकाव्य भी थोड़ा सा किया है और उसे भी एक प्रकार से कथा में ही सम्मिलित कर दिया है। इनकी भाषा अच्छी और कविता प्रशंसनीय है। भाषा में रीति-काव्य और कथा-प्रसंग बनाने की दो भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं, परन्तु लज्जनेसजी ने उन दोनों को मिला दिया है। इनके ग्रन्थ से कोरी कविता और कथा-प्रसंग, दोनों का स्वाद मिलता है। इनका परिश्रम सन्तोषदायक है। हम इनको तोष कवि की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण नीचे लिखते हैं :—

राजै जैतवार रघुराज नर नाहन में

चाहत पनाह मुख साह हू तके रहैं ।

विचरै' प्रफुल्लित प्रजानि पुंज वांधै

राज दुष्ट की कहा है वनराज हू जके रहैं ॥

वरनै को पार लखनेस कृपा कोर जन

पोत सम पाय दुख सिन्धु के थके रहैं ।

जासु कर कंज मकरन्द दान पान

के के हम से मलिनद गुन गान में छके रहैं ॥

कुंजलि में, वन पुंजलि में, अलि गुंजलि में सुभ सख सुहात हैं ।

धेनु धनी, धरनी, धन, धाम में को वरनै लखनेस विल्यात हैं ॥

थावर जंगम जीवन को दिन जामिनि जानि न जात विहात हैं ।

हैं गई कान्ह मई ब्रज है सब देखें तहाँ नंदनन्द देखान हैं ॥

खाज में लक्ष्मीचरित्र नामक इनके एक दूसरे ग्रन्थ का भी वर्णन है ।

(२०६१) डाक्टर रुडोल्फ हार्नेली सी० आई०ई० ।

इनका जन्म संवत् १९१८ में आगरा जिले में सिकन्दरा के पास हुआ था । ये महाशय कालेजों में अध्यापक रहे और अन्त में सरकार ने इन्हें पुरातत्त्व की जाँच पर भी नियत किया । इनका उत्तरी भारतवर्षीय भाषा समुदाय के व्याकरणों वाला लेख परम प्रसिद्ध एवं विद्वत्तापूर्ण है । इन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी संस्कृत एवं प्राकृत से निकली है और अनार्य भाषाओं की शाखा नहीं है । इन्होंने विहारी भाषा का कोष एवं चन्द्र कृत रासो का भी सम्पादन किया, पर ये ग्रन्थ अपूर्ण रह गये । डाक्टर साहब ने जैन ग्रन्थ उवासग दसरावो भी प्रकाशित किया । इनका

हिन्दी भाषा से प्रगाढ़ प्रेम है और व्याकरण एवं भाषाओं की उत्पत्ति के विषय में इनका प्रमाण माना जाता है। अब ये विलायत चले गये हैं।

### (२०६२) आनन्द कवि ठाकुर दुर्गासिंह ।

आप डिक्कालिया सीतापूर-निवासी हिन्दी के एक प्राचीन और प्रसिद्ध कवि हैं। आपकी अवस्था अब प्रायः ७० वर्ष की होगी। आपने कुछ ग्रन्थ रचे हैं और स्फुट छन्द सैकड़ों बनाये हैं। आपकी कविता अच्छी होती है। काव्यसुधाधर में आपकी समस्या-पूर्तियाँ छपा करती थीं। आप साधारणतया एक बड़े ज़िम्मेदार हैं। हमें आनन्द जी ने अपने बहुत से छन्द सुनाये हैं।

### (२०६३) नवीनचन्द्र राय ।

इनका जन्म संवत् १८९४ में हुआ था। पिता का शैशवावस्था में ही मृत्यु होजाने से इनकी शिक्षा अच्छी न हो सकी, पर इन्होंने अपने ही कोशल से १६ मासिक से लेकर ७०० मासिक तक का वेतन भोगा और विद्याभ्यसन के कारण अँगरेज़ी के अतिरिक्त संस्कृत और हिन्दी की भी बहुत अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। नवीन बाबू ने इन दोनों भाषाओं में प्रकृष्ट ग्रन्थ बनाये और विधवा-विवाह पर भी एक पुस्तक रची। इन्होंने पंजाब में स्त्री-शिक्षा पादप का बीज बोया और लाहौर में नार्मल फ़ीमेल स्कूल स्थापित किया। हिन्दी में आपने [ज्ञानप्रदायिनी] पत्रिका भी निकाली। परोपकार में ये सदा लगे रहे। इनका देहान्त संवत् १९४७ में हुआ।

## (२०६४) बालकृष्ण भट्ट ।

भट्टजी का जन्म संवत् १९०१ में प्रयाग में हुआ था । ये महा-शय संस्कृत के अच्छे विद्वान् और भाषा के एक परम प्राचीन लेखक हैं । भारतेन्दुजी इनके लेख पसन्द करते थे । संवत् १९३४ में प्रयाग से हिन्दीप्रदीप नामक एक सुन्दर मासिक पत्र प्रायः ३२ वर्ष तक निकलता रहा । भट्टजी उसके सदैव सम्पादक रहे । इनकी गद्य-लेखन-शुद्धता एवं गम्भीरता सर्वतोभावेन सराहनीय है । कलराज की सभा, रेल का विकट खेल, बालविवाह नाटक, सौ अज्ञान का एक सुज्ञान, नूतन ब्रह्मचारी, जैसा काम वैसा परिणाम आदि लेख इनके चमत्कारिक हैं । पद्मावती, शरमिष्ठा, और चन्द्रसेन नामक उत्तम नाटक ग्रन्थ भी भट्टजी ने रचे हैं ।

नाम—(२०६५) आत्माराम ।

ग्रन्थ—शृंगारसप्तशती (संस्कृत) ।

विवरण—१९२५ के पीछे इन्होंने विशारीसतसई का संस्कृत में अनुवाद किया । भारतेन्दुजी ने इनको ५००) उसका पारि-  
तोषिक भी दिया । अतः इनका रचनाकाल संवत् १९२५ के लगभग है ।

यथा ।

अपनय भव बाधा भयं राधे त्वं कुशलासि ।

हरिरपि धरति हरि द्वितिं यदि माधवमुपयासि ॥

## (२०६६) ब्रज ।

गोकुल उपनाम ब्रज कायस्थ का संवत् १९२५ के लगभग कविता-काल है। ये बलरामपुर जिला गोंडा में हुए हैं। ये महाराजा दिग्विजयसिंह के यहाँ रहे। इन्होंने दिग्विजयभूषणसंग्रह, अष्टयाम, चित्रकलाधर, दूतीदर्पण, नीतिरत्नाकर, और नीति-प्रकाश नामक छः ग्रन्थ बनाये हैं। इनका कोई ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं आया पर पृष्ठ पाँछ से इन ग्रन्थों के नाम निश्चयपूर्वक जान पड़े। इनकी कविता अनुप्रासपूर्ण परम विशद होती थी। हम इन्हें तोष की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण।

तम नास्ति अवास प्रकास करै गुन एक गनै नहिँ औगुन सारै ।

रवि अन्त पतंग दई प्रभुता इन संग पतंग अनेकन जारै ॥

अति मित्र के द्रोही विछोही सनेह के याते सखी सिख मेरी विचारै ।

मनि मंजु धरै ब्रज मन्दिर में रजनी में जनी जनि दीपक वारै ॥

नाम—(२०६७) शिवदयाल कवि पांडे उपनाम भेष; लखनऊ ।

ग्रन्थ—स्फुट कविता १ दशम स्कंध भागवत भाषा कुरीव १०००

विविध छन्दों में अपूर्ण ।

जन्मकाल—१८९६ ।

कविता-काल—१९२५ ।

विवरण—ये लखनऊ रानीकटरा-निवासी कान्यकुब्ज पांडे थे ।

इन्हें ज्योतिष में अच्छा अभ्यास था और आप कविता भी सोहावनी करते थे। इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में है।



चित की हम ऊँचा जु बातें कहैं अक्कास अकास न पाइ है जू ।  
 यह तुंग के तुंग तरंगन के उमहे मन कौन समाइ है जू ॥  
 दुरि है हग केर जु भेप कहूँ तौ अर्यै ब्रज फेरि वहाइ है जू ।  
 सिगरी यह रावरी ज्ञानकथा कहि कौन को कौन सुनाइ है जू ॥१॥

इस समय के अन्य कविगण ।

नाम—(२०६८) असकंदगिरि, वाँदा ।

ग्रन्थ—(१) असकंदविनोद, (२) रसमोदक (१९०५) ।

कविता-काल—१९१६ ।

विवरण—साधारण श्रेणी । ये महाराज हिम्मत वहादुर गोसाईं  
 वाँदा के शिष्य व नवाब गनीबहादुर वाँदा के नौकर  
 थे । कविता भी अच्छी करते थे ।

नाम—(२०६९) दिलीप, चैनपुर ।

ग्रन्थ—रामायण टीका ।

कविता-काल—१९१६ ।

नाम—(२१००) लल्लू ब्राह्मण (पांडे), गाज़ीपुर ।

ग्रन्थ—ऊपाचरित्र पृ० ११० ।

कविताकाल—१९१६ ।

नाम—(२१०१) हीरालाल चौबे, वूँदी ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

कविताकाल—१९१६ ।

विवरण—ये भी वूँदी दरवार में थे ।

नाम—(२१०२) सुदामाजी ।

ग्रन्थ—(१) वारहखड़ी, (२) स्फुट ।

कविताकाल—१९१७ के पूर्व ।

नाम—(२१०३) हाजी ।

ग्रन्थ—प्रेमनामा ।

कविताकाल—१९१७ के पूर्व ।

नाम—(२१०४) गंगादत्त ब्राह्मण राजापुर, जिला, बाँदा ।

ग्रन्थ—विष्णोदविशदस्तौत्र ।

जन्मकाल—१८९२ ।

कविताकाल—१९१७ वर्त्तमान ।

नाम—(२१०५) भानुप्रताप, विजावर महाराज ।

ग्रन्थ—(१) शृंगारपचासा, (२) विज्ञानशतक ।

कविताकाल—राजत्वकाल १९१७ से १९५८ तक ।

नाम—(२१०६) सुन्दरलाल कायस्थ, राजनगर, छत्रपुर ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

कविताकाल—१९१८ ।

नाम—(२१०७) गोपालराव हरी, फर्रुखाबाद ।

ग्रन्थ—दयानन्ददिग्विजयाकर् ।

जन्मकाल—१८९४ ।

कविताकाल—१९१९ ।

नाम—(२१०८) लालचन्द्र ।

ग्रन्थ—सत्कर्म. उपदेश-रत्नमाला ।

रचिताकाल—१९१९ ।

नाम—(२१०९) कृष्णदास ब्राह्मण, उज्जैन ।

ग्रन्थ—सिंहासनवत्तीसी ।

रचिताकाल—१९२० के पूर्व ।

वेधरण—आश्रयदाता राजा भीम ।

नाम—(२११०) माखन चौबे, कुलपहार, जिला हमीरपुर ।

ग्रन्थ—(१) श्रीगणेशजी की कथा, (२) श्रीसत्यनारायण कथा ।

रचिताकाल—१९२० के पूर्व ।

वेधरण—कुलपहाड़, हमीरपुर वाले ।

नाम—(२१११) स्वचन्द्र राठ, हमीरपुर ।

ग्रन्थ—तेरहमासी ।

रचिताकाल—१९२० ।

नाम—(२११२) गणेशप्रसाद कायस्थ, पंचवारा, जिला बाँदा ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

जन्मकाल—१८९६ ।

रचिताकाल—१९२० । मृत्यु १९५६ ।

नाम—(२११३) गंगाराम बुँदेलखंडी ।

ग्रन्थ—(२) सिंहासनवत्तीसी, (२) देवी-स्तुति, (३) रामचरित्र ।

जन्मकाल—१८९४ ।

कविताकाल—१९२० ।

विवरण—निम्नश्रेणी ।

नाम—(२११४) टेर, मैतपुरी ।

जन्मकाल—१८८८ ।

कविताकाल—१९२० ।

नाम—(२११५) दीनदयाल कायस्थ, कोयल, ज़िला अलीगढ़ ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

जन्मकाल—१८९५ ।

कविताकाल—१९२० ।

नाम—(२११६) नरोत्तम, अंतर्वेद ।

जन्मकाल—१८९६ ।

कविताकाल—१९२० ।

विवरण—साधारण कवि ।

नाम—(२११७) परमानन्द लल्ला पौराणिक, अजयगढ़,

बुँदेलखंड ।

ग्रन्थ—(१) नखशिख, (२) हनुमाननाटकदीपिका ।

जन्मकाल—१८९७ ।

कविताकाल—१९२० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२११८) ब्रजचन्द्र जन ।

ग्रन्थ—श्रीरामलीलाकौमुदी ।

जन्मकाल—१८९० ।

कविताकाल—१९२० से १९६० तक ।

विवरण—इनका यह ग्रन्थ वार्तिक है और कहीं कहीं इसमें छन्द भी हैं । ७० बड़े पृष्ठों का ब्रजभाषा का ग्रन्थ है । साधारण श्रेणी के कवि थे । ग्रन्थ हमने छतरपुर में देखा है ।

नाम—(२११९) मदनमोहन ।

जन्मकाल—१८९८ ।

कविताकाल—१९२० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२१२०) मनीराम मिश्र, साठी, कानपुर ।

जन्मकाल—१८९६ ।

कविताकाल—१९२० ।

नाम—(२१२१) माखन लखेरा पन्नावाले ।

ग्रन्थ—दानचौंतीसी ।

जन्मकाल—१८९१ ।

कविताकाल—१९२० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२१२२) युगलप्रसाद कायस्थ, रीवाँ ।

ग्रन्थ—बघेलवंशावली ।

कविताकाल—१९२० ।

विवरण—रामरसिकावली रघुराजसिंह रीवाँनरेश-कृत की वंशावली इन्हीं की रचना है ।

नाम—(२१२३) रामकृष्ण ।

ग्रन्थ—नायिकाभेद ।

जन्मकाल—१८८६ ।

कविताकाल—१९२० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२१२४) रामदीन बन्दीजन, अलीगंज इटावा ।

जन्मकाल—१८९० ।

कविताकाल—१९२० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२१२५) लक्ष्मणसिंह (परती : राय) कायस्थ, दतिया ।

ग्रन्थ—(१) जैमिनि-अश्वमेध भाषा, (२) रामभूषण, (३) लोकेन्द्र-व्रजोत्सव ।

जन्मकाल—१८९६ ।

कविताकाल—१९२० ।

विवरण—महाराज भवानोसिंह दतियानरेश के यहाँ थे ।

नाम—(२१२६) लेखराज ।

ग्रन्थ—रामकृष्णगुणमाला ।

कविताकाल—१९२० ।

नाम—(२१२७) लोनेसिंह, मितौली, खीरी ।

ग्रन्थ—दशमस्कन्ध भागवत भाषा ।

जन्मकाल—१८९२ ।

कविताकाल—१९२० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२१२८) शिवप्रकाशसिंह बाबू, हुमरावाँ, शाहा-  
बाद वाले ।

ग्रन्थ—रामतत्त्वशोधिनी टीका (विनयपत्रिका की) ।

जन्मकाल—१८९१ ।

कविताकाल—१९२० ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२१२९) कुशलसिंह ।

ग्रन्थ—नखशिख ।

कविताकाल—१९२१ के पूर्व ।

विवरण—शिवनाथ के साथ लिखा ।

नाम—(२१३०) दंपताचार्य ।

ग्रन्थ—रसमंजरी ।

कविताकाल—१९२१ के पूर्व ।

नाम—(२१३१) द्वारिकादास ।

ग्रन्थ—माधवनिदान भाषा (वैद्यक ग्रंथ) ।

कविताकाल—१९२१ के पूर्व ।

नाम—(२१३२) अनुनैन ।

ग्रन्थ—नखशिख ।

जन्मकाल—१८९६ ।

कविताकाल—१९२१ ।

विवरण—कविता सानुप्रास और यमकयुक्त उत्तम है । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२१३३) राधाचरण कायस्थ, राजगढ़, बुँदेलखंड ।

ग्रन्थ—(१) यमुनाष्टक, (२) राधिकानखशिख, (३) शम्भुपचासा ।

जन्मकाल—१८९६ ।

कविताकाल—१९२१ । मृत्यु १९५१ ।

नाम—(२१३४) श्रीकृष्णचैतन्यदेव ।

ग्रन्थ—सौंदर्यचन्द्रिका ।

कविताकाल—१९२२ के पूर्व ।

नाम—(२१३५) बस्तावरख़ाँ, बिजावर ।

ग्रन्थ—धनुपसवैया ।

कविताकाल—१९२२ ।

नाम—(२१३६) बेनी भिंड-निवासी ।

ग्रन्थ—शालिहोत्र ।

कविताकाल—१९२३ के प्रथम ।

विवरण—स्रगेश के पुत्र ।



नाम—(२१३७) मानसिंह अवस्थी, गिरवाँ, ज़िला बाँदा ।

ग्रन्थ—शालिहोत्र ।

कविताकाल—१९२३ के पूर्व ।

विवरण—साधारण ।

नाम—(२१३८) रामचरन (चिरगाँव) ।

ग्रन्थ—(१) हिंडोलकुण्ड, (२) रहस्यरामायन, (३) सीताराम  
दम्पतिचिलास ।

कविताकाल—१९२३ ।

विवरण—मैथिलीशरण गुप्त के पिता ।

नाम—(२१३९) भूरे, विजावर ।

ग्रन्थ—वारहमासा ।

कविताकाल—१९२४ के पूर्व ।

नाम—(२१४०) जयगोविन्ददास ।

ग्रन्थ—हनुमत्सागर (पृ० ३२६) ।

कविताकाल—१९२४ ।

नाम—(२१४१) ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी, किशुनदासपुर, राय  
वरेली ।

ग्रन्थ—रसचन्द्रोदय, (काई संग्रह भी) ।

जन्मकाल—१८८२ ।

कविताकाल—१९२४ तक ।

विवरण—साधारण श्रेणी । इनके पास भाषा-साहित्य का अच्छा पुस्तकालय था ।

नाम—(२१४२) दलपतिराम ।

ग्रन्थ—श्रवणख्यान ।

कविताकाल—१९२४ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२१४३) पंचम, डलमऊ, राय बरेली ।

कविताकाल—१९२४ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२१४४) खान ।

कविताकाल—१९२५ के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२१४५) हनुमानदास ।

ग्रन्थ—गीतमाला ।

कविताकाल—१९२५ के पूर्व ।

नाम—(२१४६) कमलाकांत वक्रील, गोरखपुर ।

ग्रन्थ—होलीविहार ।

जन्मकाल—१९०० ।

कविताकाल—१९२५ वर्तमान ।

नाम—(२१४७) कमलेश्वर कायस्थ, मन्दरा, जिला गाज़ीपुर ।

ग्रन्थ—(१) सत्यनारायण, (२) स्फुट ।

कविताकाल—१९२५ । मृत्यु १९६८ ।

नाम—(२१४८) चंडोदत्त ।

जन्मकाल—१८९८ ।

कविताकाल—१९२५ ।

विवरण—महाराजा मानसिंह के दरवारी कवि थे । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२१४९) चंडीदान कविराजा चारण, कोटा ।

ग्रन्थ—स्कृत कविता ।

कविताकाल—१९२५ ।

विवरण—ये भी अच्छी कविता करते थे और देवीजी का एकाग्र कवित्त रोज बना लेते थे तब भोजन करते थे । इस कारण देवीजी के कवित्त इनके हजारों हैं । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२१५०) तपसौराम कायस्थ, मुवारकपूर, सारन ।

ग्रन्थ—(१) रमूज महारवफ़ा, (२) प्रेमगंगतरंग, (३) बक्राय्या देहली ।

कविताकाल—१९२५ । मृत्यु १९४२ ।

नाम—(२१५१) देवीप्रसाद कायस्थ, मऊ, छत्रपूर ।

ग्रन्थ—वैद्यकल्प ।

जन्मकाल—१८९७ ।

कविताकाल—१९२५ । मृत्यु १९४६ ।

नाम—(२१५२) नारायणदास भाट ।

ग्रन्थ—ऊधवव्रजगमनचरित्र ।

कविताकाल—१९२५ ।

विवरण—वनारस ।

नाम—(२१५३) परमेश वन्दीजन सतावाँ, रायवरेली ।

ग्रन्थ—कृष्णविनोद (पृ० ७८) ।

जन्मकाल—१८९६ ।

कविताकाल—१९२५ वर्त्तमान ।

विवरण—तौपश्रेणी ।

नाम—(२१५४) प्रेमसिंह उदावत रोठाड़ खडेला (गाँव) मार-  
वाड़ ।

ग्रन्थ—राजाकामकेतुकीवार्ता (इतिहास) ।

कविताकाल—१९२५ । मृत्यु १९५६ ।

विवरण—आश्रयदाता म० रा० यशवंतसिंह । श्लोक-सं० ९०० ।

नाम—(२१५५) बुधसिंह (रसीले) कायस्थ, बेरी ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

जन्मकाल—१९०० ।

कविताकाल—१९२५ । मृत्यु १९५० ।

नाम—(२१५६) मथुराप्रसाद उपनाम लंकेश कायस्थ, कालपो ।

ग्रन्थ—(१) रावणदिग्विजय, (२) रावणवृन्दावनयात्रा, (३) रावण-  
शिवस्वरोदय, (४) दोहावली ।

जन्मकाल—१८९९ ।

कविताकाल—१९२५ ।

विवरण—आप कालपो में वकील थे । रामलीला के रसिक ही न थे, वरन् रावण बनते भी थे और अपने को रावण का अवतार कहते थे । उपनाम भी लङ्केश रक्खा था ।

नाम—(२१५७) महेशदत्त शुक्ल अवधराम के पुत्र धनौली, जिला वारहवकी ।

ग्रन्थ—(१) विष्णुपुराण भाषा गद्य पद्य, (२) अमरकोष-टीका, (३) देवी भागवत, (४) वाल्मीकीय रामायण, (५) नृसिंह-पुराण, (६) पद्मपुराण, (७) काव्यसंग्रह, (८) उमापति-दिग्विजय, (९) उद्योग-पर्व भाषा, (१०) माधव-निदान, (११) कवित्त-रामायण-टीका ।

जन्मकाल—१८९७ ।

कविताकाल—१९२५ । मृत्यु १९६० ।

नाम—(२१५८) मूलचंद कायस्थ, खैराबाद, ज़ि० सीतापूर ।

ग्रन्थ—(१) धर्मसागर, (२) भजनावली ७ भाग ।

जन्मकाल—१९०० ।

कविताकाल—१९२५ । मृत्यु १९५० ।

नाम—(२१५९) रघुनंदन भट्टाचार्य ।

ग्रन्थ—(१) सनातनधर्मसिद्धान्त, (२) धर्मसिद्धान्तसंहिता, (३) दिग्विजयाश्वमेध, (४) पाखंडमुंडिनिदर्शन, (५) कृत्यवाद,

(६) शब्दार्थनिरूपण, (७) दाननिरूपण, (८) लक्षणावाद, (९) सद्द्रूपण, (१०) सदाशिवास्तुति ।

जन्मकाल—१८९९ ।

कविताकाल—१९२५ ।

नाम—(२१६०) रघुनन्दनलाल कायस्थ, बनारस ।

ग्रन्थ—चित्रगुप्तेश्वर पुराण ।

जन्मकाल—१८९७ ।

कविताकाल—१९२५ ।

नाम—(२१६१) रामकुमार कायस्थ, बाँदा ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

जन्मकाल—१९०० ।

कविताकाल—१९२५ । मृत्यु १९५५ ।

नाम—(२१६२) रामप्रताप जी, जयपूर ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

कविताकाल—१९२५ ।

नाम—(२१६३) रामभजनवारी, गजपुर, ज़ि० गोरखपुर ।

ग्रन्थ—स्फुट काव्य ।

कविताकाल—१९२५ ।

विवरण—राजा बस्ती के यहाँ थे ।

नाम—(२१६४) शिवप्रकाश कायस्थ अपहर, ज़ि० छपरा ।

ग्रन्थ—(१) उपदेशप्रवाह, (२) भागवतरससम्पुट, (३) लीला-रसतरंगिणी, (४) सतसंगविलास, (५) भजनरसामृता-

शेष, (६) भागवततत्त्वभास्कर, (७) विनयपत्रिका टीका,  
(८) गीतावली टीका, (९) रामगीता टीका, (१०) वेदस्तुति  
की टीका, (११) इतिहासलहरी ।

जन्मकाल—१९०० ।

कविताकाल—१९२५ ।

विवरण—डुमरावाँ के प्रसिद्ध दीवान जयप्रकाशलाल के लघु  
भ्राता थे ।

नाम—(२१६५) श्याम कवि मिश्र, आगरा ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

कविताकाल—१९२५ ।

विवरण—ये कुलपति मिश्र के वंशधर हैं ।

नाम—(२१६६) हनुमानदीन, मिश्र, राजापुर, जि० बाँदा ।

ग्रन्थ—(१) वाल्मीकीय रामायण, (२) दीपमालिका ।

जन्मकाल—१८९२ ।

कविताकाल—१९२५ ।

नाम—(२१६७) हरीदास भट्ट, बाँदा ।

ग्रन्थ—राधाभूषण ।

जन्मकाल—१९०१ ।

कविताकाल—१९२५ ।

विवरण—शृङ्गार विषय ।

नाम—(२१६८) हिरदेस, भाँसी, बंदीजन ।

ग्रन्थ—शृंगारनौस ।

१२२४

मिश्रबन्धुविनोद ।

[ सं० १६२५ ]

जन्मकाल—१९०१ ।

कविताकाल—१९२५ ।

विवरण—इनकी कविता उत्तम और मनोहर है । तोष श्रेणी के कवि हैं ।

---



# वर्तमान प्रकरण ।

## पैंतीसवाँ अध्याय ।

### वर्तमान हिन्दी एवं पत्र-पत्रिकायें ।

( १९२६ से अब तक )

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के अतिरिक्त कोई परमोत्तम कवि इस समय में नहीं हुआ । उनके अतिरिक्त उत्कृष्ट कवियों की गणना में महाराजा रघुराजसिंह और सहजराम ही के नाम आ सकते हैं, पर वे भी प्रथम श्रेणी के न थे, यद्यपि इनकी कविता आदरणीय अवश्य है । इनके अतिरिक्त साधारणतया उत्कृष्ट कवियों में गोविन्द गिल्लाभाई, द्विजराज, ब्रजराज, विशाल, पूर्ण, श्रीधर पाठक, हनुमान, मुरारिदान और ललित की भी गणना हो सकती है । इस समय में चन्द्रकला आदि कई स्त्रियों ने भी मनोहारिणी कविता की है, जैसा कि आगे समालोचनाओं से प्रकट होगा । प्राचीन प्रथा के कवियों में नायिकाभेद, अलंकार, पट्ट-ऋतु और नखशिख के ही ग्रन्थों के बनाने की कुछ परिपाटी सी पड़ गई थी । अच्छे कविगण प्रायः इन्हीं विषयों पर रचना करते थे और कथाप्रसंग अथवा अन्य विषयों पर कम ध्यान देते थे । इस काल में प्राचीन प्रथानुयायी कविगण तो पुराने ही ढर्रे पर

विशेषतया चल रहे हैं, पर बहुत से नवीन प्रथा के लोग इस रीति को अनुचित समझने लगे हैं। थोड़े ही विषयों को लेलेने से शेष उत्तम विषय छूट जाते हैं और कविता का मार्ग संकुचित हो जाता है। आज कल रेल, तार, डाक, छापेखानों आदि के विशद प्रवन्धों के कारण हम लोगों को दूर दूर के मनुष्यों तक से मिलने और भाव-प्रकाशन का पूरा सुभीता हो गया है। अँगरेजी राज्य के पूर्ण रीति से स्थापित हो जाने से भी कविता को बड़ा लाभ पहुँचा है। इस राज्य ने अच्छी शान्ति स्थापित कर दी, जिससे भाषा ने भी उन्नति पाई। इतने पर भी कुछ पूर्व-प्रथानुयायियों ने नई सुभीतावाली बातों से केवल समस्यापूर्ति के पत्र चलाने का काम लिया। समस्यापूर्ति में चमत्कारिक काव्य प्रायः कम मिलता है। पाँच छः वर्षों से अब समस्यापूर्ति के पत्रों का बल क्षीण होता देख पड़ता है और विविध विषयों के पत्रों की उन्नति दिखाई देती है। बहुत दिनों से हिन्दी में वारहमासाओं के लिखने की चाल चली आती है। इनमें प्रत्येक मास में विरहिणी स्त्रियों की विरह-वेदना का वर्णन होता है। सबसे पहला वारहमासा खुसरो का कहा जाता है और दूसरा, जहाँ तक हमें ज्ञात है, केशवदास ने बनाया। उनके पीछे किसी भारी प्राचीन कवि ने वारहमासा नहीं कहा। इधर आकर वज्रहन, वहाव, गणेशप्रसाद आदि ने मनोहर वारहमासे लिखे हैं। ऐसे ग्रन्थों में खड़ी बोली का विशेष प्रयोग होता है। इनके अतिरिक्त सैकड़ों वारहमासे बने हैं, पर इनकी रचना अधिकतर शिथिल है। बहुतों में रचयिताओं के नामों तक का पता नहीं लगता।

अब तक कविता भी विशेषतया ब्रजभाषा में ही होती थी, पर अब पण्डितों का विचार है कि एक प्रांतीय भाषा परम मनो-हारिणी होने पर भी समस्तदेशीय हिन्दी भाषा का स्थान नहीं ले सकती। उनका मत है कि केवल ऐसी साधु बोली जो एक-देशीय न हो और जो उन सब प्रान्तों में व्यवहृत हो जहाँ हिन्दी का प्रचार है, वास्तव में हमारी भाषा कहलाने की योग्यता रख सकती है। उनके मत में खड़ी बोली ऐसी है और कविता इसी में लिखी जानी चाहिए। १७वीं शताब्दी में गंग एवं जटमल ने खड़ी बोली में गद्य लिखा। पर गद्यकाव्य में इसका प्रचार लल्लूलाल तथा सद्गल मिश्र के समय से विशेष हुआ, और राजा लक्ष्मणसिंह तथा राजा शिवप्रसाद ने इसे और भी उन्नति दी। भारतेंदु हरिश्चन्द्र, तथा प्रतापनारायण मिश्र के समय से गद्य की बहुत ही सन्तोष-दायिनी उन्नति हुई, और इस समय सैकड़ों उत्कृष्ट गद्यलेखक वर्तमान हैं। इनमें बदरीनारायण चौधरी, गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, भुवनेश्वर मिश्र, मेहता लज्जाराम, शिवनन्दनसहाय व ब्रजनन्दन-सहाय, साधुशरणप्रसादसिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, श्यामसुन्दर दास, गोविन्दनारायण मिश्र, गदाधरसिंह, अमृतलाल चक्रवर्ती, अयोध्यासिंह, देवीप्रसाद, जगन्नाथदास (रत्नाकर), गौरीशंकर ओझा, गोपालराम, महावीरप्रसाद द्विवेदी, मदनमोहन मालवीय, सोमेश्वरदत्त सुकुल एवं अन्यान्य अनेक परम प्रतिभाशाली लेखक हैं। प्रायः चालीस वर्षों से हिन्दी में समाचार पत्र भी निकलने लगे हैं और इनकी दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। तीन दैनिक पत्र भी हिन्दी में समय समय पर निकाले गये, जिनमें हिन्दु-

स्थान प्रसिद्ध है, पर अब तक कोई दैनिक पत्र स्थिर नहीं हो सका है । आज कल सर्वहितैषी नामक दैनिक पत्र निकला है, और भारत-मित्र का भी एक दैनिक संस्करण निकलता है । गद्य में विविध प्रकार के अच्छे और उपकारी ग्रन्थ लिखे गये, और अनुवादित हुए तथा होते जाते हैं । अँगरेज़ी राज्य का प्रभाव अब बैठ चुका है । इससे भाँति भाँति के नवागत लाभकारी भाव देश में फैल रहे हैं । अँगरेज़ी शिक्षा का भी यही प्रभाव पड़ता है । इसने देशभक्ति की मात्रा बहुत बढ़ा दी है । अँगरेज़ी राज्य से जीवन-होड़-प्राबल्य दिनों दिन बढ़ता जाता है । इससे देशवासियों का ध्यान उपयोगी विषयों की ओर खिँच रहा है । इन कारणों से हिन्दी में नवीन विचारों का समावेश खूब होता जाता है और विविध विषयों के ग्रन्थ दिनों दिन बनते जाते हैं । यदि यही हाल स्थिर रहा, जैसी कि दृढ़ आशा की जाती है, तो पचास वर्ष के भीतर हिन्दी की बहुत बड़ी उन्नति हो जावेगी और इसमें किसी प्रकार के ग्रन्थों की कमी न रहेगी । पद्य में खड़ी बोली का कुछ कुछ प्रचार बहुत काल से चला आता है, जैसा कि ऊपर स्थान स्थान पर दिखलाया गया है, पर पूर्णबल से पहले पहल खड़ी बोली की पद्य-कविता सीतल कवि ने बनाई । इस महाकवि ने अपने 'गुलज़ार-चमन' नामक वृहत् ग्रन्थ में सिवा खड़ी बोली के और किसी भाषा का प्रयोग ही नहीं किया । इसके एक चमन की मुद्रित प्रति हमारे पास है । सीतल के पीछे श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली की प्रशंसनीय कविता की, और महावीरप्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, भगवानदीन, बालमुकुन्द गुप्त, नाथूराम शंकर, मन्नन द्विवेदी आदि ने

भी इसी प्रथा पर अच्छी रचनायें की हैं। हमने भी 'भारतविनय' नामक प्रायः एक सहस्र छन्दों का ग्रन्थ एवं एक अन्य छोटी सी पुस्तक खड़ी बोली में बनाई है। अभी बहुत से कवि खड़ी बोली में कविता नहीं करते और बहुतों को इसमें उत्तम कविता बन सकने में भी सन्देह है, पर इसकी भी उन्नति होने की अब पूर्ण आशा है।

धाड़े दिनों से हिन्दी में उपन्यासों की बड़ी चाल पड़ गई है। इनसे इतना अवश्य उपकार है, कि इनकी रोचकता के कारण बहुत से हिन्दी न जानने वाले भी इस भाषा की ओर झुक पड़ते हैं। उपन्यास-लेखकों में देवकीनन्दन खत्री, गोपालराम, किशोरी-लाल गोस्वामी, गंगाप्रसाद गुप्त आदि प्रधान हैं।

नाटकविभाग हिन्दी में बहुत दिनों से स्थापित नहीं है और न इस की अभी तक कुछ भी उन्नति हुई है। सबसे पहले नेवाज कवि ने शकुंतला नाटक बनाया, पर वह स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वरन् विशेषतया कालिदास-कृत शकुंतला नाटक के आधार पर लिखा गया है। यह पूर्णरूप से नाटक के लक्षणों में भी नहीं आता, क्योंकि इसमें यवनिकादि का यथोचित समावेश नहीं है। ब्रजवासोदास-कृत प्रबोधचंद्रोदय नाटक भी इसी तरह का है। केशवदास-कृत विज्ञानगीता भी नाटक के ढंग पर लिखा गया है, पर उसमें इन ग्रंथों से भी कम नाटकपन है, यहाँ तक कि उसे नाटक कहना ही व्यर्थ है। देवमायाप्रपंच नाटक में भी यवनिका आदि के प्रबन्ध नहीं हैं। इसे देव कवि ने बनाया। प्रभावती और आनन्दरघुनन्दन भी पूर्ण नाटक नहीं हैं। सबसे पहला

नाटक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता गिरधरदास ने सं० १९१४ में बनाया, जिसका नाम "नहुष नाटक" है। राधाकृष्णदास ने उसका सम्पादन किया। इसके पीछे राजा लक्ष्मणसिंह ने शकुंतला का भाषानुवाद किया। नाटकों का प्रचार हिन्दी में प्रधानतया हरिश्चन्द्र ही ने किया। उन्होंने बहुत से उत्तम नाटक बनाये, जिनमें से कई का अभिनय भी हुआ। इनके अतिरिक्त श्रीनिवासदास, तैताराम, गोपालराम, काशीनाथ खत्री, पुरोहित गोपीनाथ, लाला सीताराम आदि ने भी नाटक बनाये और अनुवादित किये हैं। राधाकृष्णदास, प्रतापनारायण मिश्र, देवकीनन्दन त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट, गणेश-दत्त, राधाचरण गोस्वामी, चाँधरी बदरीनारायण, गदाधर भट्ट, जानी बिहारीलाल, अम्बिकादत्त व्यास, शीतलप्रसाद तैवारी, दामोदर शास्त्री, ठाकुरदयालसिंह, अयोध्यासिंह उपाध्याय, गदाधरसिंह, ललिताप्रसाद त्रिवेदी, राय देवीप्रसाद पूर्ण, बालेश्वर-प्रसाद, महाराजकुमार खड्ग लालबहादुर मल्ल आदि कविगण इस समय के नाटककार हैं।

बिहारप्रांत में हिन्दोभाषी अन्य प्रांतों के देखते नाटकविभाग बहुत दिनों से अच्छी दशा में है। स्वयम् विद्यापति ठाकुर ने पन्द्रहवीं शताब्दी में दो नाटक-ग्रन्थ लिखे। लाल भा ने सं० १८३७ में गौरी-परिणय नाटक बनाया तथा सं० १९०७ में भानुनाथ भा ने प्रभावतीहरण नाटक निर्माण किया, जिसमें मैथिल भाषा के अतिरिक्त प्राकृत तथा संस्कृत का भी प्रयोग किया गया। हर्षनाथ भा ने भी इसी समय कई ग्रन्थ बनाये, जिनमें ऊषाहरण मुख्य है। ब्रजनन्दनसहाय और शिवनन्दनसहाय ने भी नाटक रचे हैं।

फिर भी कहना ही पड़ता है कि हिन्दी में नाटकविभाग अभी विलकुल सन्तोषदायक दशा में नहीं है । भारतेन्दु, श्रीनिवासदास आदि के रचित नाटकों के अतिरिक्त अधिकांश शेष उत्तम नाटक ग्रन्थ या तो नाटक हैं ही नहीं अथवा केवल अनुवादमात्र हैं ।

हिन्दी-इतिहास-विषयक अभी तक कोई अच्छा ग्रन्थ नहीं है । सबसे प्रथम प्रयत्न इस विषय में भूपण के समकालीन कालिदास कवि ने किया । पर उन्होंने केवल हजार छन्दों का हजार नामक एक संग्रह बनाया । इस ग्रन्थ से इतना लाभ अवश्य हुआ कि जिन कवियों के नाम इसमें आये हैं उनके विषय में ज्ञात हो गया कि वे या तो कालिदास के समकालीन थे अथवा पूर्व के । बहुत से कवियों की रचनायें भी इसी ग्रन्थ के कारण सुरक्षित रहीं । संवत् १६६० के लगभग प्रवीण कवि ने सारसंग्रह नामक एक ग्रन्थ संगृहीत किया, जिसमें प्रायः १५० कवियों की कविता पाई जाती है । यह अमुद्रित ग्रन्थ पण्डित युगलकिशोर के पास है । इलपति-राय वंसीधर ने संवत् १७९२ में अलंकाररत्नाकर नामक एक संग्रह बनाया, जिसमें उन्होंने अपने अतिरिक्त ४४ कवियों के छन्द लिखे । भक्तमाल, कविमाला (१७१८), सत्कविगिराविलास (१८०३), विद्वन्मोदतरंगिणी (१८७४), और रागसागरोद्भव (१९००) भी कुछ प्राचीन संग्रह हैं । सूदन ने भी प्रायः १५० कवियों के नाम लिखे हैं । भाषाकाव्यसंग्रह स्कूलों की एक पाठ्य पुस्तक मात्र थी । संवत् १९३० के लगभग ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंहसरोज नामक एक अनमोल ग्रन्थ बनाया, जिसमें उन्होंने प्रायः एक सहस्र कवियों का सूक्ष्म हाल प्रचुर श्रम द्वारा

एकत्र किया । दि माडर्न वनेकुलर लिटरेचर आफ् हिन्दुस्तान और 'कविकीर्तिकलानिधि' को भी डाक्टर ग्रियर्सन तथा पण्डित नकछेदी तिवारी ने लिखा, पर ये ग्रन्थ विशेषतया 'सरोज' पर ही अवलम्बित हैं । सरकार हाल में आर्थिक सहायता देकर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा हिन्दी-पुस्तकों की खोज १९५७ से करा रही है । इससे बहुत से उत्तम ग्रन्थों और कवियों का पता लग रहा है । खोज पूरे प्रांत तथा राजस्थान इत्यादि में हो जाने पर उससे इतिहास की उत्तम सामग्री मिल सकेगी ।

हिन्दी में समालोचना की चाल बहुत थोड़े दिनों से चली है । प्राचीन प्रथा के लोग समझते थे कि समालोचना करने में किसी भी कवि की निन्दा न करनी चाहिए । इस विचार के कारण समालोचना की उन्नति प्राचीन काल में न हुई । सबसे प्रथम हिन्दी में महाकवि दास ने समालोचना की ओर कुछ ध्यान दिया, पर बहुत दृष्टी कलम से कहने के कारण उन्होंने किसी के विषय में अधिक न कहा । भारतेन्दु जी भी इस ओर कुछ झुके थे यहाँ तक कि उत्तरी हिन्द के वे एक मात्र वर्तमान समालोचक कहलाते थे । समालोचक नामक एक पत्र भी हाल में निकला था और छत्तीसगढ़-मित्र भी समालोचना पर विशेष ध्यान देता था, पर कालगति से ये दोनों पत्र अस्त हो गये । अन्य पत्र-पत्रिकायें भी समय समय पर समालोचना करती हैं । ब्रजनन्दनप्रसाद एवं महावीर-प्रसाद द्विवेदी ने कुछ समालोचनायें लिखी हैं । "हिन्दीनवरत्न" नामक समालोचना ग्रन्थ थोड़े ही दिन हुए हमने भी बनाया था ।



आजकल रामलीला और रासलीला से भी हिन्दी का प्रचार कुछ कुछ होता है। इनमें राम और कृष्ण की कथाओं का अभिनय किया जाता है। रामलीला प्रथम तो साधारण जनों के ही द्वारा विजयदशमी के अक्षर पर और कहीं कहीं दीवाली पर्यन्त की जाती थी, पर थोड़े दिनों से रासमंडलियों की भाँति रामलीला की भी अभिनयमंडलियाँ स्थिर हुई हैं, जिन्होंने रासमंडलियों से बहुत अधिक उन्नति कर ली है और जो वर्तमान थियेट्रों के कुछ कुछ बराबर पहुँच गई हैं। रासमंडलियाँ भी प्राचीन रीति पर थियेट्र की सी लीलायेँ करती हैं; यद्यपि इनसे अब तक बहुत कम उन्नति हो सकी है। समस्त समय पर ग्रामों में कहीं कहीं बहुत दिनों से वर्षा ऋतु में आल्हा गाने की परिपाटी चली आती है। इसका छंद तुकान्तहीन बड़ाही भोजकारी होता है। इसमें महोदये के राजा परिमाल तथा वीरवर आल्हा-ऊदन का वर्णन होता है, जो प्रायः लड़ाइयों से भरा है। आल्हा की प्रतियाँ थोड़े ही दिनों से छपी हैं। यह नहीं ज्ञात है कि इसकी रचना किस कवि ने कब की थी। कहा जाता है कि चन्द्र के समकालीन जगनिक वन्दीजन ने पहले पहल आल्हा बनाया, पर उस समय की भाषा का कोई अंश भी अब आल्हा में नहीं है। कहते हैं कि कन्नौज के किसी कवि ने वर्तमान आल्हा बनाया, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। जो कुछ हो, आल्हा की कविता स्थान स्थान पर परम भोजस्विनी और मनेाहर है। पँवारा भी एक प्राचीन काव्य समझ पड़ता है। पर इसके रचयिता का भी पता नहीं है और न इसकी कोई मुद्रित अथवा लिखित प्रति ही मिलती है। पँवारा विशेषतया पासी लोग

गाते हैं और उसमें देशीय राजाओं एवं ज़िम्मीदारों का हाल रहता है। जहाँ जो पँवारा प्रचलित है वहाँ के बड़े आदमियों का उसमें यश वर्णित होता है। यह पँवार राजाओं के यशोवर्धन से प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है, जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है। यदि कोई मनुष्य श्रम करके पासी आदिकों से इसे एकत्र करे तो विदित हो कि इस की रचनायें कैसी हैं। अभी तो पँवारा ऐसा नीरस समझा जाता है, कि लोग निन्दा करने में किसी नीरस और लम्बे प्रबन्ध को पँवारा कहते हैं।

हिन्दी के सौभाग्य से पिछले १५ या १६ वर्ष के अन्दर पाँच सात सभायें भी काशी, मेरठ, जौनपूर, आरा, प्रयाग, कलकत्ता आदि में स्थापित हुईं। काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने संवत् १९५० में जन्म ग्रहण किया। तभी से इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। यह बराबर नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका निकालती रही है और अब ग्रन्थमाला एवं लेखमाला भी निकालने लगी है। ग्रन्थमाला में अच्छे अच्छे ग्रन्थ निकल गये और निकलते जाते हैं। हिन्दी को युक्तप्रान्त के न्यायालयों में जो स्थान मिला है, वह अधिकांश में इसी के प्रयत्नों का फल है। इसने तुलसीदत्त रामायण और पृथ्वीराज रासो की परम शुद्ध प्रतियाँ प्रचुर श्रम द्वारा प्रकाशित कीं और १३ साल से सरकार से सहायता लेकर हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थों की खोज में यह बड़ा ही सहायनीय श्रम कर रही है। इसने पदकों, प्रशंसापत्र आदि के द्वारा उत्तम लेखप्रणाली चलाने का प्रबन्ध किया और लेखकों को बहुत प्रोत्साहन दिया। अनेकानेक प्रयत्नों से इसने हिन्दी भाषा और

नागरी अक्षरों का प्रचार बढ़ाया । बहुत से विद्वानों की सहायता से यह एक वैज्ञानिक कोष तैयार कर चुकी है और अब एक बृहत् कोष भी बना रही है । यह इतिहास भी इसी की प्रेरणा से बना है ।

आरा-नागरीप्रचारिणी सभा प्रायः दश वर्षों से विहार में स्थापित है । इसने भी हिन्दी के प्रचार में परम प्रशंसनीय श्रम किया है । अब तक हिन्दी का कोई सर्वमान्य व्याकरण नहीं है । यह सभा एक ऐसा व्याकरण बनवाना चाहती है ।

मैरठ-सभा ने भी हिन्दीप्रचार में अच्छा श्रम किया; पर सुभाष्यवश पण्डित गौरीदत्त का स्वर्गवास हो जाने से वह अब सुयुक्तायस्या को प्राप्त हो गई है । जौनपूर-सभा का भी परिश्रम अच्छा है; पर इसकी भी दशा सन्तोषदायिनी नहीं है । प्रयाग की नागरीप्रवर्द्धिनी सभा अभी थोड़े ही दिनों से स्थापित हुई है, पर तो भी इसके उत्साह से हिन्दी के विशेष उपकार होने की आशा है । कलकत्ते की एकलिपिविस्तारपरिषद् प्रायः पाँच वर्षों से स्थापित हुई है । इसका अस्तित्व हिन्दी के लिए बड़े ही गौरव तथा सौभाग्य का कारण है । इसका यह प्रयत्न है कि भारत की सब भाषायें नागरी-लिपि में लिखी जावें । इसी अभिप्राय से इस सभा ने देवनागर नामक पत्र निकाल रक्खा है, जिसमें सभी भाषाओं के लेख नागरी-लिपि में लिखे जाते हैं । भाषाओं के एकीकरण में यह सभा परमोपयोगिनी है । भूतपूर्व हाईकोर्ट-जज श्रीयुत शारदाचरण मित्र इस सभा के जीवन-मूल हैं । महाराष्ट्र देश में बहुत काल से नागरी-लिपि का प्रचार चला आता है ।

अब मद्रास एवं बंगाल के विद्वानों ने भी इसी लिपि को ग्राह्य माना है, और गुजरात में भी इसका प्रचार बढ़ता देख पड़ता है; यहाँ तक कि श्रीमान् बरोदा-नरेश ने नागराक्षरों की शिक्षा आवश्यक कर दी है। काशी-सभा के प्रयत्नों से १९६७ के नवरात्र में काशी में प्रथम हिन्दीसाहित्यसम्मेलन नामक एक महती सभा हुई थी; जिसमें भी अन्य विषयों के साथ एक-लिपि-विस्तार के उपायों पर विचार हुआ था। प्रयाग और कलकत्ते में भी इसके अधिवेशन हुए। पौष १९६७ में इसी बात के पुष्ट्यर्थ प्रयाग में एक-लिपि-विस्तार-सम्मेलन हुआ, जिसमें भारतवर्ष के सभी देशों से विद्वान् महाशयों ने मद्रास के जस्टिस कृष्ण स्वामी पेयर के सभापतित्व में नागराक्षरों के प्रचारार्थ योग दिया और उन्हें सारे देश के लिए सर्वमान्य ठहराया। अब हिन्दी के सुदिन से आते देख पड़ते हैं। इन सभाओं के अतिरिक्त और भी छोटी बड़ी सभायें यत्र तत्र नागरी-प्रचारार्थ स्थापित हुई हैं। भारतधर्ममहामंडल और आर्यसमाज आदि धार्मिक सभायें भी व्याख्यानों, लेखों, पत्रों एवं ग्रन्थों द्वारा हिन्दीप्रचार में अच्छी सहायता कर रही हैं। इन सभाओं ने सबसे अधिक उपकार व्याख्यानदाता उत्पन्न करके किया है। बहुत से सनातनधर्मी और आर्यसमाजी उपदेशक धारा बाँध कर उत्तम हिन्दी में घंटों व्याख्यान दे सकते हैं। इनके नाम समालोचनाओं, चक्र एवं नामावली में मिलेंगे। सामाजिक तथा जातीय सभायें भी हिन्दीप्रचार को अनेक प्रकार से लाभ पहुँचा रही हैं।

आज कल हिन्दी भाषा के छापेखाने बहुत हैं और उनकी छपाई भी बढ़िया होती है। उनमें वैकुण्ठेश्वर, लक्ष्मीवैकुण्ठेश्वर, निर्णय-सागर, इंडियन प्रेस, भारतमित्र, नवलकिशोर, भारतजीवन, भारत, हरिप्रकाश, खड्गविनास, अभ्युदय, वैदिकयन्त्रालय आदि प्रसिद्ध हैं।

समय समय पर समस्यापूर्ति के लिए स्थान स्थान पर कविसमाज तथा मंडल भी स्थापित हुए हैं। उनमें से प्रधान प्रधान नाम नीचे लिखे जाते हैं:—

काशी-कविसमण्डल, काशी-कविसमाज, विसर्वा-कविसमण्डल, रसिकसमाज कानपुर, हल्दी-कविसमाज, फतेहगढ़-कविसमाज, कालाकांकर-कविसमाज इत्यादि।

ये सब समाज प्रायः २५ वर्ष के भीतर स्थापित हुए हैं। इन सबमें अधिकांश वही कविगण पूर्तियाँ भेजते थे। इनके पत्रों से वर्तमान कवियों के नाम ढूँढ़ने में हमें बड़ी सुविधा मिली है। इन सब में समस्यापूर्ति की जाती थी और इनमें बहुत से छन्द प्रशंसनीय भी बनते थे। पर इस प्रथा से स्फुट छन्द लिखने की रीति चलती है, जो विशेषतया शृंगार रस के होते हैं। अब भाषा में शृंगार-कविता की आवश्यकता बहुत कम है, क्योंकि भूतकाल में कविता का यह अंग उचित से अधिक पैसे ही ऐसे स्फुट छन्दों द्वारा भर चुका है। अब हिन्दी गद्य-पद्य में वर्तमान प्रकार के विविध उपकारी विषयों पर रचना की आवश्यकता है और नाटक-विभाग की पूर्ति और भी आवश्यक है। स्फुट छन्दों के लिए अब स्थान बहुत कम है। फिर भी यह समस्यापूर्ति की प्रथा स्फुट छन्दों ही की रचना बढ़ाती है। इन्हीं एवं अन्य कारणों से

हमने संवत् १९५७ में एक लेखद्वारा समस्यापूर्ति की रीति को परम निन्द्य कहा था । उस समय इस प्रथा का खूब जोर था, पर अब उतना नहीं है । फिर भी इस रीति को उठा कर उन पत्रों के बन्द कर देने से लाभ नहीं है, वरन् उन्हीं में उत्तम और लाभकारी विषयों पर छन्दोबद्ध प्रबन्ध या कविता का छपना हमारी तुच्छ बुद्धि में उचित है । इस हेतु कई समाजों का टूट जाना और उनके पत्रों का बन्द हो जाना बड़े दुःख की बात है, जैसा कि आज कल हुआ है ।

हमने स्थान स्थान पर शृङ्गार कविता एवं अन्य अनुपयोगी विषयों की रचनाओं की निन्दा की है । फिर भी ऐसे ग्रन्थों के रचयिताओं की प्रशंसा भी इसी ग्रन्थ में पाई जावेगी । इससे कुछ पाठकों को ग्रन्थ में परस्पर विरोधी भावों के होने की शंका उठ सकती है । बहुत से वर्तमान लेखकों का यह भी मत है कि शृंगार काव्य ऐसा निन्द्य है कि हिन्दी में उसका होना न होने के बराबर है और यदि ऐसे ग्रन्थ फेंक भी दिये जावें, तो कोई विशेष हानि नहीं । इन कारणों से उचित जान पड़ता है कि इस विषय पर हम अपना मत स्पष्टतया प्रकट कर दें ।

सबसे पहले पाठकों को कविता के शुद्ध लक्षण पर ध्यान देना चाहिए । पण्डितों का मत है कि अलौकिक आनन्द देना काव्य का मुख्य गुण है । कुलपति मिश्र ने काव्य का लक्षण यह कहा है :—

जगते अद्भुत सुखसदन शब्दरु अर्थ कवित्त ।

यह लक्षण मैंने कियो समुभि ग्रन्थ बहु चित्त ॥”

इसी आशय का एक लक्षण हमने भी कहा था ।

वाक्य अरथ वा एकद्व जहँ रमनीय सु होय ।

शिरमौरहु शशिभाल मत काव्य कहावै सोय ॥

इन लक्षणों के अनुसार उपर्युक्त प्रकार के ग्रन्थ भी आदरणीय हैं । जो प्रबन्ध जैसा ही आनन्द देता है, वह वैसा ही अच्छा काव्य है, चाहे जो विषय उसमें कहा गया हो । फिर वर्णन जैसा ही उत्कृष्ट होगा, काव्यता भी उसकी वैसी ही प्रशंसनीय होगी । विषय की उपयोगिता भी काव्योत्कर्ष को बढ़ाती है; पर साहित्य-चमत्कार-वर्द्धन को यह एकमात्र जननी नहीं है । इस कारण अनुयोगी विषय वाले चमत्कृत ग्रन्थों को हम तिरस्करणीय नहीं समझते । किसी प्रसिद्ध आचार्य ने भी ऐसे ग्रन्थों के प्रतिकूल मत प्रकट नहीं किया है । इन ग्रन्थों से भी साहित्य-भंडार खूब भरा हुआ देख पड़ता है और वास्तव में है । अभी उपयोगी विषयों के अभाव से बहुत लोगों को ये ग्रन्थ सैत के से लड़के समझ पड़ते हैं; परन्तु जिस समय लाभकारी विषयों के ग्रन्थ प्रचुरता से बन जावेंगे, जैसा शीघ्र हो जाने की दृढ़ आशा की जाती है, उस समय इन ग्रन्थों के बाहुल्य से भी हिन्दी की महिमा एवं गौरव में खूब सहायता मिलेगी । आज कल भी ग्रन्थ-भंडार की बहुतायत से हिन्दी भारत की सभी वर्तमान भाषाओं से बहुत आगे बढ़ी हुई है । हम अनुचित विषयों पर शोक अवश्य प्रकट करते हैं, परन्तु हिन्दी के सभी उत्कृष्ट ग्रन्थों का समादर पूर्णरूप से करना बहुत उचित समझते हैं ।

निदान इस वर्तमान काल में हिन्दी ने बहुत अच्छी उन्नति की है और उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने के चिह्न चारों ओर से दृष्टिगोचर हो रहे हैं । अब हम इस अध्याय को इसी जगह समाप्त-प्राय कर इस काल के लेखकों के कुछ विस्तृत वृत्तांत आगे समा-लोचना, चक्र, और नामावली द्वारा लिखते हैं । जिन महाशयों के नाम चक्र अथवा नामावली मात्र में आये हैं उन्हें भी हम न्यून नहीं समझते । केवल विस्तार-भय से ऐसा करने को हम बाध्य हुए हैं । इनमें से कतिपय महानुभावों के ग्रन्थ देखने अथवा विशेष हाल जानने का भी सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ ।

इस भाग में संवत् १९२६ से अब तक का हाल लिखा गया है । इसे हमने दो भागों में विभक्त किया है, अर्थात् प्रथम हरिश्चन्द्र काल (१९४१ तक) और द्वितीय गद्य-काल (अब तक) । इन दोनों भागों के पूर्व और उत्तर नामक दो दो उपविभाग किये गये हैं ।

इस प्रकरण के मुख्य विषय को उठाने से प्रथम हम पत्र-पत्रिकाओं का भी कुछ वर्णन करना उचित समझते हैं ।

### समाचारपत्र एवं पत्रिकायें ।

हिन्दी में प्रेस के अभाव से समाचारपत्रों का प्रचार थोड़े ही दिनों से हुआ है । वारन हेस्टिंग्स के समय में संवत् १८३७ के लगभग बनारस ज़िले में किसी स्थान पर खोदने से दो प्रेस निकले थे, जिन में वर्तमान समय की भाँति टाइप इत्यादि सब सामान था और टाइप जोड़ने का क्रम भी प्रायः आज कल के समान ही था । पुरातत्त्ववेत्ता अँगरेजों का यह मत है कि यह प्रेस कम से कम



एक हजार वर्ष का प्राचीन है। इस हिसाब से स्वामी शंकराचार्य के समय तक में प्रेस होने का पता चलता है। फिर भी छापे का प्रचार यहाँ अंगरेजों राज्य के पूर्व बिल्कुल न था और इसी कारण समाचार-पत्र भी प्रचलित न थे। “हिन्दी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास” नामक एक ग्रन्थ बाबू राधाकृष्णदास ने सन् १८९४ (संवत् १९५१) में प्रकाशित कराया था जो नागरीप्रचारिणी सभा काशी से अब भी मिलता है। इसमें प्राचीन पत्र-पत्रिकाओं के वर्णन पाये जाते हैं। आशा है कि सभा इस का एक नया संस्करण निकाल कर पिछले १७-१८ वर्ष के भीतर का हाल भी पूरा कर देगी।

सबसे पहला हिन्दी पत्र “वनारस अखबार” था, जो संवत् १९०२ में राजा शिवप्रसाद की सहायता से निकला। इसकी भाषा खिचड़ी थी और सभ्य समाज में इसका आदर नहीं हुआ। इसके सम्पादक गोविन्द रघुनाथ थत्ते थे। साधु हिन्दी में एक उत्तम समाचारपत्र निकालने के विचार से कई सज्जनों ने काशी से ‘सुधाकर’ पत्र निकाला। सबसे पहले परमोत्कृष्ट पत्र जो हिन्दी में निकला वह भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र द्वारा सम्पादित ‘कवि-वचनसुधा’ था, जो संवत् १९२५ से प्रकाशित होने लगा। सुधा पत्र पहले मासिक था, पर थोड़े ही दिनों बाद पाक्षिक होकर साप्ताहिक हो गया। इसकी लेखनशैली बहुत गम्भीर तथा उन्नत थी। इसमें गद्य तथा पद्य में लेख निकलते थे और वह सभी तरह से संतोषदायक थे। संवत् १९३७ के पीछे भारतेन्दुजी ने यह पत्र पण्डित चिन्तामणि को दे दिया, जिनके प्रबन्ध से यह संवत् १९४२ तक निकल कर बन्द हो गया। संवत् १९२९ में बाबू

कार्तिकप्रसाद ने कलकत्ते से 'हिन्दी-दीप्ति-प्रकाश' निकाला । यह पत्र प्रसिद्ध पत्र हिन्दी-प्रदीप से अलग था । इसी साल बिहार से 'बिहारबन्धु' का जन्म हुआ । भारतेन्दुजी ने संवत् १९३० में "हरिश्चन्द्र मैगज़ीन" निकाली, जिसका नाम बदल कर दूसरे साल 'हरिश्चन्द्रचन्द्रिका' कर दिया, जो संवत् १९४२ तक किसी प्रकार निकलती रही । संवत् १९३४ में भारतमित्र, मित्रविलास, हिन्दीप्रदीप और आर्यदर्पण नामक प्रसिद्ध पत्रों का जन्म हुआ । 'भारतमित्र' पं० दुर्गाप्रसाद तथा अन्य महाशयों ने निकाला । यह पहला साप्ताहिक पत्र है, जो बड़ी उच्चमता से निकाला गया और जिसकी प्रणाली बड़ी गौरवान्वित रही है । इसके सम्पादकों में हरमुकुन्द शास्त्री और बालमुकुन्द गुप्त प्रधान हुए । गुप्त जी के लेख बड़े ही हँसी-दिल्लीगी-पूर्ण तथा गम्भीर होते थे । इस वर्ष से इसका एक दैनिक संस्करण भी निकलने लगा है । 'मित्रविलास' पंजाब का एक बढ़िया हिन्दी-पत्र था । "हिन्दीप्रदीप" प्रयाग से पंडित बालकृष्णजी भट्ट ने निकाला । इसमें बड़ेही गम्भीर तथा उच्च-कोटि के लेख निकलते रहे । यह पत्र हिन्दी-भाषा का गौरव समझा जाना था और घाटा खाकर भी भट्ट जी उदारभाव से इसे बहुत दिनों तक निकालते रहे । परन्तु हाल में कुछ राजनैतिक अड़चन पड़ी, जिसपर विवश होकर भट्ट जी ने इसे बन्द कर दिया । संवत् १९३५ में कलकत्ता से 'सारसुधानिधि' और 'उचितवक्ता' नामक पत्र निकले । उचितवक्ता को स्वर्गीय पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र ने निकाला और 'सारसुधानिधि' के संपादक प्रसिद्ध लेखक पंडित सदानन्द जी थे । संवत् १९३६ में उदयपुराधीश महाराज

सज्जनसिंह जू देव ने प्रसिद्ध पत्र 'सज्जनकीर्तिसुधाकर' निकाला । महाराणा जी के अकाल मृत्यु से हिन्दी की बड़ी ही क्षति हुई । संवत् १९३९ में पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने कानपूर से प्रसिद्ध ब्राह्मण पत्र निकाला, जिसने पठित समाज में अपने लेखों के चटकीलेपन से बहुत ही आदर पाया, परन्तु ब्राह्मणों की अनुदारता से यह स्थायी न हो सका । संवत् १९४० में हिन्दी का प्रसिद्ध पत्र 'हिन्दीस्तान' पहले पहल प्रायः दो वर्ष अँगरेजी में निकला, फिर प्रायः दो मान अँगरेजी तथा हिन्दी में निकल कर एक बरस तक अँगरेजी, हिन्दी और उर्दू में छपा गया । उस समय तक यह मासिक था । इसके पीछे यह दस महीने तक साप्ताहिक रूप से अँगरेजी में इंग्लैंड से निकला । १ नवंबर सं० १९४२ से यह पत्र दैनिक कर दिया गया । इस पत्र के स्वामी राजा रामपालसिंह सदा इस के सम्पादक रहे और सहकारी सम्पादकों में बाबू अमृतलाल चक्रवर्ती, पंडित मदनमोहन मालवीय और बाबू बाल-मुकुन्द गुप्त जैसे प्रसिद्ध लोगों की गणना है । राजा साहब के मृत्यु के साथही साथ यह पत्र भी विलीन हो गया । कुछ दिन पश्चात् उनके उत्तराधिकारी हमारे मित्र राजा रमेशसिंह जी ने 'सम्राट्' पत्र को पहले साप्ताहिक और फिर दैनिक रूप में निकाला, परन्तु हिन्दी के अभाग्य से राजा रमेशसिंह जी की असामयिक मृत्यु के कारण वह भी बन्द हो गया । सं० १९४० से प्रसिद्ध पत्र 'भारतजीवन' बाबू रामकृष्ण वर्मा ने साप्ताहिकरूप में काशी से निकाला, जिसमें बहुत दिन तक नागरीप्रचारिणी सभा की कार्यवाही छपती रही और अभी तक वह सफलता से चल रहा है । संवत्

१९४२ में कानपूर से भारतोदय दैनिक पत्र बाबू सीताराम के सम्पादकत्व में निकला, जो एकही साल चल कर बन्द हो गया। संवत् १९४४ व ४६ में 'आर्यावर्त' और 'राजस्थान' नामक दो पत्र आर्यसमाज की तरफ से निकले जो अब तक विद्यमान हैं। संवत् १९४५ में 'सुगृहिणी' मासिकपत्रिका हेमंतकुमारी देवी ने निकाली। सं० १९४६ में श्रीमती हरदेवी ने 'भारतभगिनी' मासिक रूप में निकाली जो अब तक चल रही है। संवत् १९४७ में सुप्रसिद्ध पत्र 'हिन्दी-वंगवासी' का जन्म हुआ, जो बड़ी उत्तमता से चल रहा है और जिसकी ग्राहकसंख्या शायद सब हिन्दीपत्रों से अधिक है। पंडित कुंदनलाल ने संवत् १९४८ से कुछ दिन "कवि व चित्रकार" पत्र निकाला, पर उन के स्वर्गवास होने पर वह बन्द हो गया।

बम्बई का श्रीवैकटेश्वरसमाचार भी एक नामी साप्ताहिक पत्र है, जो प्रायः बीस वर्ष से हिन्दी की अच्छी सेवा कर रहा है। इधर प्रयाग से अभ्युदय पत्र बहुत अच्छा निकल रहा है। यह पहले साप्ताहिक था, पर अब अर्द्ध साप्ताहिक रूप में निकलता है। लखनऊ के बाबू कृष्णबलदेव वर्मा ने "विद्याविनोद" नामक साप्ताहिक पत्र कुछ दिन प्रकाशित किया था। "हिन्दीकेसरी" गरम दल वालों ने निकाला। आज दिन भारतमित्र के अतिरिक्त सर्वाहतैषी पत्र भी दैनिक निकलता है।

संवत् १९५६ से सुप्रसिद्ध मासिकपत्रिका सरस्वती का विकास प्रयाग से हुआ और प्रायः सभी तत्कालीन नामी लेखक उसमें लेख देने लगे। इसके सम्पादन का भार पहले पाँच सज्जनों

की एक समिति पर रहा और पीछे से केवल बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए० को यह काम सम्हालना पड़ा। अंत में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सम्पादनभार उठाया और एक वर्ष को छोड़, जब कि पंडित देवीप्रसाद शुक्ल बी० ए० सम्पादकत्व के काम पर रहे, द्विवेदीजी इसे बड़ी योग्यता के साथ चला रहे हैं। कमला, लक्ष्मी, सुदर्शन, समालोचक, छत्तीसगढ़ मित्र, राघवेन्द्र, यादवेन्द्र, इत्यादि कई पत्र पत्रिकायें इसी ढंग पर निकलीं, पर स्थिर न रह सकीं। अब कुछ काल से "मर्यादा" नामक मासिक पत्रिका बड़ेही उत्तम रङ्ग डङ्ग पर चलने लगी है। स्त्रियों के उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं में भारतभगिनी, स्त्रीधर्मशिक्षक, गृहलक्ष्मी और स्त्री-दर्पण प्रसिद्ध हैं। काशी-नागरीप्रचारिणी सभा एक मासिक-पत्रिका, एक त्रैमासिक ग्रन्थमाला और एक लेखमाला प्रकाशित करती है। देवनागर अनेक भाषाओं के लेखों को नागरी अक्षरों में प्रकाशित कर और अन्य उपायों द्वारा हिन्दी-भाषा और विशेषतया नागरी लिपि का अच्छा उपकार कर रहा है। चित्रमयजगत् हिन्दी-पत्रों में बड़े ही गौरव का है। यह थोड़े ही दिनों से निकलने लगा है, पर इसके चित्र बड़े ही मनोरंजक और लेख प्रशंसनीय होते हैं। कवितासम्बन्धी पत्रों में रसिकवाटिका, रसिकमित्र, काव्यसुधाधर, हल्दीकविकीर्तिप्रचारक इत्यादि कई पत्र निकले, जिनमें कतिपय कवियों की रचनायें अच्छी कही जा सकती हैं। इन्दु, जासूस, व्यापारी, खेतीबारी, देहाती, निगमागमचन्द्रिका, सद्धर्मप्रचारक, सनातनधर्मरताका, अवधसमाचार, अमृत, अबलाहितकारक, आनन्द, आर्य्यप्रभा, आर्य्यमित्र, उपन्यास, कला-

कुशल, कवीरपंथी, कान्यकुब्ज, कान्यकुब्जहितकारी, कान्यकुब्ज-सुधारक, कुर्मीहितैषी, खत्रीहितकारी, गढ़वाली, चाँद, जीवदया-धर्माश्रित, जैनगजट, टाडनामा, जैनप्रदोष, दारोगादफ़ूर, तंत्र-प्रभाकर, नवजीवन, नागरीप्रचारक, दीनबंधु, पांचालपंडिता, विलासिनी, बड़ावाज़ारगजट, बालप्रभाकर, वीरभारत, ब्राह्मण-सर्वस्व, भूमिहारब्राह्मण-पत्रिका, भारतवासी, मारवाड़ी, मिथिला-मिहिर, यंगविहार, राजपूत, रसिकरहस्य, राजस्थानकेसरी, सद्धर्म, सत्यसिंधु, सारस्वत, सोलजरपत्रिका, साहित्यसरोज, स्वदेशवांधव, हितवार्ता, सुधानिधि, हिन्दीप्रकाश, हिन्दीसाहित्य, हिन्दूवांधव, क्षत्रियमित्र आदि ऐसे सामयिक पत्र हैं जो बाबू राधाकृष्णदास-कृत इतिहास के लिखे जाने बाद प्रकाशित होने लगे। इनमें से कतिपय बन्द भी होगये, पर अधिकांश अब तक चल रहे हैं और उनसे हिन्दी की अच्छी सेवा हो रही है। तो भी कहना ही पड़ता है कि इनसे और भी विशेष लाभ हो सकता है और हमें दृढ़ आशा है कि इनके विज्ञ सम्पादक-गण इस और क्रमशः समुचित प्रकार से ध्यान देंगे। समयोपयोगी विचारों और विषयों की ओर पूर्ण झुकाव हुए बिना अब काम नहीं चल सकता ।





भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ।



## छत्तीसवाँ अध्याय ।

पूर्व हरिश्चन्द्र-काल ।

(१९२६—३७)

(२१६६) भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी । ✓

इनका जन्म संवत् १९०७ में भाद्र शुक्ल ७ को काशीजी में हुआ था । इनके पिता का नाम गोपालचन्द्र (उपनाम गिरधरदास) था । ये अग्रवाल वैश्य थे । इन्होंने बाल्यावस्था में पढ़ने में अधिक जी नहीं लगाया । केवल ११ वर्ष की अवस्था तक इन्होंने विद्याध्ययन किया, परन्तु पीछे से शैक्षिकी बहुत सी भाषाओं तथा विद्याओं का अभ्यास कर लिया था । इन्होंने बहुत से स्वदेशप्रेम के काम किये और हिन्दी-गद्य को इनसे बहुत सहायता मिली । इनका चित्त बहुत ही मजाकपसन्द था । पहली अपरैल एवं होली को ये बिना कुछ दिलगी किये नहीं रहते थे । उदारता इनकी बहुत ही बढ़ी चढ़ी थी, यहाँ तक कि इन्होंने अपने भाग की पैत्रिक सम्पत्ति बहुत जल्द स्वाहा कर दी । इनका शरीरपात संवत् १९४१ में काशी में हुआ ।

सत्रह वर्ष की अवस्था से इन्होंने काव्यरचना आरंभ कर दी थी और अन्त समय तक ये काव्यानन्द ही में मग्न रहे । इनकी रचनाओं का संग्रह छः भागों में स्रङ्गविलास प्रेस से प्रकाशित हुआ है । सब मिलाकर इनके छोटे बड़े १७५ ग्रन्थ इस संग्रह में हैं । प्रथम भाग में १८ नाटक और १ ग्रन्थ नाटकों के नियमों का है ।

इनमें सत्यहरिश्चन्द्र, मुद्राराक्षस, चन्द्रावली, भारतदुर्दशा, नील-देवी, और प्रेमयोगिनी प्रधान हैं। भारतदुर्दशा और नीलदेवी में भारतेन्दुजी का स्वदेशप्रेम दर्शनीय है। चन्द्रावली से इनके असौम्य प्रेम और भक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। सत्य-हरिश्चन्द्र भारतेन्दुजी की कवित्व-शक्ति का एक अद्भुत नमूना है। प्रेमयोगिनी में इन्होंने अपने विषय की बहुत सी बातें लिखी हैं। इसमें हँसी मज़ाक़ का अच्छा चमत्कार है। द्वितीय भाग इनके रचित इतिहास-ग्रन्थों का संग्रह है, जिसमें काश्मीरकुणुम, बादशाह-दर्पण और चरितावली प्रधान हैं। चरितावली में इन्होंने अच्छे अच्छे महानुभावों के चरित्रों का वर्णन किया है। तृतीय भाग में राजभक्तिसूचक काव्य है। इसमें १३ ग्रन्थ हैं, परन्तु उनकी रचना उत्कृष्ट नहीं हुई है। चतुर्थ भाग का नाम भक्तिसर्वस्व है। इसमें १८ भक्तिपक्ष के ग्रन्थ हैं, जिनमें वैष्णवसर्वस्व, बल्लभीय-सर्वस्व, उत्तरार्द्ध भक्तमाल तथा वैष्णवता और भारतवर्ष उत्तम रचनार्य हैं। पंचम भाग का नाम काव्यामृतप्रवाह है। इसमें १८ प्रेम-प्रधान ग्रन्थ हैं, जिनमें प्रेमकुलवारी, प्रेमप्रलाप, प्रेम-मालिका और कृष्णचरित्र प्रधान हैं। नाटकावली के अतिरिक्त भारतेन्दुजी का यह भाग सर्वोत्तम है। छोटे भाग में हँसीमज़ाक़ के चुटकुले और छोटे छोटे कई निबन्ध तथा अन्य लोगों के बनाये हुए कई ग्रन्थ हैं, जो इनके द्वारा प्रकाशित हुए थे।

इनकी कविता का सर्वोत्तम गुण प्रेम है। इनके हृदय में ईश्व-रीय एवं सांसारिक प्रेम बहुत अधिक था; इसी कारण इनकी रचना में प्रेम का वर्णन बहुत ही अच्छा आया है। भारतेन्दुजी

अपने समय के प्रतिनिधि कवि थे। इनको हिन्दूपन तथा जातीयता का बहुत ही बड़ा ध्यान रहता था। हास्य की मात्रा भी इनकी रचनाओं में विशेषरूप से पाई जाती है। वैदिकी हिंसा-हिंमान भवति, अंधेरनगरी और प्रेमयोगिनी में हास्यरस का अच्छा समावेश है। इनकी कविता बड़ी सबल होती थी और विविध विषयों के वर्णनों में इन कवि ने अच्छी शक्ति दिखलाई है। सौंदर्य को यह सभी स्थानों पर देखता और अपनी कविता में उसे हर स्थान पर सन्निविष्ट करता था। रूपक भी भारतेन्दुजी ने बहुत विशद लिखे हैं। राजनैतिक तथा सामाजिक सुधारों पर इन्होंने अपने विचार जगह जगह पर सबल भाषा में प्रकट किये हैं। इस कविरत्न ने पद्य में ब्रजभाषा का और गद्य में खड़ी बोली का विशेषतया प्रयोग किया है, परन्तु उर्दू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भाड़वारी, गुजराती, बंगला, पंजाबी, मराठी, राजपूतानी, बनारसी, अवधी आदि सभी भाषाओं में उत्कृष्ट और सरस रचनायें की हैं। इन्होंने गद्य और पद्य प्रायः बराबर लिखे हैं। ग्रन्थों के अतिरिक्त वावू साहब ने कई समाचारपत्र और पत्रिकायें चलाईं। वर्त्तमान हिन्दो की इनके कारण इतनी उन्नति हुई कि इनको इसका जन्मदाता कहने में भी अत्युक्ति न होगी। यदि इनका विशेष वर्णन देखना चाहिए तो हमारे रचित नवरत्न में देखिए। उदाहरण—

हम हूँ सब जानतीं लोक की चालन क्यों इतनी बतरावती है।  
हित जामें हमारा बनै सो करौ सखियाँ तुम मेरी कहावती है ॥  
हरिचन्द्रजू या मैं न लाभ कछु हमें बातन क्यों बहरावती है।  
सजनी मन हाथ हमारे नहीं तुम कौन को का समुभावती है ॥१॥

पच्चि मरत वृथा सब लोग जोग सिरधारी ।

साँची जोगिन पिय विना वियोगिन नारी ॥

बिरहागिनि धूनी चारों ओर लगाई ।

बंसीधुनि की मुद्रा कानों पहिराई ॥

लट उरभि रही सोइ लटकाई लट कारी ।

साँची जोगिन पिय विना वियोगिन नारी ॥

है यह सोहाग का अटल हमारे बाना ।

असगुन की मूरति खाक न कभी चढ़ाना ॥

सिर सेंदुर देकर चोटी गूथ बनाना ।

सिवजी से जोगी को भी जोग सिखाना ॥

पीना प्याला भर रखना वही खुमारी ॥

साँची जोगिन पिय विना वियोगिन नारी ॥२॥

भरित नेह नव नीर नित वरसत सुरस अथोर ।

जयति अपूरव घन कोऊ लखि नाचत मन मोर ॥३॥

उठहु वीर रण साज साजि जय ध्वजहि उड़ाओ ।

लेहु म्यान सों खड्ग खौचि रन रङ्ग जमाओ ॥

परिकर कसि कटि उठौ धनुष सों धरि सर साधौ ।

केसरिया बानो सजि सजि रनकंकन बाँधौ ॥

जो आरजगन एक होय निज रूप विचारै ।

तजि गृह-कलहहिँ अपनी कुलमरजाद सँभारै ॥

तौ अमीरखाँ नीच कहा याको बल भारी ।

सिंह जगे कहुँ स्वान ठहरिहै समर मँभारी ॥

चौंदिहु पद तल परे डसत है तुच्छ जंतु इक ।

ये प्रतच्छ अरि इन्हें उपेछै जौन ताहि धिक ॥

थिक तिन कहँ जे आर्य्य होय यवनन को चाहैं ।

थिक तिन कहँ जे इनसों कछु सम्बन्ध तिवाहैं ॥  
उठहु वीर सब अस्त्र साजि माइहु घन संगर ।

लोह-लेखनी लिखहु अज्ज बल दुवन हदै पर ॥४॥  
सब भाति दैव प्रतिकूल होय यहि नासा ।

अब नजहु वीरवर भारत की सब आसा ॥  
अब मुख-सूरज को उदै नहीं इत हूँहै ।

सो दिन फिरि अब इन सपनेहू नहीं पैहैं ॥  
स्वाधीनपतो बल वीरज सर्व नसैहै ।

मंगलमय भारत भुव मसान हूँ जैहै ॥  
मुख तजि इत करि है दुःखहि दुःख निवासा ।

अब नजहु वीरवर भारत की सब आसा ॥५॥

यहाँ कवि ने स्वाधीनपतो आदि शब्दों से मानसिक स्वतन्त्रता का भाव लिया है न कि राजनैतिक का। यह कवि भारत का अंगरेजों से सम्बन्ध मंगलकारी समझता था और राजभक्ति के इसने कई ग्रन्थ रचे। इसके विलाप भारतीय मानसिक दुर्बलता-विषयक हैं।

(२१७०) तोताराम । ✓

इनका जन्म संवत् १९०४ में कायस्थ कुल में हुआ था। कुछ दिन सरकारी नौकरी करके इन्होंने अलीगढ़ में वकालत जमाई, जहाँ इनकी आय प्रायः अयुत मुद्रा सालाना थी। आप प्रकृति से परम सुशील थे। अलीगढ़ में हम लोगों का इनसे परिचय हुआ था और

इन्हें हमने अपना लवकुशचरित्र सुनाया था । इन्होंने कुछ दिन भारतबंधु नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला । केंटो-कृतान्त नामक इन्होंने एक नाटकग्रन्थ बनाया और वाल्मीकीय रामायण का आप रामरामायण नामक एक उलथा स्वच्छ दोहा चौपाइयों में बनाते थे, पर वह पूर्ण न हो सका । उसका बालकांड इन्होंने हमें दिया था । हम इनकी गणना मधुसूदन दास की श्रेणी में करेंगे । संवत् १९५९ में इनका शरीरपात हुआ ।

### (२१७१) देवीप्रसाद मुंशी । ✓

ये महाशय गौड़ कायस्थ मुंशी नत्थनलाल के पुत्र हैं । इनका जन्म नाना के घर जयपुर में माघ सुदी १४ संवत् १९०४ को हुआ था । संवत् १९२० से १९३४ पर्यन्त ये नवाब टोंक के यहाँ नौकर रहे और संवत् १९३६ से महाराज जोधपुर के यहाँ कर्मचारी हो गये । ये महाशय बहुत दिनों तक मुंसिफ़ रहे और मनुष्यगणना आदि का काम करके अब दरबार की ओर से प्राचीन शिलालेखों आदि की खोज का काम करते हैं । प्रत्येक पद पर अपने ऊँचे अफसरों को इन्होंने अच्छे काम से सदैव प्रसन्न रक्खा । पहले इन्हें उर्दू गद्य और पद्य लिखने का चाव था, पर पीछे से ये हिन्दी-गद्य के भी अच्छे लेखक हो गये । इन्होंने उर्दू की बहुत सी पुस्तकें बनाईं और हिन्दी में भी दरबार की आज्ञा से कानून तथा मनुष्य-गणना आदि से सम्बन्ध रखने वाले छोटे बड़े कई उपयोगी ग्रन्थ रचे । इन्होंने सबसे अधिक श्रम इतिहास पर किया और बहुत छान बीन कर के

इस विषय पर बहुत से परमोपयोगी ग्रन्थ रचे, जिन्हे इन्होंने ऐसी सरल भाषा में लिखा है कि प्रत्येक हिन्दी पढ़ लेने वाला परम स्वल्पज्ञ मनुष्य भी समझ सकता है। इतिहास के विषय पठितसमाज में आज इनका प्रमाण माना जाता है। महिलामृदु-वाणी तथा राजरसनामृत नामक दो काव्य-ग्रन्थ भी इन्होंने संगृहीत किये हैं और कवियों की एक नामावली संकलित की है जो प्रकाशित होने वाली है। इनके रचे हुए ऐतिहासिक जीवनचरित्रों के नायक ये हैं :—

अकबर, शाहजहाँ, हुमायूँ, तुहमास्प (ईरान का शाह), बाबर, शेरशाह, सांगा (राणा), रतनसिंह, विक्रमादित्य (चित्तौर), वनवीर, उदर्यसिंह, प्रतापसिंह, पृथ्वीराज (जयपूर), पूरनमल, रतनसिंह, आसकरण, राजसिंह, (जयपूर), भारमल, भगवानदास, मानसिंह, बीकानजी, नराजी, लूणकरण, जैतसी, कल्याणमल, मालदेव, बीरबल (दो भागों में), मीरा बाई, जसवन्तसिंह (मारवाड़), खानखाना, और औरंगजेब ।

इन जीवितियों के अतिरिक्त नीचे लिखे हुए मुंशीजी के अन्य ग्रन्थ हैं :—

जसवन्तस्वर्गवास, सरदारसुखसमाचार, विद्यार्थीविनोद, स्वप्न राजस्थान, मारवाड़ का भूगोल तथा नकशा, प्राचीन कवि, बीकानेर राजपुस्तकालय, इंसाफ़संग्रह, नारी नवरत्न, महिलामृदु-वाणी, मारवाड़ के प्राचीन शिलालेखों का संग्रह, सिंध का प्राचीन इतिहास, यवनराजवंशावली, मुग़लवंशावली, युवती-योग्यता, कविरत्नमाला, अरबी भाषा में संस्कृतग्रन्थ, रूठी रानी, परिहारवंशप्रकाश, और परिहारों का इतिहास ।

इन ग्रन्थों का हाल हमें स्वयं मुंशीजी से ज्ञात हुआ है। आपने कविरत्नमाला वाले कवियों के नामों की एक हस्तलिखित सूची भी हमारे पास भेजने की कृपा की है। इसमें ७५४ नाम हैं। उपर्युक्त ग्रन्थों में बहुत से हमने देखे हैं और उनमें से बहुत से हमारे पास वर्तमान भी हैं। इन्होंने इतिहास-ग्रन्थों में गद्य-काव्य न लिख कर सीधी सादी इवारत में सत्य घटनायें लिखने का प्रयत्न किया है। रुठी रानी एक प्रकार से उपन्यास भी है। इनके अच्छे गद्य-लेखों की भाषा सुलेखकों की सी होती है। इनके प्रयत्नों से हिन्दी में इतिहासविभाग की अच्छी पूर्ति हुई है। उदाहरण—

दूसरे चित्र में एक सिंहासन बना था। ऊपर शामियाना तना था। उस सिंहासन पर एक भाग्यवान् पुरुष पावँ पर पावँ रङ्गवै बैठा था; तक्रिया पीठ से लगा था। पाँच सेवक आगे पीछे खड़े थे और वृक्ष की शाखा उस सिंहासन पर छाया किये हुए थी।

जहाँगीरनामा (पृष्ठ १४४) ।

## (२१७२) जगमोहनसिंह ।

इनका जन्म संवत् १९१४ में विजयराघवगढ़ में हुआ। ठाकुर सरयूसिंहजी इनके पिता एक राजा थे, पर संवत् १९१४—१५ वाले विद्रोह में उनका राज्य सरकार ने ज़ब्त कर लिया। जगमोहनसिंहजी ने काशी में विद्या पढ़ी, जहाँ इनसे भारतेन्दुजी से स्नेह हुआ। ये १६ वर्ष की ही अवस्था से कविता करने लगे थे। पहले इन्हें सरकार ने तहसीलदार नियत किया और दो ही वर्ष में, संवत् १९३९ में, यक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर कर दिया। यह वही पद है



जो यहाँ डेपुटी कलेक्टर के नाम से प्रख्यात है। इन्होंने सरकारी नौकरी के समय भी साहित्यरचना को नहीं भुलाया और अक्काश पा कर ये बग़ावर ग्रन्थरचना करते रहे। इनका शरीरपात थोड़ी ही अवस्था में संवत् १९५२ में हो गया। इनके बनाये हुए ग्रन्थ ये हैं:—श्यामास्वप्न, श्यामसरोजिनी, प्रेमसम्पत्तिलता, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमारसम्भव, प्रेमहज़ारा, सज्जनाष्टक, प्रलय, ज्ञान-प्रदीपिका, सांख्य (कपिल सूत्रों की टीका, वेदान्त सूत्रों ( वादरायण ) पर टिप्पणी और बानी वाई विलाप। हमारे देखने में इनके ग्रन्थ नहीं आये पर सुनते हैं कि वे उत्तम हैं। उदाहरण—

आई दिशिर बरोह शालि अरु ऊखन संकुल धरनी ।  
 प्रमदा प्यारी ऋतु सोहावनी कौंच रोर मनहरनी ॥  
 मूँदे मन्दिर उदर भरोखे भानु किरन अरु आगी ।  
 भारी बसन हसन मुख वाला नव योवन अनुरागी ॥

(२१७३) गदाधरसिंह (वायू) ।

इनका जन्म संवत् १९०५ में हुआ था। इन्होंने कुछ दिन व्यापार किया, पर उसके न चलने से सरकारी नौकरी कर ली और अन्त तक उसे करते रहे। हिन्दी की इन्हें बड़ी रुचि थी और इन्होंने अन्त समय अपना पुस्तकालय एवं सब धन काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा को दे दिया। इन्होंने कादम्बरी, वंगविजेता, दुर्गेशनन्दिनी, और ओथेलो के भाषानुवाद किये तथा रोमन उर्दू की पहली पुस्तक, एवं भगवद्गीता नामक पुस्तकें बनाईं। ये ऐतिहासिक और पौराणिक विवरण की एक डायरी नामक एक

उत्तम पुस्तक लिख रहे थे; पर वह असमाप्त रह गई और संवत् १९५५ में इनका शरीरपात हो गया ।

(२१७४) श्रीनिवासदास लाला ।

ये महाशय अजमेरा वैद्य लाला मंगीलाल के पुत्र थे । इनका जन्म संवत् १९०८ कार्तिक सुदी परिवा को मथुरा में हुआ था । राजा लक्ष्मणदास की ओर से ये महाशय उनकी दिल्ली वाली कोठी के संचालक और एक बड़े रईस थे । इनकी कविता अमृत में डुबोई होती थी । भारतेन्दु के अतिरिक्त इन्होंने हिन्दी में उत्कृष्ट नाटक बनाये हैं । तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, तथा रणधीर प्रेममोहनी नामक इन्होंने तीन नाटक ग्रन्थ बनाये जिनका पूर्ण समादर हिन्दीपठित समाज में हुआ, विशेषतया अन्तिम दोनों का । इनके अन्तिम नाटक के अनुवाद उर्दू और गुजराती में हुए और वह खेला भी गया । इन्होंने परीक्षागुरु नामक एक उपन्यास भी बनाया, पर वह ऐसा अच्छा नहीं है जैसे कि इनके अन्य ग्रन्थ हैं । हम इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में करेंगे । इनकी अकालमौत संवत् १९४४ में हो गई, जिससे हिन्दी के नाटक-विभाग को बड़ी क्षति पहुँची ।

(२१७५) राजा रामपालसिंहजी कालाकांकर  
जिला प्रतापगढ़ ।

इनके पिता का नाम लाल प्रतापसिंह और पितामह का राजा हनुमंतसिंह था । इनका जन्म संवत् १९०५ में हुआ । इनके पिता शहर के समय अँगरेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए ।

राजा साहब की शिक्षा का प्रबन्ध इनके दादा राजा हनुमंतसिंह ने किया । इन्होंने अठारह वर्ष की अवस्था तक हिन्दी, फ़ारसी और अँगरेज़ी में अच्छी योग्यता प्राप्त करली थी । राजा हनुमंतसिंह के और कोई उत्तराधिकारी न होने तथा इनके पिता के लड़ाई में मारे जाने के कारण वे इन पर विशेष प्रेम रखते थे । अतः राजा हनुमंतसिंहजी ने अपने जीते जी इनको कालाकाँकर की अपनी रियासत का मालिक कर दिया । राजा रामपालसिंहजी के विचार ब्राह्मो-धर्म के समान "एकं ब्रह्म द्वितीया नास्ति" पर थे और हिन्दू धर्म के रस्म रवाजों पर वे ध्यान नहीं देने थे; इस कारण समय पर राजा हनुमंतसिंह और उनके विरादरीवाले इनसे बहुत ही नाराज़ हुए । राजा रामपालसिंह ने उनका क्रोध शांत करने को अपना राज्याधिकार फिर उन्हें वापस दे दिया । थोड़े दिन के बाद वे अपनी रानी समेत इंग्लैंड गये । वहाँ इनकी रानी का देहान्त हो गया । इंग्लैंड में राजा साहब ने विद्योपाजेन में अच्छा श्रम किया और फ़्लोच तथा जर्मन भाषायें भी सीखीं तथा गणित एवं तर्क-शास्त्र में अभ्यास किया । वहाँ इन्होंने संवत् १८८३ से १८८५ तक हिन्दो-स्थान नामक एक त्रैमासिक पत्र निकाला, जिसने कई अँगरेज़ों में हिन्दोप्रेम जागृत किया । इसी समय राजा हनुमंतसिंह का देहांत हो गया, अतः ये कालाकाँकर आये और रियासत का उचित प्रबन्ध करके दुबारा इंग्लैंड गये । अबकी बार वहाँ से एक मंग को वे अपनी रानी बनाकर लाये । ये रानी साहवा भी संवत् १९०४ में हैजे से मर गईं । इसके बाद राजा साहब ने एक विवाह और किया । संवत् १९४२ से आप हिन्दोस्थान का दैनिक

करके कालाकांकर से निकालने लगे । तब से बहुत अर्थहानि होने पर भी ये बराबर उसे यावज्जीवन निकालते रहे । राजा साहब भाषा तथा फ़ारसी के अच्छे कवि थे । आपके विचार आधुनिक विद्वानों के समान बड़ेही निडर थे । बहुत दिन तक ये काँग्रेस में शरीक होते रहे । राजा साहब के हिन्दीप्रेम तथा उन्नत विचारों का यहाँ के राजा लोगों को अनुकरण करना चाहिए । आपने कालाकांकर में एक हनुमंतस्कूल भी खोला था जो अच्छी दशा में था । उसे कालिज करने की इनकी इच्छा थी, जैसा कि इन्होंने अपने वसीयतनाम में लिखा था । राजा साहब का देहांत तीन साल हुए हो गया । तभी से उक्त दैनिक पत्र हिन्दोस्थान बंद हो गया । इनके उत्तराधिकारी साहित्यप्रेमी राजा रमेशसिंहजी ने एक दैनिक पत्र सम्राट् नामक जारी किया था, परन्तु कुटिल काल की गति से वह भी रमेशसिंहजी के साथ ही अस्त हो गया ।

### (२१७६) गोविन्द गिल्ला भाई ।

इन का जन्म सिहोर रियासत भावनगर में श्रावण सुदी ११ संवत् १९०५ को हुआ था । आप के पिता का नाम गिल्लाभाई है । आप गुजराती हैं और इसी भाषा में रचना करते थे, परन्तु पीछे से हिन्दी में भी करने लगे । आपके पास बहुत से ग्रन्थ हैं और आप हिन्दी के बड़े उत्साही हैं । आपने नीतिविनोद, शृंगार-सरोजिनी, पट्क्रतु, पावस-पयोनिधि, समस्यापूर्तिप्रदीप, वक्रोक्तिविनोद, श्लेषचन्द्रिका, गोविन्दज्ञानवाचनी, प्रारम्भ-पचासा और प्रवीन-सागर की बारह-लहरी नामक चौदह पद्य

ग्रन्थ बनाये हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें काव्य अच्छा है। बहुत दिनों तक आप सरकारी नौकरी करते रहे और अब पेंशन पाते हैं। आपकी कविता ब्रजभाषा में है।

## (२१७७) रसिकेश उपनाम रसिकविहारीजी।

इनका जन्म संवत् १९०१ में हुआ था। आप कुछ समय में वैरागी होकर अयोध्या में कनकभवन के महन्त हो गये और अपना नाम आपने जानकीप्रसाद रक्खा। वैरागी होने के पूर्व आप पन्ना में दीवान थे। आपने रामरसायन (६०८ पृष्ठ) काव्य; सुधाकर (पृष्ठ १४७), इस्क अजायब, ऋतुरंग, विरहदिवारकर, रसकौमुदी, सुमतिपचवीसो, सुयशकदम, कानून मजमुआ, राग-चक्रावली, संग्रहविस्तारवली, मनमंजन, संगृहीतसंग्रही, गुप्त-पचवीसो आदि २६ ग्रन्थ रचे हैं। इन के प्रथम दो ग्रन्थ हमारे पास इस समय प्रकाशितरूप में वर्तमान हैं। रामरसायन में रामायण की कथा है और काव्यसुधाकर में छन्द, रस, भाव, अलंकार आदि काव्यांगों का अच्छा वर्णन है। इनका शरीरपात हुए थोड़े दिन हुए हैं। आपका काव्य चामत्कारिक है। हम इन्हें तोष की श्रेणी में रखते हैं। इन्होंने उर्दूमिश्रित भाषा में भी रचना की है। इन की रामायण भी अच्छी है। उदाहरण :—

झूमैं हैं चहुंधा गजराज से रसाल भूमैं

धूमैं हैं समीर तेज तरल तुरंग ज्यों।

किंसुक गुलाव कचनार औ अनारन के

प्यादे भाँति भाँति लसैँ सहित उमंग त्यों ॥

छाई नव बल्ली छटा छहरि रही है धनी  
 तेई रथ राजै मोर भ्रमत अभंग क्यों ।  
 रसिक विहारी साज साजि ऋतुराज आयो  
 छाये वन वाग सेना लीन्हे चतुरंग यों ॥

(२१७८) नृसिंहदास कायस्थ ।

ये संवत् १९६६ में प्रायः ६५ वर्ष की अवस्था पाकर छतरपूर में मरे। इनके सन्तान वर्त्तमान हैं। ये प्रथम कालिंजर में रहते थे, पर पीछे छतरपूर में रहने लगे। ये वैद्यक करते थे। इनका ग्रन्थ 'सन्तनाम मुक्तावली' इन्हींके हाथ का लिखा हमने देखा है। इस में ६० छन्द हैं, जिनमें दोहे व पद प्रधान हैं। ये साधारण कवि थे। उदाहरणः—

सन्तनाममुक्तावली निज हिय धारन हेत ।  
 रची दास नरसिंह ने श्रद्धा भक्ति समेत ॥  
 हैं नहिँ काव्यकलाकुशल विनय करैँ कर जोरि ।  
 छमहु सन्त अपराध मम काव्य कलित अति धोरि ॥

(२१७९) महारानी वृषभानुकुर्वैरि जी देवी ।

ये उर्छा के वर्त्तमान महाराजा की पहली महारानी थीं। इनका छोटा पुत्र विजावर का महाराज है और इनकी कन्या छतरपूर की महारानी हैं। इनके बड़े पुत्र टीकमगढ़ (उर्छा का राजस्थान) में हैं। इनका शरीरपात प्रायः ६० वर्ष की अवस्था में चार पाँच साल हुए हुआ था। इन्होंने पदों में रामयश का गान

किया है। इनकी कविता बढ़िया है। छतरपूर में इनके दम्पती-विनोद-लहरी (४६ पृष्ठ), बधाई (९ पृष्ठ), मिथिला जी की बधाई (१४ पृष्ठ), बना (२१ पृष्ठ), हेरीरहस (१९ पृष्ठ), झूलनरहस (२१ पृष्ठ) और पावस (७ पृष्ठ) नामक ग्रन्थ प्रस्तुत हैं। इन सब में सोनाराम का ही वर्णन है। हम इन को तोय कवि की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरणः—

रघुवर दीन बचन सुनि लीजै ।

भ्रमसागर का पार नहीं है तदपि पार मोहिँ कीजै ॥

जो काउ दीन पुकारै प्रभु को अमिन दोष दलि दीजै ।

सुनि विनता वृषभानुकुवैरि को अब प्रभु मेहर करीजै ॥

(२१८०) ललिताप्रसाद त्रिवेदी (ललित) ।

यह महाशय जिला हरदोई अथप्रदेश के वासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और प्रायः कानपूर में रहा करते थे। इन्होंने काव्य से जीविका नहीं की, किन्तु उसे अपने चित्तविनोदार्थ पढ़ा था। यह कानपूर में गल्ले की दुकान पर मुनीजी का काम करते थे। काव्य का शौच इन का बहुत अच्छा था। हम इनसे दो एक बार कानपूर में मिले हैं। इन महाशय ने रामलीला के वास्ते एक जनकफुलवारी नामक ३० पृष्ठ का ग्रंथ निर्माण किया था और इसी के अनुसार गुरुप्रसाद जी शुक्ल रईस कानपुर के यहाँ धनुषयज्ञ में लीला हांती थी। इन्होंने इसमें ग्रंथनिर्माण का समय नहीं दिया, परन्तु हमको अनुमान से जान पड़ता है कि यह संवत् १९४० के लगभग बना होगा। ललित जी का लगभग

६० वर्ष की अवस्था में प्रायः दस साल हुए स्वर्गवास हुआ। खोज में “ख्याल तरंग” नामक इनका एक ग्रंथ और मिला है। इनकी कविता रोचक और सरस है। उसकी रचना रामचन्द्रिका के समान विविध छन्दों में की गई है, और कविता प्रशंसनीय है, परन्तु रामचन्द्र और विश्वामित्र जी की बात चीत जो अंत में कराई गई है वह अयोग्य हुई है। ऐसी बातें गुरु और शिष्य नहीं कर सकते। ललित जी के कुछ स्फुट छंद और समस्या-पूरतियाँ देखने में आती हैं। इन्होंने दिग्विजयविनोद नामक एक ग्रंथ नायिकाभेद का महाराजा दिग्विजयसिंह जी के नाम पर संवत् १९३० में बनाया था, जो मुद्रित भी हो गया है, परन्तु महाराजा साहब के यहाँ से इनको कुछ पारितोषिक इत्यादि नहीं मिला। शायद इसी कारण रूष्ट होकर इन्होंने काव्य से जीविका चलाना निन्द्य समझ कर नौकरी कर ली। हम इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में करते हैं। इनके कुछ छंद नीचे दिये जाते हैं। उदाहरणः—

सुखद सुजन ही के मान के करन हार

दीनन के दारिद-दवा का जलधर है।

कहै कवि ललित प्रभाव के प्रभाकर से

वस रसही के जलही के सुधाकर है ॥

आछे रहै राजन के राज दिग्विजै सिंह

धीर-धुरधर सुखमा के मानसर है।

सोभा सील वर है परम प्रीतिपर है

निगम नीतिधर है हमारे देवतर है ॥



बगरे लनान युत सगरे बितपवर

सुमन समूह सोई अगरे सुवेस को ।

भौरन के भार डार डार पै अपार दुति

कोकिल पुकार हरै त्रिविधि कलेस को ॥

कहत वने न कछु ललित निहारिबे में

उमहो परत सुख मानौ देस देस को ।

जनक सो राजत जनक जू को वाग

ताको नन्दन सो लागैवन नन्दन सुरेस को ॥

मार-उजावनहार कुमार हो देखिबे को हृग ये ललचात हैं ।

भूले सुगंध सो फूले सरोज से आनन पै अलिहू मड़गत हैं ॥

नेक बले मग में पग द्वे ललिते श्रम-सीकर से सरसात हैं ।

बोहिहो कैसे प्रसून लला ये प्रसूनहु ते अति कोमल गत हैं ॥

(२१८१) गोविन्दनारायण मिश्र । ✓

ये भाषा के एक अच्छे विद्वान् तथा सुयोग्य लेखक हैं। आप का जन्म १९१६ में हुआ था, सो आपकी अवस्था इस समय ५५ वर्ष की है। आपने कई पत्रों का सम्पादन-कार्य उत्तमता से किया है। आप संस्कृत तथा हिन्दी में अच्छी योग्यता रखते हैं। द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति होकर आपने एक सारगर्भित एवं प्रशंसनीय वक्तृता दी। आपका कविताकाल संवत् १९३० से समझना चाहिए। इनका एक ग्रन्थ “विभक्तिविचार” हमने देखा है, जिससे इनकी विद्वत्ता प्रकट होती है। पर इस विषय में हम

इनसे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि हिन्दी यद्यपि अधिकांश में संस्कृत एवं प्राकृत से निकली है तथापि उसका रूप उक्त भाषाओं से बहुत कुछ भिन्न है और हर बात में हम उसे संस्कृत-व्याकरण से नियमबद्ध नहीं करना चाहते। आपका प्राकृतविचार नामक लेख भी दर्शनीय है। आपने शिक्षासोपान और सारस्वतसर्वस्व नामक दो ग्रन्थ भी लिखे हैं और सैकड़ों अच्छे लेख आपके वर्त्तमान हैं।

### (२१८२) सहजराम ।

ये महाशय अवधप्रदेशान्तर्गत जिला सुलतानपूर के बंधुवा ग्रामनिवासी सनाढ्य ब्राह्मण थे। शिवसिंहजी ने इनका जन्म संवत् १९०० दिया है। इनका बनाया हुआ प्रह्लादचरित्र नामक ४५ पृष्ठ का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ हमारे पास वर्त्तमान है और इनकी रामायण के भी तीन काण्ड (किष्किन्धा, सुन्दर और लंका) हमने देखे हैं। अपने ग्रन्थों में इन्होंने समय का कोई व्यौरा नहीं दिया है। इनका कविताकाल १९३० समझना चाहिए। इन ग्रन्थों की भाषा और रचना सब गोस्वामी तुलसीदासजी की भाँति है। इस सत्कवि ने अपनी कविता बिलकुल गोस्वामीजी में मिला दी है। ऐसी उत्तम कविता दोहा चौपाइयों में गोस्वामीजी और लाल के अतिरिक्त शायद कोई भी कवि नहीं कर सका है। इसके भक्ति-ज्ञान आदि के विचार सब गोस्वामीजी से मिलते से हैं और रचनाशैली भी वही है। प्रह्लादचरित्र की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। हम इस कवि को कथा-प्रासंगिक कवियों वाली

छत्र कांच की श्रेणी में रखते हैं । उदाहरणार्थ इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं :—

रामनाम लिखि वाचन लागे । थिक थिक करि दौड भूसुर भागे ॥  
 मुनि पहलाद वचन कह दीना । मांहि थिक कत महिदेव प्रवीना ॥  
 थिक नरंस जा प्रजा सनाथे । थिक धनवन्त उथिरता पावै ॥  
 थिक सुरलोक सोकप्रद सोई । पुनरागमन जहाँ ते होई ॥  
 थिक नर देह जगपन रागा । राम भजन विन थिक जप जोगा ॥  
 कोउ कह थिक जीवन गुन हीना । धौं कह मुन कोउ विभव विहीना ॥  
 सर्व असत्य सत्य मन पहा । राम भजन विनु थिक नर देहा ॥  
 थिक छत्रो जा समर समीता । वैखानस विखयन मन जीता ॥

थिक थिक तपसी तप करहिँ तन कसि मन बस नाहिँ ।

परमारथ पथ पाँउ धरि फिरि खारथ लपटाहिँ ॥

हटकि हटकि हारं लिपट पटकि पटकि महि पालि ।

जाय पुकारं राउ पहुँ बालक सड हडखानि ॥ १ ॥

रंध्र मास वीते यहि भाँती । महा वायु क्रिय प्रकट तहाँती ॥

भयो अघोर पीर तन माहीं । छिन मुछिँत छिन रुदन कराहीं ॥

रूप चतुरभुज दीख न आगे । कहाँ कहाँ करि रोवन लागे ॥

कोन्हेउ जवहिँ पयोधर पाना । भूली सुमति मोह लपटाना ॥

जननी उवटन तेल करावा । अति पुनीत पलका पैढावा ॥

काटाहिँ कीट दुसह दुख पावा । रहै रोय मुख वचन न आवा ॥

कीड़ा करत बाल पन बीता । तरुन भए तरुनी मन जीता ॥

भूखन बसन अलंकृत सो है । चलै वाम पुनि पुनि जग मोहै ॥

फूले फिरत विमोह वस भूले विषय बिलास ।

बहु ममता समता विगत लखै न खल निज नास ॥

जो कदाचि धन धाम बिलोका । तिन समान मानै त्रैलोका ॥

जे धन हीन दीन मुख वाप । जहँ तहँ जाचहिँ पेट खलाप ॥

नहिँ जप जोग भोग मन लावा । यह वह करत जरापन आवा ॥

तन भा अबल बदन रद हीना । तृष्णा तरुन होय तन छोना ॥

अन इच्छित आई जरा सहज राम सित केस ।

मनहुँ विसिख सित पुंख ते भेदेउ काल नरेस ॥

जिमि जिमे देह जरापन आवा । तिमि तिमि तृष्णा तरुन कहावा ॥

अन इच्छित तन बसी बुढ़ाई । नोस मीच भगनी दुखदाई ॥

थके चरन कर कंपन लागे । प्रिय बालक जल देई न मांगे ॥

खांसि खांसि धूकहिँ महि माहीं । सुत सुत बधू देखि अनखाहीं ॥

चिन्ता मगन न लगन कष्ट हरिपद पंकज धूरि ।

आइ गँवायो जनम जड़ मगन मनोरथ भूरि ॥

### (२१८३) जीवनराम भाट ।

ये खजुरहरा जिला हरदोई के निवासी थे । इनका शरीरपात प्रायः ४ वर्ष हुए कोई ६० वर्ष की अवस्था में हुआ था । ये अन्य भाटों की भाँति इधर उधर घूम फिर कर छन्द पढ़ कर ही अपना निर्वाह करते थे । जगन्नाथ पण्डितराज कृत गंगा-लहरी का भाषा पद्यानुवाद इन्होंने किया था । इनकी रचना साधारण श्रेणी की थी । उदाहरणः—

देखी मैं बरात रामलीला की इटौंजा

मध्य शोभा रूप धाम राजा राम को विवाह है ।

धालें चोपदार धूम धौंसा की धुकार सुनि

चित्त नर नारिन के चांगुना उछाह है ॥

भारी भीर भूधर गयन्दन की भीम घटा

साजे गजराज पै विराजे सोता नाह है ।

जीवन सुकवि प्रम अन्तर विचारि कहै

आपु महाराज सोस कोन्हें छत्र छांह है ॥

नाम—शिवकवि भाट असनी ।

रचना—स्फुट ।

रचनाकाल—१९३१ ।

विवरण—साधारण श्रेणी के कवि थे । इनके भड़ोवा सुने गये हैं ।

देखिए नं० ७३५ ।

(२१८४) ठाकुर बेनीसिंह परसेहँड़ी, सीतापुर ।

आपका जन्म सं० १८७९ में हुआ था । आप हिन्दीसाहित्य के अच्छे समझ थे । कविजन आपके यहाँ प्रायः आया जाया करते थे । आपने सं० १९३१ में शृंगाररत्नाकर नामक एक संग्रह बनाया था, जो एक लेखक की असावधानी से लुप्त हो गया । आपका देहान्त १९४१ में हुआ । आपके पुत्र रामेश्वर वरेशसिंह भी एक सुकवि हैं ।

## (२१८५) हनुमान ।

ये महाशय प्रसिद्ध कवि मण्डीदेव वंदीजन के पुत्र और काशी के रहने वाले थे । हमने इनका कोई ग्रन्थ नहीं देखा है, परन्तु इनके स्फुट छन्द बहुतायत से मिलते हैं । इन्होंने शृंगार रस की कविता की है । इनकी भाषा ब्रजभाषा है और वह सन्तोषदायिनी है । इनकी कविता मनोहर और सरस है । हम इन्हें तोष कवि की श्रेणी में रखते हैं । उदाहरणार्थ इनके दो छन्द नीचे लिखे जाते हैं ।

ननदी औं जेठानी नहीं हँसती तौ हितू तिनहीं को बखानती मैं ।  
 घरहाई चवाव न जो करतीं तौ भलो औं बुरो पहिँचानती मैं ॥  
 हनुमान परोसिनि हू हित की कहतीं तौ अठान न ठानती मैं ।  
 यह सीख तिहारी सुनौ सजनी रहती कुल कालि तौ मानती मैं ॥  
 निज बाल सों और जे बाल तिन्हें कुल की कुल कालि सिखावती हैं ।  
 ननदी औं जेठानी हँसावैं तऊ हँसी ओठन ही लौं बितावती हैं ॥  
 हनुमान न नेकौ तिहारें कहूँ दृग नीचे किये सुख पावती हैं ।  
 बड़ भागिनि पी के सोहाग भरी कबौं आंगन हू लौं न आवती हैं ॥

इनके पुत्र कविवर सीतलाप्रसादजी से विदित हुआ कि इन का शरीरपात संवत् १९३६ में ३८ वर्ष की अवस्था में हुआ । द्विज कवि मन्नालाल से हनुमान की घनिष्ठ मैत्री थी ।

## (२१८६) नन्दराम ।

ये महाशय कान्यकुब्ज ब्राह्मण मौजा सालेहनगर ज़िला लखनऊ के रहने वाले थे । यह स्थान गोमती जी के बसहरी घाट से

४ मील और हमारे जन्म स्थान इटौंजा ग्राम से ८ मील की दूरी पर स्थित है। संवत् १९३४ में ये महाशय हम से इटौंजा में मिले थे। शृंगारदर्पण की एक हस्तलिखित प्रति भी इनके पास थी, जिसके बहुत से छन्द इन्होंने हमको सुनाये थे। इनकी अवस्था उस समय लगभग चालीस वर्ष की थी और उसके प्रायः दश वर्ष के पीछे इनका शरीरपात हुआ। अतः इनके जन्म और मरण काल संवत् १८९४ और १९३४ के आस पास हैं।

इन्होंने शृंगारदर्पण नामक १०४ पृष्ठों (मँझोली साँची) का एक बड़ा प्रथम भाषभेद और रसभेद के वर्णन में संवत् १९२९ में बनाया जिसकी रीति प्रणाली पद्मकर जी के जगद्विन्दोद से मिलती है। इनमें दोहा, सर्वेया और प्रताक्षरी छन्द बहुतायत से हैं, परन्तु कहीं छन्द नामों से एक अन्य प्रकार के भी छन्द आ गये हैं। इन्होंने अपनी भाषा में वाद्याङ्ग्यों को स्थान नहीं दिया है और वह मधुर एवं निर्दोष है। इनके भाव भी साधारणतः अच्छे हैं। इनकी पुस्तक भारतजीवन यन्त्रालय में मुद्रित हो चुकी है, जिसके अन्त में इनके सात सफुट छन्द भी लिखे गये हैं। शिवसिंहसरोज में शान्त रस के कवित्त बनाने वाले एक नन्दराम का नाम लिखा है, पर उनके समय के लिख्य में कुछ भी नहीं कहा गया है। जान पड़ता है कि ये नन्दराम दूसरे थे, क्योंकि शृंगारदर्पण के रचयिता नन्दराम ने शान्त रस के अच्छे छन्द नहीं कहे हैं। हम इनको तोप कवि की श्रेणी में रक्खेंगे।

मोर किरिटी मनोहर कुंडल मंजु कपोलन पै अलकाली ।

पीत पटौ लपटी तन साँवरे भाल पटीर की रेख रसाली ॥

त्यौ नंदराम जू वेनु वजावत आजु लखे वन मैं वनमाली ।

नैन उघारिवे को मन होत न मोहन रूप निहारि कै आली ॥

(२१८७) रायवहादुर लक्ष्मीशंकर मिश्र, एम० ए० ।

ये महाशय सरयूपारीण ब्राह्मण थे । इनका जन्म संवत् १९०६ में हुआ था और संवत् १९६३ में इनका स्वर्गवास हुआ । पहले ये बनारस कालेज में गणित के अध्यापक थे, पर संवत् १९४२ में सरकार ने इन्हें शिक्षाविभाग में इंस्पेक्टर नियत कर दिया । इन्होंने गणितकौमुदी नामक एक पुस्तक हिन्दी में बनाई और बहुत दिन तक काशीपत्रिका चलाई । बहुत दिनों तक ये नागरी-प्रचारिणी सभा के सभापति रहे और यथाशक्ति सदैव हिन्दी की उन्नति करते रहे । बहुतेरी पाठ्य पुस्तकें भी इन्होंने शिक्षा-विभाग के लिए सम्पादित कीं ।

(२१८८) रामद्विज ।

आपका नाम रामचन्द्र था और आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । आपका जन्म संवत् १९०७ में हुआ था । इस समय आप हाई स्कूल अलवर के अध्यापक हैं । आपकी कविता सरस, अनुप्रास-पूर्ण और श्रेष्ठ होती है । इनके जानकीमंगल नामक ग्रंथ से नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं ।

उदाहरणः—

राम हिय सिय मेली जैमाल । टेक ।

मानहु धन विच रच्यो चंचला सुरपतिचाप विलास ॥



सन्धिके सकल भूप तन भरसे ज्यो जवास जलकाल ।

कहि दुज राम वान सुर गावत जनु कल कंडन जाल ॥ १ ॥

सर्वैया ।

भौरन भौर मनोहर मैलि अमोल हग हिय मोतिया भायो ।

नूतन पल्लव साजि भँगा पटुका कटि सोनजुही छविछायो ॥

कोकिल गायन भौर बगती चढ़ी पवमान तुरंग सुहायो ।

छाइ उछाइ दिरंतन राम ललाम वसंत वनो वलि आयो ॥२॥

### (२१८६) गौरीदत्त ।

सारस्वत ब्राह्मण पंडित गौरीदत्त जी का जन्म संवत् १८९३ में हुआ था । ४२ वर्ष की अवस्था तक इन्होंने अध्यापक का काम किया और फिर अपना पद छोड़ कर ये परमार्थ में प्रवृत्त हुए । उन्नीस दिन अपनी स्वामी सम्पत्ति इन्होंने नागरीप्रचार में लगा दी और अपनी शेष आयु भर ये स्वयं भी इसी काज में लगे रहे । इन्होंने ग्राम ग्राम और नगर नगर फिर कर निरन्तर नागरी प्रचार पर व्याख्यान दिये और नागरी पढ़ाने का पाठशालायें स्थापित कीं । पंडित जी ने बहुत से पैसे खेल और गोरखधन्ये बनाये, जिनमें लोगों का जी लगे और वे इसी प्रकार से नागरी लिपि जान जायें । मेलों, तमाशों आदि में जहाँ अन्य लोग अपनी दुकानें ले जाते थे, वहाँ ये अपना नागरी का भंडा जाकर खड़ा करते थे । नागरीप्रचार में ये महाशय इतने तल्लीन थे कि जयराम के स्थान पर लोग भेंट होने पर इन से 'जय नागरी' कहते थे । मेरठ का नागरी स्कूल इन्हीं के प्रयत्नों से बना था । यह अब तक भली

भांति चल रहा है । इन्होंने ने मेरठ नागरीप्रचारिणी सभा भी अपने उत्साह से चलाई और स्त्रीशिक्षा पर तीन पुस्तकें बनाईं । इनका बनाया हुआ गौरीकोष भी प्रसिद्ध है । आप का गद्य मनोहर होता था । इनका स्वर्गवास संवत् १९६२ में हुआ । इनकी समाधि पर मोटे अक्षरों में 'गुप्त संन्यासी नागरी प्रचारानन्द' अंकित है ।

### ( २१६० ) मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ।

इनका जन्म संवत् १९०७ में हुआ था । ये भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मित्र थे । थोड़ी अँगरेज़ी पढ़ कर इन्होंने ने देशी रियासतों में नौकरी की और अब पेंशन पाकर मथुरा में रहते हैं । इन्होंने हिन्दी पर सदैव विशेष रुचि रखी और उसमें १२ पुस्तकें बनाईं । पुरातत्त्व पर इनकी बहुत अधिक रुचि रही है और चन्द्रकृत पृथ्वीराज रासो को सम्पादित कर के ये प्रकाशित करा रहे हैं । रासो के विषय में इनका प्रमाण माना जाता है । हाल में इनका शरीरपात हो गया ।

### ( २१६१ ) राधाचरण गोस्वामी ।

इनका जन्म संवत् १९१५ में वृन्दावन में हुआ था । इन्होंने हिन्दी तथा संस्कृत में अच्छी योन्यता है और थोड़ी सी अँगरेज़ी भी इन्होंने पढ़ी है । ये महाशय वल्लभीय सम्प्रदाय के गोस्वामी हैं और हिन्दी पर इन का सदैव भारी प्रेम रहा है । संवत् १९३२ में आपने कविकुलकौमुदी नामक एक सभा स्थापित की । इन्होंने गद्य के संकड़ों उत्तम लेख लिखे हैं और भारतेन्दु नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था, पर वह बन्द हो गया । ये महा-

शय वृन्दावन के एक प्रतिष्ठित रईस हैं। सरोजिनी नामक इन का एक नाटक भी उत्तम है। आपने और भी कई छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं, १ विद्यवाचिपत्ति, २ विरजा, ३ जावित्री, ४ यमलोक की यात्रा, ५ स्वर्गयात्रा, ६ मृण्मयी, इत्यादि पुस्तकें आप की रची हैं।

नाम—(२१६३) जगदीशलालजी गोस्वामी (जगदीश), बूँदी।

ग्रन्थ—(१) ब्रजविनोद नायिकाभेद, (२) साहित्यसार, (३) प्रस्तार-प्रकाश पिंगल, (४) नृपरामर्शीसी, (५) लालबिहारी-प्रागख्यपर्चीसी, (६) लालबिहारी अष्टक, (७) करुणाष्टक, (८) महावीराष्टक, (९) नीतिअष्टक, (१०) पटउपदेश, (११) ध्यानपटपदी, (१२) कृष्णशत, (१३) विनयशत, (१४) गुरु-महिमा, (१५) अश्वचालीसा, (१६) संप्रदायसार, (१७) उत्सवप्रकाश, (१८) पदपद्मावली।

धरणी—वर्तमान । आप प्रसिद्ध गोस्वामी गदाधरलालजी के वंश में हैं। इस समय आपकी अवस्था लगभग ६५ साल की होगी। इनकी कविता प्रशंसनीय होती है।

सरद सरोज सी सुखात दिन दूँ कहितै  
हेरि हेरि हिय में हिमंत सरसावैरी ।  
कहै जगदीस बात सिसिर सुहात नाहिँ  
सुमति बसंत सुखकंत बिसरावैरी  
ग्रीखम बिखम ताप तन को तपाय तिय  
बोलत न बैन मन मैन मुरझावैरी ।

पावस पयान पिय सुनिकै सयानि

आज अम्बुज अनूप द्रग बुंद बरसावैरी ॥१॥

कमल नैन कर कमल कमल पद कमल कमल कर ।

अमल चन्द मुख चन्द विकट सिर चन्द चन्द धर ॥

मधुर मंद मुसक्यानि कान कुंडल अति सोभित ।

बसन पीत मलि माल माल गुंजन मन लोभित ॥

जगदीस भौंह अलकैं अधर मंद मंद मुरली वजत ।

ब्रजचंद अमन्द अलोकि अलि आवत लखि मनमथ लजत ॥२॥

(२१६३) कार्तिकप्रसाद खत्री ।

इनका जन्म संवत् १९०८ में कलकत्ते में हुआ था। इनके माता पिता का देहान्त इनकी बाल्यावस्था में हो गया, सो इनका पढ़ना भली भाँति न हो सका। इन्होंने बहुत से व्यापार किये, पर जम कर ये कोई व्यापार न कर सके। अन्त में काशी जी में रहने लगे। हिन्दी का इन्हें सदैव बड़ा प्रेम था और इन्होंने अनुवाद मिला कर प्रायः २० पुस्तकें रचीं। प्रेमविलासिनी और हिंदी-प्रकाश नामक दो पत्र भी आपने निकाले और प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती की प्रथम सम्पादकसमिति में यह भी सम्मिलित थे। इनका देहान्त संवत् १९६१ में काशी जी में हुआ। ये महाशय हिन्दी के एक बहुत अच्छे लेखक थे और इनका गद्य परम रुचि होता था। इनके ग्रन्थों में से इला, प्रमिला, मधुमालती और जय हमारे पास प्रस्तुत हैं।

## (२१६४) केशवराज भट्ट ।

इनका जन्म संवत् १९१० में महाराष्ट्र कुल में हुआ था । इन्होंने १९३१ में बिहारबन्धु पत्र निकाला । पीछे से ये शिक्षा-विभाग में नौकर हो गये । ये हिन्दी के अच्छे लेखक और परम प्रेमी थे । विद्या की नींव, भारतवर्ष का इतिहास (बँगला से अनु-वादित), शमशाद सौसन नाटक, सज्जाद सम्बुल नाटक, हिन्दी-व्याकरण, एक जोड़ अँगूठी, और रासेलस (अनुवाद) नामक पुस्तकें इन्होंने लिखीं । इनका देहान्त संवत् १९६२ के लगभग हुआ । ये बिहार के रहने वाले थे ।

## (२१६५) तुलसीराम शर्मा ।

ये परीक्षित गढ़ ज़िला मेरठ-निवासी हैं । इनका जन्म संवत् १९१४ में हुआ । आप संस्कृत के बड़े भारी पंडित एवं आर्यसमाज के प्रधान उपदेशकों में हैं । आपने सामवेद भाष्य, मनुभाष्य, न्याय-दर्शन-भाष्य, श्वेताश्वतरोपनिषत् भाष्य, ईश, केन, कठ, मुंडक-भाष्य, हितोपदेश भाषा, सुभाषितरत्नमाला और दयानन्दचरिता-मृत नामक ग्रन्थ बनाये हैं ।

## (२१६६) गोविन्द कवि ।

ये महाशय पिपलोदपुरी के राजा डूलहसिंह के आश्रय में रहते थे और उन्हीं की आज्ञा से संवत् १९३२ में इन्होंने हनुमन्नाटक का भाषा छन्दानुवाद किया । ये महाशय कवि टीकाराम के पुत्र

जाति के ब्राह्मण थे । आपने संस्कृत मिश्रित भाषा को आदर दिया है, इस कारण उसमें मिलित वर्णों बहुत आ जाने से ओज की प्रधानता और प्रसाद एवं माधुर्य की कमी हो गई है । इन्होंने अपने छन्दों के चतुर्थ पदों में कहीं कहीं 'पर हाँ' शब्द बिल्कुल बेकार लिख दिये हैं, जो न तो अर्थ का समर्थन करते हैं और न छन्द का । उन्हें छोड़ कर पढ़ने से छन्द और अर्थ दोनों पूरे होते हैं । तो भी इस ग्रन्थ की कविता बहुत जोरदार है और इसमें प्रभावशाली छन्द बहुत पाये जाते हैं । नाटक में १३२ पृष्ठ हैं और सब प्रकार के छन्द रामचन्द्रिका एवं गुमान-कृत नैपथ्य की भाँति रक्खे गये हैं । ग्रन्थ बहुत सराहनीय बना है । इस कवि ने अनुप्रास को भी आदर दिया है । हम गोविन्द जी को छत्र कवि की श्रेणी में रखते हैं । उदाहरण :—

फुल्लित गल करैं फुतकार प्रफुल्लन सापुट कोटर आयो ।  
 ओघ अहंकृत पावक पुंज हलाहल घूमि तितै प्रगटायो ॥  
 अन्य समान किये सब लोकन अम्बर लौं छिति छोरन छायो ।  
 लोयन लाल कराल किये ततकाल महा बिकराल लसायो ॥

निखिल नरेन्द्र निकाय कुमुद जिमि जानिये ।  
 तिनको मुद्रित करन मिहिर मोहिँ मानिये ॥  
 कार्तवीर्य्य प्रति कढ़े यथा मम बोल हैं ।  
 पर हाँ ! सो सुनि लीजै राम श्रवण जुग खोल हैं ॥

इस ग्रंथ में राम के राज्याभिषेक तक का वर्णन है ।

## (२१६७) अयोध्याप्रसाद खत्री ।

ये महाशय बलिया के रहने वाले थे, पर इनकी बाल्यावस्था से ही इनके पिता मुजफ्फरपुर (विहार) में रहने लगे। कुछ दिन इन्होंने अध्यापक का काम किया और पीछे से कलेक्टर के पेशकार हो गये; जिस पद पर ये मृत्यु पर्यन्त रहे। इनका स्वर्ग-वास ४ जनवरी संवत् १९६१ में ४७ वर्ष की अवस्था में हो गया। इन्होंने यावज्जीवन खड़ी बोली का पद्य में प्रचार करने और छन्दों से ब्रजभाषा उठा देने का प्रयत्न किया। इस विषय में इन्हें इतना उत्साह था कि कुछ कहा नहीं जाता। खड़ी बोली के आन्दोलन पर एक भारी लेख भी छपवा कर इन्होंने उसे वेदाम वितरण किया था। उसकी एक प्रति इन्होंने अपने हाथ से हमें भी काशी सभा के गृहप्रवेशोत्सव में दी थी। जिस लेखक से ये मिलते थे उससे खड़ी बोली के विषय में भी बातचीत अवश्य करते थे। खड़ी बोली के प्रचार को ही ये अपना जीवनोद्देश्य समझते थे। ऐसे उत्साही पुरुष बहुत कम देखने में आते हैं। इस विषय पर आप ने ईंग्लैंड में भी एक लेख छपवाया था। संवत् १९३४ में इन्होंने एक हिन्दी-व्याकरण प्रकाशित किया। इनके अकाल-स्वर्गवास से खड़ी बोली के आन्दोलन को बड़ी क्षति पहुँची। इस आन्दोलन को पूर्ण बल के साथ पहले पहल इन्होंने उठाया। आपने इसमें इतना उत्साह दिखाया कि आपके देखते ही खड़ी बोली की याद आ जाती थी।

## (२१६८) मुंशीराम महात्मा ।

इन का जन्म संवत् १९१५ में हुआ था। आप बड़े ही धर्मात्मा पुरुष हैं। आज कल आप गुरुकुल काँगड़ी के अध्यक्ष हैं। आपने

भारी आय की विकालत छोड़ कर फ़कीरी को अपनाया और भारत की प्राचीन पठन-पाठन-शैली का सजीव उदाहरण गुरुकुल स्थापित किया। वहाँ महात्मा बनाये जाने को बालक पढ़ाये जाते हैं। आप हिन्दी के भी लेखक हैं। आप का जीवन धन्य है। आर्यसमाज के एक भारी दल के आप नेता हैं। सद्धर्मप्रचारक नामक एक भारी पत्र भी आप बहुत दिनों से निकालते हैं। आपने नेपोलियन का जीवन-चरित्र लिखा है। आप हिन्दी के एक बड़े अच्छे व्याख्यानदाता और बड़े ही उत्साही हैं। चतुर्थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के आप सभापति हुए थे।

### (२१६६) शिवसिंह सेंगर ।

ये महाशय मौज़ा काँथा ज़िला उन्नाव के ज़िमीदार रंजीतसिंह के पुत्र और बख़्तावरसिंह के पौत्र थे। इनका जन्म संवत् १८९० में हुआ था और ४५ बरस की अवस्था में इनका स्वर्गवास हुआ। आप पुलीस में इन्स्पेक्टर थे। इनको काव्य का बड़ा शौक़ था और इन्होंने भाषा, संस्कृत और फ़ारसी का अच्छा पुस्तकालय संगृहीत किया था, जो इनके अपुत्र मरने के कारण अब इनके भतीजे नौनिहालसिंह के अधिकार में है। हमने इसे वहाँ जाकर देखा है।

इन्होंने ब्रह्मोत्तर खंड और शिवपुराण का भाषा गद्य में अनुवाद किया और शिवसिंहसरोज नामक एक बड़ा ही उपयोगी ग्रंथ संवत् १९३४ में बनाया। उसमें प्रायः एक सहस्र कवियों के नाम, जन्मकाल और काव्य के उदाहरण लिखे हैं। इन्होंने कविता भी अच्छी की है।



इनका नाम शिवसिंहसरोज लिखने के कारण भाषा-साहित्य में चिर काल तक अमर रहेगा। जिस समय में कोई भी सुगम उपाय कवियों के समय व ग्रंथों के जानने का न था, उस समय ये बड़ी मेहनत और धनव्यय से इस ग्रंथ को बनाकर भाषा-साहित्य-इतिहास के पथप्रदर्शक हुए। हिन्दी-प्रेमियों और भाषा पर आपका अगाध ऋण है।

इनकी कविता सरस व मनोहर है और कविता की दृष्टि में हम इनको साधारण श्रेणी में रखेंगे।

उदाहरण ।

महिष से मारे मगरूर महिपालन को

बीज से रिपुन निरबीज भूमि कै दर्ई ।

शुंभ औ निशुंभ से सँघारि भारि मूच्छन को

दिल्ली दल दलि दुनो देर बिन लै लई ॥

प्रबल प्रचंड भुजदंडन सों अगग गहि

चंड मुंड खलन खेलाय खाक कै गई ।

रागे महरानी हिंद लंदन की ईसुरी तै

ईश्वरी समान प्रान हिंदुन के हँ गई ॥ १ ॥

कहरुही काकली कलित कलकंठन की

कंजकली कालिंदी कलोल कहलन मैं ।

सैंगर सुकवि ठंड लागती ठिठोर वारी

डाठ सब ठटे ठगि लेत टहलन मैं ॥

फहरै फुहारे फबिरही सेज फूलन सों

फेन सी फटिक चौतरा के पहलनि मैं ।

चाँदनी चमेली चार फूले बीच बाग आञ्जु  
वसिप वटोही मालती के महलन मैं ॥२॥

(२२००) श्रीकृष्ण जोशी ।

ये एक बड़े सज्जन पहाड़ी ब्राह्मण हैं । आप पहले बोर्ड माल के दफ्तर में नौकर थे, पर वहाँ से पेंशन लेकर बाराबंकी ज़िला में राजा पृथ्वीपालसिंह की रियासत के मैनेजर हुए । अब आपकी अवस्था प्रायः ५८ साल की होगी । आपकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है । आपने सूर्य की गरमी से शीशों द्वारा भोजन पकाने की भानु-ताप नामक कल ईजाद की है । आप हिन्दी के भी लेखक हैं ।

(२२०१) चन्द्रिकाप्रसाद तेवारी ।

ये राय साहब ज़िला उन्नाव के निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं । आपकी अवस्था प्रायः ५८ साल की है । आप बहुत दिनों से अजमेर में रहते थे । इनकी पुत्री ईंगलैंड के प्रसिद्ध वैरिस्टर पंडित भगवान दीन दुबे को व्याही है । तेवारी जी रेल के उँचे कर्म-चारी हैं । आपने एक नौकरी से पेंशन ले ली और दूसरी में फिर आप अच्छा वेतन पाते हैं । आप बड़े उत्साही पुरुष हैं । स्वामी दादूदयाल के ग्रन्थ आपने शुद्धतापूर्वक प्रकाशित किये हैं । आप गद्य के अच्छे लेखक हैं ।

नाम—(२२०२) झारसौराम चौबे वूँदी ।

ग्रन्थ—(१) वंशप्रदीप, (२) सर्वसमुच्चय, (३) ललितलहरी, (४) रघुवीरसुयश-प्रकाश ।

त्मकाल—१९१० ।

कविताकाल—१९३५ ।

विवरण—ये महाशय वूँदी-दरबार में वंश-परम्परा से कवि हैं ।

आपकी कविता प्रशंसनीय होती है । उदाहरणः—

राजत गँभीर मरजाद में कुसल धीर,

करत प्रताप पुंज प्रगटित आठौ जाम ।

चहुवान-मुकुट प्रकासित प्रबल आजु,

तेरे त्रास त्रसित नसाए सत्रु धाम धाम ॥

नीति निपुनाई धरि पालत प्रजा को नित,

साहिबी में सुन्दर अमंद हूँ बढ़ाये नाम ।

पारावार सहस प्रियव्रत प्रभाकर से,

पारथ से पृथु से पुरंदर से राजा राम ॥ १ ॥

(२२०३) रुद्रदत्त जी शर्मा ।

इनका जन्म सं० १९०९ में हुआ था । योगदर्शन-भाष्य, स्वर्ग में महासभा, स्वर्ग में सबजेक्ट कमेटी नामक पुस्तकें आपने लिखी हैं । इस समय आप 'आर्यमित्र' का सम्पादन करते हैं । इनकी रचना से धर्म-सम्बन्धी वर्तमान विचारों का अच्छा ज्ञान होता है ।

इस समय के अन्य कविगण ।

समय संवत् १९२६ के पूर्व ।

नाम—(२२०४) छेदालाल ब्रह्मचारी, कानपूर ।

ग्रन्थ—कई ग्रन्थ ।

नाम—(२२०५) तुलसी भोक्ता ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२०६) नरेश ।

ग्रन्थ—नायिकाभेद का कोई ग्रन्थ ।

विवरण—तौषश्रेणी ।

नाम—(२२०७) नवनिधि ।

ग्रन्थ—संकटमोचन ।

विवरण—निम्न श्रेणी ।

नाम—(२२०८) पारस ।

विवरण—निम्न श्रेणी ।

नाम—(२२०९) विद्याप्रकाश, कन्नौज ।

ग्रन्थ—मनखेलवार ।

जन्मकाल—१८९८ ।

विवरण—कुछ समय के लिए आप ब्रह्मचारी हो गये थे । आप बड़े ज़िन्दादिल पुरुष हैं ।

नाम—(२२१०) मथुरादास कायस्थ, फ़ीरोज़पुर ।

ग्रन्थ—(१) जड़तत्त्वविज्ञान, (२) जगत्पुरुषार्थ ।

जन्मकाल—१८९९ ।

नाम—(२२११) मंगलदेव आगरी संन्यासी ।

ग्रन्थ—(१) कुरीतिनिवारण, (२) विघ्नवासंताप ।

जन्मकाल—१८९९ ।

नाम—(२२१२) रसिया (नजीब) ।

विवरण—महाराजा पटियाला के यहाँ थे ।

नाम—(२२१३) लक्ष्मणानन्द संन्यासी ।

ग्रन्थ—ध्यानयोगप्रकाश ।

नाम—(२२१४) शिवप्रसाद मिश्र, सचेंडी—कानपुर ।

ग्रन्थ—सन्ध्याविधि ।

जन्मकाल—१८९९ ।

नाम—(२२१५) शेखर ।

विवरण—साधारण भ्रेणी ।

समय संवत् १९२६ ।

नाम—(२२१६) चरणदास, कंदैली, ज़िला नरसिंहपुर ।

ग्रन्थ—(१) धर्मप्रकाश, (२) विनयप्रकाश, (३) गुह्यमाहात्म्य, (४)  
धनसंग्रह ।

जन्मकाल—१९०१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२२१७) रामनाथसिंह राजा उपनाम नरदेव ।

ग्रन्थ—देवीस्तुति आदि स्फुट छन्द ।

जन्मकाल—१८९९ । १९५१ तक ।

नाम—(२२१८) सूर्यप्रसाद (हंस), पन्हीना, उन्नाव ।

जन्मकाल—१९०२ ।

विवरण—आपका ३० वर्ष की अवस्था में शरीरपात हो गया ।

समय संवत् १९२७ ।

नाम—(२२१६) गोपाललाल ।

ग्रन्थ—नसीहतनामा ।

विवरण—बस्ती के इन्स्पेक्टर मदारिस ।

नाम—(२२२०) ठाकुर लक्ष्मीनाथ मैथिल ।

नाम—(२२२१) दुर्गादत्त व्यास, काशी ।

ग्रन्थ—कवितासंग्रह ।

विवरण—सुप्रसिद्ध अम्बिकादत्त व्यास के पिता । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२२२) नवीन भाट, बिलगराम ज़ि० हरदोई ।

ग्रन्थ—(१) शिवतांडव भाषा, (२) महिम्न भाषा ।

जन्मकाल—१८९८ । वर्त्तमान ।

विवरण—इनकी अवस्था इस समय ७२ वर्ष की है । कविता बड़ी सरस और मनोहर करते हैं ।

नाम—(२२२३) बलभद्र कायस्थ, पन्ना ।

जन्मकाल—१९०१ ।

विवरण—पन्ना के महाराज नरपतिसिंह के यहाँ थे । मालूम पड़ता है कि इन्होंने भी कोई नखशिख बनाया है । कविता तोष कवि की श्रेणी की है ।

नाम—(२२२४) बालकृष्ण दास ।

ग्रन्थ—सुरदास जी के हृष्टकूट पर टीका ।

विवरण—गिरधर लाल जी के शिष्य थे । भक्ति-रस की कविता की है । साधारण श्रेणी के कवि थे ।

नाम—(२२२५) भगवन्तलाल सेनार, अकौना, जिला  
बहरायच ।

ग्रन्थ—(१) वेचूऽष्टक, (२) उत्सवरत्न ।

विवरण—वर्त्तमान ।

नाम—(२२२६) रत्नचन्द्र बी० ए०, जसवन्तनगर, इटावा ।

ग्रन्थ—(१) न्यायसभा नाटक, (२) भ्रमजाल, (३) चातुर्यतार्णव,  
(४) नूतनचरित्र, (५) हिन्दो-उर्दू-नाटक, (६) काँग्रेससंवाद ।

जन्मकाल—१८९७ (१९६८ तक) ।

नाम—(२२२७) रामरसिक साधु ।

ग्रन्थ—विवेकविलास ।

विवरण—भाँसी के रहने वाले । गुठ का नाम गंगागिरि ।

समय संवत् १९२८ ।

नाम—(२२२८) इन्द्रमल जी भाट, अलवर ।

जन्मकाल—१९०३ ।

विवरण—अलवर-दरबार के कवि हैं ।

नाम—(२२२६) दुर्गाप्रसाद ।

ग्रन्थ—गजेन्द्रमोक्ष ।

नाम—(२२३०) फूलचन्द ब्राह्मण, बैसवारे वाले ।

ग्रन्थ—अनिहद्धविवाह ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२३१) हनुमन्त ब्राह्मण, विजावर ।

जन्मकाल—१९०३ ।

विवरण—राजा भानुप्रतापसिंह विजावर के यहाँ हैं । कविता साधारण श्रेणी की है ।

समय संवत् १९२६ ।

नाम—(२२३२) हीरालाल कायस्थ, विजावर ।

जन्मकाल—१९०४ ।

समय संवत् १९३० के लगभग ।

नाम—(२२३३) कालिकाप्रसाद ।

ग्रन्थ—प्रेमदीपिका ।

नाम—(२२३४) परमानन्द कायस्थ, ललितपुर ।

ग्रन्थ—(१) रामायणमानसतरंगिणी, (२) अपराधभंजिनी-चालीसी ।

विवरण—आश्रयदाता भोड़छानरेश महाराजा महेन्द्र रुद्रप्रतापसिंह थे । इनका राजत्वकाल १९२७ से १९५० तक था ।



नाम—(२२३५) शंभूनाथ कायस्थ ।

ग्रन्थ—सुहितशिष्य ।

विवरण—भाँसी में डाक-इन्स्पेक्टर थे ।

समय संवत् १९३० ।

नाम—(२२३६) कान्ह वैस; वैसवाड़े के ।

ग्रन्थ—देवीविनय ।

जन्मकाल—१९००

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२३७) कामताप्रसाद (सेवक) कायस्थ, तारापूर,

ज़िला फ़तेहपूर ।

ग्रन्थ—(१) राघोवचीसी, (२) हरिनामपचीसी ।

जन्मकाल—१९०४ ।

नाम—(२२३८) कालीप्रसाद कायस्थ, बिजावर ।

ग्रन्थ—लीलावती के एक भाग का छन्दोबद्ध अनुवाद ।

जन्मकाल—१९०५ ।

नाम—(२२३९) काशीप्रसाद कायस्थ, पन्ना ।

जन्मकाल—१९०५ । वर्तमान ।

नाम—(२२४०) केदारनाथ त्रिपाठी, सरायमीरा ।

जन्मकाल—१९०४ । १९३८ तक ।

नाम—(२२४१) खड्गचहादुर मल्ल महाराजकुमार ।

ग्रन्थ—(१) महारसनाटक, (२) बालविवाहविद्रुषक नाटक, (३) भारतभारत नाटक, (४) कल्पवृक्ष नाटक, (५) हरतालिका नाटिका, (६) भारतललना नाटक, (७) रसिकविनोद, (८) फागअनुराग, (९) बालोपदेश, (१०) बालविवाह-विषयक लेख्य, (११) सद्धर्मनिर्णय, (१२) रतिकुसुमायुध, (१३) सपने की संपत्ति, (१४) वेश्यापंचरत्न ।

विवरण—नाटककार हैं ।

नाम—(२२४२) गणेशदत्त ।

ग्रन्थ—सरोजिनी नाटक ।

नाम—(२२४३) गणेशभाट ।

विवरण—महाराजा बनारस ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के दरवार में थे । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२४४) गदाधर भट्ट ।

ग्रन्थ—मृच्छकटिक ।

विवरण—अनुवाद ।

नाम—(२२४५) गुणाकर त्रिपाठी काँधा, ज़िला उन्नाव ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२४६) गुरदीनबन्दीजन पैँतैपुर, ज़िला सीतापुर ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२४७) गोकुलचन्द्र ।

ग्रन्थ—बूढ़े मुँह मुहासे लोग चले तमाशे (नाटक) ।

नाम—(२२४८) चावा हरिप्रसाद वन्दीजन, होलपुर ।

विवरण—इनकी स्फुट रचना अच्छी है । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२४९) छितिपाल राजा माधवसिंह, अमेठी ।

ग्रन्थ—(१) मनोजलतिका, (२) देवीचरित्रसरोज, (३) त्रिदीप ।

विवरण—इन्होंने अच्छी कविता की है । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२५०) जानी विहारीलाल (१९६७ तक) ।

ग्रन्थ—विज्ञानविभाकर आदि कई ग्रन्थ ।

विवरण—नाटककार हैं । आप भरतपुर राज्य के दीवान थे और आप को रायबहादुर पदवी मिली थी ।

नाम—(२२५१) जानी मुकुन्दलाल ।

ग्रन्थ—मुकुन्दविनोद ।

विवरण—आप उदयपुरकौन्सिल के मेम्बर थे ।

नाम—(२२५२) ठग मिश्र डुमरावँ, जानकीप्रसाद के पुत्र ।

जन्मकाल—१९०३ ।

नाम—(२२५३) ठाकुरदयालसिंह ।

ग्रन्थ—(१) मृच्छकटिक, (२) वेनिस का सौदागर ।

विवरण—नाटक अनुवादित किये हैं ।

नाम—(२२५४) दल्लेसिंह दुरजनपुर ।

जन्मकाल—१९०५ (वर्त्तमान) ।

नाम—(२२५५) दामोदर शास्त्री ।

ग्रन्थ—(१) रामलीला, (२) मृच्छकटिक, (३) बालखेल, (४) राघव-  
माधव, (५) मैं वही हूँ, (६) नियुद्धशिक्षा, (७) पूर्वदिग्यात्रा,  
(८) दक्षिणदिग्यात्रा, (९) लखनऊ का इतिहास, (१०)  
संक्षेप रामायण, (११) चित्तोरगढ़ ।

विवरण—नाटककार थे ।

नाम—(२२५६) दीनदयाल (दयाल) बेती, ज़िला रायवरेली ।

विवरण—भौन कवि के पुत्र, साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२५७) देवकीनन्दन तेवारी ।

ग्रन्थ—(१) जयनरसिंह की, (२) होलीखगेश, (३) चक्षुदान ।

विवरण—अच्छे नाटककार थे ।

नाम—(२२५८) देवीप्रसाद ब्रह्मभट्ट, बिलगराम, ज़िला हरदोई ।

जन्मकाल—१९०० ।

नाम—(२२५९) द्विजकवि मन्नालाल बनारसी ।

ग्रन्थ—प्रेमतरंगसंग्रह ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२६०) नीलसखी, जैतपुर, बुँदेलखंड ।

जन्मकाल—१९०२ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२६१) नैसुक, बुँदेलखण्ड ।

जन्मकाल—१९०४ ।

विवरण—साधारणश्रेणी ।

नाम—(२२६२) नोने बन्दीजन, बाँदा ।

जन्मकाल—१९०१ ।

विवरण—तौपश्रेणी । हरिदास के पुत्र ।

नाम—(२२६३) परागीलाल, चरखारी ।

ग्रन्थ—रसानुराग ।

नाम—(२२६४) कालिकाराव. ग्वालियर वाले ।

ग्रन्थ—कविप्रिया पर टीका ।

जन्मकाल—१९०१ ।

नाम—(२२६५) बल्लभ चौबे, जयपुर ।

विवरण—जयपुर-दरवार के राजकवि हैं । काव्य अच्छा करते हैं ।

नाम—(२२६६) बल्लूलाल कायस्थ (जन ब्रजचन्द्र) तैलिया

नाला, बनारस (१९६० तक) ।

ग्रन्थ—रामलीलाकौमुदी ।

नाम—(२२६७) बालेश्वरप्रसाद ।

ग्रन्थ—वेनिस का सौदागर ।

विवरण—मर्चेंट आफ़ वेनिस का अनुवाद है ।

नाम—(२२६८) विजयानंद शर्मा, बनारस ।

ग्रन्थ—सच्चा सपना ।

विवरण—गद्य-लेखक थे ।

नाम—(२२६९) महानन्द वाजपेयी, बैसवारे वाले ।

ग्रन्थ—बृहच्छिवपुराण भाषा ।

जन्मकाल—१९०१ ।

विवरण—मधुसूदनदास श्रेणी ।

नाम—(२२७०) माधवानंद भारती, बनारसी ।

ग्रन्थ—शंकरदिग्विजय भाषा ।

जन्मकाल—१९०२ ।

विवरण—मधुसूदनदास की श्रेणी ।

नाम—(२२७१) मानिक चन्द्र कायस्थ, जिला सीतापुर ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२७२) मिर्होलाल, उपनाम मलिनन्द, डलमऊ, राय-  
बरेली ।

जन्मकाल—१९०२ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२७३) मीतूदास गौतम, हरधौरपुर, फतेहपुर ।

जन्मकाल—१९०१ ।

विवरण—हीन श्रेणी ।

नाम—(२२७४) मुन्नाराम ।

ग्रन्थ—सन्तनकल्पलतिका ।

विवरण—ज़िला प्रतापगढ़ निवासी ।

नाम—(२२७५) रघुनाथप्रसाद कायस्थ, चरखारी ।

ग्रन्थ—(१) शृङ्गारचन्द्रिका, (२) पटञ्जलुदर्पण, (३) काव्यसुधारत्नाकर, (४) रसिकवसोकर, (५) संगीतसुधानिधि, (६) मोदमहोदधि, (७) दुर्गाभक्तिप्रकाश, (८) मनमौजप्रकाश, (९) शांतिपत्रासा, (१०) राधिकानखशिख, (११) रसिकमनोहर, (१२) राधाकृष्णपत्रासा ।

जन्मकाल—१९०४ ( १९४८ तक रहे ) ।

नाम—(२२७६) रसरङ्ग, लखनऊ ।

जन्मकाल—१९०१ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२७७) रामनाथ कायस्थ राम उपनाम ।

ग्रन्थ—हनुमन्नाटक ।

जन्मकाल—१८९८ ।

विवरण—साधारण श्रेणी । सरोज में इस नाम के दो कवि दिये हैं, पर दोनों एक जान पड़ते हैं ।

नाम—(२२७८) रामगोपाल सनाढ्य, अलवर ।

जन्मकाल—१८९६ ।

विवरण—आप अलवरदरबार में वैद्य हैं । कविता भी उत्तम करते हैं ।

नाम—(२२७६) रामभजन, गजपुर, गोरखपुर ।

विवरण—राजा वस्ती के यहाँ रहे थे ।

नाम—(२२८०) लक्ष्मीनाथ ।

ग्रन्थ—लक्ष्मीविलास ।

विवरण—आप महाराज मानसिंह के भतीजे थे ।

नाम—(२२८१) लछिराम वन्दीजन, होलपुर वाले ।

ग्रन्थ—शिवसिंहसरोज नायिकाभेद ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२८२) शीतलप्रसाद तेवारी ।

ग्रन्थ—ज्ञानकीमंगल ।

विवरण—नाटकरचयिता हैं ।

नाम—(२२८३) शंकर त्रिपाठी, बिसर्वा, सीतापूर ।

ग्रन्थ—(१) रामायण, (२) ब्रजसूची ग्रन्थ ।

विवरण—हीनश्रेणी । अपने पुत्र सालिक के साथ बनाई ।

नाम—(२२८४) शंकरसिंह तालुकदार, चँडरा, सीतापूर ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२८५) श्रीमती ।

ग्रन्थ—अद्भुतचरित्र या गृहचंडी नाटक ।

नाम—(२२८६) सालिक, बिसर्वा, सीतापूर ।

ग्रन्थ—रामायण ।



विवरण—हीन श्रेणी । अपने पिता शंकर के साथ बनाई ।

नाम—(२२८७) साँवलदासजी साधु, उदयपुर ।

ग्रन्थ—भजन ।

नाम—(२२८८) सुखदीन ।

जन्मकाल—१९०१ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२८९) सुदर्शनसिंह राना चम्दापुर ।

ग्रन्थ—सुदर्शन कविता संग्रह ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२९०) सुखन ।

जन्मकाल—१९०१ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२२९१) हनुमतसिंह हाड़ा, क़िला नैणवे ।

जन्मकाल—१९०५ ।

विवरण—ये महाशय राजा बूँदी के २००००) सालाना आमदनी के जागीरदार तथा क़िलेदार हैं । संस्कृत तथा भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं । इनकी कविता साधारण श्रेणी की है ।

नाम—(२२९२) हरखनाथ झा, बिहार ।

ग्रन्थ—ऊषाहरण नाटक ।

जन्मकाल—१९०४ ।

नाम—(२२६३) हरिदास साधु निरंजनी ।

ग्रन्थ—(१) रामायण, (२) भरथरीगोरख संवाद, (३) दयालजी का पद ।

जन्मकाल—१९०१ ।

नाम—(२२६४) हिमाचलराम, ब्राह्मण शाकद्वीपी भटौली, ज़ि० फैज़ाबाद ।

ग्रन्थ—कालीनाथन लीला ।

जन्मकाल—१९०४ ।

विवरण—निम्नश्रेणी के कवि । इनकी पुस्तक हमने देखी है ।

नाम—(२२६५) होमनिधिशर्मा ।

ग्रन्थ—(१) हुक्कादोषदर्पण, (२) जातिपरीक्षा ।

जन्मकाल—१९०५ ।

नाम—(२२६६) मदनपाल ।

ग्रन्थ—निघंट भाषा ।

कविताकाल—१९३१ के पूर्व ।

समय संवत् १९३१ ।

नाम—(२२६७) फुतूरीलाल, मिथिला ।

ग्रन्थ—कवित्त अकाली ।

नाम—(२२६८) रामचन्द्र ।

ग्रन्थ—मामक्रीमा भाषा ।

नाम—(२२६६) अग्रअली ।

ग्रन्थ—अष्टयाम ।

कविताकाल—१९३२ के पूर्व ।

समय संवत् १६३२ ।

नाम—(२३००) कन्हैयालाल अग्निहोत्री, गोंडवा ज़िला  
हरदोई ।

ग्रन्थ—(१) ज्योतिषसारावली, (२) अवतारपच्चीसी, (३) शंभु-  
साठिका ।

जन्मकाल—१९०७ (वर्तमान) ।

नाम—(२३०१) रामचरण कायस्थ, गौहार, बुँदेलखंड ।

ग्रन्थ—हनुमतपचासा ।

जन्मकाल—१९०७ ।

नाम—(२३०२) रामसेवक शुक्ल, बलसिंहपूर, सीतापूर ।

ग्रन्थ—(१) स्फुट, (२) अक्षरावली । (३) ध्यानचिन्तामणि ।

जन्मकाल—१९०८ ।

समय संवत् १६३३ ।

नाम—(२३०३) अलीमन ।

नाम—(२३०४) केशवराम विष्णुलाल पण्ड्या ।

ग्रन्थ—गणेशगंज आर्यसमाज का इतिहास ।

जन्मकाल—१९०८ ।

नाम—(२३०५) ज़ालिमसिंह कायस्थ, अकबरपुर, ज़िला  
फ़ैजाबाद ।

ग्रन्थ—(१) तर्कसंग्रहपदार्थादर्श, (२) गीता टीका, (३) कई उपनि-  
षदों की टीका ।

विवरण—ये महाशय लखनऊ में पोस्टमास्टर थे । अब पेंशन ले ली  
है । इस समय इनकी अवस्था ६० साल की होगी ।

नाम—(२३०६) तारानाथ ।

विवरण—आप महाराज मानसिंह के भतीजे थे ।

नाम—(२३०७) धनुर्धरराम ब्राह्मण, मु० डगडीहा, राज्य रीवा ।

जन्मकाल—१९०८ ( वर्त्तमान ) ।

नाम—(२३०८) परमहंस इलाहाबाद ।

ग्रन्थ—आरत भजन ।

नाम—(२३०९) बलदेवप्रसाद कायस्थ, मौज़ा खटवारा, डा०  
राजपुर, ज़िला बाँदा ।

ग्रन्थ—(१) रामायण रामसागर, (२) शक्तिचंद्रिका, (३) विष्णुपदी  
रामायण, (४) भारतकल्पद्रुम, (५) हनुमंतहाँक, (६) हनु-  
मानसाठिका, (७) वज्रांगबीसा, (८) चंडीशतक, (९)  
बलदेवहज़ारा, (१०) कान्हवंशावली, (११) उक्तिपरीक्षा,  
(१२) ज्ञानप्रभाकर ।

जन्मकाल—१९०८ ( वर्तमान ) ।

विवरण—सत्र छोटे बड़े ३२ ग्रंथ आपने बनाये हैं । महाराजा प्रताप-  
सिंह कटारी वाले के यहाँ थे ।

नाम—(२३१०) साधोगिरि गोसांई, मकनपुर, ज़िला मिर-  
ज़ापुर ।

ग्रन्थ—(१) काव्यशिक्षक, (२) साधो संगीत सुध्रा, (३) नीति  
शृंगार वैरान्यशतक, (४) कवित्तरामायण, (५) हनुमान  
अष्टक, (६) वर्षाविलास, (७) गंगास्तोत्र ।

जन्मकाल—१९०८ ( वर्तमान ) ।

नाम—(२३११) रामानंद ।

ग्रन्थ—(१) भगवतगीता भाषा, (२) भजनसंग्रह ।

विवरण—पहले फ़ौज में सूवेदार थे । पेंशन लेकर संन्यासी होगये ।

नाम—(२३१२) सुखविहारीलाल ।

ग्रन्थ—सुखदावली ।

नाम—(२३१३) हरदेवब्रह्म कायस्थ, पैतेपुर, ज़िला बारह-  
बंकी ।

जन्मकाल—१९०८ ।

नाम—(२३१४) हरिविलास खन्ना, लखनऊ ।

ग्रन्थ—गोविंदविलास ( पृ० २६८ ) ।

नाम—(२३१५) अर्जुनसिंह, बनारस ।

ग्रन्थ—कृष्णारहस्य ।

कविताकाल—१९३४ के पूर्व ।

विवरण—हीन श्रेणी । नारायण के शिष्य ।

समय संवत् १६३४ ।

नाम—(२३१६) अजीतसिंहजी ।

जन्मकाल—१९०९ ।

विवरण—ये महाराज खेतड़ीनरेश थे जो हाल ही में अकबर के रौजे से गिरकर मर गये । ये कविता भी करते थे ।

नाम—(२३१७) कृष्णसिंह राजा भिनगा, जिला बहरायच ।

ग्रन्थ—गंगाष्टक ।

जन्मकाल—१९०९ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२३१८) जनकधारी लाल कुर्मी, दानापुर ।

ग्रन्थ—सुनीतिसंग्रह ।

जन्मकाल—१९०९ ।

नाम—(२३१९) देवदत्त शास्त्री, कानपूर ।

ग्रन्थ—वैशेषिक-दर्शन-भाष्य, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकेन्दुपराग ।

जन्मकाल—१९०९ ।

विवरण—आप गुरुकुल मथुरा के अध्यापक हैं ।

नाम—(२३२०) भगवानदास, मु० ईचाक, जिला हज़ारीबाग ।

ग्रन्थ—(१) प्रेमशतक, (२) गौविंदशतक, (३) कृष्णाष्टक, (४)

पञ्चामृतकल्याण, (५) गीतामाहात्म्य, (६) गौरीस्वयंवर,  
(७) गोविंदाष्टक आदि अनेक ग्रन्थ रचे हैं ।

जन्मकाल—१९०९ (वर्त्तमान) ।

नाम—(२३२१) भैरवदत्त त्रिपाठी, सरायमीरा ।

ग्रन्थ—वाल्मीकीय अयोध्याकांड भाषा ।

नाम—(२३२२) मातादीन शुक्ल; मौजा अजगर, जिला प्रता-  
पगढ़ ।

ग्रन्थ—(१) रससारिणी, (२) नानार्थनव संप्रहावली ।

विवरण—साधारण कवि हैं । इनकी रससारिणी हमारे पास  
है । दोहों में रस व नायिकाभेद कहा है ।

नाम—(२३२३) मंगलसेन शर्मा, अम्बहटा, सहारनपुर ।

ग्रन्थ—श्राद्धविवेक ।

जन्मकाल—१९७९ ।

नाम—(२३२४) रघुनाथप्रसाद ब्राह्मण, मु० विरसुनपुर, राज्य  
पन्ना ।

कविताकाल—१९०९ (वर्त्तमान) ।

नाम—(२३२५) रमादत्त त्रिपाठी, नैनीताल ।

ग्रन्थ—(१) शिक्षावली, (२) बालबोध, (३) गणितारम्भ, (४)  
नीतिसार ।

जन्मकाल—१९०९ ।

नाम—(२३२६) रामप्रकाश शर्मा, मिर्जापुर ।

ग्रन्थ—(१) विवाहपद्धति, (२) सत्योपदेश ।

कविताकाल—१९०९ ।

नाम—(२३२७) लतीफ़ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२३२८) हीराप्रधान ।

ग्रन्थ—नर्मदाजागेश्वरविलास ।

समय संवत् १९३५ के पूर्व ।

नाम—(२३२९) जमुनादास ।

ग्रन्थ—जमुनालहरी ।

नाम—(२३३०) दयाराम वैश्य ।

ग्रन्थ—(१) सीताचरित्र उपन्यास, (२) मनुस्मृति आल्हा ।

जन्मकाल—१९०९ ।

नाम—(२३३१) फ़रासीसी वैद्य ।

ग्रन्थ—अंजुलिपुरान, इंजीलपुरान ।

समय संवत् १९३५ ।

नाम—(२३३२) चिम्मनलाल वैश्य, तिलहर, शाहजहाँपूर ।

ग्रन्थ—(१) गृहस्थाश्रम, (२) दयानन्दजीवनचरित्र, (३) नीति-

शिरोमणि आदि २० ग्रन्थ हैं ।



जन्मकाल—१९१० (वर्तमान) ।

नाम—(२३३३) जदुदानजी चारण ।

ग्रन्थ—(१) ज़िमीदारी री पीदियान रौनचाकरी जेर चाकरी री विगति, (२) ताजीमो सरदारी रानरी खलगति ।

विवरण—राजपूतानी कवि ।

नाम—(२३३४) जनकेस वंदीजन, मऊ, बुँदेलखंड ।

जन्मकाल—१९१२ ।

विवरण—ये कवि महाराज छतरपूर के यहाँ थे । इनकी कविता तोष कवि की श्रेणी की है ।

नाम—(२३३५) मोहनलाल ।

ग्रन्थ—(१) शालि होत्र, (२) श्रीनरसिंह जू को अष्टक ।

नाम—(२३३६) रविदत्त शास्त्री वैद्य, बेरी, ज़िला रोहतक ।

ग्रन्थ—वैद्यक के ४६, ज्योतिष के १६, व्याकरण के ४, न्याय के ७ ग्रंथ ।

जन्मकाल—१९११ ।

विवरण—आप गौड़ ब्राह्मण हैं । आप ग्रंथरचना में विशेष रुचि रखते हैं ।

नाम—(२३३७) श्रीहर्ष जी ब्राह्मण, काशी ।

ग्रंथ—(१) राधाकृष्णहोरी (पृ० १८), (२) राधाजी को व्याह (पृ० १२) ।

नाम—(२३३८) सीताराम वैश्य, पैतैपुर, ज़िला बारनसि ।

ग्रंथ—ज्ञानसारावली ।

जन्मकाल—१९०७ ।

## सैंतीसवाँ अध्याय ।

उत्तर हरिदचन्द्र-काल (१६३६-४५) ।

(२३३६) भीमसेन शर्मा ।

इनका जन्म संवत् १९११ में पटा ज़िले में हुआ था । संस्कृत विद्या में अच्छा अभ्यास करके ये महाशय काशी में आर्य्यसमाजी हो गये और बहुत दिन तक समाज के अच्छे उपदेशकों में रहे । पीछे से इन का मत बदल गया और ये फिर सनातनधर्मी हो कर ब्राह्मणसर्वस्व नामक एक पत्र निकालने लगे । ये महाशय एक अच्छे उपदेशक और पूर्ण पंडित हैं । हिन्दी और संस्कृत में ये बड़ी सुगमता के साथ उत्तम व्याख्यान देते हैं । ये अपनी धुनके बड़े पक्के हैं । इनका यन्त्रालय इटावे में है और वहाँ से ब्राह्मणसर्वस्व निकलता है ।

सन् १९१२ से ये कलकत्ता की यूनीवरसिटी के कालिज में वेदव्याख्याता के पद पर काम कर रहे हैं ।

(२३४०) बलदेवदास ।

ये महाशय श्रीवास्तव कायस्थमौजा दौलतपूर परगना कल्याण-पूर, ज़िला फ़तेहपूर के रहने वाले थे । स्वामी छीतूदास जी इनके मन्त्रगुरु थे, जिनकी आज्ञा से इन्होंने संवत् १९३६ में जानकी-विजय नामक २३ पृष्ठ का एक ग्रन्थ बनाया । इसकी कथा अद्भुत-रामायण के आधार पर कही गई है । वास्तव में यह कथा बिल्कुल

निर्मूल है क्योंकि अद्भुत रामायण कोई प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है। बलदेवदास ने प्रधानतः दोहा चौपाइयों में यह ग्रन्थ लिखा है, परन्तु कहीं कहीं और भी छन्द लिखे हैं। इन्होंने गोस्वामोजी के मार्ग का अधिकतर अवलम्ब लिया है, यहाँ तक कि दो चार जगह उन्हींके पद अथवा भाव भी इन्होंने अपनी कविता में रख दिये हैं। इनकी गणना कथा-प्रसंग के कवियों में मधुसूदनदास की श्रेणी में की जा सकती है।

राम रजाय सुनत सब बीरा । सजे सवेग सेन रनधीरा ॥  
चले प्रथम पैदल भट भारी । निज निज अस्त्र शस्त्र सब धारी ॥  
मनिगनजटित चली रथ पाँती । भरे विपुल आयुध बहुभाँती ॥  
चले तुरँग बहु रंगविरंगा । जुग पद चर प्रति सूरन संग ॥

असित विसाल गात मातु महाकाल की सी

पीतपट देखि कै छटा की छवि छपकत ।

राजै मुंड माल रुंड जाल भुजदंड बाजू

भाल खड्ग खप्पर कृपान सान लपकत ॥

छूटे बिकराल बाल नैन बलदेव लाल

दिव्य मुख देखि कै दिनेस छवि भपकत ।

सालक के घालिबे को काली ने निकाली जीह

लाल लाल लोहू ते लपेटी लार टपकत ॥

(२३४१) फ्रेडरिक पिनकाट ।

इनका जन्म संवत् १८९३ में इंग्लैंड देश में हुआ और वहाँ ये प्रायः अपने जीवन पर्यन्त रहे। पर भारतीय भाषाओं पर

आपका इतना प्रेम था कि आर्थिक दरिद्रता होते हुए भी आप ने संस्कृत, उर्दू, गुजराती, बँगला, तामिल, तैलंगी, मलायलम, और कनाडी भाषायें सीखीं । अन्त में इन को हिन्दी से भी प्रेम हुआ और इसे सीख कर इनका अन्य भाषाओं से प्रेम इसके माधुर्य के आगे फीका पड़ गया । इन्होंने हिन्दी में सात पुस्तकें सम्पादित कीं, जिनमें कुछ इन्हीं की बनाई हुई भी थीं । आप ने यावज्जीवन हिन्दी का हित और हिन्दीलेखकों का प्रोत्साहन किया । अन्त में संवत् १९५२ में ये भारत को पधारे, पर इसी संवत् के फ़रवरी में इनका शरीरपात लखनऊ में होगया । आप हिन्दी के अच्छे जाननेवालों में से थे ।

### (२३४२) साहित्याचार्य अम्बिकादत्त व्यास ।

इनका जन्म संवत् १९१५, चैत्र सुदी ८ को जयपुर में हुआ था । ये महाशय गौड़ ब्राह्मण थे और काशी इनका निवासस्थान था । संस्कृत के ये अच्छे विद्वान् थे और यावज्जीवन पाठशालाओं एवं कालेजों में संस्कृत पढ़ाने का काम करते रहे । इनके अन्तिम पद का वेतन १०० मासिक था । अपनी नौकरी के सम्बन्ध से ये महाशय विहार में बहुत रहे । इनका स्वर्गवास संवत् १९५७ में हुआ । ये महाशय संस्कृत तथा भाषा गद्य पद्य के अच्छे लेखक थे और इन्होंने चार नाटकग्रंथ भी बनाये हैं । यत्र तत्र इन्हें बहुत से प्रशंसापत्र तथा उपाधियाँ मिलीं और इनकी आशुकविता की भी सराहना हुई । इन्होंने संस्कृत और हिन्दी मिलाकर ७८ ग्रंथ निर्माण किये हैं, जिनके नाम सन् १९०१ वाली सरस्वती के

पृष्ठ ४४४ पर लिखे हैं । ललिता नाटिका, गोसंकट नाटक, मर-हटा नाटक, भारतसौभाग्य नाटक, भाषाभाष्य, गद्यकाव्य-मीमांसा, विहारीविहार, विहारीचरित्र, शीघ्रलेखप्रणाली और निज वृत्तान्त इनके ग्रंथों में प्रधान हैं । विहारीविहार में विहारी-सतसई के दोहों पर कुंडलियायें लगाई गई हैं । इसकी रचना प्रशंसनीय होने पर भी कुछ शिथिल है । गद्यकाव्यमीमांसा बहुतही विद्वत्तापूर्ण पुस्तक है । कविता की दृष्टि से इनकी गणना साधारण श्रेणी में की जा सकती है । इनके अकालमृत्यु से हिन्दी में गवेषणा-विभाग की बड़ी क्षति हुई । इनकी कविता का महत्त्व जैसा इनके गद्य से है वैसा पद्य से नहीं । उदाहरण ।

“अब गद्य विभाग की परीक्षा की जाती है । यहाँ साहित्यदर्पण-कार के कथनानुसार तीन गद्य तो असमास, अल्पसमास, दीर्घ समास हैं और चौथा वृत्तगंधि है । परन्तु यह विचारना है कि प्रथम ही तीन गद्यों से सरस्वती का सारा गद्यभंडार भर जाता है, फिर कौनसा स्थान शेष रहजाता है जहाँ वृत्तगंधि गद्य स्थिर हो !! हाँ, वृत्तगंधि गद्य जब होगा तब उन्हीं तीन में से कोई सा होगा । इस लिये इसे प्रविभाग कहें तो कहें पर गद्यविभाग में तो नहीं ही रख सकते” ।

परनिन्दा ठगपनो कबहुँ नहिँ चोरी करि हैं ।

जन्तुन को दै पीर कबहुँ नहिँ जीवन हरि हैं ॥

मिथ्या अप्रिय वचन नहिँ काहू सन कहि हैं ।

पर उपकारन हेत सबै विधि सब दुख सहि हैं ॥

## (२३४३) चौधरी बदरीनारायण (प्रेमघन) ।

आपके पिता का नाम गुरचरणलाल है । ये पहले मिर्जापुर रहते थे परन्तु अब विशेषतया शीतलगंज, जिला गोंडा में रहते हैं । इनका जन्म संवत् १९१२ भाद्रकृष्ण ६ को मिर्जापुर में हुआ । ये सरयूपारीण ब्राह्मण उपाध्याय भरद्वाजगोत्री हैं । आप बहुत दिन तक नागरीनीरद तथा आनन्दकादम्बिनी नामक मासिक-पत्र निकालते रहे । ये भारतेन्दु जी के साथियों में हैं और भाषा के बड़े प्राचीन लेखक तथा कवि हैं । आपके रचित निम्नलिखित ग्रन्थ हैं:—

- ( १ ) भारतसौभाग्य नाटक, ( २ ) प्रयाग-रामागमन नाटक, (३) हार्दिकहर्षादर्श काव्य, (४) भारतबधाई, (५) आर्याभिनंदन, (६) मंगलाश, (७) कलम की कारीगरी, (८) शुभसम्मिलन काव्य, (९) आनंदअरुणोदय, (१०) युगलमंगल स्तोत्र, (११) वर्षाविन्दु-गान, (१२) वसंत-मकरंद-विन्दु, (१३) कजली-कादम्बिनी, (१४) बारांगनारहस्य महानाटक, (१५) संगीतसुधासरोवर, (१६) पीयूषवर्षा, (१७) आनंदबधाई, (१८) पितरप्रलाप, (१९) कलिकांतर्पण, (२०) मन की मौज, (२१) युवराजाशिष, (२२) स्वभावविन्दुसौन्दर्य गद्यकाव्य, (२३) शोकाश्रुविन्दु पद्य, (२४) विधवाविपत्तिवर्षा गद्य, (२५) भारतभाम्योदय काव्य, (२६) कान्ती-कामिनी उपन्यास, (२७) वृद्धविलाप प्रहसन, (२८) आत्मोल्लास काव्य, (२९) दुर्दशा दत्तापुर ।

पटरानी नृप सिन्धु की त्रिपथगामिनी नाम ।  
 तुहिँ भगवति भागीरथी बारहिँ बार प्रनाम ॥  
 बारहिँ बार प्रनाम जननि सब सुख की दाइनि ।  
 पूरनि भक्तन के मनोरथनि सहज सुभाइनि ॥  
 ब्रह्मलोकहू लैंकरि निज अधिकार समानी ।  
 पूरौ मम मन-आस सिन्धु नृप की पटरानी ॥ १ ॥

कौन भरोसे अब इत रहिए कुमति आय घर घाली ।  
 फूट्यो फूट बैर फलि फैल्यो विधि की कठिन कुचाली ॥  
 चलिप बेगि इहाँ ते आली ।

जिन कर नाँहि छोड़ो ते करि हैं कहा करद करवाली ।  
 छमा-कवच-धारी ये बिहँसत खाय लात औ गाली ॥  
 जिनसेँ सँभरि सकत नहिँ तनकी धोती ढीली ढाली ।  
 देश-प्रबंध करैंगे वे यह कैसी खामखयाली ॥  
 दास वृत्ति की चाह चहूँ दिसि चारहु बरन बढ़ाली ।  
 करत खुसामद झूठ प्रसंसा मानहु बने ढफाली ॥ २ ॥

इनका गद्य और पद्य पर अच्छा अधिकार है और ये हिन्दी के बड़े लेखकों में गिने जाते हैं । इनको हिन्दी का सदैव से अच्छा शौक है ।

नाम—(२३४४) लक्ष्मीनारायणसिंह कायस्थ, सिकंदराबाद,

ज़िला बुलंदशहर ।

ग्रन्थ—तैलङ्गबोध ।

रचनाकाल—१९३७ । वर्तमान ।

विवरण—ये महाशय हैदराबाद में नौकर हैं । इन्होंने खालकवारी की तरह तैलङ्ग भाषा के शब्दों का कोष बनाया है जिसमें तैलङ्गो शब्दों के अर्थ हिन्दी में कहे हैं । यह पुस्तक मतवा निज़ामी हैदराबाद में छपी है ।

नाम—(२३४५) ईश्वरीसिंह चौहान ( ईश्वर ), कि.सुनपुर,

राज्य अलवर ।

रचना—स्फुट काव्य ।

जन्मकाल—१९१३ ।

रचनाकाल—१९३८ ।

विवरण—इनके बड़े भाई माधव भी अच्छे कवि हैं और आपकी भी कविता सरस होती है ।

उदाहरण देखिए:—

कवहूँ नहिँ साथी समाधि की रीति न ब्रह्म की जीवमें जाति जगी ।

कवहूँ परजंक में अंक न लीनी मयंकमुखी रस प्रेम पगी ॥

कवि ईसुर प्यारी की बातन हूँ कवहूँ नहिँ चित्त की चाह भगी ।

यह आयु गई सब हाय बृथा गर सेली लगी न नवेली लगी ॥ १ ॥

(२३४६) त्रिलोकीनाथ जी, उपनाम भुवनेश कवि ।

ये महाशय शाकद्वीपी ब्राह्मण महाराजा मानसिंह अयोध्या-नरेश के भतीजे थे । महाराजा मानसिंह के अपुत्र अवस्था में स्वर्ग-वास होने पर उनके दौहित्र महाराज सर प्रतापनारायण महामहोपाध्याय और इनसे राज्यप्राप्त्यर्थ बहुत बड़ी लड़ाई अदालतों में हुई, जिसमें इनकी पराजय हो गई । ये महाशय भाषा के अच्छे कवि थे



और इन्होंने पहले चाणक्यनीति का एकादश अध्याय पर्यन्त भाषा छन्दों में अनुवाद किया और फिर संवत् १९३७ में भुवनेश-भूषण नामक ५० पृष्ठों का स्फुट शृङ्गार कविता का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बनाया । इस ग्रन्थ के अन्त में कुछ चित्र कविताभी की गई है । भुवनेशविलास, भुवनेशग्रन्थप्रकाश, भुवनेशयन्त्रप्रकाश नामक इनके और ग्रन्थ हैं । इनके भाई नरदेव, लक्ष्मीनाथ और तारानाथ भी कवि थे । इनके कुटुम्ब में और दो तीन महाशय भी काव्य-रचना करते थे । इनके पितृव्य महाराजा मानसिंह जी उपनाम द्विजदेव अच्छे कवि हो गये हैं । भुवनेश जी का स्वर्गवास हुए करीब १४ वर्ष के हुए हैं । इनके ग्रंथों का एवं इनके कुटुम्बियों के कवि होने का हाल भुवनेशभूषण ग्रन्थ में इन्होंने लिखा है । इन्होंने ब्रजभाषा में कविता की है जो सरस और मनोहर है । हम इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में करते हैं । उदाहरणार्थ इनका केवल एक छन्द नीचे लिखा जाता है:—

कर कंज केवार पै राजि रहे छहरी छिति लौं छुटि कै अलकैं ।  
 अंगिराति जम्हाति भली विधि सों अधनैननि आनि परीं पलकैं ॥  
 भुवनेश जू भापे बनै न कछ्छ मुख मंजुल अम्बुज से भलकैं ।  
 मनमोहन नैन मलिन्दन सों रस लेत न क्यों कदि कै कलकैं ॥

( २३४७ ) डाक्टर जी०ए० ग्रियर्सन सी० आई० ई ।

इनका जन्म विलायत में संवत् १९१३ में हुआ था । आप सिविलसर्विस पास करके भारत में १९५५ पर्यन्त रहे । इनका हिन्दी से बड़ा प्रगाढ़ प्रेम था और सदैव इनके द्वारा हिन्दी का

बपकार होता रहा है । इन्होंने मिथिला भाषा का व्याकरण, विहारी-कृष्णक-जीवन, और विहारी बोलियों का व्याकरण नामक ग्रंथ बनाये तथा विहारीसतसई, पद्मावती, भाषाभूषण, तुलसी-कृत रामायण आदि ग्रंथों को सम्पादित किया । इन ग्रंथों के अतिरिक्त आप ने माडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान नामक इतिहास-ग्रन्थ शिवसिंहसरोज एवं अन्य ग्रंथों के आधार पर भाषासाहित्य के विषय बनाया । इसमें प्रायः सब बड़े कवियों के नाम आ गये हैं । आज कल भी ये महाशय भाषाओं की खोज का ग्रन्थ लिख रहे हैं, जिसके कई भाग प्रकाशित हो चुके हैं । इसमें इन्होंने हिन्दी की बड़ी प्रशंसा की है । अब ये महाशय विलायत में रह कर पेंशन पाते हैं । आपका हिन्दीप्रेम एवं श्रम सर्वथा सराहनीय है ।

नाम—(२३४८) गदाधर जी ब्राह्मण, बाँसी ।

ग्रन्थ—(१) घृतसुधातरंगिणी (पद्य, ९६ पृ० १९५६), (२) देवदर्शन स्तोत्र (पद्य, १० पृ० १९५८), (३) काथकल्पद्रुम (गद्य, ९२ पृ० १९५९) (४) कामांकुशमदतरङ्गिणी ( गद्य, ४२ पृ० १९५९ ), (५) बदरीनाथमाहात्म्य (पद्य, २२ पृ० १९५९), (६) गजशाला-चिकित्सा (गद्य, ५२ पृ० १९६०), (७) वैद्यनाथमाहात्म्य (पद्य, १४ पृ० १९६०), (८) अश्वचिकित्सा (पद्य, ३३८ पृ० १९६१), (९) हरिहरमाहात्म्य (पद्य, १० पृ० १९६२), (१०) साधुपचीसी ( पद्य, १० पृ० १९६३ ), (११) नारीचिकित्सा ( गद्य, १२८ पृ० १९६२ ) (१२) जगन्नाथमाहात्म्य, (१३) नयनगदतिमिरभास्कर, (१४) तैल-सुधातरंगिणी, (१५)

तैलघृतसुधातरंगिणी, (१६) चूरनसंग्रह, १७) प्रमेहतैल-  
सुधातरंगिणी, (१८) बृहत्सराजमहोदधि, (१९) रामेश्वर-  
माहात्म्य, (२०) अयोध्यातीर्थयात्राज्ञान ।

विवरण—वर्तमान । ये महाशय अच्छे वैद्य हैं और कविता भी करते हैं । आपकी अवस्था इस समय लगभग ५५ साल के होगी ।

(२३४६) नाथूराम शंकरशर्मा ।

ये हरदुआगंज अलीगढ़ के निवासी हिन्दी के एक प्रसिद्ध सुकवि हैं । आप समस्यापूर्ति अच्छी करते थे और आजकल खड़ी बोली की भी ललित रचना करते हैं । आपकी अवस्था इस समय प्रायः ५५ साल की है । आपने एक वंगीय उपन्यास का अनुवाद भी किया है ।

(२३५०) भगवानदास खत्री, लखनऊ ।

ये हिन्दी के पुराने लेखक तथा शुभचिंतक हैं । इन्होंने कई पुस्तकें गद्य तथा पद्य की हिन्दी में लिखी हैं । आज कल ये रेलवे के मोहकमे में नौकर हैं । इनके बनाये और अनुवादित पदिचमोत्तर देश का भूगोल, ब्रेडलास्वागत, योगवासिष्ठ इत्यादि हमने देखे हैं । इनके अतिरिक्त और भी बहुत से ग्रंथ आपने रचे तथा अनुवादित किये हैं । इस समय इनकी अवस्था लगभग ५५ साल के है ।

नाम—(२३५१) चंडीदान कविराजा मीशन चारण, बूँदी ।

ग्रन्थ—(१) सारसागर, (२) बलविग्रह, (३) वंशाभरण, (४) तीजतरंग,  
(५) विरुदप्रकाश ।

जन्मकाल—१८४८ ।

कविताकाल—१९३९ । मृत्यु १९४९ ।

विवरण—महाराज राजा विष्णुसिंह वूँदीनरेश के दरबार में थे । इनकी कविता प्रशंसनीय है । इनकी गणना तोष की श्रेणी में की जाती है ।

उदाहरण ।

धूमत घटा से घनघोर से धुमँड़ घोस्र  
 उमड़त आप कमठान तँ अधीर से ।  
 चपट चपेट चरखीन की चलाचल तँ  
 धूरि धूम धूसत धकात बलि वीर से ॥  
 मसत मतंग रामसिंह महिपाल जू के,  
 डाकिनि डराप मदछाकिनि छकीर से ।  
 साजे साँटमारन अखारन के जैतवार,  
 आरन के अचल पहारन के पीर से ॥

नाम—(२३५२) राव अमान ।

ग्रन्थ—(१) लाल-बाबा-चरित्र, (२) लालचरित्र, (३) महाराज तख्त-सिंहजी की कविता, (४) महाराज तख्तसिंह जी का जस ।

कविताकाल—१९३९ तक ।

विवरण—इनकी रचना देखने में नहीं आई ।

(२३५३) कालीप्रसाद त्रिवेदी ।

ये बनारस वाले हैं । इनका रचनाकाल १९४० के लगभग है ।

आयने भाषा-रामायण और सीय-स्वयंवर के अतिरिक्त अनेक मदर्सों की पुस्तकें रचीं ।

(२३५४) पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र ।

इनका जन्म संवत् १९१६ में रियासत कश्मीर में हुआ था । ये महाशय संस्कृत, हिन्दी और बंगला में परमप्रवीण थे और अंगरेज़ी भी जानते थे । जीविकार्थ ये सकुटुम्ब कलकत्ते में रहते थे । इन्होंने कई पत्र चलाये तथा सम्पादित किये । प्रसिद्ध पत्र भारत-मित्र इन्हीं का चलाया हुआ है । इस के अतिरिक्त सारसुधानिधि, उचितवक्ता और मारवाड़ीबन्धु नामक पत्र भी इन्होंने चलाये । इन्होंने २०, २२ पुस्तकें अनुवाद आदि मिलाकर लिखीं । इनका स्वर्गवास १९६७ में हो गया । ये महाशय हिन्दी के परमोत्तम लेखकों में से थे ।

नाम—(२३५५) मातादीन द्विवेदी (हरिदास), गजपुर, गोरखपुर ।

रचना—स्फुट काव्य, २०० छंद ।

जन्मकाल—१९११ ।

रचनाकाल—१९४० । वर्तमान ।

विवरण—कविता सरस है ।

उदाहरण ।

देसू पलासन औ कचनार अनार की डार अंगार लखायगो ।  
तापर पौन प्रसंगन ते रजके कन धूम के धार सो छायगो ॥

त्योही कछारन में सरसों के प्रसूनन पै जरदी दरसायगो ।  
हाय दई हरिदास आये वसंत विसासी कसाई सो आय गो ॥

नाम—(२३५६) पंडित नकछेदी तैवारी, उपनाम अज्ञान कवि ।

ग्रन्थ—(१) कविकीर्तिकलानिधि, (२) मनोजमंजरीसंग्रह, (३)  
भंडौआसंग्रह, (४) वीरोल्लास, (५) खड्गावली, (६) हेरी-  
गुलाल, (७) लछिराम की जीवनी ।

जन्मकाल—१९१९ ।

कविताकाल—१९४० ।

विवरण—ये महाशय हल्दी-ग्राम-निवासी त्रिपाठी थे । इन्होंने स्फुट काव्य तथा गद्यरचना की और बहुत सी साहित्य-सम्बन्धीनी पुस्तकें भी प्रकाशित कराईं हैं । आपने कविकीर्तिकलानिधि नामक ग्रंथ भी रचा, जिसमें भाषा के कवियों का हाल और ग्रन्थ इत्यादि लिखे हैं । यह ग्रंथ विशेषतया शिवसिंहसरोज के आधार पर लिखा गया । आपके भाषाप्रेम और गवेषणा आदरणीय हैं ।

परमात लैं केलि करी ललना वगरे कच ऐंड़िन लैं छहरैं ।  
रसराती उनीं दी भईं अँखियाँ रद लागे कपोलन में छहरैं ॥  
दरकी अँगिया में उरोज लसैं लट तापै अज्ञान परी लहरैं ।  
मनौ केसरिकुंभ के शृंग पै सुन्दर साँपिलि के चेढुवा विहरैं ॥

(२३५७) रामकृष्ण वर्मा ।

इनका जन्म संवत् १९१६ में काशी पुरी में हुआ था । इनके पिता हीरालाल खत्री थे । रामकृष्ण जी ने बी० ए० तक पढ़ा था

पर आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सके। ये गद्य और पद्य दोनों के लेखक थे। इन्होंने १९४० में भारतजीवन पत्र निकाला। इनके भारतजीवन प्रेस में कविता के अच्छे अच्छे ग्रन्थ छपे, पर ये उनका मूल्य अधिक रखते थे। नाटकों की भी रचना इन्होंने की है। इनका शरीरपात संवत् १९६३ में हो गया। इनके रचित तथा अनुवादित ग्रंथ ये हैं :—

(१) कृष्णकुमारी नाटक, (२) पद्मावती नाटक, (३) वीर नारी, (४) अकबर उपन्यास, प्रथम भाग, (५) अमलावृत्तान्तमाला, (६) कयासरिन्सागर, १२ भाग, अपूर्ण, (७) कान्स्टेबुलवृत्तान्तमाला, (८) ठगवृत्तान्तमाला, चार भाग, (९) पुलिसवृत्तान्तमाला, (१०) भूतों का मकान, (११) स्वर्णबाई उपन्यास, (१२) संसारदर्पण, (१३) बलवीरपचासा, (१४) बिरहा, (१५) ईसाईमत-खंडन, (१६) चित्तौरचातकी,

नाम—(२३५८) जानकीप्रसाद, पँवार जोहवेनकटी, ज़िला रायबरेली ।

ग्रन्थ—(१) शाहनामा ( उर्दू में भारत का इतिहास), (२) रघुवीर-ध्यानावली, (३) रामनवरत्न, (४) भगवतीविनय, (५) रामनिवास रामायण, (६) रामानंद-विहार, (७) नीति-विलास ।

कविताकाल—१९४० ।

विवरण—इनकी कविता उत्कृष्ट यमक एवं अन्य अनुप्रासयुक्त होती है। इनकी गणना तोष श्रेणी में है :—

वंदत अनंदकंद कीरति अमंद चंद  
 दरन कुफंद वृन्द धायक कुमति के ।  
 सिधि वृधि दायक विनायक सकल लोक  
 सोहैं सब लायक त्यों दायक सुमति के ॥  
 कोमल अमल अति अरुन सरोज ओज  
 लज्जित मनोज वरदानि सुभ गति के ।  
 विघनहरन मुद मंगल करनहार  
 असरन सरन चरन गनपति के ॥

(२३५६) लालविहारी मिश्र, उपनाम द्विजराज ।

ये महाशय प्रसिद्ध कवि लेखराज, गँधौली, जिला सीतापुर  
 निवासी के बड़े पुत्र थे । इनका जन्म संवत् १९१५ के लगभग हुआ  
 था । संवत् १९६२ में इनका स्वर्गवास हुआ । इनके तीन पुत्र और  
 एक कन्या विद्यमान हैं, पर उनका ध्यान कविता की ओर  
 नहीं है । द्विजराज जी बाल्यावस्था से ही कविता के प्रेमी थे और  
 उन्होंने सदैव उत्तम छन्द बनाने की ओर ध्यान रक्खा । इनकी कविता  
 परम सरस और गम्भीर भावों से भरी होती थी और इनकी भाषा  
 सानुप्रास, मनोहर, एवं टकसाली होती थी । इनके ग्रन्थ अभी  
 मुद्रित नहीं हुए हैं, पर वे इनके पुत्रों के पास सुरक्षित हैं । वे  
 सब ग्रन्थ इस समय हमारे पास मौजूद हैं । उनके नाम ये हैं:—  
 श्रीरामचन्द्रनखशिख, दुर्गास्तुति, भव्यार्णवलहरी, वासुदेवपंचक,  
 नामनिधि, प्यारीजू की शिखनख, वर्षमाला, विजयमंजरीलतिका,  
 विजयानन्दचन्द्रिका और स्फुट काव्य । दुर्गास्तुति, भव्यार्णव-



लहरी, विजयमंजरी लतिका और विजयानन्दचन्द्रिका में दुर्गादेवी की स्तुति की गई है और शत्रु-विनाश की प्रार्थना भी है। नामनिधि और वर्णमाला में इन्होंने प्रत्येक अक्षर लेकर अक्षरावट की भाँति उस पर रचना की है। ये ग्रन्थ अपूर्ण हैं। इनके ग्रन्थ आकार में सब छोटे छोटे हैं और कुल मिलाकर इनकी रचना प्रायः २०० पृष्ठों की होगी, पर इन्होंने थोड़ा बनाकर आदरणीय तथा सारगर्भित कविता करने का प्रयत्न किया और उसमें ये सफलमनोरथ भी हुए। हम इन्हें तोष की श्रेणी में रखेंगे।

फरकै लगीं खंजन सी अँखियाँ भरि भावन भौहैं मरोरै लगी ।  
 अँगिराय कल्लू अँगिया की तनो छबि छाकि छिनौ छिन छोरे लगी ॥  
 बलि जैवे परै द्विजराज कहै मन मौज मनोज हलोरै लगी ।  
 बतियान में आनँद घोरै लगी दिन द्वैते पियूप निचोरै लगी ॥  
 मनि मंगल देवन देस दुरे लखि वारिज साँभ लजाने रहैं ।  
 किसलै न प्रबाल कै बिम्ब जपा जड़ताई के जोग न आने रहैं ॥  
 अरुनाई सियावर पाँयन ते उपमान सवै अपमाने रहैं ।  
 द्विजराज जू देखौ दिनेस अजौं अरुनोपल आड़ लुकाने रहैं ॥

(२३६०) महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ।

इनका जन्म संवत् १९१७ में काशीपुरी में हुआ और उसी पुरी में १९६७ में अकस्मात् इनका शरीरपात हो गया। ये ज्योतिष के बहुत बड़े पंडित थे और भाषा एवं संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। इनकी कीर्ति बलायत तक फैली थी। इन्होंने १७ ग्रन्थ हिन्दी में रचे। ये कुछ कविता भी करते थे और गद्य के बहुत भारी

लेखक थे । जायसा की पद्मावत बड़े श्रम से इन्होंने सम्पादित की थी । ये सरल हिन्दी के पक्षपाती थे । काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के आप सभापति भी रहे हैं ।

### (२३६१) रामशंकर व्यास (पंडित) ।

आपका जन्म संवत् १९१७ में हुआ था । आपने कई स्थानों पर नौकरी की और अब २५० मासिक पर एक रियासत के मैनेजर हैं । आपने कई वर्ष कविवचनसुधा और आर्यमित्र का सम्पादन किया । आप भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के अन्तरंग मित्रों में थे और उन्हें वह उपाधि पहले इन्होंने दी थी । व्यासजी ने खगोल-दर्पण, वाक्यपंचाशिका, नैपोलियन की जीवनी, बात की करामात, मधुमती, वेनिस का बाँका, चन्द्रास्त, नूतनपाठ, और राय दुर्गा-प्रसाद का जीवनचरित्र नामक ग्रन्थ रचे हैं । आप गद्य के एक अच्छे लेखक हैं ।

### (२३६२) जामसुता जाड़ेचीजी श्रीप्रताप बाला ।

ये महारानी जामनगर के महाराज रिडमलजी की राजकुमारी तथा जोधपुर के भूतपूर्व महाराज श्रीतख्तसिंह की महारानी हैं । इनका जन्म संवत् १८९१ और विवाह संवत् १९०८ वैक्रमीय में हुआ था । ये बड़ी ही उदारहृदया और प्रजा का पुत्रवत् मानने वाली हैं । इन्हे स्वधर्म पर बड़ी ही श्रद्धा है । इन्होंने अकाल में बड़ी उदारता से भोजन वितरण किया था और कई मन्दिर भी बनवाये हैं । यद्यपि काल की कराल गति से इनको कई स्वजनों की अकाल मौत के असह्य दुःख भोगने पड़े हैं, तथापि इन्होंने

धैर्य नहीं छोड़ा और धर्म पर अपना पूर्ववत् विश्वास दृढ़ रखा है। ये बड़ी विदुषी हैं और इन्होंने बहुत स्फुट भजन बनाये हैं। इनके बहुत से पद “प्रतापकुँवरिरत्नावली” नामक पुस्तक में छपे हैं। इनकी रचना बहुत सरस और भक्तिपूर्ण है, और वह सुकवियों कृत कविता की समानता करती है। उदाहरणार्थ इनके दो पद उद्धृत किये जाते हैं।

वारी थारा मुखड़ा री श्याम सुजान (टेक) ।

मंद मंद मुख हास विराजै कोटिन काम लजान ।

अनियारी अँखियाँ रसभीनी बाँकी भौंह कमान ॥

दाड़िम दसन अधर अरुनारे बचन सुधा सुख खान ।

जामसुता प्रभुसें कर जोरे है मम जीवन प्रान ॥

दरस मोहि देहु चतुरभुज श्याम (टेक) ।

करि किरपा करनानिधि मोरे सफल करौ सब काम ॥

पाव पलक विसरूँ नहिँ तुमको याद करूँ नित नाम ।

जामसुता की यही वीनती आनि करौ उर धाम ॥

इनका कविताकाल १९४१ जान पड़ता है।

(२३६३) आर्यमुनिजी ।

इनका जन्म संवत् १९१९ में हुआ था। आप दयानन्द पेड़ुलो वैदिक कालेज लाहौर के एक सुयोग्य अध्यापक हैं। वेदान्तार्य-भाष्य, गीताप्रदीप और न्यायार्य-भाष्य ग्रन्थ आपके निर्मित किये हुए हैं।

## (२३६४) महेश ।

राजा शीतलावर्द्ध बहादुरसिंह उपनाम महेश वस्ती के राजा वर्तमान राजा पटेश्वरीप्रसाद नारायणसिंह के पिता थे। ये महाशय कवियों के बड़े आश्रयदाता थे और कवि लखिराम का इनके यहाँ बड़ा सत्कार हुआ था। इनका शृंगारशतक नामक एक ग्रंथ हमारे देखने में आया है। ये संवत् १९४१ के लगभग तक जीवित थे। इनकी कविता अच्छी हुई है। हम इनको साधारण श्रेणी में रखते हैं।

सुनि बोल सुहावन तेरे अटा यह टेक हिये मैं धरौं पै धरौं ।  
मढ़ि कंचन चेांच पखौवन मैं मुकताहल गुँदि भरौं पै भरौं ॥  
सुख-पौंजर पालि पढ़ाय घने गुन औगुन कोटि हरौं पै हरौं ।  
बिछुरे हरि मोहिँ महेश मिलैँ तोहिँ कागते हंस करौं पै करौं ॥१॥

## (२३६५) प्रतापनारायण मिश्र ।

इनके पिता का नाम संकटाप्रसाद था। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण बैजगाँव, जिला कानपुर के मिश्र थे। इनका जन्म संवत् १९१३ आश्विन शुक्ल ९ को हुआ। इन्होंने पहले अपने पिता से कुछ संस्कृत पढ़ी, फिर स्कूल में नागरी तथा अँगरेजी की शिक्षा पाई और उसी के साथ साथ उर्दू और फ़ारसी का भी अभ्यास किया। इनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, अतः ये कोई भाषा भी अच्छी तरह नहीं पढ़ सके। हिन्दी पर इनका विशेष प्रेम था और जातीयता भी इनमें कूट कूट कर भरी थी। ये गोभक्त भी बड़े थे और हरिश्चन्द्र जी को पूज्य दृष्टि से देखते थे। कांगरेस

के ये बड़े पक्षपाती थे । इनका मन यह था कि—चहहु जु साँचौ निज कल्याण । तौ सब मिलि भारतसंतान । जयै निरंतर एक जवान । हिंदी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥ काव्य करना इन्होंने ललित त्रिवेदी मल्लार्वा-निवासी से सीखा था ।

ये महाशय एक उत्तम कवि और बड़े ही जिन्ददिल मनुष्य थे । प्रतिभा इनमें बहुत ही विलक्षण थी । इनका स्वर्गवास संवत् १९५१ में ३८ वर्ष की अवस्था में हो गया । ये महाशय मज्जाक की कविता बहुत चटकीली करते थे, जो कभी कभी ग्रामीण भाषा में भी होती थी । 'अरे बुढ़ापा तोहरे मारे अब तौ हम नकुन्याय गयन' आदि इनके छन्द बड़े मनोहर हैं । ये कानपुर में रहते थे और इन्होंने ब्राह्मण नामक एक पत्र भी सन् १८८३ से निकाला जो दस वर्ष तक चलता रहा । इनके रचित तथा अनुवादित निम्नलिखित ग्रंथ हैं, पर कोई बृहत् ग्रन्थ बनाने के पहले ही ये कुटिल काल के वश हो गये । तृप्यन्ताम् में इन्होंने १० छन्दों में तर्प्यण के कुल नामों पर एक एक छन्द देशहितै-पिता का लिखा था । इनके असमय स्वर्ग वास से हिन्दी का बड़ा अपकार हुआ । ये महाशय ब्रजभाषा के प्रेमी थे और खड़ी बोली की कविता को आदर नहीं देते थे । इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में है ।

अपने समाचार पत्र के ग्राहकों प्रति कविता—

आठ मास बीते जजमान । अब तौ करौ दच्छिना दान ।

हर गंगा ॥

जो तुम धाहौ बहुत खिभाय । यह कौनिड भलमंसी आय ।

हर गंगा ॥१॥

लोगन को सुख चैन मैं राखति लच्छिमी लैं सुभ लच्छन खानी ।  
शत्रु विनाशत देर न लावति कालिका सी बनि काल-निसानी ॥  
विद्या बढ़ावति चारिहु ओर सरस्वति के समतूल सयानी ।  
एकहि रूप मैं राजै त्रिदेवि है जैति जै श्री विकटोरिया रानी ॥२॥

अरे बुढ़ापा तोहरे मारे अब तौ हम नकन्याय गयन ।  
करत धरत कुट्टु बनतै नाहों कहाँ जान औ कैस करन ॥  
दाढ़ी नाक याक माँ मिलिगै बिन दाँतन मुँह अस पोपलान ।  
दढ़िही पर बहि बहि आवति है कधौ तमाखू जो फाँकन ॥  
बार पाकिगे रीरौ झुकिगै मूड़ौ सासुर हालन लाग ।  
हाँथ पाँय कुट्टु रहे न आपनि केहि के आगे दुखु र्वावन ॥ ३ ॥  
गैया माता तुमका सुमिरौं कीरति सब ते बड़ी तुम्हारि ।  
करौ पालना तुम लरिकन के पुरिखन बैतरनी देउ तारि ॥  
तुम्हरे दूध दही की महिमा जानै देव पितर सब कोय ।  
को अस तुम बिन दूसर जेहिका गोबर लगे पवित्तर होय ॥ ४ ॥  
आगे रहे गनिका गज गीध सुतौ अब कोऊ दिखात नहीं हैं ।  
पाप-परायन ताप भरे परताप समान न आन कहों हैं ॥  
हे सुख-दायक प्रेम निधे जग यों तौ भले औ बुरे सबहों हैं ।  
दीनदयाल औ दीन प्रभो तुमसे तुमही हमसे हमहों हैं ॥ ५ ॥  
स्तिर चोटी गुँ धावती फूलन सों मेहँदी रचि हाथन पावनमैं ।  
परताप ल्यों चूनरी सूही सजी मनमोहनी हावन भावनमैं ॥

निसि घोस बितावती पीतम के संग झूलन में औ झुलावन में ।

उन्ही को सुहावन लागत है धुरवान की धावन सावन में ॥६॥

अनुवादित ग्रंथ—( १ ) राजमिंह, ( २ ) इंदिरा, ( ३ ) राधारानी,  
( ४ ) युगलांगुरीय, ( बंकिमचन्द्र के बंगला उपन्यासों से ),  
( ५ ) चरिताष्टक, ( ६ ) पंचामृत, ( ७ ) नीतिरत्नावली,  
( ८ ) कथामाला, ( ९ ) संगीत शाकुंतल, ( १० ) वर्ष-  
परिचय, ( ११ ) सेनवंश, ( १२ ) सूवे बंगाल का भूगोल ।

रचित ग्रंथ—( १ ) कलिकौतुक ( रूपक ), ( २ ) कलिप्रभाव ( नाटक ),  
( ३ ) हठी हमीर ( नाटक ), ( ४ ) गोसंकट ( नाटक ), ( ५ )  
जुआरी खुवारी ( प्रहसन ), ( ६ ) प्रेमपुष्पावली, ( ७ ) मन की  
लहर, ( ८ ) शृंगारविलास, ( ९ ) दंगलखंड ( आल्हा ),  
( १० ) लोकोक्तिशतक, ( ११ ) तृप्यंताम्, ( १२ ) ब्रैडला-  
स्वागत, ( १३ ) भारतदुर्दशा रूपक, ( १४ ) शैवसर्वस्व,  
( १५ ) मानसविनोद, ( १६ ) सौंदर्यमयी ।

संगृहीत ग्रंथ—( १ ) रसखानशतक, ( २ ) प्रतापसंग्रह ।

उर्दू का ग्रंथ—( १ ) दीवान बिरहमन ।

( २३६६ ) जगन्नाथप्रसाद ( भानु ) ।

आपका जन्म ध्रावण शुक्र १० संवत् १९१६ को नागपूर में हुआ  
था । आप इस समय बिलासपूर मध्य प्रदेश में असिस्टेंट बन्दोबस्त  
अफसर हैं । आपको इस समय ७०० मासिक मिलता है । आप  
काव्य विषय का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं । पिंगल तथा दशांग  
काव्य के आप अच्छे ज्ञाता हैं । आप के रचित छन्द प्रभाकर तथा

काव्यप्रभाकर इस बात के साक्षि-स्वरूप हैं । आप गद्य के अच्छे लेखक हैं, और पद्यरचना भी अच्छी करते हैं । आप के रचित निम्न लिखित ग्रन्थ हैं । आप संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, फ़ारसी, प्राकृत, उड़िया, मराठी, अँगरेज़ी आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हैं ।

(१) छन्दःप्रभाकर, (२) काव्यप्रभाकर, (३) नवपंचाशत रामायण, (४) कालप्रबोध, (५) दुर्गा सान्त्वय भाषा टीका, (६) गुलज़ारसखन उर्दू ।

छन्द को प्रबन्ध त्योंही व्यंग्य नायकादि भेद उदीपन भाव अनु भाव पति वामा के । भाव सनचारी असथायी रस भूपन है दूषन अदूषन जे कविता ललामा के ॥ काव्य का विचार भानु लोक उक्ति सार कोष काव्य प्रभाकर में साजि काव्य सामा के । कोविद कबी-सन को कृष्ण मालि भेंट देत अंगीकार कीजै चारि चाउर सुदामा के ॥ १ ॥

नाम—(२३६७) मानालाल (द्विजराम) त्रिवेदी, मल्लावाँ,  
ज़िला हरदोई ।

ग्रन्थ—(१) साहित्यसिंधु, (२) नखशिख ।

जन्मकाल—१९१७ ।

कविताकाल—१९४२ । वर्तमान ।

विवरण—आप सुकवि हैं ।

कीर्षां कंज मंजु ये बनाये हैं विरंचि जुग लोचन भँवर हित मुदित मुरारी के । कीर्षां पारिजात के हैं लोहित नवल पात दुति दरसात यों प्रबाल लाल भारी के ॥ कवि द्विजराम कीर्षां पिय



अनुराग लसै देखिमन फँसै अति आनंद अपारी के । जावक जपा गुलाब आब के हरनहार सोहत चरन वृषभानुकी दुलारी के ॥१॥

## (२३६८) शिवनन्दन सहाय ।

आप आरा जिला अख्तियारपुर ग्राम के कानूनगो वंशी एक कायस्थ महाशय के यहाँ संवत् १९१७ में उत्पन्न हुए । अँगरेजी में एन्ट्रेस पास करके आपने दीवानो में नौकरी कर ली और इस समय आप आरा में ट्रेसिडेन्ट हैं । आप फ़ारसी भी अच्छी तरह जानते हैं । आप गद्य तथा पद्य के प्रसिद्ध और अच्छे लेखक हैं । नाटक-रचना भी आपने की है । आपका रचित हरिदचन्द्र-जीवनचरित्र हमने देखा है । यह बड़ा ही प्रशंसनीय ग्रंथ है । भाषा में शायद इससे अच्छे जीवनचरित्र कम होंगे । आपकी भाषा और समा-लोचना बहुत अच्छी होती हैं । कविता भी आपने अच्छी की है । आपके रचित ग्रंथ ये हैं :—

(१) बङ्गाल का इतिहास, (२) विवित्रसंग्रह स्वरचित पद्य, (३) कविताकुसुम (पद्य), (४) सुदामा नाटक ( गद्य पद्य ), (५) कृष्णसुदामा (पद्य), (६) भारतेंदु बाबू हरिदचन्द्र की जीवनी, (७) बाबू साहबप्रसादसिंह की जीवनी, (८) श्रीसीतारामशरण भगवान प्रसाद की जीवनी, (९) बाबा सुमेरसिंह साहबजादे की जीवनी, (१०) गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी (लिखी जा रही है) ।

आप उर्दू की भी शायरी करते हैं और समस्यापूर्ति भी मंडलों और समाजों में भेजते हैं ।

## (२३६६) उमादत्तजी, उपनाम दत्त ।

ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण दरवार अलवर के कवियों में हैं । आपकी अवस्था इस समय लगभग ५० साल की होगी । इनकी कविता बड़ी ही सरस तथा सोहावनी होती है । उदाहरणः—

गेह ते निकसि बैठि बेंचत सुमनहार  
देह-दुति देखि दीह दामिनि लजा करै ।

मदन उमंग नव जोवन तरंग उटै  
बसन सुरंग अंग भूपन सजा करै ।

दत्त कवि कहै प्रेम पालत प्रवीनन सों  
बालत अमोल बैन वीन सो बजा करै ॥

गजब गुज्जारत बजार में नचाय नैन  
मंजुल मजेज भरी मालिनि मजा करै ॥ १ ॥

मुक्ति जातौ सौतैं सब दीरघदिमाक देखि  
रसिक बिलोकि होत बिकल लिहारे में ।

भरत न भारे थके गाडरू विचारे  
जरी जंत्र मंत्र विविध प्रकार उपचारे में ॥

दत्त कवि कहै मन धरत न धीर अजौं  
कैसे बचै कटिल कटाच्छ फुसकारे में ।

विषधर भारे नाग कारे नैन कामिनि के  
काटि छिपि जात हाय पलक पिटारे में ॥ २ ॥

## (२३७०) रामनाथ जी कविराव, बुँदी ।

ये कविराव गुलाबसिंह के भतीजे तथा दत्तक पुत्र हैं । आप संस्कृत तथा भाषा के अच्छे पंडित और कवि, दरवार बुँदी के

के आश्रित हैं। कविता अच्छी करते हैं। इस समय आपकी अवस्था लगभग ५० वर्ष की होगी। आपने छोटे बड़े ११ ग्रन्थ बनाये, जिनके नाम समस्यासार, सतीचरित्र, रामनीति, नीतिसार, शंभु-शतक, परमेश्वराष्टक, गणेशाष्टक, सूर्याष्टक, दुर्गाष्टक, शिवाष्टक, और नीतिशतक हैं। उदाहरण :—

बंदन बलित अति मंडित बिचित्र भाल  
तमके समूह सम भ्रात गिरिराज के।

मदजल भरत चरत लचकत भूमि  
पर दल मलत सुनत गल गाज के ॥

कहै रामनाथ भननात भौर चारौ और लखि  
अभिलाख हैत मन सुख साज के।

कजल ते कारे बलवारे दिग दंतिन ते  
उधत दतारे भारे रामसिंह राज के ॥ १ ॥

(२३७१) सीताराम बी० ए०, उपनाम भूप कवि ।

ये महाशय कायस्थ कुलोद्भव अयोध्यानिवासी लाला शिवरत्न के पुत्र हैं। इन्होंने बी० ए० पास करके फैजाबाद स्कूल में द्वितीय शिक्षक का पद ग्रहण किया। थोड़े दिनों के पीछे आप डेपुटी-कलेक्टर नियत हुए और आज कल पेंशनर हैं। इनकी अवस्था प्रायः ५८ वर्ष की है। ये महाशय संस्कृत और भाषा के अच्छे विद्वान् हैं और इनकी प्रकृति ऐसी श्रमशील रही है कि ये अपने सरकारी कार्य के अतिरिक्त देशोपकारार्थ भी कुछ न कुछ लिखा ही करते थे। इन्होंने संवत् १९४३ तक कालिदासकृत रघुवंश के सात

सर्गों का भाषानुवाद किया था और फिर संवत् १९४९ में उसे पूर्ण किया । फिर क्रमशः इन्होंने कालिदासकृत मेघदूत, कुमारसम्भव, ऋतुसंहार और शृंगारतिलक का अनुवाद किया । रघुवंश और कुमारसम्भव की रचना दोहा चौपाइयों में, मेघदूत की घनाक्षरियों में, और शेष दोनों छोटे छोटे ग्रन्थों की विविध छन्दों में हुई है । इस कवि ने कालिदास की कविता का चमत्कार लाने का उतना प्रयत्न नहीं किया जितना कि सीधी सादी कथा कहने का । इसी कारण योरोपियन समालोचकों ने तो इनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की, परन्तु हिन्दी के सब समालोचकों ने इनकी कविता को उतना पसंद नहीं किया । इन्होंने कविसम्मानित शब्दों को विशेष आदर नहीं दिया है और जहाँ ऐसे शब्द आ सकते थे, वहाँ भी कहीं कहीं अव्यवहृत शब्द रख दिये हैं । यह भी एक कारण था जिससे कि कविजनों ने इनकी कविता बहुत पसंद नहीं की । इन्होंने कालिदास की रीति पर चल कर एक अध्याय में एक ही छन्द रक्खा है और जैसे अन्त के दो एक छन्दों में कालिदास ने छन्द बदल दिया है उसी तरह इन्होंने भी किया है । यह रीति संस्कृत में तो आदरणीय है, परन्तु भाषा में एकही छन्द लिखने से वर्णन प्रायः अरुचिकर हो जाता है । इन सब बातों के होते हुए भी इन्होंने परिश्रम बहुत किया है और संस्कृत से अनभिन्न पाठकों का इनके ग्रन्थों द्वारा उपकार अवश्य हुआ है । इन सब ग्रन्थों में कोई विशेष दोष नहीं है और इनकी भाषा श्रुतिकटु-दोष से रहित और मधुर है । इन सब में मेघदूत और ऋतुसंहार की रचना अच्छी है । हमारे लाला साहब ने

संस्कृत के कुछ नाटकों का भी उलथा किया है, जिनमें से मृच्छ-  
कटिक, महावीरचरित, उत्तर रामचरित, मालतीमाधव, माल-  
विकाग्निमित्र, और नागानंद हमने देखे हैं। इनकी रचना गद्य और  
पद्य दोनों में हुई है। हमको इनके अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा नाटक-  
रचना अधिक रुचिकर हुई। गद्य में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग  
किया है और वह सर्वथा आदरणीय है। गद्य में हम लाला साहब  
को उत्तम लेखक समझते हैं। दोहा चौपाइयों में इन्होंने अवघ की  
भाषा का प्राधान्य रक्खा है, परन्तु घनाक्षरी आदि में अवघी और  
व्रजभाषा का मिश्रण कर दिया है। इन्होंने पद्य में खड़ी बोली का  
प्रयोग नहीं किया। इन महाशय ने गद्य के भी ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें  
सावित्री का वर्णन हमारे पास मौजूद है। आपने और भी बहुत से  
छोटे छोटे ग्रन्थ बनाये हैं, जिनको यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता  
नहीं है। इनकी गणना हम मधुसूदनदास की श्रेणी में करते हैं।  
उदाहरणार्थ इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं :—

महाकाल जो बसन महंसा । यह गहि तामु समीप नरेसा ॥

पाख अंधेरहु करन बिहारा । सुकूपन सुख लहत अपारा ॥१॥

राखतसंयोग आस प्रान सों पियारि आजु

करहुँ मनोरथ अनेक जिय धीर धरि ।

आपन सोहाग मम जीवन अधार जानि

हाहु ना निरास कछु चित्तहि उदास करि ॥

यहि जग कोन सुख भोगत सदैव भूप

काहि पुनि दुःख एक रहत जनम भरि ।

ऊपर उठावत गिरावत धरनि पर

चक्र-कोर सरिस नचावत सबहिँ हरि ॥ २ ॥

सुनत अप्सरन गीत मनोहर । भये समाधि भंग नहिँ शंकर ॥  
जिन निज चित्त वृत्ति धरि साथी । सकै तारि को तासु समाधी ॥३॥

बन लगत डाढ़ा प्रबल चहुँ दिसि भूमि सब लखियत जरी ।

लू चलत इत उत उड़त सूखे पात रूखन सन भरी ॥

दिननाथ तेज प्रचंड बस नहिँ नीर देखिय ताल में ।

डर लगत देखत बन सकल यहि कठिन ग्रीषम काल में ॥४॥

नाम—(२३७२) फ़तेहसिंहजी ( चन्द्र ) राजा; पवाँया, ज़िला  
शाहजहाँपुर ।

ग्रन्थ—(१) चन्द्रोपदेश, (२) वर्ण व्यवस्था, (३) फलित ज्योतिष  
सिद्धांत, (४) प्लेग-प्रतीकार, (५) स्फुट काव्य, समस्यापूर्ति  
इत्यादि ।

कविताकाल—वर्तमान ।

विवरण—ये पवाँया के राजा हैं । कविता अच्छी करते हैं और  
काव्य तथा कवियों के बड़े प्रेमी हैं । आपकी अवस्था  
इस समय लगभग ५० साल के होगी । यह ग्रंथ हमने  
देखे हैं । इनके अतिरिक्त शायद आपके और भी  
ग्रंथ हों ।

(२३७३) बलवन्तराव ।

ये सेंधिया ( प्रिंस ) ग्वालियर निवासी हैं । ये भी हिन्दी गद्य  
लिखते हैं । आपका एक लेख सरस्वती पत्रिका की छठी संख्या में  
है । आप की अवस्था इस समय लगभग ५० साल के होगी ।

## (२३७४) सूर्यप्रसाद मिश्र ।

ये मकनपुर जिला फर्रुखाबाद के निवासी हैं । आप हिन्दी के अच्छे व्याख्यानदाता एवं आर्य्यसमाजी हैं । आपने कान्यकुब्ज समा के हित में विशेष यत्न किया और बहुत से लेख भी लिखे । कुछ दिन के लिए आप मार्तण्डानन्द नाम धारण करके फकीर भी हो गये थे, परन्तु अब फिर गृहस्थ हैं । आप की अवस्था प्रायः ५० वर्ष की होगी ।

सुक़रात की मृत्यु और मारपूजा, नामक दो ग्रंथ आपके हैं ।

## (२३७५) दीनदयालु शर्मा ।

ये भारतधर्ममहामंडल के सबसे बड़े व्याख्यानदाता हैं । आपकी वाणी में बड़ा बल है और आप बहुत उत्तम व्याख्यान देते हैं । आपकी अवस्था प्रायः ५० वर्ष की होगी । आपने धूम धूम कर भारत में सभी प्रान्तों में व्याख्यान दिये हैं और अच्छी सफलता प्राप्त की है ।

## (२३७६) महावीरप्रसाद द्विवेदी ।

द्विवेदी जी का जन्म १९२१ में हुआ था । आप दौलतपुर, जिला रायबरेली के निवासी हैं । आप पहले जी० आई० पी० रेल के नौकर थे और भाँसी में हेडक्लार्क थे, जहाँ आपका मासिक वेतन १५० था, परन्तु हिन्दी-प्रेम के कारण आपने वह नौकरी छोड़ कर संवत् १९६० से सरस्वती का सम्पादन आरम्भ किया और तब से बराबर बड़ी योग्यता से आप उसे चला रहे हैं । आपके

सम्पादकत्व में सरस्वती ने बड़ी उन्नति की है । केवल एक साल अस्वस्थता के कारण आपने इस कान से छुट्टी लेली थी । हिन्दी की उन्नति का कार्य आपने सदैव बड़े उत्साह से किया और अब तो आप उन्नी कार्य में सब छोड़ कर तत्पर हैं । कुछ लोगों का विचार है कि आप वर्त्तमान समय में सर्वोत्कृष्ट गद्यलेखक हैं । आपने बहुतेरे छोटे बड़े ग्रंथों का गद्यानुवाद किया है । आपने कई समालोचना-ग्रन्थ भी लिखे हैं, जिनमें नैषधचरितचर्चा और विक्रमांकदेवचरितचर्चा प्रधान हैं । कालिदास की भी समालोचना आपने लिखी है । आपने खड़ी बोली की कुछ कविता भी की है जो प्रायः २०० पृष्ठों के ग्रन्थ-स्वरूप में छपी है । आज कल आप जुही, कानपूर में रहते हैं । आपके ग्रन्थों में हिन्दी भाषा की उत्पत्ति, शिक्षा, सम्पत्तिशास्त्र, देकनविचाररत्नावली, स्वतंत्रता, सत्त्व हिन्दी-महाभारत, जलचिकित्सा आदि हमने देखे हैं ।

बानी बसै सुकवि आनन में सयानी ।

मानी जु जाय यह बात कही पुरानी ॥

तो सत्य सत्य कविता कविरत्न तेरी ।

वाही त्रिलोकपरिपूजित देवि प्रेरी ॥

तेजोनिधान रविविम्ब सु दीप्ति धारी ।

आह्लाद कारक शशोनिशितापहारी ॥

जो धे प्रकाशमय पिंड न ये बनाये ।

तो योम बीच कव ये किस भाँति आये ॥

समालोचना लिखने में द्विवेदी जी ने दोषों का वर्णन खूब किया है । आप की रचनाओं में अनुवादग्रंथों की प्रचुरता है ।



## (२३७७) नन्दकिशोर शुक्ल ।

ये देहा, जिला उधवाच के निवासी हैं । आपने राजतरंगिणी नामक काश्मीर के प्रसिद्ध इतिहास-ग्रन्थ के प्रथम भाग का हिन्दी-गद्य में अनुवाद किया है । इनके घौर भी कई ग्रन्थ अनुवादित तथा रचित हैं । आपकी अवस्था ५० साल की होगी । आपके ग्रन्थों में सनातनधर्म वा दयानन्दी मर्म, उपनेपद् का उपदेश घौर भारतभक्ति प्रधान हैं । आपने कुल १३ ग्रन्थ रचे । आप भारतधर्मनहामंडल के महापदेशक हैं ।

## (२३७८) रत्नकुँवरि बीवी ।

ये महाशया मुर्शिदाबाद के जगन्सेठ घराने में जन्मी थीं घौर इन्होंने ब्रह्मावस्था तक बहुत सुखपूर्वक पुत्र पौत्रों में अपना समय बितीत किया । बाबू शिवप्रसाद सितारहिंद इनके पौत्र थे । ये संस्कृत घौर फ़ारसी की अच्छी ज्ञाता थीं घौर योगाभ्यास में भी इन्होंने श्रम किया था । इनका आचरण बहुत प्रशंसनीय घौर अनुकरणीय था । इन्होंने संवत् १९४४ में प्रेमरत्न नामक ग्रन्थ बनाकर उसमें "श्रीकृष्ण व्रजवन्द आनन्दकंद की लीलाओं का बहल्लेख परम प्रेम घौर प्रचुर प्रीति से किया है" । इनकी कविता अच्छी है । इनकी गणना मधुसूदनदास की श्रेणी में की जाती है । उदाहरणार्थ दो छंद नीचे दिये जाते हैं :—

अविगत आनंदकन्द परम पुरुष परमात्मा ।

सुमिरि सु परमानंद गावत कछु हरि जस बिमल ॥


भगत हृदय सुखदैन प्रेम पूरि पावन परम ।  
लहत श्रवन सुनि बैन भववारिधि तारन तरन ॥

(२३७६) ज्वालाप्रसाद मिश्र ।

इनका जन्म संवत् १९१९ में मुरादाबाद में हुआ था । ये महाशय संस्कृत तथा हिन्दी के बहुत अच्छे विद्वान् हैं और स्वतन्त्र ग्रन्थ तथा अनुवाद मिला कर कितनेही ग्रन्थ बना चुके हैं । भारतधर्ममहामंडल के ये उपदेशक भी हैं और मंडल ने इन्हें विद्यावारिधि एवं महोपदेशक की उपाधियाँ प्रदान की हैं । हिन्दी में ये महाशय बहुत उत्तमतापूर्वक धारा बाँध कर व्याख्यान देते हैं और सारे भारत में घूम घूम कर सनातन धर्म पर व्याख्यान देना इनका काम है । कई सभाओं में आर्यसमाजी पण्डितों से इन्होंने शास्त्रार्थ में जय पाई है । आपने शुक्ल यजुर्वेद पर 'मिश्र भाष्य' नामक एक विद्वत्तापूर्ण टीका रची है । इसके अतिरिक्त तीस उत्कृष्ट संस्कृत ग्रन्थों का आपने भाषानुवाद भी किया है । तुलसीकृत रामायण एवं विहारी सतसई की टीकार्यें भी पण्डितजी की प्रसिद्ध हैं । इनके अतिरिक्त दयानन्दतिमिरभास्कर, जाति-निर्णय, अष्टादशपुराण, सीतावनवास नाटक, भक्तमाल आदि कई अच्छी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं । इनकी विद्वत्ता तथा लेखन-शक्ति की आज बड़ी प्रशंसा है ।

(२३८०) माननीय मदनमोहन मालवीय ।

इनका जन्म संवत् १९१९ में प्रयाग में हुआ था । आपने २२ वर्ष की अवस्था में बी० ए० पास किया और संवत् १९४४ से ढाई वर्ष



ग्रान्ठेच्छल पंडित मदनमोहन मालवीय बी. ए. एल. एल. बी. ।

हिन्दोस्थान नामक हिन्दी दैनिक पत्र का सम्पादन किया । इस पत्र के लेख देखने से मालवीयजी की हिन्दी की योग्यता का परिचय मिलता है । संवत् १९४९ में आपने एल० एल० बी० परीक्षा पास कर ली और तभी से आप प्रयाग हाईकोर्ट में वकालत करते हैं । आपने वकालत में लाखों रुपये पैदा किये और फिर भी देशहित की ओर प्रधानतया ध्यान रक्खा । आप छोटे तथा बड़े लॉट की सभाओं के सन्ध हैं और युक्तप्रान्तों के राजनैतिक विषय में नेता हैं । १९६६ में लाहौर की कांग्रेस के आप सभापति हुए थे । प्रयाग में हिन्दूबोर्डिङ्गहाउस केवल आपके प्रयत्नों से बन गया । आपने सदैव लोकहितसाधन को अपना एकमात्र कर्त्तव्य माना है और वकालत से बहुत अधिक ध्यान उस ओर रक्खा है । अब आप वकालत छोड़ कर लोकहित ही में लग जाने के विचार में हैं । आप अंगरेजी के बहुत बड़े व्याख्यानदाताओं में हैं और शुद्ध हिन्दी का धारा बंध कर उत्तम व्याख्यान आपके बराबर कोई भी नहीं दे सकता । वर्तमान समय के बड़े बड़े व्याख्यानदाताओं के व्याख्यानों में हमें बहुधा मूर्खमोहिनी विद्याही देख पड़ी, पर मालवीयजी के व्याख्यानों में पण्डित-मोहिनी विद्या पूर्णरूपेण पाई जाती है । आपका जन्म धन्य है और आपका जीवन वास्तव में सार्थक है । मालवीय जी ने कोई हिन्दी का ग्रन्थ नहीं रचा, पर आप लेखक बहुत अच्छे हैं । आप प्रायः डेढ़ साल से हिन्दू-विश्वविद्यालय बनाने के प्रयत्न में लगे हैं, जिसमें लाखों रुपयों का वादा लोगों से ले चुके हैं ।

## (२३८१) माधवप्रसाद मिश्र ।

ये भूमभार जिला रोहतक के निवासी थे। प्रायः तीन साल हुए करीब ४० वर्ष की अवस्था में स्वर्गवासी हुए। आप सुदर्शन मासिक पत्र के सम्पादक और गद्य हिन्दी के बड़े ही प्रबल लेखक थे। आपने कुछ छंद भी कहे हैं। आपने दर्शन-शास्त्र पर दो एक लेख लिखे थे और स्फुट विषयों पर अनेकानेक गम्भीर प्रबन्ध रचे। आप संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे और प्रायः गम्भीर विषयों ही पर लेख लिखते थे। आपका रहना विशेषतया काशी में होता था। आपके अकालमृत्यु से हिन्दी को बड़ी हानि हुई।

(२३८२) जुगुलकिशोर मिश्र, उपनाम  
ब्रजराज कवि ।

आपका जन्म संवत् १९१८ में गँधौली, जिला सीतापूर में हुआ था। आपके पिता पंडित नन्दकिशोर मिश्र उपनाम लेखराज एक परमप्रसिद्ध हिन्दी के कवि थे। बाल्यावस्था में ब्रजराज जी ने फ़ारसी तथा हिन्दी पढ़ कर अपने चचा बनवारीलाल जी से कविता सीखी। ये महाशय रचना तो नहीं करते थे, परन्तु दशांग कविता में बड़े ही निपुण थे। लेखराज जी साधारणतया एक बड़े ज़िम्मेदार थे। इनकी प्रथम स्त्री से द्विजराज का जन्म हुआ और द्वितीय से ब्रजराज और रसिक विहारी उपनाम साधू का। लेखराज जी रईसों की भाँति रहते थे और अपना प्रबन्ध कुछ भी नहीं देखते थे। इस कारण इनके ज्येष्ठ पुत्र द्विजराज जी सब प्रबन्ध

करते थे । इनके बहुव्ययी होने के कारण सब आय उड़ जाती थी और कुछ ऋण भी हो गया । ब्रजराज जी अच्छे प्रबन्धकर्ता हैं, सो ये बातें इनको बहुत अरुचिकारिणी हुईं । अतः अपने पिता से कह कर इन्होंने सभ्यता का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया । इस बात से द्विजराज जी से इनसे मनोमालिन्य हो गया, जो दिनोंदिन बढ़ते बढ़ते प्रचंड शत्रुता की हद तक पहुँच गया । कभी इनके हाथ में प्रबन्ध रहता था, कभी द्विजराज के । इस प्रकार प्रबन्ध ठीक कभी न हुआ और ऋण बना ही रहा । कुछ दिनों में इन्हें पेशाब रुकने का रोग हो गया, जिससे ये मरणप्राय अवस्था को पहुँच गये । २८ वर्ष की अवस्था में डाक्टर के शस्त्राघात से इनके प्राण बचे, परन्तु रोग कुछ कुछ बना ही रहा । संवत् १९४१ में इनके पिता का स्वर्गवास हुआ । मृत्यु के पूर्व उन्होंने आधी रियासत द्विजराज जी को दे दी और आधी ब्रजराज जी एवं साधू को । ब्रजराज जी अपुत्र हैं और साधू से इनसे विशेष मेल था, इसी कारण लेखराज जी ने ऐसा बटवारा किया कि उनके दोनों पुत्रवान् लड़कों के सन्तान अन्त में आधा आधा पावें । अपने पिता के पीछे इन्होंने तो प्रबन्ध करके तीन ही वर्ष में सब पैत्रिक ऋण अपने भाग का चुका दिया, पर द्विजराज जी का ऋण बहुत बढ़ गया । अब भी साधू और ब्रजराज जी एक ही में रहते हैं और ये साधू के तीनों पुत्रों को अपने ही पुत्र समझते हैं ।

ब्रजराजजी दर्शाग कविता में बड़े ही निपुण हैं । हमने आज तक ऐसा हिन्दी-कविता-रीति-निपुण मनुष्य नहीं देखा । सब कविता के जाननेवालों में रीति-नैपुण्य में हम इन्हीं को सिरे

मानते हैं। बड़े बड़े कविगण इनके शिष्य हैं। हममें से शुक्रदेव-विहारी मिश्र ने भी इन्हीं से कविता रीति पढ़ी। परसाल ये ऐसे अस्वस्थ हो गये थे कि इनको जीवन की आशा नहीं रही थी। उस समय इन्होंने साधू और शुक्रदेवविहारी से यही कहा था कि “मरने का मुझे कुछ भी पश्चात्ताप नहीं है, परन्तु केवल इतना खेद है कि मेरे पास जो कविता-रत्न है वह तुममें से किसी ने न ले लिया और वह अब मेरे ही साथ जाता है”। ईश्वर ने इन्हें फिर नीराग कर दिया और अब फिर ये पूर्ववत् अच्छे हैं, केवल रोग का थोड़ा सा सटका, जो इनका चिरसाथी रहा है, अब भी वर्तमान है। इनके पास हस्तलिखित हिन्दी के उत्तम ग्रन्थों का अच्छा संग्रह है। ग्रन्थावलोकन का इन्हें अच्छा शौक है, पर ये रचना बहुत नहीं करते। फिर भी समस्यापूर्ति आदि पर सैकड़ों छन्द आपने बनाये हैं। समस्यापूर्ति के पत्रों की प्रथा आपही के अनुरोध से निकली थी। आप साहित्य-पारिजात नामक एक दर्शांग कविता का ग्रन्थ बना रहे हैं, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आजकल देवकृत शब्द-रसायन पर आप काव्यात्मक-टिप्पणी लिख रहे हैं। आपकी कविता बड़ी ही सरस होती है और उस में ऊँचे ऊँचे भाव बहुत रहते हैं। हम इनकी गणना तोष की श्रेणी में करते हैं।

समुहातहि मैली प्रभा को धरें नित नूतन आनि कै फोरयो करै ।  
 सरसी डिग जात मुँ देई लखात न या डर सों टग जोरयो करै ॥  
 ब्रजराज हितै नभ और चितै नहिँ तू भरमै यों निहोरयो करै ।  
 तऊ आरसी कंज ससी सकुचै इनसों कब लैं मुख मोरयो करै ॥१॥

सारी सिर बैजनी मैं कंचन बुटी की घोप  
 मुकुत किनारी चहुंघोरन गसत हैं ।  
 जरबीली जरित जरी की जाफरानो पाग  
 कोर मैं जमुरदी जवाहिर लसत हैं ॥  
 रतन-सिंहासन पै दीन्हें गल बाहों  
 मुख-चन्द मुमुकाय भवताप का नसत हैं ।  
 या विधि अनन्द-भरे राधाव्रज चन्द,  
 सदा दमति चरण मेरे हिय मैं बसत हैं ॥२॥

(२३८३) गोपालरामजी गहमर ज़िला गाज़ीपूर-  
 निवासी ।

आपका जन्म १९१३ में हुआ था । आप हिन्दी-गद्य के प्रसिद्ध लेखक हैं । कई वर्षों से आप जासूस पत्र के सम्पादक हैं । अच्छे उपन्यास भी आपने कई लिखे हैं । चतुरचंचला, माधवीकंकण, भानमती, सौमद्रा, नयेबाबू, मैं और मेरा दादा तथा अनेक जासूसी उपन्यास आपके बनाये हुए भाषा-संसार को चमत्कृत कर रहे हैं । आपका कविताकाल संवत् १९४५ से समझना चाहिए । आपकी बनाई हुई प्रायः १०० पुस्तकें हैं ।

(२३८४) ज्वालाप्रसाद वाजपेयी ।

इनका उपनाम मन्त्रजातक था । ये तार गाँव ज़िला उन्नाव के निवासी थे । आपका रचनाकाल संवत् १९४५ के लगभग समझ पड़ता है । आप साधारण श्रेणी के कवि थे ।



## (२३८५) अमृतलाल चक्रवर्ती ।

ये नावरा ज़िला चौबीस-परगना के निवासी संवत् १९२० में उत्पन्न हुए थे । आप एक प्रसिद्ध प्राचीन लेखक हैं और समय समय पर हिन्दी बङ्गासी, वेङ्कटेश्वर एवं हिन्दोस्थान का समा-दन कर चुके हैं । आपकी रची हुई पुस्तकों के नाम ये हैं :—गीता की हिन्दी टीका, सिख्युद्ध, महाभारत, सामुद्रिक, गीत-गोविन्द गद्यानुवाद, देश की बात, विलायत की चिट्ठी, भरतपुर का युद्ध, सती सुखदेई, हिन्दू विधवा और चन्दा । आप धन्य हैं कि बङ्गाली होकर भी हिन्दी पर इतना अनुराग रखते हैं ।

## (२३८६) श्रीधर पाठक ।

ये महाशय पत्नी गली आगरा के रहने वाले और नहर-विभाग में उच्च पदाधिकारी हैं । इनका जन्म १९१६ में हुआ था । ये बहुत दिनों से कविता करते हैं और ऊजड़ ग्राम, इवँजिलाइन, श्रान्त-पथिक तथा एकान्तवासी योगी नामक चार ग्रन्थ अँगरेज़ी कविता के पद्यानुवाद खड़ी बोली में बना चुके हैं और अपनी स्फुट कविता का संग्रह-स्वरूप मनोविनोद नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित कर चुके हैं । इसमें कुछ संस्कृत कविता के अच्छी ब्रजभाषा में भी मनोहर अनुवाद हैं । पाठक जी ने खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा दोनों की कविता परम विशद की है और इनका श्रम सर्वतोभावेन प्रशंनीय है । गद्य के भी लेख इनके अच्छे होते हैं । इन्होंने अपनी रचना में पदमैत्री की प्रधानता रक्खी है और कुछ चित्र-काव्य भी किया है । आपने प्राचीन शृङ्गाररस-वर्णन की प्रणाली छोड़ कर साधारण

कामकाजी बातों का वर्णन अधिक किया है। उद्योग, परिश्रम, शान्तिज्य आदि की प्रशंसा इनकी रचना में बहुत है। सामाजिक सुधारों पर भी इनका ध्यान है। इनकी रचना में अनुवादों की संख्या स्वतन्त्र-रचना से बहुत अधिक है, पर इनके अनुवाद स्वतन्त्र-रचनाओं का सा स्वाद देने हैं। उदाहरण :—

प घन स्याप्रता तो मैं घनी नन विज्जु छटा को पितम्बर राजै  
 दादुर-मार-पपोहा-भई अलबेला मनोहर बाँसुरी बाजै ॥  
 सौं विधि सों नबला अबला उर आम बिलास हुलास उपाजै ।  
 जो कटु स्याम क्रियो ब्रज मंडल सो सब नू भुव-मंडल साजै ॥१॥  
 उस कारीगर ने कंसा यह सुन्दर चित्र बनाया है ।  
 कहीं पै जलमें बहीं रेतमें कहीं धूप कहैं छाया है ॥  
 नव जीवन के सुधा सलिल में क्या विष विन्दु मिलाया है ।  
 अपनी साख्य वाटिका में क्या कंकट वृक्ष लगाया है ॥२॥  
 प्रायपियार की गुन गाथा साधु कहीं तक मैं गाऊँ ।  
 गाते गाते नहीं चुकै वह चाहैं मैं ही चुक जाऊँ ॥३॥  
 चंचल जो सफरी फरकैं मनु मंजु लसो कटि किंकिनि डोरी ।  
 सेत बिहंगनि की मुटि पंगति राजति सुन्दर हार लौं गौरी ॥  
 तीर के वृच्छ विसाल नितम्ब सु मन्द प्रवाह भई गति धोरी ।  
 राजति या ऋतु मैं सरिता गजगामिनि कामिनि सी रसबोरी ॥४॥

(२३८७) गौरीशंकर हीराचन्द ओम्हा रायबहादुर ।

इन पंडितजी का जन्म संवत् १९२० में सिराही राज्यान्तर्गत रोहिड़ा ग्राम में हुआ था। आप सहस्र शैलीच्य ब्राह्मण हैं। आपने

संस्कृत तथा भाषा की अच्छी योग्यता प्राप्त की है और आर्य अंगरेजी भी जानते हैं। पुरातत्व-अनुसन्धान में आपको बड़ी रुचि है; इस विषय में आप परम प्रवीण हैं। ये अजमेर अजायब घर के अध्यक्ष हैं। आपने प्राचीन लिपिमाला, कर्नल टाड का जीवन-चरित्र, सिरोही का इतिहास, टाड राजस्थान के अनुवाद पर टिप्पणियाँ और सोलंकियों का इतिहास नामक ग्रन्थ रचे हैं। प्राचीन लिपिमाला के पढ़ने से प्राचीन लिपियों के जानने में योग्यता प्राप्त हो सकती है। पंडित जी ऐतिहासिक ग्रन्थमाला नामक एक पुस्तकावली प्रकाशित कर रहे हैं जिसमें इतिहासग्रन्थ छपेंगे। आप एक सुलेखक और परम सतोऽगुणी प्रकृति के मनुष्य हैं और आपके प्रयत्नों से भाषा में इतिहासविभाग के पूर्ण होने की आशा है। हाल में सरकार ने आपको रायबहादुर की उपाधि दी है।

### (२३८८) विनायकराव (पंडित) ।

आपका जन्म १९१२ में हुआ था। आप १००) मासिक पर होशंगाबाद के हेड मास्टर थे। अन्त में २२०) के वेतन से आपने पेंशन पाई। आपने हिन्दी की प्रायः २० पुस्तकें रचीं, जो विशेषतया शिक्षाविभाग की हैं। आज कल आप रामायण की टीका कर रहे हैं। आप काव्यरचना भी अच्छी करते हैं।

### (२३८९) विशाल कवि (भैरवप्रसाद वाजपेयी) ।

इनका जन्म संवत् १९२६ में लखनऊ शहर, मोहल्ला खेतगली में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित कालिकाप्रसाद था

घौर आप की माता उमाचरण शुक्ल की बहन थीं। आप उपमन्यु-  
 गोत्री चूड़ापति वाले आँक के वाजपेयी थे। आपका विवाह हमारी  
 दूसरी बहन के साथ संवत् १९३८ में हुआ था और उसी समय से  
 आप हमारे यहाँ विशेष आने जाने लगे तथा कुछ वर्षों के पीछे  
 हमारे ही यहाँ रहने भी लगे। इन कारणों से इनसे हम लोगों का  
 विशेष प्रेम हो गया था। आपने अँगरेज़ी-मिडिल पास किया, पर  
 उसकी प्रसन्नता में यंट्रेस में अच्छा परिश्रम न किया, जिसका परि-  
 षाम यह हुआ कि इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण न हो सके। हमारे  
 पिता जी कवि थे, तथा गैथैलोनियासी लेखराज जी और उनके  
 पुत्र लालविहारी और जुगुलकिशोर भी कविता करते थे। ये लोग  
 हमारी बिरादरी में हैं और इनके यहाँ जाना आना सदैव रहता  
 था। शिवदयालु पाण्डेय उपनाम मेष कवि भी हमारे सम्बन्धी थे  
 और हमारे यहाँ आया जाया करते थे। इन कारणों से हमारे यहाँ  
 कविता की सदैव चर्चा रहती थी। सो विशाल जी का भी बाल्या-  
 वस्था से ही काव्य-रचना का शौक हो गया। पहले तुलसीकृत  
 रामायण एवं काशिराज का भाषा-भारत इन्होंने पढ़ा और पीछे  
 हमारे पिता जी से केशवदास की रामचन्द्रिका पढ़ी। इसी के  
 पीछे आप काव्यरचना करने लगे। लालविहारी जी ने इनका  
 कविता का नाम विशाल रख दिया और तभी से ये इसी नाम से  
 रचना करने लगे। यंट्रेस फेल हो जाने के पीछे इनके माता पिता  
 का देहान्त हो गया। इनके भाई बहन आदि कोई निकट का  
 सम्बन्धी न था। इधर जीविकानिर्वाह की कोई चिन्ता न थी। सो  
 इनका मन काम काज से छुटकर कविता ही में लग गया। अब

आपने गँधौली में प्रायः डेढ़ साल रह कर पंडित जुगलकिशोर मिश्र से दशांग कविता सीखी । यह हाल संवत् १९५३ के इधर उधर का है । इसके पूर्व सिसैंडी के राजा चन्द्रशेखर के इलाके में कुछ दिन आपने ज़िलेदारी की थी, पर उससे आपका जी इतना ऊत्रा था कि उसे छोड़ कर आप भाग गये थे । गँधौली से कविता सीख कर आप फिर लखनऊ में हमारे यहाँ रहने लगे । आपकी कई पुस्तों से कुछ संकल्प की भूमि ठाकुर रामेश्वर बक्ष्श रईस परसेहँड़ी के इलाके में चली आती है । उसीके सम्बन्ध से आप ठाकुर साहब के यहाँ जाने आने लगे और ठाकुर साहब के भी कविता-प्रेमी होने के कारण आपका उनसे प्रेम विशेष बढ़ गया । उनकी प्रशंसा के आपने बहुत से छन्द बनाये हैं । आपके पूर्व-पुरुष ठाकुर साहब के पूर्वपुरुषों के गुरु थे, सो ठाकुर साहब इनमें भी गुरु-भाव रखने थे । इसी भाव का एक विशालाष्टक रच कर ठाकुर साहब ने इनकी बड़ी प्रशंसा की है । कुछ काम न होने से आप उस प्रान्त के कुछ अन्य रईसों के यहाँ भी जाने आने लगे । इनमें से ठाकुर दुर्गाबक्ष के आपने उत्तम छन्द रचे । ठाकुर अनिरुद्धसिंह और दीन कवि से आप का विशेषतया मित्र-भाव था । विशाल जी प्रकृति से कुछ आलसी भी थे, सो कोई अन्य कार्य न होने पर भी आपने कविता बहुत नहीं बनाई । आपके कई पुत्र और कन्याये हुईं, पर दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहा । इनके मरण-काल में एक चार वर्ष का पुत्र था, पर वह भी इन्हीं के केवल २० दिन पीछे विस्फोटक रोग से मर गया । विशाल जी विशेषतया मधुरप्रिय थे । संवत् १९६१ में

आपको कुछ खाँसी आने लगी, जो मधुर भोजन के कारण शान्त न हुई। दूसरे वर्ष एक भारी फोड़ा हो गया जो इन्हें बेहोश करके चीरा गया। उसकी दवा में फ्रूट साल्ट आदि खाने से फोड़ा तो अच्छा होगया, परन्तु खाँसी कुछ बढ़ गई। आपने इस पर कुछ विशेष ध्यान न दिया और इसकी साधारण दवा होती रही। इसी के साथ कुछ हल्का बुखार भी प्रायः छः मास के पीछे आने लगा, पर किसी ने उसे जान नहीं पाया। शरीर से आप स्थूल थे, सो अस्वस्थता में भी अच्छे देख पड़ते थे। संवत् १९६३ में खाँसी शान्त न होने देख कर हम लोगों ने इन्हें बहुत समझाया कि ये भोजन में पूरा बराब करें और दवा जम कर की जावे। उसी समय से आपने दवा पर अच्छा ध्यान दिया और पथ्य का भी पूरा विचार रक्खा, परन्तु लाख लाख दवा करने पर भी ईश्वरेच्छा के आगे कोई वश न चला और प्रायः एक वर्ष और रुझ रह कर संवत् १९६४ में २५ दिसम्बर सन् १९०७ ई० का इनका शरीर-पात हो गया।

विशाल जी की प्रकृति बड़ी शान्त थी और इन्हें क्रोध आते हमने कभी नहीं देखा। आपसे मज़ाक में कोई पेश नहीं पाता था। बड़े बड़े उस्ताद मज़ाकिये आप से पराजित हो गये। आपके साथ बैठने में चित्त सदैव प्रसन्न रहता था, चाहे जितना बड़ा दुःख भी क्यों न हो। आप में समाचानुरी की मात्रा बहुत थी और हास्य रस के तो आप आनन्द ही थे। हमारी कविता ये सदैव बड़े प्रेम से सुनते और हमें अपनी सुनाते थे। दूसरे की रचना आप इतनी पसन्द करते थे कि यद्यपि लवकुशचरित्र एक परम साधारण

ग्रन्थ था, तथापि उसकी प्रशंसा में आपने एक छोटा मोटा प्रायः १५० छन्दों का ग्रंथ ही रच डाला । होली से सम्बन्ध रखने वाले अश्लील विषयों पर भी आप ने बहुत रचना की है । होलिकाभरण नामक एक अलङ्कार-ग्रन्थ आपने ऐसा रचा, जिसके प्रत्येक दोहे में अलङ्कार अश्लील वर्णन में निकाला । उसमें सब अलङ्कार आ गये हैं । इसी प्रकार नायिका-भेद के भी बहुत से छन्द इसी विषय में रचे गये । ये छन्द सवैया एवं घनाक्षरी हैं और बहुत उत्तम बने हैं, परन्तु कहीं पढ़ने योग्य नहीं हैं । आप ने दोहा चौपाइयों में एक श्रवणोपाख्यान बनाया था, परन्तु वह गुम हो गया । पाप-विमोचन नामक ८४ सवैया कवित्तों का आपने एक शंकरस्तुति का ग्रन्थ रचा था, जो अच्छा है । अपने मित्रों एवं रईसों की प्रशंसा के आप ने बहुत से उत्कृष्ट छन्द बनाये और भँडौआ छन्दों की भी अच्छी बहुतायत रक्खी । शृङ्गार रस एवं अन्य विषयों के भी स्फुट छन्द आपने सैकड़ों रचे । आपके अश्लील, भँडौआ और प्रशंसा के छन्द बहुत अच्छे बनते थे । हम आप को तोष की श्रेणी में समझते हैं ।

अँगरेजी पढ़ी जब सों तब सों हमरो तुमपै विसवास नहीं ।

तुम है कि नहीं यहै सोचो करै परमान मिलै परकास नहीं ॥

बिनु जाने न होत सनेह विसाल सनेह बिना अभिलास नहीं ।

यहि कारन ते हमको सिवजी तरिबे की रही कछु आस नहीं ॥१॥

जीव बधै न हरै परसम्पति लोगन सों सति बैन कहै नित ।

काल पै दान यथागति दै पर-तीय कथान में मौन रहै नित ॥

तृष्णाहि त्यागी बड़ेन नवे सब लोगन पै करुना को गई नित ।

शास्त्र समान गनै सिगरे सुखदा यह गैल बिसाल अहै नित ॥ २ ॥

जो पर-तीय रम्यो न कबौ तौ कहा दुख झेलत गंग के भारन ।

जो भवसूल नसावत है तौ करयो कहि हैत त्रिसूल है धारन ॥

वेत जु माल बिसाल सदा तौ लपेटे रहौ कत ब्याल हजारन ।

कामहि जारयो जु हे मिव तौ गिरिजा अरधंग धरयो केहि कारन ॥३॥

आवन हैं परभात इतै चलि जात हैं रात उतै निज गोई ।

मोहिग जो पै रहैं कबहुँ नबहुँ उतडी की लिये रहैं टोहैं ॥

सौहैं बिसाल करैं इत लाखन पै अभिलाषि उतै मन मोहैं ।

होति अरी हिन हालि खरी तऊ लालची लोचन लाल को जाहैं ॥४॥

कौलिया कूकन लागी बिसाल पलास की आँच सों देह दहै लगी ।

बौरन लागे रसाल सबै कल कंजन को अलि मोर चहै लगी ॥

जीव को लेन लगे पपिहा तिय मान की वान क्यों मोसों कहै लगी ।

आजु इकन्त मिलै किन कन्त सों वीर बसंत बयारि बहै लगी ॥५॥

जलदान की वृष्टि भई चहुँघा महिमंडल का दुख दूरि गया ।

खल आस जवास नसी छिन में बक ध्यानिन बास अकास लयो ॥

दुज दादुर बेद ररैं सुख सों मन साल बिहाय बिसाल भयो ।

पिक मागध गान करैं जस को ऋतु पावस कै नृप नीति भयो ॥६॥

(२३६०) रामराव चिंचोलकर ।

इनका संवत् १९६० के लगभग प्रायः ४० वर्ष की अवस्था में देहान्त होगया । आपकी प्रकृति बड़ी ही सौजन्यपूर्ण और सरल थी । आप पंडित माधवराव सप्रे के साथ छत्तीसगढ़-



मित्र का सम्पादन करते थे । एक बार हमने मज़ाक़ में कहा कि इस पत्र को 'नाऊगढ़मित्र' भी कह सकते हैं, क्योंकि 'नाऊ' को छत्तीसा कहते हैं । इस पर आपने केवल इतना ही कहा कि "पेसा !" और ज़रा भी बुरा न माना । आप छत्तीसगढ़-निवासी महाराष्ट्र ब्राह्मण थे ।

नाम—(२३६१) शिवसम्पति सुजान भूमिहार, उदियाँ ज़िला  
आज़मगढ़ ।

ग्रन्थ—(१) शतक, (२) शिक्षावली, (३) शिवसम्पतिसर्वस्व, (४) नीतिशतक, (५) शिवसम्पतिसंवाद, (६) नीतिचन्द्रिका, (७) आर्यधर्मचन्द्रिका, (८) वसंतचन्द्रिका, (९) चौताल-चन्द्रिका, (१०) सभामोहिनी, (११) यौवनचन्द्रिका, (१२) जौनपुर-जलप्रवाह-विलाप, (१३) मनमोहिनी, (१४) पचरा-प्रकाश, (१५) भारतविलाप, (१६) प्रेमप्रकाश, (१७) ब्रज-चंदविलास, (१८) प्रयागप्रपंच, (१९) सावन-बिरहविलाप, (२०) राधिका-उराहनो, (२१) ऋतुविनोद, (२२) कजली-चंद्रिका, (२३) स्वर्णकुँवरि विनय, (२४) शिवसम्पतिविजय, (२५) शत्रुसंहार, (२६) शिवसम्पति साठा, (२७) प्राणपियारी, (२८) कलिकालकौतुक, (२९) उपाध्यायी-उपद्रव, (३०) चित-चुरावनी, (३१) स्वारथी संसार, (३२) नये बाबू, (३३) पुरानो लकीर के फ़कीर, (३४) शतमूर्ख प्रकाशिका, (३५) भूमिहारभूषण, (३६) कलियुगोपकार-ब्रह्महत्या ।

जन्मकाल—१९२० । वर्तमान ।

कविताकाल—१९४५ ।

(२३६२) लाजपतराय (लाला) ।

इनका जन्म संवत् १९२२ में जिला लुधियाना के जगरन नाम नगर में एक अप्रवाल वैद्य घराने में हुआ था । आपने वकालत में अच्छी ख्याति पाई और आर्य्यसमाज एवं देशहित-साधन के कार्यों के कारण आपको बहुतेरे भारतवासी ऋषिवत् पूज्य समझते हैं । लाला साहब ने दयानन्द-कालेज को अच्छी सहायता दी और अकाल-पीड़ितों के लिये ऋणग्रहण किया । एक बार राजद्रोह के सन्देह में आप प्रायः छः मास तक बर्मा में कैद कर दिये गये थे । हिन्दी-गद्य-लेखन की ओर भी आपका ध्यान रहता है । आपने अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं ।

इस समय के अन्य कविगण ।

समय सं० १९३६ ।

नाम—(२३६३) दयानिधि ब्राह्मण, पटना ।

विवरण—कविता बहुत रोचक और उत्तम है । इनकी गणना तोष की श्रेणी में है ।

नाम—(२३६४) साधोराम कायस्थ, मौ० पनगरा, ज़ि० बाँदा ।

ग्रन्थ—(१) रामविनयशतक, (२) चित्रकूटमाहात्म्य ।

समय सं० १९३७ ।

नाम—(२३६५) कालीचरण (सेवक) कायस्थ, नरवल, कानपूर ।

विवरण—कायस्थकान्करेंसगज़ट के संपादक थे ।

नाम—(२३६६) जगन्नाथसहाय कायस्थ बड़ा बाज़ार, हज़ारी-  
बाग़ ।

ग्रन्थ—(१) आनन्दसागर, (२) प्रेमरसामृत, (३) भक्तरसनामृत,  
(४) भजनावली, (५) कृष्णवाललीला, (६) मनोरञ्जन,  
(७) चौदह रत्न, (८) गोपालसहस्रनाम ।

नाम—(२३६७) ठकुरेश जी ।

ग्रन्थ—स्फुट छंद लगभग १००० ।

जन्मकाल—१९१२ ।

नाम—(२३६८) ठाकुरदास ।

ग्रन्थ—(१) भक्तकवितावली (१९५०), (२) रुक्मिणीमंगल, (३)  
कृष्णचंद्रिका (१९३७), (४) श्रीज्ञानकीर्णखंवर (१९४८),  
(५) गोवर्द्धनलीला मेला सदन (१९४०) ।

नाम—(२३६९) देवीसिंह राजा चन्देरी ।

ग्रन्थ—(१) नृसिंहलीला, (२) आयुर्वेदविलास, (३) रहसलीला,  
(४) देवीसिंहविलास, (५) अर्बुदविलास, (६) बारह-  
मासी ।

विवरण—मधुसूदनदास श्रेष्ठी में ।

नाम—(२४००) द्वारिकाप्रसाद ब्राह्मण, बस्ती ।

ग्रन्थ—चैतालवाटिका ।

नाम—(२४०१) नारायणदास, वृन्दावन ।

जन्मकाल—१९१२ । वर्तमान ।

नाम—(२४०२) मथुराप्रसाद ब्राह्मण, सुकुलपुर ।

ग्रन्थ—(१) गोपालशतक, (२) मथुराभूषण, (३) हनुमतविरदा-  
वली, (४) फागविहार ।

जन्मकाल—१९११ । वर्त्तमान ।

नाम—(२४०३) रघुनाथप्रसाद कायस्थ, काशी ।

ग्रन्थ—राधानखशिख (पृ० ७६) ।

नाम—(२४०४) रामचरित्र तेवारी, आजमगढ़ ।

ग्रन्थ—जंगल में मंगल ।

नाम—(२४०५) सन्तूलाल गुप्त, बुलन्दशहर ।

ग्रन्थ—(१) स्त्रीसुवाग्निनी, (२) बालावाग्निनी, (३) सुरभिसन्ताप ।

जन्मकाल—१९१२ ।

नाम—(२४०६) सीताराम ब्राह्मण, शंकरगंज, राज्य रीवाँ ।

जन्मकाल—१९१२ । वर्त्तमान ।

नाम—(२४०७) हरदेववक्त्रश (हरदेव) कायस्थ ।

ग्रन्थ—(१) पिंगलभास्कर, (२) ऊपाचरित्र, (३) जानकीविजय,  
(४) लवकुशी ।

जन्मकाल—१९१२ । वर्त्तमान ।

समय सं० १९३८ के पूर्व ।

नाम—(२४०८) किनाराम, बाबा रामनगर, बनारस ।

ग्रन्थ—रामरसाल ।

नाम—(२४०६) बोधीदास ।

ग्रन्थ—बोधीदासकृतञ्जलना ।

समय सं० १६३८ ।

नाम—(२४१०) गिरिजादत्त शुक्ल, महेशदत्त के पुत्र, धनौली,  
ज़िला बारहबंकी ।

ग्रन्थ—(१) श्रीकृष्णकथाकर, (२) संस्कृतव्याकरणाभरण ।

जन्मकाल—१९१३ ।

विवरण—ये आज कल तहसीलदारी की पेंशन पाते हैं ।

नाम—(२४११) गुलाबराज राव ।

ग्रन्थ—नीतिमंजरी ।

नाम—(२४१२) दरियात्र दौवा ।

नाम—(२४१३) दुर्गाप्रसाद कायस्थ, चरखारी, बुँदेलखंड ।

ग्रन्थ—(१) भानुपुराण, (२) गोवर्धनलीला, (३) भक्तिशृंगारशिरो-  
मणि, (४) ध्यानस्तुति, (५) मिलापलीला, (६) राधाकृष्ण-  
ष्टक ।

जन्मकाल—१९१३ । वर्त्तमान ।

नाम—(२४१४) पञ्चदेव पाण्डेय, रेवती, बलिया ।

ग्रन्थ—पञ्चदेव रामायण ग्रन्थ ।

विवरण—आप अध्यापक हैं और पाठ्य पुस्तकें भी आपने बनाई  
हैं ।

नाम—(२४१५) भोलानाथ लाल ब्राह्मण गोस्वामी, मुक्काम

श्रीवृन्दावन, हाल वारी राज्य रीवां ।

ग्रन्थ—(१) प्रेमरत्नाकर, (२) राधावरविहार, (३) चंद्रधरचरित-  
चिन्तामणि, (४) गंगापञ्चक, (५) गोपीपञ्चीसी, (६)  
कृष्णाष्टक, (७) हरिहगष्टक, (८) प्रातःस्मरणीय (आदि कई  
अष्टक रचे हैं), (९) कृष्णपत्रासा ।

जन्मकाल—१९१३ । वर्त्तमान ।

नाम—(२४१६) राघवदास साधु ।

ग्रन्थ—गुरुमहिमा ।

समय संवत् १९३६ ।

नाम—(२४१७) देवराज खत्री, जालन्धर ।

ग्रन्थ—(१) अक्षरदीपिका, (२) शब्दावली, (३) बालविनय, (४) बालो-  
द्यान संगीत, (५) सावित्रीनाटक, (६) कथाविधि, (७) पाठा-  
वली, (८) सुबोधकन्या, (९) पत्रकौमुदी, (१०) गणितभूषण,  
(११) गृहप्रबन्ध ।

नाम—(२४१८) परमेश्वरीदास कायस्थ, बाँदा ।

ग्रन्थ—दस्तूरस.गर ।

विवरण—यह लालावती का छन्दोबद्ध अनुवाद है ।

नाम—(२४१९) विंध्येश्वरी तिवारी, सहगौरा, जिला गोरखपुर ।

ग्रन्थ—मिथिलेशकुमारी नाटक ।

जन्मकाल—१९१४ । वर्त्तमान ।

नाम—(२४२०) श्री वीरवल, श्री वृन्दावनवासी ।

ग्रन्थ—(१) वृन्दावनशतक, (२) राधाशतक ।

जन्मकाल—१९१४ । वर्त्तमान ।

नाम—(२४२१) वैजनाथप्रसाद, इखलासपुर ।

जन्मकाल—१९२४ (वर्त्तमान) ।

नाम—(२४२२) मन्मूलाल कायस्थ, बुलंदशहर ।

ग्रन्थ—स्त्रीसुबोधिनी ।

नाम—(२४२३) मेलाराम वैश्य, भिवानी, जिला हिसार ।

ग्रन्थ—गन्दे सोठनों की अपील, गृहस्थविचारसुधारक काव्य ।

नाम—(२४२४) रामगयाप्रसाद (दीन), अयोध्या ।

ग्रन्थ—(१) रामलीला नाटक, (२) प्रहलादचरित्र नाटक, (३)

प्रेमप्रवाह, (४) पावसप्रवाह ।

जन्मकाल—१९१४ ।

विवरण—आप टाँड़ा, जिला फैजाबाद के रहने वाले अच्छे मक हैं ।

नाम—(२४२५) रामधारीसहाय कायस्थ, डीही, जिला

सारन ।

ग्रन्थ—(१) गुरुमक्तिपचीसी, (२) गौरक्षाप्रहसन, (३) महिमा-  
चालीसी, (४) शिवमाला, (५) कुमारसम्भव अनुवाद ।

जन्मकाल—१९१४ । वर्त्तमान ।

विवरण—ये मधुवनी में बकालत करते हैं ।

नाम—(२४२६) साधोसिंह महाराज ।

ग्रन्थ—काव्यसंग्रह ।

समय संवत् १९४० के पूर्व ।

नाम—(२४२७) छतर ।

विवरण—शृंगार संग्रह में काव्य है ।

नाम—(२४२८) जगतनारायण शर्मा, काशी ।

ग्रन्थ—(१) ईसाईमतपरीक्षा, (२) गोरक्षा, (३) दयानन्दियों की अपार महिमा, (४) यवनों की दुर्दशा ।

जन्मकाल—१९१५ । वर्तमान ।

नाम—(२४२९) तुलाराम ।

विवरण—शृंगारसंग्रह में काव्य है ।

नाम—(२४३०) देवन ।

विवरण—शृंगारसंग्रह में काव्य है ।

नाम—(२४३१) धनेश ।

विवरण—शृंगारसंग्रह में काव्य है ।

नाम—(२४३२) भीम ।

विवरण—शृंगारसंग्रह में काव्य है । भक्त-कवि थे ।

नाम—(२४३३) मिथिलेश ।

विवरण—शृंगारसंग्रह में काव्य है ।



नाम—(२४३४) रतिनाथ ।

विवरण—शृंगारसंग्रह में काव्य है ।

नाम—(२४३५) समाधान ।

विवरण—शृंगारसंग्रह में काव्य है ।

समय संवत् १६४० ।

नाम—(२४३६) अम्बर, भाट चौजीतपुर, बुँदेलखंड ।

नाम—(२४३७) अंबिकाप्रसाद, जिला शाहाबाद (बिहार) ।

नाम—(२४३८) कन्हैयालाल (कान्ह) कायस्थ, सोठियावाँ,  
जिला हरदोई ।

ग्रन्थ—चन्द्रमालशतक ।

जन्मकाल—१९१५ । वर्त्तमान ।

नाम—(२४३९) कान्ह कायस्थ, राजनगर, बुँदेलखंड ।

ग्रन्थ—नखशिख ।

जन्मकाल—१९१४ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४४०) कुंजलाल, मऊ रानीपूर, भाँसी ।

जन्मकाल—१९१८ ।

विवरण—तौष श्रेणी ।

नाम—(२४४१) गिरधारी भाट. मऊ रानीपुर, भांसी ।

नाम—(२४४२) गुरदयाल कायस्थ, पदारथपुर. बाँदा ।

जन्मकाल—१९१४ ।

विवरण—मैहर में वकील हैं ।

नाम—(२४४३) गंगादयाल दुबे, लिसगर, जिला रायबरेली ।

विवरण—संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४४४) गंगादास नैमपारण्य, कायस्थ ।

ग्रन्थ—विनयपत्रिका ।

विवरण—हान श्रेणी के कवि थे ।

नाम—(२४४५) गंगाप्रसाद (गंग). सपौली, जिला सोनतापुर ।

ग्रन्थ—दूतीबिलास ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४४६) चन्द्र भा ।

ग्रन्थ—रामायण ।

विवरण—महाराजा दरभंगा के यहाँ थे ।

नाम—(२४४७) जगन्नाथ अक्खी, सुमेरपुर, जिला उन्नाव ।

विवरण—ये संस्कृत के बड़े विद्वान् हैं और कई ग्रंथ भी बना चुके हैं । भाषा में इनके स्फुट छंद मिलते हैं । ये राजा अयोध्या और प्रलवर के यहाँ रहे । इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में की जाती है ।

नाम—(२४४८) जगन्नाथप्रसाद कायस्थ, छतरपूर ।

विवरण—ये महाशय दरवार छतरपूर में हेड अकौंटेंट हैं और भाषा के बड़े प्रेमी हैं । आपके यहाँ पुस्तकों का अच्छा संग्रह है । आप भाषा के उत्तम लेखक हैं ।

नाम—(२४४९) जवरेस बंदीजन, बुँदेलखंड ।

विवरण—ये महाराज रीवाँनरेश के यहाँ थे ।

नाम—(२४५०) जवाहिर, श्रीनगर, बुँदेलखंड ।

जन्मकाल—१९१५ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४५१) जान ईसाई, अँगरेज़ ।

ग्रन्थ—मुक्तिमुक्तावली छंदोवद्ध ।

विवरण—ईसाई भजन एवं ईसाचरित्र इसमें वर्णित है ।

नाम—(२४५२) ठाकुरप्रसाद (पूरन) कायस्थ, बिजावर । वर्त्तमान ।

ग्रन्थ—दशम स्कन्ध भागवत का पद्यानुवाद ।

नाम—(२४५३) ठाकुरप्रसाद त्रिवेदी, अलीगंज, खीरी ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४५४) दुःखमंजन ।

ग्रन्थ—चंद्रशेखर काव्य ।

विवरण—राजा चंद्रशेखरजी त्रिपाठी तम्रल्लुकदार सिसंड़ी की  
आह्वानुसार बनाया । उसमें कुछ खंडित होगया था,  
जिसकी पूर्ति रघुवीर कवि ने की ।

नाम—(२४५५) देवसिंह, मु० बराज, राज्य रीवाँ ।

जन्मकाल—१९१७ । वर्तमान ।

नाम—(२४५६) देवोदीन, बिलग्रामी ।

ग्रन्थ—(१) नखशिख, (२) रसदर्पण ।

नाम—(२४५७) नारायण राय बन्दीजन, बनारसी ।

ग्रन्थ—(१) टीका भाषाभूषण (छन्दोबद्ध), (२) टीका कवि-  
प्रिया (वार्तिक) ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४५८) पंचम, बुँदेलखंडी ।

जन्मकाल—१९११ ।

विवरण—गुमानसिंह राजा अजयगढ़ के यहाँ थे । निम्न श्रेणी के  
कवि थे ।

नाम—(२४५९) प्रभुदयाल कायस्थ, अजयगढ़, बुँदेलखंड ।

ग्रन्थ—ज्ञानप्रकाश ।

जन्मकाल—१९१५ ।

नाम—(२४६०) बच्चलाल, बछरावाँ ।

नाम—(२४६१) विश्वनाथ, टिकारी, रायबरेली ।

नाम—(२४६२) विश्वेश्वरानन्द महात्मा ।

ग्रन्थ—चतुरा की चतुराई ।

विवरण—आपने कई और ग्रंथ भी रचे हैं ।

नाम—(२४६३) वृन्दावन, सेमरौता, ज़िला रायबरेली ।

ग्रन्थ—देवीभागवत भाषा (१९५३) ।

नाम—(२४६४) वंदन पाठक, काशीवासी ।

ग्रन्थ—मानसशंकावली ।

जन्मकाल—१९१५ ।

विवरण—ये महाशय रामायण के अच्छे टीकाकार थे । आपने महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण जी की आज्ञा से ग्रन्थ बनाया । रामायण तुलसीकृत पर इनका प्रमाण माना जाता है ।

नाम—(२४६५) बन्दीदीन दीक्षित, मसवासी ज़िला उन्नाव ।

ग्रन्थ—सुदामाचरित्र नाटक ।

विवरण—मातादीन सुकुल के साथ यह नाटक बनाया है ।

नाम—(२४६६) मातादीन मिश्र, (मिश्र) सराय मीरां, फ़र्रुखाबाद ।

ग्रन्थ—(१) कविरत्नाकर (१९३३), (२) शाहनामा भाषा ।

नाम—(२४६७) मातादीन शुक्ल, सरोसी, ज़िला उन्नाव ।

ग्रंथ—सुदामाचरित्र नाटक (गद्य पद्य) ।

विवरण—बन्दीदीन दीक्षित के साथ मिलकर सुदामाचरित्र नाटक बनाया ।

नाम—(२४६८) माधवसिंह राजा अमेठी, सुल्तापूर ।

ग्रन्थ—(१) मनोजलतिका, (२) देवीचरित्रसरोज, (३) तृतीय  
भर्तृहरिशतक भाषा ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४६९) मार्कंडेय (चिरंजीवी) कोपागंज, आजमगढ़ ।

ग्रन्थ—(१) झुला, ठुमरी, कजली इत्यादि, (२) लक्ष्मीश्वरविनोद ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४७०) मुन्नालाल कायस्थ, मैहर ।

जन्मकाल—१९१५ । वर्तमान ।

नाम—(२४७१) युगलप्रसाद कायस्थ, (वर्तमान) जतारा,  
टीकमगढ़ ।

नाम—(२४७२) रघुनाथ (शिवदीन) पंडित रमूलाबादी ।

ग्रन्थ—भव-महिम्न ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४७३) रघुवीर ।

ग्रन्थ—चंद्रशेखर काव्य ।

विवरण—राजा चंद्रशेखर जी त्रिगठी तपल्लूकदार सिसैंडो जिला  
लखनऊ की आह्वानुसार दुःखमंजन कवि ने बनाया था ।  
उसमें कुछ खंडित हो गया, जिसकी पूर्ति की है ।

नाम—(२४७४) रणजीतसिंह जाँगरे राजा ईसानगर, खीरी ।

ग्रन्थ—हरिवंश पुराण भाषा ।

नाम—(२४७५) राधाचरण गौड़ ब्राह्मण ।

ग्रन्थ—(१) चैतन्यचरितामृत, (२) नवभक्तमाल, (३) विदेश-  
यात्रा-विचार, (४) विधवाविवाहविवरण, (५) अमरसिंह,  
(६) चन्द्रावली आदि छोटे बड़े सब ४० ग्रन्थ हैं ।

जन्मकाल—१९१५ । वर्त्तमान ।

नाम—(२४७६) राधेलाल कायस्थ, राजगढ़ बुँदेलखंड ।

जन्मकाल—१९११ ।

नाम—(२४७७) रामनारायण कायस्थ, अयोध्या ।

ग्रन्थ—(१) स्फुट छंद, (२) षट्क्रतुवर्णन ।

विवरण—महाराजा मानसिंह के मंत्री । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४७८) रामलाल स्वामी, बिजावर ।

ग्रन्थ—(१) अमरकंटकचरित्र (१९४३), (२) भवानी जी की स्तुति,  
(३) महावीर जू कौ तीसा, (४) रामसागर ( रामविलास )  
(१९४३), (५) श्रीब्रह्मसागर (१९४४), (६) श्रीकृष्णप्रकाश  
(१९४४) ।

विवरण—राजा भानुप्रकाश बिजावर के गुरु थे ।

नाम—(२४७९) रामेश्वरदयाल कायस्थ, सरैयाँ, ज़िला  
गाज़ीपूर ।

ग्रन्थ—चित्रगुप्तचरित्र ।

जन्मकाल—१९१४ । मृत्यु १९५६ ।

नाम—(२४८०) लालसिंह उपनाम रसगेन्द्र (रसिकेन्द्र)

मु० घूरडोंग, राज्य रीवाँ ।

ग्रन्थ—ग्रन्थ रचा है । स्फुट कविता भी है ।

जन्मकाल—१९१५ । वर्त्तमान ।

नाम—(२४८१) शिवदत्त ब्राह्मण बनारसी ।

ग्रन्थ—१९११ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४८२) शिवप्रसन्न ब्राह्मण, रामनगर, रायबरेली ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४८३) सतीदासजी पांडे, श्रीकांत के पुत्र, सुमेरपुर,

जिला उन्नाव ।

ग्रन्थ—(१) मनोष्टक, (२) अयोध्याष्टक, (३) विश्वनाथाष्टक,

(४) सारस्वत भाषा ।

जन्मकाल—१९१५ । मृत्यु १९५४ ।

विवरण—इनका कोई ग्रन्थ हमने नहीं देखा ।

नाम—(२४८४) सुखरामदास ब्राह्मण, खान चहोतर, उन्नाव ।

ग्रन्थ—नुपसम्वाद ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।



नाम—(२४८५) सुमेरुसिंह साहबजादे (सुमिरेस हरी)  
पटना ।

ग्रन्थ—बिहारीसतसई के दोहों पर बहुत से कवित्त बनाये हैं ।

नाम—(२४८६) सूर्यनारायणलाल कायस्थ ।

विवरण—ये कोढ़, मिर्जापुर में सरकारी वकील हैं ।

नाम—(२४८७) सन्तबकस बन्दीजन, होलपूर, बारहबंकी ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४८८) हज़ारीलाल त्रिदेदी, अलीगंज, ज़िला खीरी ।

विवरण—नीतिसम्बन्धी काव्य है, निम्न श्रेणी ।

समय संवत् १९४१ ।

नाम—(२४८९) कौलेश्वरलाल कायस्थ, मदरा, ज़िला  
गाज़ीपुर ।

ग्रन्थ—(१) सत्यनारायणकथा (पृ० ३८), (२) रामशब्दावली (पृ०  
१६), (३) सरितावर्णन (पृ० २४), (४) कविमाला (पृष्ठ २२) ।

नाम—(२४९०) गणेशीलाल (देव) ब्राह्मण, मथुरा ।

ग्रन्थ—(१) श्रीयमुना (नदी) माहात्म्य, (२) श्रीशिवाष्टक आदि ।

जन्मकाल—१९१५ । वर्त्तमान ।

नाम—(२४९१) गुलाबदास हलवाई, पटना ।

जन्मकाल—१९१६ (वर्त्तमान) ।

नाम—(२४६२) चतुर्भुज ब्राह्मण, वृन्दावन ।

जन्मकाल—१९१६ । वर्त्तमान ।

नाम—(२४६३) पत्तनलाल (सुशील) बल्द बाबू मोहनलाल  
अगरवाल, दाऊदनगर, गया ।

ग्रन्थ—(१) रोला रामायण, (२) जुबिलीसाठिका (पद्य), (३) भर्तृ-  
हरिनोतिशतक भाषा (पद्य), (४) साधु (पद्य), (५)  
डजाड़ गाँव (पद्य), (६) यात्रो (पद्य), (७) ग्रियर्सन साहब  
की बिदाई (पद्य), (८) देशो खेल (दो भागों में, गद्य) ।

जन्मकाल—१९१६ ।

विवरण—कविता उत्तम है । आज कल आप कलकत्ते में काम  
करते हैं ।

समय संवत् १९४२ ।

नाम—(२४६४) कन्हैयादास (कान्ह), वृन्दावन ।

ग्रन्थ—छन्दपयोलिधि (भाषा) (पिङ्गल) ।

जन्मकाल—१९१७ (वर्त्तमान) ।

नाम—(२४६५) गुप्तरानी बाई (दासी) कायस्थ ।

ग्रन्थ—भजनावली ।

जन्मकाल—१९१७ ।

नाम—(२४६६) बेनीमाधो दुबे, हुसैनगंज, फ़तेहपूर ।

ग्रन्थ—सांकेतिकमाला ।

नाम—(२४६७) रामदयाल कायस्थ, छिवरामऊ ।

ग्रन्थ—(१) प्रेमप्रकाश, (२) राधिका वारहमासी ।

नाम—(२४६८) सन्त कविराज, रीवाँ ।

ग्रन्थ—लक्ष्मीश्वरचन्द्रिका ।

समय सं० १६४३ ।

नाम—(२४६९) कन्हैयालाल गोस्वामी, बूँदी ।

विवरण—आपकी अवस्था इस समय लगभग ४५ साल की होगी ।  
आप कुछ काव्य भी करते हैं ।

नाम—(२५००) प्रकाशानन्द संन्यासी, देहरादून ।

ग्रन्थ—श्रीरामजी का दर्शन ।

जन्मकाल—१९१८ ।

नाम—(२५०१) वृन्दावन कायस्थ, मैहर ।

ग्रन्थ—सीयस्वयम्बर ।

जन्मकाल—१९१८ । वर्तमान ।

नाम—(२५०२) भवानीप्रसाद कायस्थ, देउरी सागर । वर्तमान ।

नाम—(२५०३) रघुवीरप्रसाद ठठेर, पैंतेपुर, ज़ि० बारहबंकी ।

ग्रन्थ—आरोम्यदर्पण, (२) नैमिषारण्य-माहात्म्य ।

जन्मकाल—१९१८ । मृत्यु १९६५ ।

नाम—(२५०४) रत्नचन्द्र, प्रयाग ।

ग्रन्थ—(१) नूतन ब्रह्मचारी, (२) नूतन चरित्र, (३) गंगागोविन्द-  
सिंह, (४) वीरनारायण, (५) इंदिरा ।

विवरण—गद्यलेखक ।

नाम—(२५०५) रामप्रताप, जयपुर । वर्त्तमान ।

नाम—(२५०६) शंकर ।

ग्रन्थ—(१) भाषाज्योतिष, (२) ज्ञानचौंतीसी ।

कविताकाल—१९४४ के पूर्व ।

समय संवत् १९४४ ।

नाम—(२५०७) अमानसिंह कायस्थ, देवरा, छतरपूर ।

जन्मकाल—१९१९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२५०८) कृष्णाराम ब्राह्मण, जयपुर ।

ग्रन्थ—सारशतक ।

विवरण—ये संस्कृत की भी कविता करते हैं ।

नाम—(२५०९) कृपाराम शर्मा, जगरावाँ, जिला लुधियाना ।

ग्रन्थ—(१) कर्मव्यवस्था, (२) न्यायदर्शन, (३) सांख्यदर्शन,  
(४) वैशेषिकदर्शन ।

जन्मकाल—१९१४ ।

नाम—(२५१०) गजराजसिंह ठाकुर, खरिहानी, जिला

बारहबंकी ।

ग्रन्थ—(१) अलंकारादर्श, (२) व्यंग्यार्थविनोद, (३) षट्शत  
विनोद, (४) काव्यादर्शसंग्रह ।

जन्मकाल—१९१९ (वर्त्तमान) ।

नाम—(२५११) गणेशप्रसाद शर्मा, फ़र्रुखाबाद ।

ग्रन्थ—(१) भागवतव्यवस्था, (२) ईश्वरभक्ति, (३) वृक्षों में जीव-  
निर्णय, (४) गुरुमंत्रव्याख्या ।

जन्मकाल—१९१९ ।

विवरण—आप 'भारत-सुदशाप्रवर्तक' के सम्पादक हैं ।

नाम—(२५१२) छोटूराम तेवारी, बनारसी ।

ग्रन्थ—रामकथा ।

जन्मकाल—१८९७ ।

नाम—(२५१३) जीवाराम शर्मा, मुरादाबाद ।

ग्रन्थ—(१) अष्टाध्याई, (२) माघ, (३) रघुवंश, (४) कुमारसम्भव  
(५) तर्कसंग्रह का भाषाभाष्य ।

विवरण—आप बलदेवआर्यपाठशाला में अध्यापक हैं ।

नाम—(२५१४) दयालदासजी चारण ।

ग्रन्थ—आर्य-आख्यानकल्पद्रुम ।

नाम—(२५१५) नित्यानन्द ब्रह्मचारी ।

ग्रन्थ—(१) पुरुषार्थप्रकाश, (२) सनातनधर्म, (३) वेदानुक्रम  
खिका ।

जन्मकाल—१९१९ ।

नाम—(२५१६) पंकजदास (कमालदास) ।

ग्रन्थ—सत्यनारायण की कथा ।

नाम—(२५१७) बदरीप्रसाद शर्मा दुबे, कानपुर ।

ग्रन्थ—ईश्वरनाममाला ।

जन्मकाल—१९१९ ।

नाम—(२५१८) बलदेवसिंह चौहान, मकरन्दपुर, मैनपुरी ।

जन्मकाल—१९१९ ।

नाम—(२५१९) बालकृष्णसहाय वकील कायस्थ, राँची ।

ग्रन्थ—समुद्रयात्रा ।

जन्मकाल—१९१९ ।

नाम—(२५२०) वृन्दावन (वन) कायस्थ, पन्ना ।

ग्रन्थ—(१) कायस्थकुलचन्द्रिका, (२) देवीभागवत ।

जन्मकाल—१९१९ (वर्तमान) ।

नाम—(२५२१) भानुप्रताप तिवारी, चुनार ।

ग्रन्थ—(१) विहारीसतसई सटीक, (२) भानुप्रताप का जीवन-  
चरित्र, (३) भक्तमालदीपिका, (४) जीवनी गुरु नानकशाह,  
(५) कबीर साहब का जीवन, (६) रायबहादुर शालग्राम  
की जीवनी, (७) भक्तमालदृष्टान्तदर्पण ।

नाम—(२५२२) मदारिलाल शर्मा, बुलन्दशहर ।

जन्मकाल—१९१९ ।

नाम—(२५२३) मातादीन शुक्ल, बिसर्वा ।

ग्रन्थ—जन्मशतक ।

जन्मकाल—१९१९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२५२४) मंगलीप्रसाद दुबे बरघा, होशंगाबाद ।

जन्मकाल—१९१९ ।

नाम—(२५२५) रघुनाथदास जड़िया, सत्री ।

ग्रन्थ—नवघा भक्तिरत्नावली ।

जन्मकाल—१९१९ । (वर्त्तमान) ।

नाम—(२५२६) रघुनन्दनप्रसादसिंह (रघुवीर) हल्दी ।

ग्रन्थ—सभातरंग ।

जन्मकाल—१९१९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२५२७) शिवशंकर शर्मा कायस्थ, काव्यतीर्थ ।

ग्रन्थ—(१) त्रिदेवनिर्णय, (२) ओंकारनिर्णय, (३) वैदिक इतिहासार्थ,  
(४) वशिष्ठनन्दिनीनिर्णय, (५) चतुर्दशभुवन, (६) अलौकिक  
माला, (७) बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य भाषा ।

नाम—(२५२८) शीतलाप्रसाद तैवारी, बनारसी ।

ग्रन्थ—(१) जानकीमंगल, (२) रामचरितावली नाटक, (३) विनय  
पुष्पावली, (४) भारतोन्नतिस्वप्न ।

नाम—(२५२९) चन्द्र ।

ग्रन्थ—(१) चंद्रप्रकाश सटीक, (२) अनन्यशृङ्गार ।

कविताकाल—१९४५ के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्री जी ।

समय संवत् १९४५ ।

नाम—(२५३०) अयोध्याप्रसाद (घौघ) कायस्थ, बिजावर ।

वर्त्तमान ।

नाम—(२५३१) उदितनारायणलाल, बनारस ।

ग्रन्थ—दीपनिर्वाण ।

विवरण—पद्य लेखक थे ।

नाम—(२५३२) कालिकाप्रसादसिंह (कालिका), हल्दी ।

जन्मकाल—१९२१ ।

नाम—(१५३३) छप्पादत्तसिंह ।

जन्मकाल—१९१९ ।

विवरण—राजा भिनगा के यहाँ थे ।

नाम—(२५३४) जगन्नाथ वैश्य, पँतेपुर, ज़िला बारहबंकी ।

ग्रन्थ—(१) कालिकाष्टक, (२) स्फुट काव्य ।

जन्मकाल—१९२० । मृत्यु १९५८ ।

नाम—(२५३५) दूधनाथ, दया, बलिया ।

ग्रन्थ—(१) हरेरामपञ्चोत्सी, (२) हरिहरशतक ।

जन्मकाल—१९२३ । वर्त्तमान ।



नाम—(२५३६) नारायणप्रसाद मिश्र, शाहजहाँपुर ।

ग्रन्थ—(१) विश्रामसागर, (२) नूतन सुखसागर, (३) पद्य-पंचा-  
शिका टीका, (४) वंशावली, (५) बृहद्वंशावली, (६) रस-  
राजमहोदधि, (७) जातकाभरण भाषा टीका ।

नाम—(२५३७) बाबूरामजी शुक्ल, मुनिहाई कटरा, फ़र्रुखा-  
बाद ।

ग्रन्थ—(१) हरिरंजन, (२) सावित्रीविनोद, (३) मानसमणि (४)  
शालीनसुधाकर आदि १० पुस्तकें रची हैं ।

जन्मकाल—१९२४ ।

विवरण—भूतपूर्व-सम्पादक कान्यकुब्ज ।

नाम—(२५३८) बिहारीलाल चौबे ।

ग्रन्थ—(१) बिहारी तुलसी-भूषणबोध, (२) गणितचन्द्रिका, (३)  
कायस्थकुलचन्द्रिका ।

विवरण—पटना कालिज के संस्कृत प्रो.फेसर थे ।

नाम—(२५३९) मंगलदीन उपाध्याय सरयूपारी, राजापुर,  
ज़िला बाँदा ।

ग्रन्थ—(१) सिंहावलोकनशतक, (२) बारहमासा ३, (३) भक्ति-  
विलास, (४) हनुमानपचासा, (५) देवीचरित्र, (६) फाग-  
रत्नाकर, (७) हनुमानवत्तीसी, (८) समस्याशतक, (९)  
कृष्णपचासा, (१०) षट्त्रयुपचासा, (११) रामायण-  
माहात्म्य ।

नाम—(२५४०) रमाकान्त, पंडितपुरा, जिला बलिया ।

जन्मकाल—१९२० ।

नाम—(२५४१) रघुवरदयाल पाण्डेय, कानपुर ।

ग्रन्थ—(१) कृष्णकलचरित्र, (२) कृष्णानुराग नाटक ।

नाम—(२५४२) रामकुमार खंडेलवाल बनिया, अलवर ।

जन्मकाल—१९२० ।

नाम—(२५४३) लालनराम ।

ग्रन्थ—छुटक साखी छन्द ।

नाम—(२५४४) मुकुन्दीलाल कायस्थ, मोहनसराय, जिला बनारस ।

ग्रन्थ—(१) फागचरित्र, (२) मुकुन्दविलास, (३) देवी-पैत्र ।

विवरण—१९२० (वर्तमान) ।

नाम—(२५४५) सरयूप्रसाद कायस्थ, पिहानी, जिला हरदोई ।

ग्रन्थ—(१) रामायण, (२) कृष्णायन, (३) सरयूलहरी, (४) अलिफनामा, (५) नसीहतनामा ।

जन्मकाल—१९१९ ।

नाम—(२५४६) हंसराम (हंस) क्षत्रिय, ग्राम करोंदी, जिला उन्नाव ।

ग्रन्थ—रामप्रातःस्मरणीय पञ्चक आदि ।

जन्मकाल—१९२० । वर्तमान ।

## अड़तीसवाँ अध्याय ।

पूर्व गद्य-काल (१९४६-५७) ।

(२५४७) भगवानदीन मिश्र (दीन) ।

ये खैराबाद सीतापुर-निवासी एक प्रशंसनीय कवि हैं। आपकी अवस्था ४७ वर्ष के लगभग होगी। आपने विविध छन्दों में एक रामायण कही है और आपके स्फुट छन्द बहुत हैं। होली-विषयक बहुत से कबीरवत् विषय के भी आपने घनाक्षरी आदि छन्द रचे हैं। साहित्य के आप बड़े अनुरागी हैं। साहित्य-विषय के आनन्द में प्रायः आप निमग्न हो जाते हैं। अनुचित अभिमान के ये ऐसे विरोधी हैं कि उसको कदापि सहन नहीं कर सकते। दीन कवि दरिद्रता की दशा में भी उदारता का सुख अनुभव करते और श्रीमान् मनुष्यों की भाँति व्यय करने से मुक्त नहीं मोड़ते हैं।

इनके विषय में इनके मित्र ने क्या ही ठीक ठीक कहा था कि—

“भनत विशाल जग-सोधक भँडौवा रचि

मानिन को मान भरसावत फिरत हैं ।

चारु कविताई के अनन्द को सरूप निज

मीतन को दीन दरसावत फिरत हैं” ॥

(२५४८) लज्जाराम महता ।

आपका जन्म बूँदी राज्य में सं० १९२० में हुआ था। आपने श्रीवैकटेश्वर पत्र का सम्पादन ७ वर्ष तक किया और अब आप बूँदी

में एक उच्च पदाधिकारी हैं। आपका स्वभाव बड़ा ही अच्छा और व्यवहार बड़ा शिष्ट है। आपने अनेकानेक ग्रन्थ रचे, जिनमें धूर्तरसिकलाल, हिन्दूगृहस्य, आदर्शदम्पति, बिगड़े का सुधार, अमीर अब्दुलरहमान, विक्रोरियाचरित्र, वीरबलविनोद, भारत की कारीगरी, कपटी मित्र, विचित्र स्त्रीचरित्र, राजशिक्षा, बालोपदेश, नवीन भारत आदि प्रधान हैं।

### (२५४E) शरचंद्र सोम ।

इन्होंने १२ पंडितों द्वारा समस्त १८ पर्व महाभारत को, प्रति श्लोक अनुवाद कराके सं० १९४७ में प्रकाशित किया। यह ग्रन्थ बड़े ही महत्त्व का है और इसकी भाषा भी सरल और सोहावनी है। कार्शनरेश का महाभारत छन्दोबद्ध है और कुछ संक्षेप से लिखा गया है, परन्तु इसमें महाभारत के सम्पूर्ण श्लोकों का अनुवाद साधु भाषा में किया गया है। यदि इसमें अनुवादकर्ता पंडितों के नाम भी दे दिये जाते तो कोई हर्जान होता। इस तरह जान नहीं पड़ता कि कौन किसकी रचना है। सोम महाशय ने यह काम बड़ा ही उत्तम किया कि भिन्न भाषाभाषी होकर भी उन्होंने महाभारत सरीखे भारी तथा लाभकारी ग्रंथ को हिन्दी में लिखवा कर प्रकाशित किया। इसके लिए वह समस्त हिन्दी जानने वालों के धन्यवादयोग्य हैं। उदाहरणार्थ हम थोड़ा सा अनुवाद यहाँ पर देते हैं:—

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन् जनमेजय ! इस प्रकार कुरुकुलभ्रेष्ठ पांडवों ने अपने संगियों के सहित प्रसन्न होकर अभि-

मन्यु का विवाह किया, फिर रात्रि भर सुख से अपने घर में रहे और प्रातःकाल होते ही राजा विराट की सभा में आये। वह राजा विराट की सभा मणियों से खिंची हुई, फूल की मालाओं से सुशोभित और सुगन्धित जल से छिड़की थी। उसी में सब राजाओं में श्रेष्ठ पांडव लोग आकर बैठे। उनके बैठते ही सब राजाओं से पूजित बूढ़े महाराज विराट और द्रुपद आसनों पर बैठे। उनके पश्चात् श्रीकृष्ण बैठे। द्रुपद के पास कृतवर्मा और बलदेव बैठे, राजा विराट के पास महाराज युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण बैठे। राजा द्रुपद के सब पुत्र, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, साम्ब, अभिमन्यु और राजा विराट के महावीर पुत्र, ये सब एक स्थान पर बैठे। पांडवों के तुल्य रूपवान् और पराक्रमी द्रौपदी के पाँचों महावीर पुत्र मण्डित सोने के सिंहासनों पर बैठे। जब उत्तम वस्त्र और आभूषणधारी राजा लोग अपने अपने योग्य आसनों पर बैठ चुके, तब वह राजाओं से भरी सभा पेसे शोभित हुई जैसे निर्मल तारों से भरा आकाश सोहता है।

(२५५०) राय देवीप्रसाद (पूर्णा) ।

ये महाशय प्रायः ४५ बरस के हैं। ये कायस्थ हैं और कानपुर में वकालत करते हैं। इनकी वकालत अच्छी है। राय साहब कविता के बड़े प्रेमी हैं और गाने बजाने में भी निपुण हैं। इनके रचित तथा अनुवादित मृत्युञ्जय, धाराधरधावन, चन्द्रकला मानु-कुमार नाटक और बहुत से स्फुट छन्द हैं। ये रसिकसमाज के उपसभापति हैं और रसवाटिका में इनकी बहुत सी रचना समस्या-

पूर्ति की प्रकाशित हुई है। सरस्वती में भी इनकी कविता प्रायः छपा करती है। इनका काव्य बहुत सरस होता है। गद्य के भी ये अच्छे लेखक हैं।

इनका धाराधरधावन, (मिथदूत भाषा) एक सुन्दर ग्रन्थ है, जिसमें कालिदास के पूर्णभाव लाने में ये समर्थ हुए हैं, और उस पर भी इसमें शिथिलता नहीं आने पाई, जो प्रायः अनुवादों में आजाती है। ये खड़ी बोली का काव्य भी करते हैं जो प्रशंसनीय है। इनका नाटक भी अच्छा है। इनकी भाषा प्रायः व्रजभाषा होती है, जो सानुप्रास और हृदयग्राहिणी है। इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में की जाती है।

कंचन के भूखन सँवारे पुखराज वारे

धारी जरतारी पीत सारी सुखकारी है ॥

सूनी दुपहर में निदाघ की बिहारी पास

पूरन सिधारी वृषभानु की कुमारी है ॥

ब्रजचंद ध्यान में भगन रसखान प्यारी

ताती पौन लेखत बिसंत की बयारी है ।

आतप अखंड चंडकर की प्रचंड सोऊ

मानत सुचंद की अमंद उजियारी है ॥ १ ॥

कुंजन के सघन तमालन के पुंजन में

करत प्रवेश न दिनेश उजियारो है ।

प्यारी सुकुमारी श्याम सारी सजे ठाढ़ी तहाँ

नीलमणि-मालन को जाल छबि वारो है ॥

छिटके बदन चंद कुंतल अमंद स्याम

स्यामा रंग पागी मान रंभा को विदारो है ।

पूरन सुभंगन पै सौरभ प्रसंग पाय

झूमै स्याम भौरन को झुंड मतवारो है ॥ २ ॥

( २५५१ ) ग्रीन्स ( रेवरेंड एडविन ) ।

आपका जन्म संवत् १९१७ में लंदन नगर में हुआ । आप पादरियों के काम पर संवत् १९३८ में पहले पहल भारत में आकर मिर्ज़ापुर में दस म्यारह वर्ष रहे । वहाँ आपने हिन्दी सीखी । पीछे से आप काशी में रहने लगे हैं । आपने ईसाई मत की पाँच पुस्तकें हिन्दी में लिखीं और तुलसीदास के जीवनचरित्र पर एक निबन्ध भी रचा । आप नागरीप्रचारिणी सभा के एक प्राचीन सहायक और बड़े ही उदारचेता सज्जन हैं ।

( २५५२ ) जगन्नाथ दास रत्नाकर बी० ए०

( वैश्य ) काशी ।

आपका जन्म १९२३ में हुआ । बहुत काल से आप अयोध्या-नरेश के यहाँ निजी अमात्य ( प्राइवेट सेक्रेटरी ) हैं । आपने हिंडोला, समालोचनादर्श, साहित्यरत्नाकर, घनाक्षरी-नियमरत्नाकर और हरिश्चन्द्र नामक ग्रन्थ रचे । कई वर्षों तक आपने “साहित्य-सुधानिधि” नामक मासिकपत्रिका का सम्पादन किया । आप एक उत्कृष्ट कवि हैं, किन्तु कई वर्षों से आप का हिन्दी-कार्य बन्द सा हो गया है ।

## ( २५५३ ) राधाकृष्णदास ।

ये महाशय काशी के रहने वाले वैद्य थे । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के ये फुफेरे भाई थे । इनका मृत्यु २ अपरैल संवत् १९६४ में केवल ४२ वर्ष की अल्पावस्था में हो गया । स्वयं भारतेन्दु ने इन्हें हिन्दी लिखने का प्रोत्साहित किया था और धीरे धीरे ये विशद हिन्दी लिखने भी लगे थे । ये महाशय बड़े ही सज्जन पुरुष और हमारे मित्र भी थे । इनसे मिल कर चित्त प्रसन्न हो जाता था । इन्होंने नागरी-प्रचारिणी सभा की सदैव सहायता की । ये उसके कुछ समय तक मन्त्री और ग्रन्थमाला के सम्पादक रहे । हमारे बाबू साहब काव्य पर भी विशेष ध्यान रखने थे । बहुत से प्राचीन कवियों का थोड़ा बहुत हाल भी इन्होंने लिखा है । आपने भारतेन्दु जी के कालचक्र, प्रशस्तिसंग्रह, सतीप्रताप, राजसिंह आदि अधूरे ग्रन्थों को पूर्य किया है । इनके रचित ग्रन्थों के नाम नीचे लिखे जाते हैं:—  
 आर्यचरितामृत, धर्ममाला, मरता क्या न करता, स्वर्णलता, बापा रावल, दुःखिनी बाला, निःसहाय हिन्दू, सामयिक पत्रों का इतिहास, बाबू हरिश्चन्द्र, सूरदास, नागरीदास, और बिहारी लाल के संक्षिप्त जीवनचरित, दुःखिनीबाला, महारानी पद्मावती, राजस्थानकेसरी नाटक, स्वर्णलता, दुर्गेशनन्दिनी आदि । इन्होंने ने नहुष नाटक, सूरसागर, और भक्तनामावली का सम्पादन भी अच्छे प्रकार से किया । इनका गद्य उत्कृष्ट होता था और पद्य भी ये साधारणतया अच्छा लिखते थे । इनके नाटक परम रुचिर हैं, पर उनमें कहीं कहीं भारतेन्दु के नाटकों की छाया आ गई है । हम कविता की दृष्टि से इन्हें साधारण श्रेणी में रक्खेंगे ।



हे हे वीर-सिरोमनि सब सरदार हमारे ।  
 हे बिपत्ति-सहचर प्रताप के प्रान-पियारे ॥  
 तब भुज बल सों मैं भयों रक्षा करन समर्थ ।  
 मातृ-भूमि-स्वाधीनता प्रबल शत्रु करि व्यर्थ ॥

अनेकन कष्ट सहि ।

या प्रताप ने उचित कहो कै अनुचित भाखो ।  
 पर स्वतन्त्रता हेत जगत सुख तृन सम नाखो ॥  
 ढाय महल खँडहर किये सुख सामान बिहाय ।  
 छानि बनन की धूरि को गिरि गिरि मैं टकराय ॥

जनम दुख झेलि कै ॥

( २५५४ ) भगवान दीन ( लाला )

आपका जन्म १९२३ में हुआ था । आप इस समय हिन्दी कोश बनाने में उप-सम्पादक हैं । आपने शृङ्गारशतक, शृंगारतिलक, तथा रामायण के दोहों पर कुंडलियायें रचीं, एवं भक्तिभवानी, धर्म और विज्ञान, वीरप्रताप, वीरबालक, वीरक्षत्राणी आदि पुस्तकों की भी रचना की । “रूस पर जापान क्यों विजयी हुआ” नामक निबंध पर आप को १०० पुरस्कार मिला था ।

( २५५५ ) बलदेवप्रसाद मिश्र ।

ये महाशय मुरादाबाद शहर के रहनेवाले पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र के छोटे भाई थे । इनकी अकालमृत्यु केवल ३६ वर्ष की अवस्था में संवत् १९६२ में ७ अगस्त को हो गई । ये महाशय हिन्दी और संस्कृत के अच्छे लेखक थे, और तन्त्रप्रभाकर नामक

पत्र भी इन्होंने कुछ दिन निकाला । मिश्रजी ने बहुत से ग्रन्थ स्वतन्त्र एवं अनुवाद करके रचे और कुछ नाटक ग्रन्थ भी बनाये जिनमें नन्दविदा नाटक हमारे पास है । ये महाशय कविता भी प्रशस्त करते थे । इनके ग्रन्थों में पानीपत, देवी उपन्यास, कुन्दनन्दिनी, दंडसंग्रह, राजस्थान, नेपाल का इतिहास, ताँतिया भील, पृथ्वीराज चौहान, अध्यात्मरामायण भाषा, प्रफुल्ल और कल्कि पुराण भाषा प्रधान हैं । हमारे मिश्रजी ही वर्तमान समय के लेखकों में एक ऐसे लेखक थे जिनका निर्वाह केवल अपनी पुस्तकों की बिक्री से होता था । यह इनके लिए बड़े गौरव की बात थी । इनके लेख बड़े गम्भीर होते थे और भाषा ललित होती थी, पर इनके छन्द वैसे अपूर्व न थे । इन्होंने महावीरचरित्र और उत्तर रामचरित्र नामक भवभूति के नाटक ग्रन्थों के उलथा ग्रन्थ भी बनाये थे जो अप्रकाशित अवस्था में महाराज छतरपुर के पास हैं ।

लखो यह मुंज बान नग नीको ।

जनस्थान पदिब्रम की भूमी चित्र बनो सुख जीको ॥

दानवगण अरु ऋषि मतंग को थान यही सुगती को ।

अमणा धरम-चारिणी शबरी लैखौ प्रेम यह तीको ॥

ये दोनों नाटक प्रायः डेढ़ डेढ़ सौ पृष्ठ के हैं ।

(२५५६) देवकीनन्दन खत्री ।

काशीवासी बाबू देवकीनन्दन का जन्म संवत् १९१८ में मुजफ्फरपुर में हुआ था । २४ वर्ष की अवस्था तक ये मुजफ्फरपुर एवं गया ज़िले में रहे और इसके पीछे काशी में रहने लगे । इन्होंने जंगलों

की अच्छी सैर की थी । अपने देखे हुए स्थानों एवं जंगलों का वर्णन इन्होंने अपने उपन्यासों में खूब किया है । इनके बनाये हुए चन्द्रकान्ता, चन्द्रकान्तासन्तति, नरेन्द्रमोहनी, कुसुमकुमारी, वीरेन्द्रवीर, काजर की कोठरी आदि उपन्यास परमलोकप्रिय एवं मनोहर हैं । आजकल ये भूतनाथ उपन्यास लिख रहे थे । इनके उपन्यास पेसे रोचक हैं कि बहुत से लोगों ने उन्हें पढ़ने ही को हिन्दी सीखी । इन्होंने पंडित माधवप्रसाद के सम्पादकत्व में सुदर्शन नामक एक उत्तम मासिकपत्र भी निकाला था पर वह बन्द होगया । इनकी देखादेखी हिन्दी में बहुत से उपन्यासलेखक हो गये हैं और इस विभाग की अच्छी पूर्ति हुई है । इनके उपन्यासों में असम्भव बातें भी रहती हैं जो अनुचित हैं । इनकी भाषा बहुत सरल होती है और वह मनोहर भी है । इनके उपन्यासों में लोकहित-साधन का बहुत विचार नहीं रहता । इनका शरीरपातहाल ही में हुआ है ।

### (२५५७) बालमुकुन्द गुप्त ।

इनका जन्म संवत् १९२२ में रोहतक जिले में हुआ था । इनको हिन्दी लेखन से सदैव बड़ी रुचि थी और इन्होंने पत्रों के सम्पादन से ही अपनी जीविका भी चलाई । आपने सात वर्ष वंगवासी का सम्पादन किया और फिर भारतमित्र के आप जीवनपर्यन्त सम्पादक रहे । आपने रत्नावली नाटिका, हरिदास, शिवशम्भु का चिह्ना, स्फुट कविता, बेलौना आदि पुस्तकें भी रचीं । इन की गद्य और पद्य रचनाओं में मज्जा की मात्रा खूब रहती थी और वे बड़ी मनोरंजक होती थीं । होली के सम्बन्ध में ये टेसू आदि खूब मार्के के बनाते

थे । इनका शिवशम्भु का चिह्न एक बड़ा ही लोकप्रिय ग्रन्थ है । गुप्तजी एक बड़े ही जिन्ददिल लेखक थे और समालोचना भी अच्छी करते थे । इनका शरीरपात १९६४ में हुआ ।

हुए मारली पद पर पक्के । वण्डरिक् के लग गये धक्के ॥  
 बंगाली समझे पाँ छक्के । होली है भई होली है ॥  
 बंग-भंग की बात चलाई । काटन ने तकरीर सुनाई ॥  
 तब मुरली ने तान लगाई । होली है भई होली है ॥  
 होना था सां हो गया भैया । अब न मचाओ तोबा दैया ॥  
 घर को जाओ लेई बलैया । होली है भई होली है ॥  
 जैसे लिबरल जैसे टोरी । जा परनाला सोई मोरी ॥  
 दोनों का है पंथ अघोरी । होली है भई होली है ॥

(२५५८) अयोध्यासिंह उपाध्याय ।

इनका जन्म संवत् १९२२ में निज़ामाबाद ज़िला आजमगढ़ में हुआ था । आपने कुछ अँगरेज़ी भी पढ़ी है और आज कल आप सदरकानूनगो के पद पर नियत हैं । आप हिन्दी के एक बहुत अच्छे लेखक और कवि हैं । आप ठेठ हिन्दी, साधारण हिन्दी, कठिन हिन्दी आदि सभी प्रकार की भाषाओं में गद्य लिखते हैं और पद्य के भी कई ग्रंथ आपने बनाये हैं । आप ने बँगला की कई पुस्तकों का भाषानुवाद किया । वेनिस का बाँका, रिपवान विड्कूल, नीतिनिबन्ध, विनोदवाटिका, नीति-उपदेशकुसुम आदि भी आप के अच्छे अनुवाद हैं । ठेठ हिन्दी का ठाट नामक आपका ग्रन्थ विलायत की सिविलसर्विस के कोर्स में नियत है । अधखिला

फूल भी आपका एक अच्छा ग्रन्थ है। रुक्मिणीपरिणय नाटक आप बना चुके हैं और आजकल सड़ी बोली के तुकान्त-हीन पद्य में १७ अध्यायों में ब्रजांगना विलाप नामक महाकाव्य बना रहे हैं, जिसके प्रथम चार अध्याय आपने हमें सुनाये हैं। उपाध्यायजी ने प्रायः २५ ग्रन्थ बनाये हैं। आप हिन्दी के एक अच्छे लेखक हैं।

### (२५५६) किशोरीलाल गोस्वामी ।

काशीवासी इन गोस्वामी जी का जन्म संवत् १९२२ में हुआ था। आप संस्कृत तथा हिन्दी के बहुत अच्छे पंडित हैं और आप के लेख परम विद्वत्तापूर्ण होते हैं। आप ने कई ग्रन्थ संस्कृत में, प्रायः १०० हिन्दी ग्रन्थ स्फुट विषयों पर और ६५ हिन्दी उपन्यास लिखे हैं और उपन्यास मासिक पुस्तक अब भी निकालते हैं। लेखों में आप उच्च हिन्दी का व्यवहार करते हैं और उपन्यासों में साधारण भाषा का। गोस्वामी जी एक ऊँचे दर्जे के लेखक हैं। आजकल ये मथुरा में रहते हैं।

### (२५६०) शिवविहारीलाल मिश्र ।

आपका जन्म संवत् १९१७ में इटौंजा ग्राम में हुआ था। आप के पिता पंडित बालदत्तमिश्र बड़े प्रसिद्ध महाजन, ज़िमीदार और कवि थे। आपने बाल्यावस्था में इटौंजा और फिर महोना में उर्दू की शिक्षा पाई और अन्त में लखनऊ में रह कर अँगरेज़ी पढ़ी। एंट्रेंस पास करके नौ मास तक आपने एफ़० ए० में शिक्षा पाई, पर इस समय आप कुछ ऊँचा सुनने लगे सो क्लास में अध्यापकों का पढ़ाना भली भाँति सुन न पाते थे। इस कारण पढ़ने से आप

का चित्त ऊब गया और आपने सरकारी नौकरी कर ली। थोड़े दिनों में वकालत पास करके संवत् १९४५ से आप लखनऊ में वकालत करने लगे। यही काम आप अब तक करते हैं। अपने इस काम से पैत्रिक सम्पत्ति बढ़ने में आपने बड़ी सहायता दी और महाजनो के व्यापार का ज़िम्मेदारी में बदल दिया। संवत् १९५० में आप हैजा रोग से बहुत पीड़ित हुए और आप के जीवन की कम आशा रही, पर ईश्वर ने अच्छा कर दिया। संवत् १९५४ में आपको कुछ मास खाँसी और ज्वर का रोग रहा और एक बार छः मास समुद्र तट पर वाल्टेर में रहना पड़ा, जिससे उस रोग से भी मुक्ति हो गई। परन्तु श्वास की शिकायत कुछ कुछ अब भी चली जाती है।

कविता की ओर पहले आप का ध्यान न था, पर पीछे से यह रुचि भी आपको हुई और संवत् १९४८ के लगभग से आप रचना करने लगे। उदाहरण—

श्रुमत हैं मद सों भरिकै मृग से पुनि चाँकि चहुँ दिसि जोहैं ।  
 खंजन से उड़ि जात सबै थल मीन सपच्छ मनो जुग सोहैं ॥  
 नूतन कंज समान विकास धरे चख ये सबको मन मोहैं ।  
 पै उलटो गुन धारि सदा बनि वान समान हनै मन कोहैं ॥१॥

मीन मृग खंजन तुरंग सों चपलताई

कंजदल ही सों लै सरूप मुद पायो है ।

बेधकपनो है जौन अति अनियारो ताहि

वानन सों लैकै कूरताई उपजायो है ॥

स्यामता हलाहल सों मद सों ललाई पुनि  
 चारु मतवारोपन लैकै छवि छाये है ।  
 अमिय सों लैकै सेतताई जग मोहन को  
 बिधना जुगल इन नैनन बनायो है ॥ २ ॥

आपके एक पुत्र और दो कन्यायें हैं। पुत्र लक्ष्मीशंकर मिश्र  
 विलायत में पढ़ता है।

### (२५६१) गणेशविहारी मिश्र।

इनका जन्म संवत् १९२२ में इटौंजा में हुआ था। इनके पिता  
 पंडित बालदत्त मिश्र प्रसिद्ध महाजन, ज़िमीदार और कवि थे।  
 इन्होंने बाल्यावस्था में हिन्दी, संस्कृत और फ़ारसी पढ़ी और  
 संवत् १९३६ में इटौंजा में कपड़े की एक दुकान खोली; जो १०  
 वर्ष तक चलती रही। संवत् १९४६ में पिता जी ने अस्वस्थता के  
 कारण घर का काम करना छोड़ दिया। उसी समय से दुकान  
 उठाकर ये घर का कामकाज सम्हालने लगे। इनका बड़ा पुत्र राज-  
 किशोर अमरिका में इंजीनियरी की शिक्षा पाने गया है और छोटा  
 पुत्र यहीं अँगरेज़ी पढ़ता है। इनके दो विवाह आगे पीछे हुए, पर  
 दोनों स्त्रियाँ पंचत्व को प्राप्त हो गईं। इनकी दूसरी स्त्री की मौत  
 पाँच साल हुए हुई। फिर इन्होंने मित्रों के आग्रह पर भी विवाह  
 नहीं किया। आपने देवकविकृत प्रेमचन्द्रिका, रागरत्नाकर और  
 सुजानविनोद को टिप्पणीसमेत सम्पादित करके नागरीप्रचारिणी  
 सभा ग्रन्थमाला में प्रकाशित कराया। कुछ छन्द भी इन्होंने बनाये

हैं पर इस ओर विशेष रुचि नहीं है । गद्य की ओर इन्हें विशेष रुचि है । उदाहरण—

मथन लगे जब सिन्धु देवदानव मिलि सारे ।  
कढ़े त्रयोदश रत्न सबै परभा अति धारे ॥  
लियो सबन तिन बाँटि कढ़यो तत्र विषम हलाहल ।  
लगे जरन सब लोक दूरि भाग्यौ धीरज बल ॥  
तत्र पान कियो जेहि विषम विष तीनि लोक तारन तरन ।  
सोइ आसुतोप संकट सकल हरहु सम्भु असरन सरन ॥१॥

मन भावन छैल छबीलो लखौ इत राधिका प्रेम प्रभा सों सनी ।  
उत कान्ह बजावत बाँसुरिया दुहुँ ओरन सों सुषमा है घनी ॥  
इत राधिका झूलत झूला भले खमकै जुत भूषण जामैं कनी ।  
जड़े हीरन सों गहने पहने छवि देखिये जोरी अनूप बनी ॥ २ ॥

मान—(२५६२) जंगलाल भट्ट ( जंगली ), पैतैपूर, ज़ि०  
सीतापूर ।

रचना—स्फुट काव्य । अच्छा है ।

जन्मकाल—१९२३ ।

समय—वर्तमान ।

विवरण—ये सीतापुर में मुदरिस हैं । कविता सरस का  
अमी कोई ग्रंथ नहीं बनाया है, परन्तु स्फुट छन्द  
से रचे हैं । उदाहरण—



बिलुलित अलकै' ललित भाल बाल मुख  
 बनक बिसाल महतावी दरसति है ।  
 लोभी लङ्क लचनि नचनि चितवनि चख  
 चञ्चल तुरङ्ग सी सितावी दरसति है ॥  
 सौरभित फूलसी अतूल सुखमूल दुति  
 जङ्गली दुकूल मैं न दाबी ठहरति है ।  
 फावी सित कंचुकी मैं उरज सहावी आव  
 ऊपर अपूरव गुलावी दरसति है ॥ १ ॥

नाम—(२५६३) श्यामसेवक मिश्र सनाढ्य, मऊगंज रीवाँ ।

ग्रन्थ—३० पुस्तकें बनाई हैं ।

समय—वर्तमान ।

विवरण—ये महाशय महाराज रीवाँ के यहाँ नौकर हैं । आप संस्कृत, फ़ारसी, बङ्गला और हिन्दी के अच्छे विद्वान् हैं । ये कविचर केशवदास जी के वंशज हैं । आपकी अवस्था इस समय लगभग ४५ साल की होगी ।

नाम—(२५६४) गोपाललाल खत्री, लखनऊ ।

रचनाकाल—बहुत से लेख ।

समय—वर्तमान ।

विवरण—आपने कई साल तक नागरीप्रचारक पत्र को घाटा सहकर भी चलाया; यद्यपि आपकी आर्थिक दशा वैसी अच्छी न थी । आप हिन्दी के अच्छे लेखक हैं और आपने कई

उपन्यास आदि लिखे हैं। इस समय आपकी अवस्था ४५ साल की होगी।

नाम—(२५६५) साधुशरण प्रसाद, ज़ि० बलिया।

ग्रन्थ—भारतभ्रमण, पाँच भाग।

समय—१९५०।

विवरण—इन्होंने यह ग्रंथ बड़ा ही प्रशंसनीय बड़े श्रम से बनाया है। यह ग्रंथ परिभ्रमण करने वालों को बड़ा ही उपयोगी और सर्वसाधारण का दर्शनीय है। इसमें हर एक स्थान का यथोचित और प्रशंसनीय वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कई ग्रंथ आपने बनाये हैं।

(२५६६) कुँअर हनुमन्तसिंह रघुवंशी क्षत्रिय।

इनका जन्मकाल सं० १९२४ है। आप राजपूत पेंग्लो ओरियन्टल प्रेस के अध्यक्ष और हिन्दी के एक सुयोग्य एवं प्रसिद्ध लेखक हैं। आपके बनाये १७ ग्रन्थों में मेवाड़ का इतिहास, क्षत्रिय-कुल-तिमिरप्रभाकर, महाभारत-स्मरण, वीर बालक और अभिमन्यु मुख्य जान पड़ते हैं।

(२५६७) गदाधरसिंह ठाकुर।

आपका जन्म काशीपुरी में संवत् १९२६ में हुआ था। आपका निवास-स्थान सचेंडी, ज़िला कानपुर है। आप १८ वर्ष सरकारी पल्टन में नौकर रहे और अब प्रायः छः वर्ष से डाक-विभाग में पोस्ट मास्टर हैं और १५० मासिक वेतन पाते हैं। सेना-विभाग

में बर्मा एवं चीन के युद्धों में आप लड़े थे, तथा महाराजा एडवर्ड के तिलकोत्सव में निमन्त्रित होकर विलायत गये थे। इन्होंने चीन में तेरह मास, हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा, तथा रूस जापान युद्ध नामक तीन परमोत्तम भारी पुस्तकें लिखी हैं। इनके ग्रन्थों में भारतेत्थान पर हर जगह बड़ा जोर दिया गया है। देश-हित इस महापुरुष की नस नस में भरा है और रचनाओं से वह भली भाँति प्रदर्शित होता है। इनके ग्रन्थों में जिन्दःदिली की मात्रा खूब है और उनसे बहुत अच्छे उपदेश मिलते हैं। ये महाशय प्रायः १६ वर्ष से हमारे मित्र हैं और इनका व्यवहार सदैव एक सा सच्चा रहा है। आर्यसमाज के ये एक बड़े पक्के सभासद हैं और उसकी प्रार्थनाओं एवं कार्यवाहियों में बड़ी रुचि रखते हैं। आर्यसामाजिक पत्रों में भी इन्होंने बहुतायत से लेख लिखे हैं। इनके ग्रन्थ परम सजीव एवं उच्चाशयपूर्ण हैं। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त और भी कई ग्रंथ आपने बनाये हैं।

### (२५६८) कविराजा मुरारिदान जी ।

ये महाशय जोधपुरनरेश के आश्रय में रहते थे और उनके राज्य के एक ऊँचे कर्मचारी भी थे। इन्होंने जसवन्तजसोभूषण नामक अलंकार का एक उत्तम तथा भारी ग्रन्थ ८५१ पृष्ठों का संवत् १९५० के लगभग बनाया। यह ग्रन्थ संवत् १९५४ में प्रकाशित हुआ। ये महाशय संस्कृत के अच्छे पंडित थे और अलंकारों के शुद्ध लक्षण निरूपण करने में इन्होंने अच्छा श्रम किया है तथा उत्तम पांडित्य दिखलाया है। इन्होंने अलंकारों के नामों ही से

उनके लक्षण निकाले हैं, और गद्य की भी उत्तम रचना की है। इनका स्वर्गवास प्रायः १० वर्ष हुए हुआ। इनकी गणना कविता की दृष्टि से साधारण श्रेणी में है। उदाहरण—

कैसी अली की भली यह बालि है देखिये पीतम ध्यान लगाय कै।  
छाक गुलाब मधु सों मुरारि सु बेलि नवलिन में बिरमाय कै ॥  
खेलत केतकी जाय जुहीन में खेलत मालती वृन्द अघाय कै।  
आन को जावत खावत दौस पै सोवत है नलिनी सँग आय कै ॥

(२५६६) ठाकुर रामेश्वरवर्द्धसिंह ।

ये तालुकदार परसेहँडी सातापूर हैं। आपका जन्म संवत् १९२४ में परसेहँडी में ठाकुर बेनीसिंह के यहाँ हुआ। आपके पिता बड़े शिवभक्त और हिन्दी-साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। हमारे ठाकुर साहब ने हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत और उर्दू भी पढ़ी है। आपने हिन्दी काव्य के तीन ग्रन्थ रचे हैं, अर्थात् साहित्य-श्रीनिधि, सोरठा-शतक और स्फुट काव्य। हिन्दी में आपका उपनाम श्रीनिधि है। आपने उर्दू में गज़ल और हिन्दी में बहुत सी गाने की चीजें भी रची हैं। गानविद्या में आपका अच्छा बोध है। आप बड़े उदार और सज्जन पुरुष हैं। आपके छन्द अनुप्रासपूर्ण और बड़े ही उत्कृष्ट होते हैं।

श्रीनिधिजू मानुख महीपन की कहै कौन

जहाँ देवराज कैसे चँवर ढरयो करै ।

ब्रह्मा विष्णु रुद्र से परे हैं चरनाम्बुज में

ऋषि मुनि जाको ध्यान उर में धरयो करै ॥

पेसी आदिशक्ति मातु सोहति सिँहासन पै  
 जा के रूप आगे रमा रति हू डरयो करै ।  
 दौसःनिसि भानु सितभानु जाकी फेरी करै  
 चेरी सम ऋद्धि सिद्धि टहल करयो करै ॥ १ ॥

राजती पताकी बेस अजब कताकी  
 प्रभा हेरि हरिता की हरी हरित लता की है ।  
 पद्मगसुता की घोर नर बनिता की  
 कहा अन्य समता की है न काहू देवता की है ॥  
 जगत पिता की वाम अंगिनी सु नैमिष में  
 श्रीनिधि को दाइनी प्रकास कविता की है ।  
 सुभ सुचि ताकी दीह दुति सविता की नहीं  
 पेसी छवि ताकी जैसी मातु ललिता की है ॥ २ ॥

अँगराय प्रभा भरी ओछे उरोज महारस के नद चारै लगी ।  
 सखियान सों सैनन बैनन में कछु चातुरी कै चित चारै लगी ॥  
 नृप श्रीनिधि भावती भाग भरी लघु लाजन सों दृग जोरै लगी ।  
 मृदु मन्द हँसी सों नसीली चितै दिन द्वै ते पियूप निचारै लगी ॥३॥

धन सम्पति कुल काय श्रीनिधि लहि नहिँ गरब गहु ।  
 बढि कै ज्योँ घटि जाय समौ परे ससि बढि घटै ॥ ४ ॥  
 श्रीनिधि योँ छवि देहिँ अँखियाँ अलकन के तरे ।  
 खंजरीट गहि लेहिँ मदन बधिक जनु जाल लै ॥ ५ ॥  
 योँ कानन के तीर नैन कोर कज्जल-कलित ।  
 कढ़ी कलंक लकीर श्रीनिधि मानहुँ चन्द बिच ॥ ६ ॥

कैधों बेलि सुन्दर सिँगार सुधा खींची  
 कैधों खींची विधि रेख जेवनागम मदन तै ।  
 कै धों घरी नीलम छरी उरज्ज नाभि मध्य  
 डपटी किधों या बेनी पीठि की हदन तै ॥  
 श्रीनिधिजू पांति कै पिपीलिका बनायो  
 कैधों मंत्र शिव मदन चलायो है कदन तै ।  
 युगुल उरोज बीच राजी रामराजी  
 किधों कइत सु पन्नगी पिनाकी के सदन तै ॥ ७ ॥

नाम—(२५७०) जगन्नाथ चौबे (माथुर) कवि झारसीराम के  
 पुत्र बूंदी ।

ग्रन्थ—(१) अलंकारमाला, (२) रामायणसार, (३) माथुर-कुल-  
 कल्पद्रुम, (४) शिक्षादर्पण, (५) यमुनापञ्चोत्ती ।

जन्मकाल—१९२८ ।

कविताकाल—१९५० ।

विवरण—ये महाशय बूंदी दरबार के आश्रित कवि झारसीराम  
 के पुत्र हैं । कविता साधारण करते हैं । उदाहरण—

भूमि करयो अम्बर दिगम्बर तिलक भाल  
 विप्र डपवीत करयो यज्ञ के हवन मैं ।  
 माथुर कहत सुरनाथ सुरभोग करयो  
 बाहन बनायो विधि आपने गवन मैं ॥  
 बिस्व को सिँगार भयो सुखमा अपार धारि  
 दौस निसि बाढ़ै तऊ छवि की छवनि मैं ।

बूँदीनाथ प्रबल प्रतापी रघुवीरसिंह

तेरो जस मावत न चौदहौ भुवन में ॥ १ ॥

(२५७१) सकलनारायण पांडेय ।

आपका जन्म १९२८ में हुआ था । आप बड़े ही उत्साही पुरुष और उन्नति के नवीन सामाजिक विचारों के पक्षपाती हैं । मुख्यतः आपही के परिश्रम से आरा नागरीप्रचारिणी सभा स्थापित हुई । आपने अनेक ग्रन्थ रचे हैं, जिनमें से हिन्दीसिद्धान्त-प्रकाश, सृष्टितत्त्व, प्रेमतत्त्व, आरापुरातत्त्व, वीरबाला-निबन्ध-माला, व्याकरण-तत्त्व आदि प्रधान हैं । राजरानी और अपराजिता आपके उपन्यास हैं । आप बड़े ही मिलनसार और उदार प्रकृति वाले पुरुष हैं । आपने जैनेन्द्रकिशोर की एक अच्छी जीवनी लिखी है ।

(२५७२) हेमन्तकुमारी चौधरी ।

आपका जन्म १९२५ में लाहौर में हुआ था और १९४२ में विवाह के पश्चात् ये शिलांग चली गईं । आप कई एक स्थानों में रहें और सदैव परोपकारी कार्य करती रहें । आपने आदर्शमाता, माता और कन्या, नारीपुष्पावली, और हिन्दी बँगला प्रथम शिक्षा नामक पुस्तकें रचीं । आप हिन्दी में वक्तृता भी देती हैं ।

नाम—(२५७३) चन्द्रकला बाई, बूँदी ।

ग्रन्थ—(१) करुणाशतक, (२) रामचरित्र, (३) पदवीप्रकाश,

(४) महोत्सवप्रकाश ।

समय—१९५० ।

विवरण—ये कविराव गुलाबसिंह जी की दासी-पुत्री हैं । कविता अच्छी करती हैं । उदाहरण—

सागर धरम को उजागर प्रवीन महा  
परम उदार मन जन सुखटारनो ।  
गुन रिभवार कवि काविद निहालकार  
बैरी मद गार उपकार उर धारनो ॥  
चन्द्रकला कहै रनधोर परपीरटार  
जस विसतार कर जग सुखसारनो ।  
माइवारनाथ सरदारसिंह सोलसिंधु  
आनंद का कंद दीन दारिद बिदारनो ॥ १ ॥

(२५७४) बक्सराम पाँडे हल्दी-निवासी  
(सुजान कवि) ।

पंडित बक्सराम जी की कविता ललित है । आपने ७ ग्रन्थ रचे हैं । (१) सं० १९५८ में बना हुआ तन्मयादर्श पृ० ३० का ग्रन्थ पद्यमय शृङ्गार-रस से परिपूर्ण है, (२) श्रीकृष्णचन्द्राभरण नाम का अलंकार का ग्रन्थ पृष्ठ १४० का भी पद्यमय है । यह ग्रंथ भी सं० १९५८ का रचा हुआ है । (३) कमलानंदविनोद पृ० १५४ का है । यह पद्यमय ग्रन्थ भी सं० १९५८ में रचा गया है । (४) राधाकृष्ण-विजय १९६० के संवत् में बना हुआ २४६ पृष्ठ का ग्रन्थ है । इनके अतिरिक्त (५) रुक्मिणी-उद्वाह पृ० ५४, (६) सदुपदेशमालिका पृ० २०, और (७) श्रीरामेश्वरभूषण पृष्ठ १०६ का अलंकार ग्रन्थ भी आपने रचे ।



ये तीनों ग्रन्थ सं० १९६० में ही बने । कृष्णचन्द्रचन्द्रिका संवत् १९५० में आपने रची ।

आपने समस्यापूर्ति में बहुतेरे छन्द रचे हैं । आपकी अवस्था प्रायः ५० साल की होगी ।

### (२५७५) मथुराप्रसाद जी मिश्र ।

आपका जन्म स्थान ज़िला सुलतानपुर अमेठी राज्य के अंतर्गत पच्छिम गाँव में है । ये संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे और भाषा का काव्य भी मनोहर करते थे । बँगला का भी अभ्यास आपने किया था । इन्होंने बाबू कालीप्रसन्नसिंह सबजज लखनऊ की आज्ञानुसार और उन्हीं की सहायता से कृत्तिवास-कृत बँगला रामायण के लंकाकांड का छन्दोबद्ध अनुवाद करके संवत् १९५१ में प्रकाशित किया था, और उसके पीछे उत्तरकांड का भी अनुवाद आरम्भ किया था परंतु वह प्रकाशित नहीं हो सका और बीचही में पंडितजी एवं सबजज साहब का स्वर्गवास होगया । यह लंकाकांड ही संपूर्ण तुलसीदास की रामायण से आकार में कुछ कम न होगा । इसमें रायल अठपेजी के ५१० पृष्ठों में कथा, १० पृष्ठों में भूमिका, ५ में विषय-सूची, तथा ७८ पृष्ठों में टिप्पणी इत्यादि हैं । कुल ६०३ पृष्ठों में यह कांड समाप्त हुआ है । इसमें कथा बहुत विस्तार से लिखी गई है । भाषा इसकी संस्कृत, ब्रजभाषा तथा बैसेवाड़ी मिश्रित है । हम मथुराप्रसाद जी को मधुसूदन दास की श्रेणी में रखते हैं । उदाहरण—

रविकिरण तनुते प्रकट शशधर ज्योति ज्योतिष्मान ।  
 श्रम विंदु भलकत चंद्रमुख अरविंद-वृंद समान ॥  
 रवि उदयते लगी अस्त युद्ध प्रवृत्त नहीं अवसान ।  
 कर मध्य भीषण धनुष बरषहिँ प्रखर अगणित बान ॥  
 तूणीर ते शर लेत क्षण यकमात्र बाण लखाय ।  
 दरशात रिपुदल पर परत शत सहस ते अधिकाय ॥

संग्राम जासु यम आदि गये पराई ।

कोदण्ड हाथ लखि कम्पत देवराई ॥

जेते सुरासुर सुवीर त्रिलोक माहीं ।

जाके कराल शर ते थिर कोउ नाहीं ॥

आदेशकारि शशि मूर समार जाके ।

त्रैलोक्य हर्षित महा विनिपात ताके ॥

स्नानंद देव-मुनिवृंद ऋचा सुनावैं ।

गंधर्व दुंदुभि वृजाय सुगीत गावैं ॥

(२५७६) द्विजगंग (गंगाधर) अवस्थी ।

ये दासापुर, सीतापुर-निवासी थे । आपका कविता-काल संवत् १९५१ से था । आपका हाल बलदेव (नं० २०८८) कवि के वर्णन में है ।

(२५७७) ठाकुरप्रसाद खत्री, काशी ।

इनका जन्म १९२२ में हुआ था । आपने काशी-नागरीप्रचारिणी सभा में बहुत दिन काम किया है । आज कल आप बैपारी और कारीगर नामक पत्र निकाल रहे हैं, जो बड़ा उपयोगी है । आपने

व्यापार आदि उपयोगी विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं और इसी प्रकार के उत्तम लेख लिखने पर सभा से पदक आदि भी पाये हैं। आपके निम्नलिखित ग्रंथ हमने देखे हैं:—लखनऊ की नवाबी, हमारा प्राचीन ज्योतिष, करछा, सुघड़ दरजिन, मिस्ट्रीज़ कोर्ट आफ़ लंदन के कुछ अंश का अनुवाद, और व्यापारिक कोश ।

### (२५७८) महेंदुलाल गर्ग (पंडित) ।

आप का जन्म सं० १९२७ में हुआ था । आप सेना-विभाग में डाक्टर हैं और इसलिए स्थान स्थान पर खूब घूमे हैं । आपने कश्मीर और चीन भी देखा है । गर्गविनोद, अनन्त ज्वाला, पृथ्वी-परिक्रमा, पतिपत्नी-संवाद, तरुणों की दिनचर्या, जापानदर्पण, चीनदर्पण, जापानीय स्त्रीशिक्षा, प्रेग चिकित्सा, ध्रुवदेश, सुब-मार्ग, परिचर्याप्रणाली आदि अनेक उपयोगी ग्रन्थ आपने लिखे हैं । इनके अतिरिक्त डाक्टरी विषयों के भी आपके कुछ अन्य ग्रन्थ हैं ।

### (२५७९) ब्रजनंदनसहाय ।

आपका जन्म संवत् १९३१ में हुआ । आप ज़िला आरा में अड़ितयारपूर के कायस्थ कानूनगोवंशी बाबू शिवनंदनसहाय के पुत्र हैं । अँगरेजी बी० ए० पास करके अब आरा में आप वकालत करते हैं और इस समय आरा नागरी-प्रचारिणी सभा के मंत्री तथा नागरीहितैषिणी पत्रिका के सम्पादक हैं । आप भाषा गद्य और पद्य के अच्छे लेखक हैं । आपकी कविता प्रशंनीय होती है । अब

तक निम्नलिखित २० ग्रंथ हिन्दी में आपके रचित तथा अनुवादित हैं । इनके अतिरिक्त समाचारपत्रों में आपके लेख तथा कविताएं प्रायः छपती रहती हैं । आप हिन्दी के ऐसे बड़े उत्साही सहायक हैं कि काल में फँसे रहने पर भी अपना अमूल्य समय हिन्दी-सेवा में भी व्यय करते हैं । हिन्दी की उन्नति के वास्ते ऐसे ही सहायकों की आवश्यकता है । आपके ग्रंथ ये हैं :—

पद्य—( १ ) हनुमानलहरी, ( २ ) श्रीव्रजविनोद, ( ३ ) सत्यभामा-मंगल, ( ४ ) एक निर्जनद्वीपवासी का विलाप ।

नाटक—( १ ) सप्तमप्रतिमा नाटक, ( २ ) उद्धव नाटक, ( ३ ) बूढ़ा वर गद्यपद्य-मिश्रित प्रहसन ।

अनुवाद—( १ ) चन्द्रशेखर उपन्यास, ( २ ) कमलाकांत का इज-हार प्रहसन ।

( १ ) अर्थशास्त्र ।

समालोचना—( १ ) चन्द्रशेखर उपन्यास की समालोचना ।

उपन्यास—( १ ) राजेन्द्रमालती, ( २ ) अद्भुतप्रायश्चित्त, ( ३ ) सौन्दर्योपासक, ( ४ ) आदर्शमित्र ।

जीवनचरित्र—( १ ) पंडित बलदेवप्रसाद की जीवनी ( २ ) राय बहादुर बंकिमचन्द्र की जीवनी, ( ३ ) विद्यापति ठाकुर की जीवनी, ( ४ ) बाबू राधाकृष्णदास की जीवनी ।

संपादित—( १ ) मैथिलकोकिल ।

आपने भाषा में कई आवश्यकीय विषयों पर रचना की है ।

यह बड़ी प्रशंसनीय बात है । आपका कविताकाल संवत् १९५२ समझना चाहिए ।

नाम—(२५८०) कृष्णबलदेव खत्री कालपी ।

ग्रन्थ—(१) भर्तृहरि नाटक, (२) फ़ाहियान भाषा, (३) ह्यूप-  
न्सांग भाषा, (४) विद्याविनोद पत्र ।

जन्मकाल—१९२७ के लगभग ।

समय—वर्त्तमान ।

विवरण—ये महाशय हिन्दी के बड़े रसिक और गद्य के सुलेखक  
हैं । प्राचीन विषयों की खोज में भी इन्होंने समय लगाया  
है । इनका भर्तृहरि नाटक पढ़ने से हलाई आ जाती  
है । विद्याविनोद पत्र भी इन्होंने कुछ साल निकाला था ।

नाम—(२५८१) जयदेवजी भाट, अलवर ।

रचना—स्फुटकाव्य ।

जन्मकाल—१९२८ ।

रचनाकाल—१९५३ ।

विवरण—आप रावराजा अलवर के आश्रित हैं । आपकी  
कविता बड़ी ही सरस होती है । उदाहरण ।

फैली सुगंधभरी लतिका सोई गोरखधन्ध प्रबन्ध बनायो ।

त्यों जयदेव विभूति की भाँति बड़े अनुराग पराग लगायो ॥

नीरज नील निचाल अमोल पिकी धुनि बोल अतोल सुनायो ।

पान की भीख बियोगिन पै रितुराज फकीर है माँगन आयो ॥ १॥

सोरन को करिकै चहुँघोरन मोदमरे बन मोर नचैगे ।

बारिद बीजु छटा जुत देखि बियोगिन के तन ताप तचैगे ॥

त्यों जयदेव उमंगन सेों नरनारि अपार विहार रचैंगे ।

पावस की रितु में सजनो बिन पीतम के किमि प्रान बचैंगे ॥ १ ॥

(२५८२) अमरकृष्ण चौबे (अमर) ।

ये प्रसिद्ध महाकवि बिहारीलालजी के वंश में हैं । इस समय इनकी अवस्था अनुमान से ४० साल की है । इनका सम्बन्ध बिहारी से इस तरह है ।

प्रथम बिहारीदास प्रगट जिन सप्तसती कृत ।

बिसद ज्ञान के धाम कहुँ लवलेश न दुरमत ॥

तिनके गोकुलदास तनय तिहि खेमकरन गनि ।

दयाराम सुत तासु बडुरि तिनके मानिक भनि ॥

पुनि भे गनेस तिनके तनय बालकृष्ण तिनके भयेउ ।

गुन निपुन चतुरता सहन सो कविता तिय नायक कहेउ ॥१॥

तिनके भो अति मंदमति कविजन किंकर जानि ।

विद्या विमल विवेक बिन अमरकृष्ण पहिचानि ॥२॥

ये बूंदी दरबार के राजकवि हैं । कविता इनकी सरस होती है । उदाहरण—

आरति हरन निगमागम बखानै तोहि

भारी निज विरद प्रभाव क्यों पसारै ना ।

अमर भनत गुनहीन जन दीन जानि

मीन ज्यों विहीन बारि खीनता बिसारै ना ॥

अतुल उदार त्रिपुरारि प्रान प्यारे जग  
 जलधि अथाह पेखि चित्त धीर धारै ना ।  
 कारन सकल कलि वारन पै सिंह रूप  
 तारन कहाय नाम काहे पार पारै ना ॥ १ ॥

(२५८३) श्यामसुंदर (श्याम) ।

ये असनी जिला फ़तेहपुर-निवासी पंडित मन्नालाल मिश्र के पुत्र और कवि सेवक के शिष्य हैं। इन्होंने संवत् १९५२ में ठाकुर महेश्वर बख्शसिंह तअल्लुक़दार रामपुर मथुरा ज़िले सीतापुर की आज़्ञानुसार महेश्वरसुधाकर नामक ग्रंथ बनाया। इसमें नायिकाभेद का वर्णन है और अंत में समस्यापूर्ति के छंद हैं। इस ग्रंथ की भाषा ब्रजभाषा है। कवि ने प्रायः सब उदाहरणों का तिलक भी कर दिया है। ये महाशय साधारण श्रेणी में गिने जाते हैं। उदाहरणार्थ इनका एक छंद लिखा जाता है।

सोमित मोरपत्ना श्रुति कुंडल माल विसाल हिये बिलसी है ।  
 स्याम सरोज विनिंदक नैन सु आनन की समता न ससी है ॥  
 बैन सुधा मुसुकानि अमी सम देखु अरी उर आनि गसी है ।  
 मूरति माधुरी मोहन की सुनतै सजनो मन माहिँ बसी है ॥

(२५८४) बचनेश मिश्र ।

ये रियासत कालाकांकर में नौकर हैं। आप गद्य और पद्य दोनों के अच्छे लेखक हैं। आपकी अवस्था ४० वर्ष के लगभग देखने में समझ पड़ती है। आप बड़े उत्साही पुरुष हैं ।

## (२५८५) गंगाप्रसाद अभिहोत्री (पंडित) ।

ये हमारे प्राचीन मित्र हैं । आप हिन्दी के एक परम प्रसिद्ध गद्य-लेखक हैं और कई स्वतन्त्र ग्रन्थ एवं अनुवाद ग्रन्थ आपने लिखे हैं । आप मध्य प्रदेश की लुईखदान रियासत में ऊँचे कर्मचारी थे । आपका जन्म १९२७ में हुआ । आपने मराठी के चिपलूणकर नामक प्रसिद्ध लेखक के संस्कृत कविपंच एवं निबन्धमालादर्श का भाषानुवाद किया है तथा रसवाटिका नामक रससम्बन्धी एक अच्छा रीति-ग्रंथ लिखा है । भवभूति के आधार पर इन्होंने मालती माधव नामक एक ग्रन्थ उपन्यास के ढङ्ग पर बनाया है । नर्मदा पर आपने एक कविता-ग्रन्थ भी रचा है । आप भाषा के बड़े ऊँचे लेखकों में गिने जाते हैं । आपके ग्रन्थों में निबन्धमाला, प्रणयी माधव, राष्ट्रभाषा, संस्कृत-कविपंच, मेघदूत, डाकूर जानसन की जीवनी और नर्मदाविहार मुख्य हैं । इस समय आप कोरिया रियासत के दीवान हैं ।

## (२५८६) गंगानाथ झा (डाक्टर) महामहोपाध्याय ।

ये संस्कृत के महान् पंडित हैं । आप की अवस्था अभी ४० वर्ष से अधिक नहीं है, पर तो भी आप महामहोपाध्याय और डी लिट की पदवियों से विभूषित हैं । आप अँगरेज़ी एम० ए० तक पढ़ चुके हैं और आज कल ग्योर कालेज इलाहाबाद में शिक्षक हैं । आपने संस्कृत के अनेक ग्रन्थ रचे हैं और कुल भाषा के भी गद्य-ग्रन्थ गम्भीर विषयों पर बनाये हैं ।



## (२५८७) रामजीलाल शर्मा ।

ये प्रयाग में रहते हैं। आपकी अवस्था प्रायः ३४ वर्ष की है। आपने गद्य में कई उत्तम पुस्तकें लिखी हैं, जिन में २३५ पृष्ठों का एक ग्रंथ सीताचरित है। आपकी लेखन-शैली सराहनीय है। आपके १६ ग्रन्थों में से ९ बालकों के लिए लिखे गये हैं। आज कल आप विद्यार्थी नामक मासिक पत्र निकालते हैं।

## (२५८८) राधाकृष्ण मिश्र ।

ये प्रसिद्ध लेखक माधवप्रसाद के कनिष्ठ भ्राता भउभर जिला रोहतक के रहने वाले हैं। आप की अवस्था अब प्रायः ४० वर्ष की होगी। आप संस्कृत के अच्छे विद्वान् हैं और अपने भ्राता के समान सुलेखक हैं।

## (२५८९) राजाराम शास्त्री ।

इनका जन्म सं० १९२७ में हुआ था। आप दयानन्दकालेज लाहौर में अध्यापक हैं। वाल्मीकीय रामायण, वेदान्तदर्शन, योग-दर्शन, मनुष्यसमाज, शङ्कराचार्य (जीवनचरित्र), बृहदारण्य-कोपनिषत् और दशोपनिषत् भाष्य नामक ग्रंथ आपने बनाये हैं। आप भाषा के मर्मज्ञ हैं और उपरोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य कई ग्रंथ लिख चुके हैं। आप बड़े ही परोपकारी और धर्मनिष्ठ सज्जन हैं।

## (२५९०) गणेशदत्त शास्त्री वाजपेयी, कन्नौज ।

इनकी अवस्था प्रायः ४० वर्ष की होगी। आप भारत-धर्म-महामण्डल के एक सुयोग्य और उच्चाशय उपदेशक हैं। आपके

उपदेशों को जनसमुदाय बहुत पसन्द करता है। आपने धर्म एवं दर्शनशास्त्रविषयक कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। आप बड़ा सबल व्याख्यान देते हैं।

नाम—(२५६१) हरिपालसिंह क्षत्रिय सोहिलामऊ डा० झा० संडीला, ज़िला हरदोई।

ग्रन्थ—(१) दुर्गाविजय, (२) प्रेमगीतावली, (३) अन्नपचीसा, (४) प्रेमपचासा, (५) ऊषा-अनिरुद्ध नाटक, (६) वसंत-विनोद, (७) पावसप्रमोद, (८) सिंहासनबत्तीसी पद्य, (९) प्रेमपारिजात, (१०) हरिपालविनोद, (११) ऋतुरसांकुर, (१२) रागरङ्ग, (१३) रागरत्नावली, (१४) वियोग वज्राघात, (१५) चन्द्रहास नाटक, (१६) इंदुमती उपन्यास।

जन्मकाल—१९३६।

कविताकाल—१९५४।

विवरण—आप उत्साही और उत्तम लेखक हैं।

## (२५६२) रामप्रिया जी ।

श्रीमती महारानी रघुराज कुँवरि उपनाम रामप्रिया अवधप्रदेश-शांतीगढ़ ज़िला प्रतापगढ़ के आनरेबुल राजा प्रतापबहादुरसिंह सी० आई० ई० की रानी हैं। इन्होंने महाराज सप्तम पडवर्ड के तिलकोत्सव में इंग्लैंड जाकर महारानी से मुलाकात की थी। ये बड़े विदुषी हैं और महिलाओं की सभासोसाइटी इत्यादि से बड़ी बहानुभूति रखती हैं। इन्होंने भक्तिपद्य के अनेक रागों में रामप्रियाविलास नामक ग्रंथ रचा है, जिससे इनकी विद्या का

परिचय मिलता है । इसी ग्रंथ से एक छंद नीचे लिखते हैं:—  
 कहि रामप्रिया गुन गावैं जो राम के छंद रचैं जो हुलासन सों ।  
 सु अलंकृत छंद विचार्यौ करैं नित बैठे रहैं दृढ़ आसन सों ।  
 फल चारिहु पावैं विना श्रम के भय नाहि कहा जम-पासन सों ।  
 फिरि अंतहुँ स्वर्ग पयान करैं कवि बैठे विमान हुतासन सों ॥

इन्होंने उपरोक्त ग्रंथ के अतिरिक्त स्फुट रचना भी की है ।  
 इनकी भाषा साधारण और भाव सरल हैं ।

इनका स्वर्गवास वैशाख सं० १९७१ में हो गया ।

(२५६३) भगवानदीनजी (लाला, दीन) ।

आपका जन्म संवत् १९३२ में जिला फतेहपुर के मौजा बरवट में हुआ । आप कायस्थ श्रीवास्तव कानूनगो हैं । आपने पहले फ़ारसी भाषा पढ़ी, तदनंतर उर्दू, हिन्दी और अँगरेज़ी एफ़, ए० तक पास की और संस्कृत तथा बँगला में भी अभ्यास किया । आपने कायस्थपाठशाला इलाहाबाद, गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद, छतरपूर स्कूल और हिन्दू कालिजियट स्कूल में शिक्षक का काम किया है । नागरीप्रचारिणी सभा के कोष-विभाग में भी इन्होंने कुछ दिन काम किया है । इस समय आप गया में लक्ष्मी पत्रिका के सम्पादक हैं । आप भाषा गद्य तथा पद्य के योग्य लेखक और सुकवि हैं । आप हिन्दी के बड़े ही प्रेमी तथा शुभचिंतक हैं । हमारे केवल एक कार्ड भेजने पर आपने स्वरचित ५ पुस्तकें भेजीं और आपके पास जो हिन्दी-साहित्य-इतिहास-विषयक बहुत सा

मसाला जमा था, उसके देने का वचन दिया, तथा और कई उचित परामर्श भी दिये । हम आपके हिन्दी-प्रेम तथा उत्साह की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं । आपही सरीखे उत्साही पुरुषों से हिन्दी साहित्य का उपकार हो सकता है । आपकी रचित, अनुवादित तथा सम्पादित पुस्तकें ये हैं :—

(१) भक्तिभवानी (पद्य), (२) आदर्शहिन्दू रमणी (गद्य), (३) धर्म और विज्ञान (अनुवाद), (४) वीर बालक (पद्य), (५) वीर क्षत्रानी, (६) रामचरणांक माला, (७) वीरप्रताप काव्य, (८) हिम्मत बहादुर विरुदावली संपादित, (९) राजविलास सम्पादित, (१०) ठाकुर कवि की जीवनी, (११) आनंदघन, हंसराज, पोहकर, और अक्षर अनन्य की जीवनी, (१२) तुलसीसतसई का पद्यबद्ध अनुवाद, (१३) माल रामायण ।

आपकी कविता के उदाहरण में “वीरप्रताप” से कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है । अकबरी फौज की आमद सुनकर राणा प्रतापसिंह अपने शूर वीरों से कहते हैं :—

सब वीरों से ललकार के थक बात सुनाई ।

यह आखिरी किन्ती मेरी सुनलो मेरे भाई ॥

पैदा हुआ संसार में एक रोज़ मरैगा ।

मरना तो मुक़द्दम है न टारे से टरैगा ॥

फिर इससे भला मौका कहे कौन पड़ैगा ।

रजपूती की क्या गोट का पै रोज़ अड़ैगा ॥

पांसे करौ तलवार तबर तीर के यारो ।

रन खेल मरद का है नरद शत्रु की मारो ॥  
 सुरसों के बड़े बोल की इज्जत को बचाना ।  
 माता व बहन बेटों का सत धर्म रखाना ॥  
 निज धर्म व सुरधामों का सनमान बढ़ाना ।  
 तीरथ व महा धामों का सत्कार कराना ॥  
 इन कामों में गर जान का डर हो तो न डरिए ।  
 क्षत्री का परम धर्म है यह ध्यान में धरिए ॥  
 दिल में जो हो यकलिंगजी भगवान का आदर ।  
 बापा के व साँगा के हों उपकार सरों पर ॥  
 बहनों कि व कन्याओं की इज्जत की हो कुछ दर ।  
 यश लेने का कुछ ध्यान हो निन्दा का हो कुछ डर ॥  
 श्रीराम की औलाद की इज्जत प नज़र हो ।  
 तो भाइयो यह वक्त है बस बाँधो कमर को ॥  
 कैसी ज़ोरदार तक्रार है ? रानाजी मानसिंह को लड़ाई में  
 दूबते हुए उनके पास पहुँचे :—  
 आखिर को बड़ी दैर में श्रीमान को पाया ।  
 ललकार के परताप ने यह बोल सुनाया ॥  
 ऐ मान मुसलमान अँबारी में सँभल बैठ ।  
 अब देख ले छत्री की भी मूछों की ज़रा ऐंठ ॥  
 यह कह के तमक ताव से भाले को सँभाला ।  
 भुज दण्ड के बल तौल किया वार निराला ॥  
 बस छोड़ दिया मान पै यक साँप सा काला ।  
 डस पाता तो बस उग्र का भर जाता पियाला ॥

अफ़सोस महावत ही गिरा उससे निपट कर ।  
 लोहे की शँबारी में रुका जोर से ठट कर ॥  
 चेतक को दपट हाथी के मस्तक पै उड़ाया ।  
 और चाहा कि तलवार से कर दीजे सफ़ाया ॥  
 चेतक ने क्रदम हाथी के मस्तक पै जमाया ।  
 इतने ही में उस हाथी ने रुख अपना फिराया ॥  
 और चीख के भागा कि भगे मान के औसान ।  
 औसान तो भागे पै रहे मान के तन प्रान ॥

(२५६४) बदरीप्रसादजी वैश्य ।

ये लखनऊ में ओवरसियर थे । आपकी मौत संवत् १९६५ में प्रायः ३५ साल की अवस्था में हुई थी । आप हिन्दी के बड़े उत्साही उच्चायक थे । लखनऊ में एक देवनागरी सभा आपने स्थापित की थी, जिसमें प्रायः ३० सभ्य थे । वह सभा आपके साथ ही टूट गई । आप गद्य के एक लेखक भी थे ।

(२५६५) अक्षयवट मिश्र उपनाम (विप्रचन्द) ।

इनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल १२ संवत् १९३१ को दुमराँव में हुआ था । इनके पिता राजेश्वरजी राधाप्रसादसिंह महाराज दुमराँव के सभासद थे । ये शाकद्वीपी ब्राह्मण हैं । इन्होंने संस्कृत भाषा अच्छी पढ़ी है । चार वर्ष मालवा में इन्होंने जैन ग्रन्थों का मागधी से संस्कृत में अनुवाद किया और तीन वर्ष कलकत्ता एवं एक वर्ष मेरठ कालेज में संस्कृत पढ़ाया । अब ये दुमराँवनरेश के

बालक को पढ़ाते हैं। एक वर्ष इन्होंने अवधकेसरी मासिकका  
का सम्पादन किया। आपने संस्कृत के कुछ ग्रन्थ बनाये और  
आनन्दकुसुमोद्यान एवं सदाबहार नामक दो पद्य-ग्रन्थ भी रचे।  
पहले में मनहरनों में शृंगार काव्य और द्वितीय में गाने की चीत  
हैं। इनके अतिरिक्त मिश्रजी ने गंगालहरी, गंगाष्टक, महिम्न,  
शिवतांडव और भामिनीविलास का पद्य में तथा मार्कण्डेय  
पुराण, और दशकुमारचरित्र का गद्य में अनुवाद भी किया है।  
आपने अयोध्यानरेश महाराजा प्रतापनारायणसिंह, पण्डित  
राधाबल्लभ जोशी, अज्ञान कवि, बच्चू मलिक, बालराम स्वामी,  
उमापतिदत्त शर्मा, कवि गोविन्द गिल्ला भाई और दुर्गादत्त परम  
हंस के जीवनचरित्र भी लिखे हैं। फुटकर लेख भी आपके बहुत  
हैं। उदाहरण में स्थानाभाव से केवल दो छन्द यहाँ लिखे जाते हैं।

बार बार चमकै चहूँ घा चंचला री देखु

विप्रचन्द बारिद हू बारि बरसावै है ।

पौन पुरवाई बहै पपिहा पुकारै पीय

मोरगन कूकि कूकि मदन जगावै है ॥

एसे समै नाहों निबहैगो मान तेरो बीर

नाहक अकेली बैठि बेदन बढ़ावै है ।

मानि ले हमारी बात बेगि चलु मेरे साथ

जोरि कर आजु तोहि कान्हर बुलावै है ॥

कबै सु गंग तीर की निकुंज में निवास कै ।

महेश को प्रणाम कै बिसारि नीच आस कै ॥

कलत्र पुत्र देह गेह नेह छोड़ि हू सबै ।

उचारि शम्भु शुद्ध मन्त्र होयैगै सुखी कवै ॥

मिश्रजी के वर्णित विषय और वर्णन आदरणीय हैं ।

(२५६६) श्यामविहारी मिश्र ।

इनका जन्म संवत् १९३० में इटौंजा जिला लखनऊ में हुआ था। इनके पिता पण्डित बालदत्त मिश्र एक सुकवि थे। बाल्या-वस्था में उर्दू पढ़ कर इन्होंने संवत् १९४२ से लखनऊ में अंगरेजी का पढ़ना आरम्भ किया। संवत् १९५२ में बी० ए० पास करके इन्होंने दूसरे साल यम० ए० पास कर लिया और संवत् १९५४ से ये डेपुटी कलेक्टर नियत हो गये। संवत् १९६२ में इन्होंने अपनी नौकरी पुलिस में बदलवा कर डेपुटी सुपरिंटेंडेंट का पद पाया और संवत् ६७ में महाराज छतरपूर ने इन्हें अपनी रियासत के दीवान होने के निमित्त बुलाया। तब ये पुलिस छोड़ कर फिर डेपुटी कलेक्टरी पर चले आये और श्रावण मास से छतरपूर में दीवान हो गये। इन्होंने पद्य रचना १५ या १६ वर्ष की अवस्था से आरम्भ कर दी थी और संवत् १९५५ में अपने कनिष्ठ भ्राता के साथ लवकुशचरित्र नामक पद्य ग्रन्थ अलीगढ़ में रचा। इसी समय से सब छन्द और गद्य लेख साझे ही में बनते रहे। संवत् १९५६ में सरस्वती पत्रिका निकली। तभी से ये गद्य लेख भी लिखने लगे। पहला गद्य-लेख हमीर हठ की समालोचना विषयक था, जो सरस्वती के प्रथम भाग में छपा है। पीछे से स्फुट लेखों के अतिरिक्त विक्रोरियात्रष्टादशी, व्यय, हिन्दी-अपील, कस का



इतिहास, जापान का इतिहास, नेत्रोन्मीलन नाटक, हा काशीप्रकाश, भारतविनय, हिन्दीनवरत्न, मदनदहन और रघुसम्भव नामक ग्रन्थ समय समय पर इन्होंने अपने कनिष्ठ भ्राता के साथ बनाये । आज कल वूँदीवारीश वन रहा है । इनमें से व्यय, रूस का इतिहास, जापान का इतिहास और हिन्दी-नवरत्न गद्य में हैं, हा काशीप्रकाश और भारतविनय खड़ी बोली के पद्य में और नाटक छोड़ शेष ब्रज-भाषा के पद्य में हैं । भूषण ग्रन्थावली नामक ग्रन्थ में भूषण की कविता पर टिप्पणी एवं समालोचना है । कविता की दृष्टि से तो ये रचनाये हीन श्रेणी में भी स्थान पाने की पात्रता नहीं रखती हैं, परन्तु आत्मस्नेह के कारण इनका यहाँ कथन कर दिया गया ।  
उदाहरण—

समरथ सुतन पै राखत पिता है प्रेम

मातु पै कपूतन बिसेख अपनावती ।

देखि प्रौढ़ सुत को सुजस मन मोद भरै

कादर को तबहु छिनौ न बिसरावती ॥

मातु भारती को हैं तौ कादर कपूत मति

याते अम्ब चरन सरन तकि धावती ।

अरबिन्द नन्द सों न सकति अमन्द पाई

मातु नख चन्द की छटाही चित भावती ॥

(२५६७) शुकदेवविहारी मिश्र ।

इनका जन्म संवत् १९३५ में इटौंजा में हुआ था । इनके पिता परिडित बालदत्त मिश्र एक प्रसिद्ध ज़िमीदार और कवि थे । इन्होंने बाल्यावस्था में इटौंजा में उर्दू पढ़ कर संवत् १९४६ से

लखनऊ जाकर अँगरेजी पढ़ना आरम्भ किया । संवत् १९५७ में इन्होंने बी० ए० हो कर संवत् १९५८ में हाईकोर्ट वकील की परीक्षा पास की । इन्होंने पद्यरचना १५ वर्ष की अवस्था से आरम्भ की थी, परन्तु प्रथम ग्रन्थ लवकुशचरित्र संवत् १९५५ में अपने ज्येष्ठ भ्राता श्यामविहारी मिश्र के साथ अलीगढ़ में बनाया । सरस्वती पत्रिका के निकलने के साथ इन्होंने गद्य लिखना आरम्भ किया । ग्रन्थों के विषय में जो कुछ श्यामविहारी मिश्र के वर्णन में लिखा है वही इनके विषय में भी समझना चाहिए ; क्योंकि इन दोनों की सब हिन्दी रचनायें साझे ही में बनी हैं । संवत् १९६४ में ये मुंसिफ़ नियत होकर बिलग्राम भेजे गये और अब सीतापूर के मुंसिफ़ हैं । काव्योत्कर्ष की दृष्टि से इनकी भी रचना हीन श्रेणी तक नहीं पहुँचती, परन्तु आत्मस्नेह पेसा अपूर्व पदार्थ है कि अपने विषय में भी कुछ लिख देने पर विवश करता है ।

उदाहरण—

बालमीकि व्यास कालिदास भवभूति आदि  
 लाड़िले सुतन को न तेरे बिसरायों मैं ।  
 पंगु सम तऊ गिरिलंघन को धाय मातु  
 तौ सुत बनन हेतु लालसा बढ़ायों मैं ॥  
 भ्रातन के धवल सुजस मैं कपूत बनि  
 केवल कराल कालिमा को चपकायों मैं ।  
 राखु मातु सारदा दया की दीठि फेर तऊ  
 साहस कै अब तौ सरन तकि आयों मैं ॥

पिंगल सों छाँटि सब सुन्दर सरस छन्द  
 करना कै देवि यहि रचना मैं धारा करु ।  
 रंकता विदारि त्यों प्रगाढ़ अधिकार  
 दैकै सबदसमूह मम सम्मुख पसारा करु ॥  
 परम बिसाल ध्वनि व्यंग्यन की आल करि  
 दोषन के जालन दया सों वेगि जारा करु ।  
 भूषननि भावनि रसनि परिपूरित कै  
 बाल कविता को मातु सारद सहारा करु ॥

(२५६८) श्यामसुन्दरदास खत्री ।

इनका जन्म आषाढ़ संवत् १९३२ में बनारस में लाला देवीदास खन्ना के घर हुआ था । इनके पूर्वपुरुष लाहौरवासी थे, पर बनारस में रहने लगे थे । आपने संवत् १९५४ में बी० ए० परीक्षा पास की और संवत् १९५६ से दस वर्ष तक उदारता से हिन्दू कालेज में अल्प वेतन पर अध्यापक का काम किया । काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा स्थापित करने में आपने विशेष श्रम किया और १२ वर्ष से अधिक आप उसके मन्त्री रहे । सभा को वर्तमान उन्नत दशा में पहुँचाने में सबसे बड़ा परिश्रम आपही ने किया । आप ९ वर्ष तक हिन्दीलिखित ग्रन्थों के खोज वाला काम भी करते रहे । खोज की रिपोर्टों से आपकी विद्वत्ता प्रकट होती है । सरस्वती पत्रिका के आप दो वर्ष स्वतंत्र सम्पादक रहे और पृथ्वी-राज रासो के सम्पादन में दो अन्य महाशयों के साथ अच्छा श्रम किया । 'हिन्दी-कोविद-रत्नमाला' नामक ग्रन्थ में आपने ४० लेखकों

की जीवनिर्मा दीं हैं। हिन्दी के एक भारी कोष बनाने में आज कल दो तीन साल से आप बड़ा उपकारी श्रम कर रहे हैं। यह कोष तैयार होने पर हिन्दी के एक भारी अभाव की पूर्ति करेगा। इन ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक अन्य छोटे बड़े ग्रंथ आपने बनाये और सम्पादित किये। आप गद्य-लेखक अच्छे हैं और आपकी गवेषणायें बड़ी ही महत्त्वपूर्ण होती हैं। हिन्दी के लिए जितना श्रम आपने किया है उतना बहुतों ने नहीं किया। आपका जीवन हिन्दी के लिए बड़ा ही उपकारी है। बहुत से लोगों ने आपके कार्यों में बाधायें डालीं, पर आप वैसे ही दत्तचित्त रहकर कार्य करते जाते हैं। कई विद्वानों की सहायता से आपने आठ वर्ष के प्रचुर परिश्रम से हिन्दी वैज्ञानिक कोष नामक एक और भी उपयोगी ग्रन्थ तैयार किया। आप में एक विशेष गुण यह भी है कि आप दूसरों को प्रोत्साहन देकर हिन्दी की सेवा में तत्पर करते रहते हैं। आप हमारे प्राचीन मित्र हैं।

### (२५६६) श्रीसरस्वती देवी ।

ये नगवा गाँव जिला आजमगढ़ के कवि त्रिपाठी रामचरित्रजी की पुत्री हैं। इनके छन्द कानपुर, के रसिकमित्र में छपा करते हैं। इन के पिता डुमराव महाराज के यहाँ रहते थे। वे एक अच्छे कवि थे। सरस्वती देवी अभी वर्तमान हैं। इनके बनाये नीतिनिचोड़, सुन्दरी सुपंथ, वनिताबन्धु और शारदाशतक ग्रन्थ अच्छे हैं। इनमें नीतिनिचोड़ हमने देखा है। इनकी कविता श्रेष्ठ होती है। इनकी गणना साधारण कवियों की श्रेणी में है। इनके छन्दों से विदित होता है कि इन्हें कविता करने की अच्छी शक्ति है और इनके छन्द भी मनोहर हैं।

ऊधव जाय कहौ उनसों पठई पतियाँ जिन जुक्ति भरी हैं ।  
 ज्ञानी वही जग जाहिर हैं जिनसों नहि नायन हू उबरी हैं ॥  
 साधन योग स्वतन्त्र समाधि विरक्त भली जगसों कुवरी हैं ।  
 ए ब्रज बाल विहाल महान वियोग की मार प्रचंड परी हैं ॥

नैन कजरारे कोरवारे धनु भौंह तानि

भारत निसंक वान नेकु ना डरत हैं ।

बेसर बिसेष वेष कीमति जड़ाऊ

देखि तारन समेत तारापति हहरत हैं ॥

अधर कपोल दन्त नासिका बखानौं कहा

केस की सुवेस लखि सेस कहरत हैं ।

श्रीफल कठोर चक्रवाक से निहारे तेरे

उरज अमोल गोल घायल करत हैं ॥

(२६००) बाघेली विष्णुप्रसाद कुँवरि जी ।

ये महाशया रीवानरेश महाराजा श्रीरघुराजसिंह जी की पुत्री हैं । इनका विवाह जोधपूर के महाराजा श्री यशवन्तसिंहजी के छोटे भाई महाराजा श्रीकिशोरसिंह जी के साथ संवत् १९२१ में हुआ था । इनकी भगवद्भक्ति सराहनीय है । इन्होंने एक अच्छा मन्दिर बनाकर उसकी प्रतिष्ठा संवत् १९४७ में की । महाराज किशोरसिंह जी का देहांत संवत् १९५५ में हो गया । कुँवरिजी ने अवधविलास और कृष्णविलास नामक दो ग्रंथ बनाये हैं । कानपूर रसिकसमाज की समस्याओं पर इनकी कविता प्रायः लया करती है । कविता इनकी अच्छी और भक्तिपूर्ण होती है ।

इनकी रचना से कुछ छन्द लिखे जाते हैं। इनका शरीरपात हुए थोड़ा समय हुआ।

छोड़ि कुलकानि और अनि गुरु लोगन की  
जीवन सु एक निज जाहि हित मानी है।  
दरस उपासी प्रेम रस की पियासी जाके  
पद की सुदासी दया दीठि की विकानी है ॥  
श्री मुख मयंक की चकौरी ये सुखेरी बीच ब्रज की  
फिरत है ह्वै भोरी दुख सानी है।

जिन्हँ अतिमानी चख पूतरी सी जानी  
हम सों ते रारि ठानी अब कूबरी मिठानी है ॥ १ ॥

सुन्दर सुरंग अंग अंग पै अनंग वारों  
जाके पदपंकज ये पंकज दुखारो है।  
पीत पटवारो मुख मुरली सँवारो प्यारो  
कुंडल भलक सिर मोर पंख धारो है ॥

कोटिन सुधाकर की सुखमा सुहात जाके  
मुख माँ लुभाती रमा रंभा सी हजारो है।

नन्द को दुलारो श्री जसोदा को पियारो  
जौन भक्त सुख सारो सो हमारो रखवारो है ॥ २ ॥

(२६०१) गंगाप्रसाद गुप्त, काशी।

ये अग्रवाल वैश्य हैं। इनका जन्मकाल १९४२ है। आपने संवत् १९५७ से हिन्दी-लेखन का कार्य आरम्भ किया और अब तक आप ५६ ग्रन्थ रच चुके हैं, जिनमें उपन्यासों का प्राधान्य है। आपके

ग्रन्थों में मुख्य ये हैं :—राजस्थान का इतिहास (पूर्वार्द्ध), बर्नियर की भारतयात्रा, पन्नाराज्य का इतिहास, लङ्काभ्रमण, तिब्बतवृत्तान्त, कालिदास का जीवनचरित्र, रामाभिषेक, दुःख और सुख, पूना में हलचल, और हिन्दी का भूत वर्तमान और भविष्य । आपने समय समय पर भारतजीवन, हिन्दीकेसरी, श्रीवेङ्कटेश्वर-समाचार और मारवाड़ी का सम्पादन किया है और अब आप 'हिन्दी-साहित्य' नामक मासिक पत्र निकाल रहे हैं । आप एक बड़े ही होनहार और प्रशंसायोग्य लेखक हैं ।

(२६०२) मन्नन द्विवेदी गजपुरी (पंडित) बी० ए०  
एम० ए० एस० बी० ।

गोरखपुर ज़िलान्तर्गत रापती-नदी-तटस्थ गजपुर गाँव में जीविका-वश कुछ कान्यकुब्ज घराने आ बसे हैं । इन्हीं में कश्यप गोत्रीय मंगलायल के दुबे लोगों का कुल भी है । इसी वंश में पं० मातादीन द्विवेदी एक प्रसिद्ध रईस ज़मीन्दार और कवि हैं । आप व्रजभाषा के अच्छे कवि हैं । पं० मन्नन द्विवेदी आपही के ज्येष्ठ पुत्र हैं । संवत् १९४७ वि० की आषाढ़प्रतिपदा के दिन आपका जन्म हुआ है । सब परीक्षाओं को अच्छी तरह से पास करते हुए सन् १९०८ ई० में आपने गवर्नमेंट कालेज बनारस से बी० ए० पास किया । कविता करने का और लेख लिखने का आपको लड़कपन से शौक है । जब आप अँगरेज़ी के छठवें दरजे में थे तभी से आपके लेख और कविता समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में छपती आई हैं । अब तो हिन्दी के प्रायः सभी पत्र-पत्रि-

काग्रों में आपके लेख और कविता छपती हैं। अब तक आपकी सैकड़ों कवितायें पत्र-पत्रिकाओं में निकल चुकी हैं। इनमें से निम्नलिखित कवितायें मुख्य हैं:— (१) मातृभूमि से विदाई (२) मातृभूमि (३) मृत्युशय्याशायी रावण (४) विन्ध्याचल (५) भारत-माता गाँधी के प्रति (६) प्रेमपंचक (७) ग्रामीण दृश्य (८) अर्धरात्रि (९) जन्माष्टमी (१०) दासत्व (११) गृहलक्ष्मी (१२) सती सुलोचना (१३) प्रार्थना (१४) काशी (१५) प्रयाग (१६) हमारा ग्राम (१७) विश्वामित्र दशरथ के प्रति (१८) उच्छ्वास (१९) चकोर की वेदना और (२०) वर्षा । आप आजकल तहसीलदार हैं और काम से छुट्टी नहीं रहने पर भी कुछ न कुछ लिखा ही करते हैं। आपने निम्न लिखित पुस्तकें लिखी हैं:—

(१) वन्धुविनय (पद्य), (२) धनुषभंग (पद्य), (३) रणजीतसिंह का जीवनचरित्र, (४) आर्यललना, (५) गोरखपुरविभाग के कवि (६) भारतवर्ष के प्रसिद्ध पुरुष । कविता के उदाहरण ।

जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन ।  
जिसके मिट्टी जल से ही है रचा गया हम सबका तन ॥  
गिरिबर गण रक्षा करते हैं उच्च उठा के शृंग महान ।  
जिसके लता द्रुमादिक करते हमको अपनी छाया दान ॥  
माता केवल बालकाल में निज भ्रंक्रम में धरती है ।  
हम अशक्त जब तलक तभी तक पालन पोषण करती है ॥  
मातृभूमि करती है मेरा लालन सदा मृत्यु पर्यंत ।  
जिसके दया प्रवाहों का नहीं होता सपने में भी अंत ॥



मरजाने पर कण देहों के इसमें ही मिल जाते हैं ।  
 हिंदू जलते यवन इसाई दफ़न इसी में पाते हैं ॥  
 ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्गलोक से भी प्यारी ।  
 जिसके पदकमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी ॥

(२६०३) हेमन्तकुमारी देवी (भट्टाचार्य) ।

आपका जन्म सं० १९४३ में लखनऊ में हुआ था और विवाह १९५६ में । आपको हिन्दी से बड़ा प्रेम है और उसकी उन्नति में आप सदैव श्रमशीला रहती हैं । प्रयागप्रदर्शिनी से लाभ नामक १५० पृष्ठों के निबन्ध पर आपको ५००) पुरस्कार मिला था । इसी प्रकार आदर्शपुरुष रामचन्द्र पर भी एक लेख पर आप को ५०) का पुरस्कार मिला । आपने स्त्रीकर्तव्य, युक्त प्रदेश का व्यापार और वैज्ञानिक कृषि नामक तीन ग्रन्थ लिखे हैं और हिन्दी-विश्वकोष लिखने की आप की इच्छा है । आप काशी में रह कर सदैव के लिए हिन्दीसेवा का भार लेना चाहती हैं । इस महिला-रत्न का जीवन धन्य है । ईश्वर इसे चिरायु और सफलमनोरथ करे, यही हमारा आशीर्वाद है ।

(२६०४) जानकीप्रसाद द्विवेदी ।

इनके पिता पंडित रामगुलाम गढ़ा कोटा ज़िला सागर मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं । इनका जन्म संवत् १९३६ में हुआ । कविता करनाही इनका रोज़गार है । निम्नलिखित ग्रंथ इनके बनाये हुए हैं—  
 (मुद्रित ग्रंथ) (१) जानकी सतसई, (२) मित्रलाम, (३) शिवपरिचय,

- (४) राक्षस काव्य का अनुवाद, (५) घटखर्पर काव्य, (६) नर्मदा-  
माहात्म्य, (७) शृंगारतिलक, (८) वेश्याषोडश, (अमुद्रित)  
(९) साहित्यसरोवर, (१०) काव्यदोष, (११) भँडौवाभंडार,  
(१२) काव्यकौमुदी, (१३) नारीनखशिख, (१४) प्रकृति-  
प्रमोद, (१५) व्यंग्योक्तिविलास, (१६) अन्योक्तिपचासा,  
(१७) राधाकृष्णसंवाद, (१८) रग्माशुकसंवाद, (१९)  
विनयशतक, (२०) समस्यापञ्चीसी, (२१) सान सावन,  
(२२) महेन्द्रमंजरी ।

इस समय के अन्य कविगण ।

समय संवत् १६४६ के पूर्व ।

नाम—(२६०५) सुवंस ।

ग्रन्थ—ढेकी ।

नाम—(२६०६) युगलमाधुरी ।

ग्रन्थ—मानसमार्तण्डमाला ।

समय संवत् १६४६ ।

नाम—(२६०७) अयोध्यानाथ सरयूपारीण ।

ग्रन्थ—(१) रामविनयमाला, (२) जानकीविनयमाला, (३) भरत-  
विनयमाला, (४) लक्ष्मणविनयमाला, (५) शत्रुघ्नविनय-  
माला, (६) हनुमानविनयमाला, (७) पितृविनयमाला, (८)  
विनयावली ।

जन्मकाल—१९२१ । वर्तमान ।

नाम—(२६०८) कन्हैयालाल ब्राह्मण, ग्राम कुर्का, जिला गया ।

ग्रन्थ—(१) पिङ्गलसार, (२) समस्यापूर्ति, (३) सरलशुभकरी, (४) विद्याशक्ति, (५) गयापद्धति ।

जन्मकाल—१९२१ । वर्तमान ।

नाम—(२६०९) जगमोहन, दास कवि के पुत्र ।

ग्रन्थ—स्फुट छन्द राजा चन्द्रशेखर सिसैंडी की प्रशंसा में ।

जन्मकाल—१९२१ । वर्तमान ।

नाम—(२६१०) वाचस्पति तिवारी ( चेत ), गोनी, जिला हरदोई ।

ग्रन्थ—(१) पंचांगदीपिका व नष्टजन्मदीपिका, (२) मानसप्रश्न-दीपिका, (३) कर्मसिद्धांतदीपिका, (४) आश्चर्यदीपिका (५) गंजीफ़ायकतीसी, (६) जादू-बंगाल, (७) फ़ारसी-शब्दसंज्ञा, (८) यामिनीयोगमालिका, (९) समस्याप्रकाश, (१०) सत्य-नारायणकथा ।

जन्मकाल—१९२१ । वर्तमान ।

नाम—(२६११) रघुवरप्रसाद द्विवेदी बी० ए० सम्पादक हितकारिणी, जबलपूर ।

जन्मकाल—१९२१ । वर्तमान ।

नाम—(२६१२) रामरत्नजी परमहंस ।

ग्रन्थ—(१) शब्द, (२) कुंडलिया ।

नाम—(२६१३) रामलाल ब्राह्मण, ग्राम जीगौं, ज़िला राय-  
बरेली ।

ग्रन्थ—४ ग्रन्थ भाषा में ।

जन्मकाल—१९२१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६१४) लक्ष्मणसिंह तिवारी, भलसंड ।

जन्मकाल—१९२१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६१५) मणिमंडन मिश्र ।

ग्रन्थ—पुरन्दरमाया ।

कविताकाल—१९४७ के पूर्व । एक मणि मंडन मिश्र तुलसीदास के  
समकालीन थे ।

समय संवत् १६४७ ।

नाम—(२६१६) गोपालदासवल्लभ शरण, बिजावर ।

ग्रन्थ—संगीतसागर ।

नाम—(२६१७) गंगाबन्धु ठाकुर तालुकदार, रामकोट,  
सीतापुर ।

ग्रन्थ—कृष्णचन्द्रिका ।

जन्मकाल—१९२० ।

विवरण—साधारण श्रेणी । १९५५ में ३५ साल की अवस्था में ही  
स्वर्गवासी होगये ।

नाम—(२६१८) दलथम्भनसिंह ( द्विजदास ), हथिया,  
सीतापुर ।

जन्मकाल—१९०३ । मृत ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२६१९) देवीदत्त ब्राह्मण, जैथी, पो० विहार ।

जन्मकाल—१९२२ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६२०) भगवानदास ।

ग्रन्थ—राजा भवानीसिंहप्रकाश ।

विवरण—दतिया-नरेश की प्रशंसा में बनाया गया ।

नाम—(२६२१) महीपतिसिंह ठाकुर ।

ग्रन्थ—बालविनोद ।

जन्मकाल—१९२२ (मृत) ।

नाम—(२६२२) यज्ञेश्वर, रामचन्द्रपुर ।

ग्रन्थ—(१) यज्ञेश्वरविहार, (२) गणेशमनोरंजनी ।

जन्मकाल—१९२२ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६२३) हरिचरणसिंह, अजमेर ।

ग्रन्थ—(१) वीरनारायण, (२) वूँदीराजचरितावली, (३) पृथ्वी-  
राज-महोवा-संग्राम, (४) अन्नगपाल पृथ्वीराजसमय ।

जन्मकाल—१९२२ ।

नाम—(२६२४) बचऊ चौबे (रसीले), काशी ।

ग्रन्थ—ऊघो-उपदेश ।

कविताकाल—१९४८ । के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

समय संवत् १९४८ ।

नाम—(२६२५) ईश्वरदत्त । मृत ।

नाम—(२६२६) गोपालदास. आगरा ।

जन्मकाल—१९२३ ।

विवरण—भूतपूर्व-सम्पादक जैनमित्र ।

नाम—(२६२७) छोटेलाल कायस्थ, देउरी, जिला सागर ।

जन्मकाल—१९२३ । वर्तमान ।

नाम—(२६२८) बदलूप्रसाद त्रिपाठी, करबिगर्वा, कानपुर ।

ग्रन्थ—(१) गूढार्थसंग्रह, (२) मायाङ्कुर संग्रहावली, (३) बारहमासा (सागर), (४) बारहमासी विरहमञ्जरी, (५) बारहमासा विरहभार ।

नाम—(२६२९) मुनुआँ ब्राह्मण (शुक्ल), ग्राम अलीनगरकर्ला, जिला बहरायच ।

ग्रन्थ—(१) रामराजविलास (पृ० ११४), (२) परमहंसपञ्चीसी (पृ० २२) (१९५९), (३) रघुराजविलास (पृ० ३२), (४) जीवनचरित्र परमहंस को (पृ० २२) ।

नाम—(२६३०) रणजीतमल्ल (इयाम) मँझौली ।

जन्मकाल—१८३३ ।

विवरण—महाराज मँझौली उदयनारायणसिंह के भाई थे ।

नाम—(२६३१) राधाकृष्ण अवस्थी ।

ग्रन्थ—देवीप्रसाद भूषण ।

नाम—(२६३२) लालमणि वैद्य, रैटगंज, फर्रुखाबाद ।

ग्रन्थ—प्रमोदप्रकाश ।

जन्मकाल—१९२२ ।

नाम—(२६३३) शीतलप्रसादसिंह ।

ग्रन्थ—श्रीसीतारामचरितायन ।

जन्मकाल—१९२३ ।

विवरण—आप सुयोग्य कवि और सज्जन पुरुष हैं ।

नाम—(२६३४) शैलजी ब्राह्मण (शैल), बैरिहा, राज्य रीवा ।

जन्मकाल—१९२३ । वर्त्तमान ।

समय संवत् १९४६ ।

नाम—(२६३५) आत्माराम, बड़ौदा ।

ग्रंथ—वैदिकविवाहादर्श ।

जन्मकाल—१९२४ ।

विवरण—आप बड़ौदा राज्य में शिक्षा के डाइरेक्टर हैं ।

नाम—(२६३६) कान्हलाल (कान्ह), गयाक्षेत्र, नवा गढ़ी ।

ग्रन्थ—(१) संगीत मकरंद, (२) सावन मयूर, (३) सुधातरं-

गिष्ठी, ( ४ ) आनन्दलहरी, ( ५ ) जगन्नाथमाहात्म्य, ( ६ )  
नखशिख ।

जन्मकाल—१९२४ । वर्तमान ।

नाम—( २ ६ ३ ७ ) देवीदयालु, जालन्धर ।

ग्रन्थ—जीवनयात्रा ।

जन्मकाल—१९२४ ।

विवरण—आप आर्यसमाज के उपदेशक हैं ।

नाम—( २ ६ ३ ८ ) पन्नालाल ब्राह्मण, सुजानगढ़, बीकानेर ।

ग्रंथ—४० पुस्तकें ।

जन्मकाल—१९२३ ।

विवरण—भूतपूर्व सम्पादक जैनहितैषी ।

नाम—( २ ६ ३ ९ ) पहलवानसिंह, मकरन्दनगर, फ़र्रुखाबाद ।

ग्रंथ—( १ ) नलोपाख्यान, ( २ ) संक्षिप्त क्षत्रियव्यवस्था, ( ३ )  
राठोरवंशावली ।

जन्मकाल—१९२३ ।

नाम—( २ ६ ४ ० ) पुत्तलाल ( श्याम ) हलवाई, साँडी, ज़िला  
हरदोई ।

ग्रंथ—( १ ) उरगविषमर्दन, ( २ ) श्यामकविपदावली, ( ३ )  
श्यामशतक, ( ४ ) श्यामकविल्लंद ।

जन्मकाल—१९२४ । वर्तमान ।

नाम—( २ ६ ४ १ ) बदरीदत्त शर्मा, काशीपुर, नैनीताल ।



ग्रन्थ—( १ ) दशोपनिषत् (अनुवाद) (२) विवेकानन्द के व्याख्यान ( भाषा ), (३) अबलासंताप और (४) संस्कृतप्रबोध ।

जन्मकाल—१९२४ ।

विवरण—आजकल आप कानपूर आर्यसमाचार के सम्पादक हैं, और वहाँ रहते हैं ।

नाम—( २ ६ ४ २ ) बलभद्रसिंह क्षत्रिय बहैड़ा, पोस्ट खैरीघाट, ज़िला बहराइच ।

ग्रंथ—शंभुशतक ।

जन्मकाल—१९२४ । वर्त्तमान ।

नाम—( २ ६ ४ ३ ) विश्वनाथशर्मा, मथुरा ।

ग्रंथ—(१) स्थावरजीवमीमांसा, (२) वर्णव्यवस्था, (३) पुराणतत्त्व ।

जन्मकाल—१९२४ ।

नाम—( २ ६ ४ ४ ) विष्णुलाल शर्मा एम० ए०, बरेली, सबजड़ अलीगढ़ ।

ग्रन्थ—आर्यसमाजपरिचय ।

जन्मकाल—१९२४ ।

नाम—( २ ६ ४ ५ ) बोधईराम ब्राह्मण, सरौई, ज़िला मिर्ज़ापुर ।

ग्रन्थ—प्रतापविनोद ।

जन्मकाल—१९२४ । वर्त्तमान ।

नाम—( २ ६ ४ ६ ) मालिकराम त्रिवेदी, दावरीनारायण क्षेत्र, बिलासपुर ।

ग्रन्थ—(१) प्रबोधचन्द्रोदय नाटक का हिन्दी अनुवाद, (२) दावरी नारायण-माहात्म्य, (३) रामराज्यवियोग नाटक ।

विवरण—खड़ी बोली की कविता ।

मृत्यु—१९६६ में ।

नाम—(२६४७) मीठालालजी व्यास, व्यावर, राजपूताना ।

ग्रन्थ—(१) सर्वतोमद्र चक्र, (२) भारत का वायुशास्त्र, (३) टाइ साहब की भूल ।

जन्मकाल—१९१७ ।

नाम—(२६४८) शिवदुलारे पाण्डेय, मस्तूरी ।

ग्रन्थ—हनुमानतमाचा ।

जन्मकाल—१९२४ ।

नाम—(२६४९) रामनारायण मिश्र, काशी ।

ग्रन्थ—जापानदर्पण ।

जन्मकाल—१९२४ ।

विवरण—आप हिन्दी के सुलेखक हैं ।

नाम—(२६५०) शिवप्रसाद, जौनपुर ।

जन्मकाल—१९२४ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६५१) सीताराम, उपाध्याय, पिलकिल्ला, जौनपुर ।

ग्रन्थ—(१) चैतन्यचन्द्रोदय, (२) वामामनरञ्जन, (३) नाम-प्रताप, (४) शृङ्गारांकुर, (५) काव्यकलामिनी, (६) मंडलीमंडन ।

जन्मकाल—१९२४ । वर्त्तमान ।

समय संवत् १९५० के पूर्व ।

नाम—(२६५२) पजनसिंह कायस्थ, बुँदेलखंड ।

ग्रन्थ—पजनप्रश्नज्योतिष ।

नाम—(२६५३) रामलालशर्मा (साधु) ।

ग्रन्थ—रामचन्द्रज्ञानविज्ञानप्रदीपिका ।

नाम—(२६५४) वेंकटेश स्वामी ।

ग्रन्थ—आत्मप्रबोध ।

समय संवत् १९५० ।

नाम—(२६५५) अनन्तराम पाण्डेय, रायगढ़ ।

ग्रन्थ—(१) ईशोपनिषत् भाष्य, (२) रायगढ़ का भूगोल, (३) कपटी मुनि नाटक ।

जन्मकाल— १९२८ । मृत्यु १९६४ ।

नाम—(२६५६) उदितनारायण लाल कायस्थ, गाज़ीपुर ।

ग्रन्थ—बँगला के कई उपन्यासों का भाषानुवाद किया है ।

विवरण—ये गाज़ीपुर के प्रसिद्ध पुरुष हिन्दी के बड़े भारी कवि हैं ।

नाम—(२६५७) कुन्दनलाल, पुराने हैड क्लार्क, फ़र्ख़वाबाद ।

विवरण—ये महाशय हिन्दी के बड़े उत्साही पुरुष थे । इन्होंने

‘कवि व चित्रकार’ नामक समस्या का पत्र निकाला और कवियों को पुरस्कार भी दिया था ।

नाम—(२६५८) केदारनाथ चतुर्वेदी उपदेशक, ग्वालियर  
(लङ्कर) ।

ग्रन्थ—कन्यावोधिनी ( गद्य-पद्य ), स्त्रीरत्नमाला ( गद्य ) ।

जन्मकाल—१९२५ ।

नाम—(२६५९) गजराजसिंह क्षत्रिय कैमहरा, ज़िला सीतापुर ।

ग्रन्थ—(१) अजिरविहार, (२) घनश्याम-धुनधुनिया, (३)  
समस्या-प्रकाश ।

जन्मकाल—१९२४ ।

विवरण—हिन्दी के सिवा आप फ़ारसी में भी कविता करते हैं ।  
कविता अच्छी होती है ।

नाम—(२६६०) गोकुलनाथ त्रैदीच्य ब्राह्मण, बनारस ।

ग्रन्थ—पुष्पवती ।

विवरण—गद्य-लेखक उत्तम हैं ।

नाम—(२६६१) जगन्नाथप्रसाद कायस्थ, बनारस ।

नाम—(२६६२) जगन्नाथ शरण, छपरा । गद्य-लेखक ।

ग्रन्थ—(१) नीलमणि, (२) आनन्द-सुन्दरी ।

नाम—(२६६३) जैनेंद्रकिशोर । गद्य के सुलेखक ।

ग्रन्थ—कमलिनी ।

नाम—(२६६४) जीतसिंह बुन्देलखंडी ।

ग्रन्थ—विनयरसामृत ।

नाम—(२६६५) दाताप्रसाद कायस्थ, मिर्जापुर ।

नाम—(२६६६) द्वारिकाप्रसाद कायस्थ, खटवारा, जिला बाँदा ।

ग्रन्थ—(१) स्वरसम्बोधिनी, (२) रेखता रामायण ।

जन्मकाल—१९२४ ।

विवरण—रियासत मैहर में इन्स्पेक्टर हैं ।

नाम—(२६६७) नवलदास तमोली, रीवाँ ।

विवरण—निम्न श्रेणी ।

नाम—(२६६८) महावीरप्रसाद मालवीय, गोपीपुर, जि०  
मिर्जापुर ।

ग्रन्थ—(१) अभिनव विश्रामसागर, (२) रामरसोदधि, (३) रस-  
राजमहोदधि वैद्यक, (४) बालतंत्र वैद्यक, (५) होलीबहार,  
(६) बरषाबहार, (७) मानसप्रबोध, (८) वीरनिघंटु वैद्यक,  
(९) वैद्यदिवाकर, ।

जन्मकाल—१९२५ ।

विवरण—आप कुछ दिन प्रिवंदा मासिक पत्रिका के सम्पादक  
भी रहे हैं ।

नाम—(२६६९) रघुनाथप्रसाद कायस्थ, खटवारा, जि० बाँदा ।

ग्रन्थ—(१) रामभक्तभूषण, (२) रसिकविलास ।

जन्मकाल—१९२५ ।

नाम—(२६७०) शारदाप्रसाद कायस्थ, मैहर ।

ग्रन्थ—(१) श्रीरत्नमयी, (२) मुक्तिमोदक, (३) शारदाष्टक, (४) रसेन्द्रविनोद, (५) शारदाविनय, (६) उदूर् रामायण, (७) उदूर् भागवत ।

जन्मकाल—१९३० ।

विवरण—ये फ़ारसी तथा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं ।

नाम—(२६७१) शिवप्रसाद शर्मा द्विवेदी सरयूपारीण  
ब्राह्मण, शाहगढ़ रियासत विजावर ।

ग्रन्थ—(१) धर्मसोपान, (२) स्फुट कविता व लेख ।

जन्मकाल—१९०८ । वर्तमान ।

नाम—(२६७२) सुदर्शनाचार्य, काशी ।

ग्रन्थ—(१) भगवद्गीतासतसई, (२) आलवारचरितामृत, (३) स्त्री-  
चर्या, (४) नीतिरत्नमाला, (५) विशिष्टाद्वैत अधिकरणमाला,  
(६) अद्वैतचन्द्रिका, (७) संस्कृत भाषा, (८) श्रीरङ्गदर्शक  
शतक, (९) भगवद्गीता भाषाभाष्य (१०) शास्त्रदीपिका  
प्रकाश, (११) अनर्घनलचरित्र नाटक ।

जन्मकाल—१९२५ ।

नाम—(२६७३) जानकीदास ।

ग्रन्थ—अखंडबोध ।

कविताकाल—१९५१ के पूर्व ।

समय संवत् १९५१ ।

नाम—(२६७४) गणपति मिश्र, नोखा, आरा ।

ग्रन्थ—(१) मुक्तिमार्गप्रकाश, (२) सुतानन्दप्रकाश, (३) ऋतु-  
वर्णन, (४) सिद्धेश्वरी स्तोत्र अभिषेक ।

जन्मकाल—१९२६ ।

विवरण—वैदिक उपदेशक ।

नाम—(२६७५) गौरीशंकर भट्ट, कानपुर ।

ग्रन्थ—आपने १० छोटे, छोटे ग्रन्थ लिखे हैं ।

जन्मकाल—१९२६ ।

विवरण—भूतपूर्व सभ्यादक भट्टभास्कर ।

नाम—(२६७६) जागेश्वरप्रसाद कायस्थ, मैहर, मदनपुर ।

ग्रन्थ—शब्दबोध-पिंगल ।

जन्मकाल—१९२६ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६७७) विश्वंभरदत्त ब्राह्मण, नागापुर, पोस्ट टिकैत-  
नगर ।

ग्रन्थ—(१) वृत्रासुर कथा।श्रीभागवत से ।

जन्मकाल—१९२६ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६७८) भौन ।

ग्रन्थ—शक्ति-चिन्तामणि (पृ० ३४) ।

नाम—(२६७९) कामताप्रसाद कायस्थ, बुँदेल खंडी, चिरगाँव,  
भरौसी ।

ग्रन्थ—(१) रामाष्टक, (२) संक्षिप्त रामाश्वमेध आदि कुछ पुस्तकें ।

जन्मकाल—१९१७ ।

विवरण—आप अपनी धुन के इतने पक्के हैं कि देवता-सम्बन्धी जो पुस्तकें आपने पहले बनाई थीं, उनको अपनी स्त्री पुत्रादि के मृत्यु पर उन्हें देवताओं की दया का अभाव मानकर फूँक दिया ।

नाम—(२६८०) कालिकाप्रसाद, डिहमौरा (सास) ।

ग्रन्थ—सियास्वर्यंवर ।

कविताकाल—१९५२ के पूर्व ।

समय संवत् १९५२ ।

नाम—(२६८१) जयमंगलसिंह, दुरजनपुर ।

जन्मकाल—१९२७ । वर्तमान ।

नाम—(२६८२) दामोदर (दम्पति) ।

ग्रन्थ—स्फुट कविता ।

जन्मकाल—१९२७ । वर्तमान ।

नाम—(२६८३) देवीप्रसाद (प्रीतम) कायस्थ, बिजावर ।

ग्रन्थ—(१) श्रीकृष्णजन्मोत्सव, (२) गोगुहार, (३) बिहारीसत-सई का उर्दू-पद्यमय अनुवाद ।

जन्मकाल—१९२७ । वर्तमान ।

नाम—(२६८४) पन्नालाल ब्रह्मभट्ट ।

ग्रन्थ—(१) अमृत-अलंकार, (२) गोविंदगीत (नीति) सुधा ।

जन्मकाल—१९२७ । वर्तमान ।

विवरण—सूद्धार्थनानाविषयसंग्रह ।



नाम—(२६८५) बालगोविंद, अनवरगंज, कानपुर ।

ग्रन्थ—मनोभव, तथा स्फुट छन्द ।

जन्मसंवत्—१९२७ ।

नाम—(२६८६) मुसद्दीराम शर्मा गौड़, ज़ि० मेरठ ।

ग्रन्थ—(१) सुभाषितरत्न, (२) सुखान्तिप्राप्ति, (३) सत्यार्थ-  
प्रकाश ( संस्कृत ) ।

जन्मकाल—१९२७ ।

नाम—(२६८७) मेदिनीप्रसाद ब्राह्मण, रायगढ़, छत्तीसगढ़ ।

ग्रन्थ—(१) पद्ममञ्जूषा, (२) विष्णुषट्पदी आदि ।

जन्मकाल—१९२७ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६८८) रणधीरसिंह ।

ग्रन्थ—(१) काव्यरत्नाकर, (२) भूषणकौमुदी, (३) पिंगल वा  
नामार्थव, (४) रसरत्नाकर ।

जन्मकाल—१८७७ ।

विवरण—तालुकदार सिंह रामऊ, जौनपुर । खोज से संवत् १८९४  
निकलता है ।

नाम—(२६८९) रामनारायण (प्रेमेश्वर) भाट, बछरावाँ,  
ज़िला रायबरेली ।

ग्रन्थ—प्रेमेश्वर विरद दर्पण ।

जन्मकाल—१९३२ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६६०) शिवदयाल (केवल) कायस्थ, मंगलपुर, जिला कानपुर ।

ग्रन्थ—(१) काव्यसंग्रह, (२) रागविनोद, (३) नीतिशतक, (४) चौमासा चतुरंग ।

जन्मकाल—१९३७ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६६१) शिवदास पाण्डेय, मस्तूरी ।

जन्मकाल—१९२७ ।

नाम—(२६६२) हनुमंत ब्राह्मण ।

ग्रन्थ—मूल रामायण (पृष्ठ ३०) ।

समय संवत् १९५३ ।

नाम—(२६६३) कामताप्रसाद गुरु, सागर ।

ग्रन्थ—(१) भाषावाक्यपृथक्करण, (२) हिन्दी-व्याकरण ।

जन्मकाल—१९३२ ।

विवरण—आज कल आप काशी में हैं ।

नाम—(२६६४) गणेशप्रसाद (गणाधिप) बिसवाँ, सीतापुर ।

ग्रन्थ—गणाधिपसर्वस्व ।

जन्मकाल—१९२८ ।

नाम—(२६६५) गुरुदयाल त्रिपाठी वकील, रायबरेली ।

विवरण—आप कई वर्ष तक कान्यकुब्ज हितकारी के सम्पादक रहे ।

हिन्दी के शुभचिंतक हैं । इस समय आपकी अवस्था ४०

साल की होगी । आप इस समय रायबरेली में वकालत करते हैं ।

नाम—(२६६६) गोपालदीन शुक्ल, (शुक्ल) विसर्वा, ज़िला सीतापुर ।

जन्मकाल—१८२८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६६७) नोहर (नवहरि) सिंह (अनुरूप), वृन्दावन ।

ग्रन्थ—(१) हनुमानुत्पत्ति, (२) नोहरविनोद, (३) नोहरविलास ।

जन्मकाल—१९२८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६६८) मुहम्मद अब्दुल्सत्तार (प्यारे) ।

जन्मकाल—१९२८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६६९) रामदासराय पुस्तकालयाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर, बिहार ।

ग्रन्थ—(१) शिक्षालता (२) भारतदशादर्पण (३) लिंगभ्रमसंशोधन (४) हिन्दी करीमा ।

जन्मकाल—१९२८ ।

नाम—(२७००) रामनारायणलाल (बीरन) कायस्थ, छतरपुर ।

जन्मकाल—१९३८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७०१) लुट्टनलाल शर्मा, परीक्षितगढ़, मेरठ ।

ग्रन्थ—भागवतपरीक्षा ।

जन्मकाल—१९२९ ।

## समय संवत् १६५४ ।

नाम—(२७०२) बदरीदत्त मुदरिंस ब्राह्मण, कानपुर ।

ग्रन्थ—प्रवन्धाकौदय ।

जन्मकाल—१९२९ ।

नाम—(२७०३) बलदेवप्रसाद, खडेली, जिला हरदोई ।

ग्रन्थ—(१) अंकगणितार्यमा, (२) सुख की खानि, (३) जीवनेन्द्रार, (४) छद्मी, (५) संतोषशतक ।

जन्मकाल—१९२९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७०४) इन्द्रजीत कायस्थ, तिलहर, शाहजहाँपुर ।

ग्रन्थ—नारीधर्मविचार (चार भाग) ।

जन्मकाल—१९२९ ।

नाम—(२७०५) बाबूलाल ब्राह्मण, अलवर ।

जन्मकाल—१९२९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७०६) बलभद्रसिंह (ठाकुर) ।

ग्रन्थ—(१) संवाद गुरु नानक, (२) नवनाथ, (३) चौरासी सिद्ध ।

नाम—(२७०७) ब्रह्मदेवनारायण, मु० बेलवाँ पो० देव, जिला गया ।

ग्रन्थ—(१) कलिचरित्र, (२) कृपणचरित्र, (३) कलियुगचरित्र ।

जन्मकाल—१९३९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७०८) रामदयालकायस्थ, बेलखेड़ा, जबलपुर ।

ग्रन्थ—(१) तिथिरामायण, (२) कृष्णचरित्र, (३) मुहूर्तमविचा  
(४) भागवतमाहात्म्य, (५) हित की बातें, (६) चित्रको  
कथा, (७) ज्ञानोपदेश बारहमासी, (८) दीनविनयपचास  
(९) ज्ञानप्रदनेत्तरी, (१०) संग्रहशतक ।

जन्मकाल—१९३४ । वर्तमान ।

नाम—(२७०९) रामाधीन शर्मा, लखनऊ ।

ग्रन्थ—(१) पाञ्चाल ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड ।

जन्मकाल—१९२९ ।

नाम—(२७१०) शारदाप्रसाद ( रसेन्द्र ) मु० मैहर ।

ग्रन्थ—रत्नत्रयी आदि ।

जन्मकाल—१९२९ । वर्तमान ।

नाम—(२७११) शिवनारायण झा, मैनपुरी ।

ग्रन्थ—विश्वकर्मवंशनिर्णय ।

जन्मकाल—१९२९ ।

नाम—(२७१२) सगपति मुजफ्फरपुर ।

ग्रन्थ—(१) नीतिभूषण, (२) मंत्रविषोद्धारचन्द्रिका ।

जन्मकाल—१९२९ । वर्तमान ।

नाम—(२७१३) सर्वसुखदास (राधावल्लभी) ।

ग्रन्थ—सेवकवानी की टीका ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२७१४) सीताराम ( निकुंज ), पन्ना ।

ग्रन्थ—(१) रसमार्तंड, (२) रसकलानिधि, आदि कई ग्रन्थ रचे ।

जन्मकाल—१९२९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७१५) हरिदत्त त्रिपाठी, खेमीपुर, आजमगढ़ ।

ग्रन्थ—(१) प्रबन्धदीप, (२) सुवर्णमाला, (३) मापनियम-चन्द्रिका, (४) संगीत रामायण, (५) दीनसप्तशती ।

जन्मकाल—१९२९ ।

समय संवत् १९५५ ।

नाम—(२७१६) अमीरराय ( मीर ), सागर, मध्यप्रदेश ।

ग्रन्थ—कुछ ग्रन्थ रचे हैं ।

जन्मकाल—१९३० । वर्त्तमान ।

नाम—(२७१७) कृष्णानंद पाठक, माधवरामपुर, डा० गोपी-गंज, जिला मिर्जापुर ।

जन्मकाल—१९३९ । वर्त्तमान ।

विवरण—आप संस्कृत के अच्छे विद्वान् हैं । भाषा की भी कविता समस्यापूर्ति इत्यादि करते हैं । आपके लगभग ७०० स्फुट छन्द हैं ।

नाम—(२७१८) गोवर्द्धनलाल ।

ग्रन्थ—(१) प्रेमप्रकाश, (२) हितपाठदर्शन ।

विवरण—पहले वृन्दावन में रहते थे, अब मिर्जापुर में रहते हैं ।

नाम—(२७१६) खुसालीराम (द्विज हेम), जबलपुर छावनी ।

जन्मकाल—१९२९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७२०) तिलकसिंह ठाकुर, गाँयूपूर, सीतापूर ।

ग्रन्थ—(१) वेदशासागर, (२) कृष्णखंड ।

जन्मकाल—१९१३ ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२७२१) तिलकसिंह ठाकुर, पूरनपूर, जि० कानपूर ।

ग्रन्थ—(१) स्फुट काव्य, (२) वारामासी योगसार ।

जन्मकाल—१९३० । वर्त्तमान ।

नाम—(२७२२) बरजोरसिंह परिहार, ग्राम विहार, जि०

फ़र्रुखाबाद ।

ग्रन्थ—नीतिशतक ।

जन्मकाल—१९२९ ।

नाम—(२७२३) बालमुकुंद शर्मा, मुरादाबाद ।

ग्रन्थ—(१) सुधर्ममंजरी (सनातनधर्मव्याख्या पद्य), (२)

मुक्तावली रामायण (दोहा चौपाई), (३) आल्हाखण्ड

रामायण (रामचरित), (४) आल्हाखण्ड महामारत

(कौरवपाण्डव-लीला) आदि ।

जन्मकाल—१९२९ ।

नाम—(२७२४) वृन्दावनराम (ब्रजेश) ब्राह्मण, पड़ा,  
राज्य रीवा ।

ग्रन्थ—(१) हनूमानशतक, (२) हनूमानपंचक, (३) दान-  
लीला ।

जन्मकाल—१९३० (वर्त्तमान) ।

नाम—(२७२५) भगवानदीन द्विवेदी (आतम), गोड़वा,  
जि० हरदोई ।

ग्रन्थ—(१) तमाखूमाहात्म्य, (२) शिवविनयपचीसी, (३)  
कलियुगी संन्यास नाटक, (४) हत्याहरणमाहात्म्य, (५)  
बारामासा, (६) अनूठी भगतिन उपन्यास, (७) सदुप-  
देशदोहावली, (८) प्राणप्यारी, (९) रसिकराग-पंचा-  
शिका ।

जन्मकाल—१९३१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७२६) मधुरप्रसाद ब्राह्मण, रीवा ।

जन्मकाल—१९३० । वर्त्तमान ।

नाम—(२७२७) माधवप्रसाद कान्हर कायस्थ, अजयगढ़ ।

जन्मकाल—१९३० । वर्त्तमान ।

नाम—(२७२८) यङ्गराजदास भाट, श्रीनगर ।

ग्रन्थ—(१) जगदम्बपसाली, (२) कोशकली, (३) रामायण-  
माला, (४) सूरसागरतरंग, (५) भट्टोपाख्यान, (६)  
वैद्यनाथमाहात्म्य ।



जन्मकाल—१९३० । वर्त्तमान ।

नाम—(२७२६) रघुनाथप्रसाद उपाध्याय, जौनपुर ।

ग्रंथ—निर्णयमंजरी ।

जन्मकाल—१९०१ । मृत ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२७३०) रघुपतिसहाय कायस्थ, शौसपुर, ज़ि० गाज़ी-  
पुर ।

ग्रंथ—तुलसीदास का जीवनचरित्र ।

जन्मकाल—१९३० ।

नाम—(२७३१) रामचन्द्र (चन्द्र) ब्राह्मण, जैत, मथुरा ।

ग्रंथ—(१) आनंदोद्यान, (२) आनंदकल्पद्रुम, (३) चन्द्रसरो-  
वर आदि १२ ग्रंथ रचे हैं ।

जन्मकाल—१९३० । वर्त्तमान ।

नाम—(२७३२) रामचन्द्र आनन्दराव देशपांडे, अध्यापक  
नार्मलस्कूल, नागपुर ।

ग्रंथ—(१) शिक्षाविधि, (२) महाजनी हिसाब ।

जन्मकाल—१९३० । वर्त्तमान ।

नाम—(२७३३) रिखि (ऋषि) लाल, मु० गौरा, बादशाह-  
पुर ।

ग्रंथ—(१) पावसप्रेमलता, (२) वैद्यवल्लभ, (३) नानाछन्दोर्णव,  
आदि ।

जन्मकाल—१९३० । वर्तमान ।

नाम—(२७३४) रोशनसिंह, बंगरा, ज़ि० जालौन ।

ग्रन्थ—वेदसार ।

जन्मकाल—१९३० ।

नाम—(२७३५) रंगनारायणपाल ठाकुर, हरिपुर, बस्ती ।

ग्रन्थ—(१) प्रेमलतिका, (२) रसिकानन्द ।

जन्मकाल—१९२१ ।

विवरण—तौषश्रेणी ।

नाम—(२७३६) श्यामकरण ।

ग्रन्थ—(१) अभयोदय भाषा, (२) अजितोदय भाषा ।

नाम—(२७३७) शिवचरण लाल, कालपी ।

ग्रन्थ—कई पुस्तके ।

नाम—(२७३८) हज़ारीलाल कायस्थ, गोंडा ।

ग्रन्थ—साखी भाषा नानक साहब ( पृ० २३४ ) ।

नाम—(२७३९) हरिशंकर ब्राह्मण, हरदा ।

जन्मकाल—१९३० । वर्तमान ।

विवरण—आपको सेठ की पदवी भी प्राप्त है ।

समय संवत् १९५६ के पूर्व ।

नाम—(२७४०) बाबा साहेब मज़ूमदार ।

ग्रन्थ—(१) अमृतसंजीवन वैद्यक, (२) ज्वरचिकित्साप्रकरण, (३) स्त्रीरोगचिकित्सा, (४) उपदंशारि ।

नाम—(२७४१) सहचरिशरण, अयोध्या ।

ग्रन्थ—सरसमंत्रावली ।

विवरण—पद भी इन्होंने उत्तम बनाये हैं । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२७४२) ज्ञानअली ।

ग्रन्थ—सियबरकेलिपदावली ।

समय संवत् १६५६ ।

नाम—(२७४३) गणेशप्रसाद मिश्र ( धनेस ), खागी, जि० खीरी ।

जन्मकाल—१९३१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७४४) गदाधरसिंह ठाकुर बगौछा, जि० हरदोई ।

जन्मकाल—१९३१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७४५) गिरधरप्रसाद ( प्रेम ), विदोबर, तहसील हमीरपुर ।

ग्रन्थ—(१) अञ्जनीलालसुधा, ( २ ) श्यामलीलाशतक, ( ३ ) प्रेमपाती ।

जन्मकाल—१९३१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७४६) जगन्नाथप्रसाद चौबे, मलयपुर, मुं गेर ।

ग्रन्थ—(१) वसन्तमालती, (२) संसारचक्र, (३) तूफान, (४) विचित्र-

विचरण, (५) भारत की वर्तमान दशा, (६) स्वदेशी आन्दोलन, (७) गद्यमाला ।

जन्मकाल—१९३२ ।

विवरण—विशेषतया उपन्यास-लेखक ।

नाम—(२७४७) बुधन चौहान हल्दी ।

जन्मकाल—१९३१ । वर्तमान ।

नाम—(२७४८) भाग्यवती देवी ठकुराइन, गहलौ, कानपुर ।

जन्मकाल—१९३१ ।

विवरण—भूतपूर्व सम्पादिका “वनिताहितैषी” ।

नाम—(२७४९) भागीरथ दीक्षित (कवीन्द्र) ऊगू, ज़ि० उन्नाव ।

ग्रन्थ—(१) गोकर्णमाहात्म्य, (२) भाँगअफीम-विवाद, (३) अयाचक की याचना, (४) अनिरुद्ध-विजय, (५) रूस-जापान-युद्ध (पद्य) ।

जन्मकाल—१९३१ । वर्तमान ।

नाम—(२७५०) महेशप्रसाद ब्राह्मण, शंकरगंज, राज्य-रीवा ।

जन्मकाल—१९३१ । वर्तमान ।

नाम—(२७५१) रघुनाथदास ।

ग्रन्थ—(१) विप्रसुदामा की गुड़िया, (२) द्रौपदीजू की गुड़िया, (३) स्वामीजू की गुड़िया, (४) हनुमानजू की गुड़िया, (५)

मीराबाई का चरित्र, (६) मोरध्वज की कथा, (७) रघु-  
नाथविलास ।

नाम—(२७५२) रामनाथ शुक्ल, भैरवपुर, डा० खजुरो, ज़िला  
रायबरेली ।

ग्रन्थ—(१) शांतिसरोरुह, (२) ऋतुरत्नाकर ।

जन्मकाल—१९३१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७५३) रामावतार पाण्डेय एम० ए० ( साहित्य-  
चार्य ), पटना ।

ग्रन्थ—(१) योरोपीयदर्शन, (२) हिन्दीव्याकरणसार ।

जन्मकाल—१९३४ ।

विवरण—धुरन्धर पंडित, सरल और निष्कपट पुरुष ।

नाम—(२७५४) शीतलाब.शसिंह सेंगर ठाकुर, काँधा, ज़िला  
उन्नाव ।

जन्मकाल—१९३१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७५५) श्यामजी शर्मा (पाण्डेय), भदावरि, आरा ।

ग्रन्थ—(१) वृन्दविलास, (२) भान्यशालिनी, (३) श्यामविनोद,  
(४) खड़ीबोलीपद्यादर्श, (५) प्रेममोहिनी, (६) प्रियावल्लभ,  
(७) श्यामहर्षवर्धन, (८) सत्वामृतकाव्य, (९) बालविधवा,  
(१०) गोहारि, (११) स्वाधीनविचार, (१२) विधवाविवाह,  
(१३) पंडित मानीमतिचपेटिका ।

जन्मकाल—१९३१ ।

विवरण—गद्य और ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली पद्य के लेखक ।

नाम—(२७५६) लालमणि, बाँदा ।

जन्मकाल—१९३१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७५७) हरिगोविन्द ।

जन्मकाल—१९३१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७५८) हरीहरलाल गोस्वामी, वर्त्तमान । मुकाम  
बारी, राज्य रीवाँ ।

समय संवत् १९५७ के पूर्व ।

नाम—(२७५९) श्रीलाल शर्मा ।

ग्रन्थ—रमलतजक ।

नाम—(२७६०) भगतकवि ।

ग्रन्थ—भगतचालीसा ।

समय संवत् १९५७ ।

नाम—(२७६१) कालीशंकर व्यास, काशी ।

जन्मकाल—१९३७ । मृत्यु १९६२ ।

नाम—(२७६२) किशोरसिंह ।

ग्रन्थ—रामप्रभावती ।

नाम—(२७६३) छेदाशाह सैयद, पौहार, ज़िला कानपूर ।

ग्रन्थ—(१) कान्यशिक्षा, (२) भगवद्गीता की टीका, (३) हरगंगा  
रामायण, (४) ज्ञानोपदेशशतक, (५) भक्तिपंचाशिका,  
(६) करुणावत्तीसी, (७) नारीगारी, (८) गंगापंचा-

शिका, ( ९ ) मार्कण्डेयवंशावली, ( १० ) कृष्णप्रेमपचीसी,  
( ११ ) कान्यकुब्जपुष्पांजली, ( १२ ) काव्यसंग्रह, ( १३ ) सख-  
नारायण, ( १४ ) जानपाडे उपन्यास, ( १५ ) हितोपदेश ।

जन्मकाल—१९३७ । वर्त्तमान ।

नाम—( २७६४ ) जगन्नाथसिंह चौहान, भोगियापूर, ज़िला  
हरदोई ।

जन्मकाल—१९३२ । वर्त्तमान ।

नाम—( २७६५ ) ज्योतिःस्वरूप शर्मा, गम्भीरपुरा, अलीगढ़ ।  
ग्रन्थ—( १ ) कृषिचन्द्रिका, ( २ ) सदाचार, ( ३ ) धर्मरक्षा आदि ४१  
ग्रन्थ लिखे हैं ।

जन्मकाल—१९३२ ।

नाम—( २७६६ ) परमेश परमेश्वरदयालु ( रसिक ) तमोली,  
डुमरावँ ।

ग्रन्थ—( १ ) भक्तिलता, ( २ ) गाने की चीजें ।

जन्मकाल—१९३२ । वर्त्तमान ।

नाम—( २७६७ ) मितानसिंह, बरखेरवा ।

ग्रन्थ—स्फुट छंद ५०० ।

जन्मकाल—१९३२ ।

नाम—( २७६८ ) रामगुलामराम जायसवाल, जमोर, गया ।

ग्रन्थ—( १ ) रामगुलाम शब्दकोष, ( २ ) शकुनावली रामायण,  
( ३ ) नामरामायण, ( ४ ) पैसाप्रतापपचासा ।

जन्मकाल—१९३२ ।

नाम—(२७६६) रामलगन लाल ( छेम ) कायस्थ, मंदरा,  
जि० गाजीपुर ।

ग्रन्थ—(१) विनयपचीसी, (२) शंकरपचीसी ।

जन्मकाल—१९३२ ।

नाम—(२७७०) रामेश्वरी नेहरू, देहली ।

ग्रन्थ—सम्यादिका स्त्रीदर्पण ।

जन्मकाल—१९४२ ।

विवरण—आप दीवान नरेंद्रनाथ डिप्टी कमिश्नर मुलतान की पुत्री  
और ब्रजलाल नेहरू असिस्टेंट अकौंटेंट जनरल देहली  
की धर्मपत्नी हैं । आपकी विद्वत्ता एवं उत्साह सराहनीय  
है । आपने भाषा-व्याकरण-सम्बन्धी कुछ काम किया है ।

नाम—(२७७१) लक्ष्मणाचार्य गोस्वामी, मथुरा ।

ग्रन्थ—(१) मृतकश्राद्धविषयक प्रश्नोत्तर, (२) मुहूर्तप्रकाश, (३)  
भीषण भविष्य, (४) वेदनिर्णय, (५) श्राद्धसिद्धि, (६) शिक्षा-  
तत्व, (७) भारतसेवा ( कव्य ) ।

जन्मकाल—१९३२ ।

नाम—(२७७२) शीतलप्रसाद, प्रदार्थपुर, जि० बाँदा ।

जन्मकाल—१९३२ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७७३) शंकरप्रसाद, माधवगढ़, राज्य रीवा ।

जन्मकाल—१९३२ । वर्त्तमान ।



## उन्तालीसवाँ अध्याय ।

उत्तर गद्य-काल ( १९५८ से अब तक ) ।

( २७७४ ) चन्द्रभानुसिंह दीवान बहादुर,  
गरौली, बुँदेलखंड ।

ये महाशय इस समय प्रायः ३५ वर्ष के हैं। इनकी आय ४००००००० ६० सालाना है और स्वतन्त्र राजाओं में इनकी भी गणना है। आप हिन्दी के प्रेमी हैं।

( २७७५ ) माधवराव सप्रे (पंडित) बी० ए० ।

ये रायपूर छत्तीसगढ़ के निवासी हिन्दी के बड़े उत्साही सुलेखक हैं। आपका जन्म १९२० में हुआ था। छत्तीसगढ़-मित्र नामक एक समालोचना-पत्र पं० रामराव चिंचोलकर के साथ इनके सम्पादकत्व में निकला था, जिसमें इन्होंने एक बार हमारे ग्रन्थ लवकुशचरित्र की तीव्र आलोचना की थी। आपने हिन्दीकेसरी नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था, और गद्य की कुछ पुस्तकें भी रची हैं। आप बड़े सज्जन पुरुष और हिन्दी के उपकारी हैं। आप महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं और महाराष्ट्र विद्या के रत्न भी हिन्दी में लाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ दिन आपने हिन्दी-ग्रन्थमाला का भी प्रकाशन किया था। हिन्दीदास-बोध, रामदास स्वामी की जीवनी, आत्मविद्या, एकनाथचरित्र, भारतीय युद्ध आदि आपने कई ग्रन्थ रचे। आप बड़े ही सौम्य प्रकृति

और साधु-चरित्र हैं। देशभक्ति में कुछ उद्धत विचार रखने से एक बार आपको कष्ट उठाने पड़े थे ।

नाम—(२७७६) गौरीशंकरप्रसाद, बी० ए०, एल एल० बी,  
वैश्य, बुलानाला, बनारस ।

ग्रन्थ—स्फुट लेख ।

विवरण—वर्त्तमान । आप कई वर्षों तक नागरीप्रचारिणी सभा के मंत्री रहे हैं । हिन्दी के आप बड़े शुभचिंतक और उत्साही पुरुष हैं । आपकी अवस्था इस समय अनुमान से ३५ साल की होगी । बनारस में आप वकालत करते हैं ।

(२७७७) ठाकुर रघुनाथसिंह बी० ए० ।

ये बाराबंकी में वकालत करते हैं । आपका जन्म संवत् १९३४ में शाहपूर में हुआ था । आप के पिता ठाकुर पिरथासिंह एक प्रतिष्ठित ज़िर्मादार थे । आपने गद्य और पद्य दोनों में रचना करने का अभ्यास बालकपन से ही रक्खा । स्फुट छन्दों के अतिरिक्त आपने एक लखनऊ-वर्षान छन्दों में लिखा था जो सरस्वती पत्रिका में निकला । आपकी कविता बड़ी मनोहर होती है ।

फ़ैशन नूतन और पुराने इन सबमें लखि लीजै ।

चौक जाय शाही को अनुभव पूरन मन सेां कीजै ॥

ठसक नवाबी लम्बे पट्टे चूड़ीदार दुटंगा ।

कान फुरेहरी हाथ रूमलिया जूता रंग बिरंगा ॥

बने लिफ़ाफ़ा ऊपर चितवैं फूँकहु सेां उड़ि जावैं ।

घर में बेगम नंगी बैठी आप नवाब कहावैं ॥

ऊँचे महल गली सँकरी अति कोठे नरक कि दूती ।  
 सबक पढ़ाय छोनि धन सरबस पीछे मारै जूती ॥  
 इत सित चलदल असित स्वान सह भैरवनाथ बिराजै ॥  
 तेजपुंज अभिराम स्याम तन कोटि काम छबि लाजै ॥  
 प्रति रविवार देव-दरसन लगि होति इहाँ बड़ि भीरा ।  
 गुरु रवि द्यौस भीर-भारन चपि धरति धरनि नाहँ धीरा ॥

(२७७८) देवीप्रसाद शुक्ल ।

ये कानपुर मोहल्ला कुरसर्वा के निवासी एक बड़े ही उत्साही पुरुष और हमारे मित्र हैं। आप गद्य हिन्दी अच्छी लिखते हैं। एक साल सरस्वती पत्रिका का आपने बड़ी योग्यता से सम्पादन भी किया था और कान्यकुब्ज सभा एवं पत्र में भी आपने बड़ा काम किया। आपका जन्म संवत् १९३४ में हुआ था। आप कानपुर के कालेज में अध्यापक हैं और देशहित के कार्यों में सदैव तत्पर रहते हैं। आपने बी० ए० परीक्षा पास की है।

(२७७९) त्रिलोचन भा।

इनका जन्म सं० १९३५ में हुआ था। आप बेतिया ज़िला चम्पारन के निवासी मैथिल ब्राह्मण हैं। गणपतिशतक, मंगलशतक, आत्मविनोद, शोकोच्छ्वास, जनेश्वरविलाप, शकुन्तलोपाख्यान और कलानन्दविनोद नामक ७ ग्रन्थ आपने रचे हैं, जिनमें कुछ गद्य के हैं और कुछ ब्रज भाषा पद्य के।

नाम—(२७८०) रूपनारायण पाण्डेय, लखनऊ ।

ग्रन्थ—(१) शिवशतक, (२) श्रीकृष्णमहिम्न, (३) गीतगोविन्द की टीका, (४) रमा उपन्यास, (५) पतित-पति उपन्यास, (६) गुप्त-रहस्य उपन्यास, (७) हरीसिंह नलवह, (८) आँसू की किरकिरी उपन्यास, (९) फूलों का गुच्छा, (१०) चौबे का चिह्न, (११) नीतिरत्नमाला पद्य, (१२) कृष्णलीला नाटक, (१३) तारा उपन्यास, (१४) कृत्तिवासीय रामायण बालकांड, (१५) रसिकरंजन पद्य, (१६) आचारप्रबंध, (१७) प्रसन्न-राघव नाटक, (१८) शुकोक्ति-सुधासागर, (१९) रंभा-शुक-संवाद, (२०) बालकालिदास, (२१) चन्द्रप्रभवचरित, (२२) आशा-कानन, (२३) पत्र-पुष्प, इत्यादि ।

जन्मकाल—१९४१ ।

रचनाकाल—१९६० । वर्त्तमान ।

विवरण—आज कल ये भारतधर्ममहामंडल में निगमागमचन्द्रिका का सम्पादन करते हैं । कविता अच्छी करते हैं और गद्य-रचना भी की है । ये अच्छे होनहार लेखक हैं ।

उदाहरण—

बुद्धि-विवेक की जोति बुझी, ममता-मद-मोह-घटा घनी घेरी ।  
है न सहारो अनेकन हैं ठग, पाप के पन्नग की रहै फेरी ॥  
त्यों अभिमान को कूप इतै, उतै कार्मना-रूप सिलान की ढेरी ।  
तू चलु मूढ सँभारि अरे मन, राह न जानी है, रैनि अँघेरी ॥

(२७८१) भुवनेश्वर मिश्र ।

ये दरभंगा-निवासी हिन्दी गद्य के एक प्रतिष्ठित लेखक

हैं । आपकी अवस्था ४५ साल की होगी । आपने अनेक-  
नेक उत्तम लेख कई पत्रों में छपवाये हैं और कई ग्रन्थ भी  
रचे हैं, जिन में घराऊ घटना हमारे देखने में आया है । यह स्वमा-  
वोक्ति एवं हास्यरस-पूर्ण ग्रन्थ है । मिश्रजी की लेखनशैली बड़ी  
विलक्षण एवं चामत्कारिक है । ये महाशय दरभंगा में विकालत  
करते हैं । आपकी अवस्था इस समय अनुमान से ४० साल की  
होगी ।

### (२७८२) अनिरुद्धसिंह ।

ये जैपालपूर ज़िला सीतापूर-निवासी पँवार ठाकुर थे ।  
आपकी अकाल मृत्यु सात वर्ष हुए प्रायः २७ वर्ष की अवस्था में  
हो गई । आप हमारे मित्र थे और कविता अच्छी करते थे ।  
समस्या-पूर्ति के छन्द काव्य सुधाधर पत्र में आप भेजा करते थे ।  
आप साधारणतया एक बड़े ज़िम्मीदार थे ।

नाम—(२७८३) रामनारायण पाँडे कान्यकुब्ज, पैतैपूर ज़िला  
सीतापूर ।

ग्रन्थ—(१) जैमिनिपुराण आल्हा (२) जनरघुनाथजीवनचरिता-  
मृत (३) रमारामा शतक ।

जन्मकाल—१९३९ ।

रचनाकाल—१९६० ।

विवरण—अच्छी कविता की है । काव्य के बड़े उत्साही हैं ।  
हमने परलोकवासी मंगलदासजी के नाम कार्ड भेजा  
था, परन्तु आपने उसका उत्तर और १४ कवियों के

जीवनचरित्र तथा उदाहरण तुरन्त हमारे पास भेजे ।  
उदाहरण ।

आछे राम काछे कटि काछनी पितंबर की  
पाछे कछु दच्छिन सो लच्छन लसे रहैं ।

सोहै उर बनमाल मोतिन की माल पुनि  
माल पै तिलक श्रुति कुंडल लसे रहैं ॥

सुल्लमा मुकुट सीस सरसै कलित कंठ  
कंठहू ललित कल कौतुक कसे रहैं ।

धारे धनु बान अरि मान के मथन वारे  
जानकी समेत मेरे मानस बसे रहैं ॥ १ ॥

नाम—(२७८४) देवनारायण क्षत्रिय सटवा, जौनपूर, हाल  
राज्य कालाकाँकर ज़िला प्रतापगढ़ ( लला ) ।

ग्रन्थ—(१) रामेशमनोरंजनी (२) वियोगवारिधि (३) बन्धुबिछोह  
(४) पावनपंचाष्टक (५) वत्सवंशाणव (६) अखंड इति-  
हास (७) प्रेमपदावली (८) शृंगार-आरसी ।

जन्मकाल—१९३४ ।

रचनाकाल—१९६० । वर्तमान ।

विवरण—पद्य और गद्य में उत्कृष्ट काव्य किया है ।

गंग तरंग उठै कच बीच में अंग उमा अरधंग बसी है ।

नंग है अंग अनंग न संग भुवंगम भूषण भाल ससी है ॥

प्यारे लला पग सेवत ही तव सेवक की बिपदा बिनसी है ।

संकट आय सहाय करौ अब मेरी हँसी नहीं तेरी हँसी है ॥ १ ॥

बरजो रहत नहिँ गरजो करत नित  
 हरजो हमारो होत सुनि कैरी छम छम ।  
 जूगुनू चमाकैँ चहु चातकी अलापैँ  
 अलि धुरवा धरा पै धरो दरदरी दम दम ॥  
 घहरि घहरि आवैँ ठहरि ठहरि जायँ  
 फहरि फहरि उठैँ गगन में घम घम ।  
 बिज्जु गन बिरही बिचारी उर चीरन को  
 तीरन की लीन्यो मनो प्यारे लला चम चम ॥ २ ॥

नाम—(२७८५) रामनारायण मिश्र सांख्यरत्न तथा काव्य-  
 तीर्थ, आरा, हाल छपरा ।

ग्रन्थ—(१) जनकबागदर्शन नाटक, (२) कंसबध नाटक, (३)  
 विरुदावली, (४) भक्तिसुधा । स्फुट काव्य गद्य तथा पद्य ।

जन्मकाल—१९४३ ।

कविताकाल—१९६० । वर्त्तमान ।

विवरण—संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान् हैं । आपको सरकार से  
 काव्यतीर्थ तथा कलकृत्ते के विद्वानों से सांख्यरत्न  
 की उपाधि मिली । भाषा गद्य तथा पद्य के आप अच्छे  
 लेखक हैं । दो नाटक भी आपने उत्तम बनाये हैं ।

(२७८६) बुँदेलाबाला ।

ये विदुषी लाला भगवानदीन जी सम्पादक लक्ष्मीपत्र की धर्म-  
 पत्नी थीं । शोक कि इनका इसी साल आषाढ संवत् १९६७ में

वैकुण्ठवास हो गया। इनकी रचित कविता का संग्रह करके चतुर्भुज-सहाय वर्मा छतरपुर-वासी ने बालाविचार नाम से प्रकाशित किया है। इसमें १२ विषयों पर कविता है :—मातामहिमा, पुत्री प्रति माता का उपदेश, गृहिणीसुख, संसारसार, अबला-उपालंभ, चाहिए ऐसे बालक, पुत्र, भारत का नरशा, सावधान, बालदिन-चर्या, राधिकाकृत कृष्णचिंतवन और कृपाकौमुदी। ये सब ग्रन्थ ४० पृष्ठों में समाप्त हुए हैं। इसके प्रथम लाला भगवानदीन जी रचित विरह-विलाप नामक काव्य छपा है। बालाजी का काव्य बहुत ही सरस, मनोहर तथा उपदेशपूर्ण है। इसी तरह के विषयों पर कविता रचना आजकल प्रत्येक शिक्षित का काम है। बाला-विचार बहुत प्रशंसनीय ग्रंथ है। उदाहरणार्थ हम भारत का नरशा से कुछ कविता यहाँ देते हैं। नरशा का वर्णन माता अपने पुत्र से कर रही है :—

माता—

हे प्यारे कदापि तू इसको तुच्छ श्याम रेखा मत मान ।  
 यह है शैल हिमाचल इसको भारतभूमि-पिता पहिँ चान ॥  
 नेह सहित ज्यों पितु पुत्री को सादर पालन करता है ।  
 यह हिमिगिरि त्योंही भारत हित पितृ-भाव हिय धरता है ॥  
 गंगा यमुना युगुल रूप से प्रेम धार का देकर दान ।  
 भारतभूमि-रूप दुहिता का नेह सहित करता सनमान ॥

पुत्र—

यह जो बाम ओर नरशा के रेखा मय अतिशय अमिराम ।  
 शोभामय सुन्दर प्रदेश है मुझे बतादे उसका नाम ॥



माता—

बेटा ! यह पंजाब देश है पुरायभूमि सुख-शांति-निवास ।  
 सर्वप्रथम इस थल पर आकर किया आर्यों ने निजवास ॥  
 कहीं गानध्वनि कहीं वेदध्वनि कहीं महा मंत्रों का नाद ।  
 यज्ञ-धूम से रहा सुवासित यह पंजाब सहित अहलाद ॥  
 इसी देश में बसके 'पौरस' ने रक्खा है भारत-मान ।  
 जब सम्राट् सिकंदर आकर किया चाहता था अपमान ॥  
 इससे नीचे देख पुत्र यह देश दृष्टि जो आता है ।  
 सकल बालुका मय प्रदेश यह राजस्थान कहाता है ॥  
 इसके प्रति गिरिवर पर बेटा अरु प्रत्येक नदी के तीर ।  
 देशमान हित करते आये आत्म विसर्जन क्षत्री वीर ॥  
 कोई ऐसा थान नहीं है जहाँ अमर चिन्हों के रूप ।  
 वीर कहानी रजपूतों की लिखी न होवे अमर अनूप ॥  
 क्षत्रीकुल अवतंस वीरवर है 'प्रताप' जीका यह देश ।  
 रानी 'पद्मावती' सती ने यहीं किया है नाम विशेष ॥  
 क्षत्रीवंश-जात को चहिए करना इसको नित्य प्रणाम ।  
 इससे छत्री वर्ग क जग में सदा रहैगा रोशन नाम ॥

यह पुस्तक बड़ी विशद है । यदि सम्पादक महाशय कृपया इसका दूसरा भाग भी प्रकाशित करें तो बहुत अच्छा हो ।

(२७८७) प्रोफेसर रामदेवजी ।

इनका जन्म संवत् १९३९ में हुआ था । इस समय आप गुरुकुल काँगड़ी में अध्यापक हैं । इनका बनाया भारतवर्ष का इतिहास

प्रशंसनीय है। यह बड़ा गवेषणा-पूर्ण गद्य-ग्रन्थ है। ऐसे ग्रन्थों की आज आवश्यकता है।

### (२७८८) मैथिलीशरण गुप्त ।

इनकी अवस्था प्रायः २५ साल की है। आप जाति के वैश्य और योग्य कवि हैं। आप खड़ी बोली की कविता करते हैं और जयद्रथ-वध नामक एक खड़ी बोली का बड़ा ग्रन्थ भी बना चुके हैं। सरस्वती पत्रिका में चित्रों एवं अन्य विषयों पर आप की कविता प्रायः प्रकाशित हुआ करती है।

### (२७८९) लोचनप्रसाद पाण्डेय ।

ये बालपुर जिला विलासपुर-निवासी हैं। इनकी अवस्था २५ वर्ष की है। आपने गद्य एवं खड़ी बोली पद्य में अनेक ग्रन्थ रचे हैं। आप एक होनहार लेखक हैं। ग्रन्थों के नाम ये हैं:—(१) दो मित्र (२) प्रवासी (३) नीति कविता आदि छोटे मोटे ११ ग्रन्थ। आपने कविताकुसुममाला में कई वर्तमान कवियों की रचनाओं का संग्रह किया है। आपने देश-भक्ति पर भी अच्छी रचना की है।

### (२७९०) माणिक्यचन्द्र जैन बी. ए., बी. एल. ।

ये खंडवा मध्यप्रदेश के वकील हैं। आपकी अवस्था प्रायः २८ साल की होगी। आप हिन्दीग्रन्थ-प्रसारिणी मंडली प्रयाग के मन्त्री और बड़े ही उत्साही पुरुष हैं। आप हिन्दी के अनेकानेक ग्रन्थ खोज खोज कर प्रकाशित करते हैं। हमारा हिन्दी-नवरत्न और यह इतिहास भी आपही ने बड़े उत्साहपूर्वक हमसे स-हठ लेकर

प्रकाशित किया है । आप हिन्दी गद्य के एक उत्तम लेखक भी हैं । आप बड़ेही होनहार पुरुष हैं और हिन्दी की उन्नति की आपसे बड़ी आशा है ।

### (२७६१) जैनवैद्य जयपूर ।

मिष्टर जैनवैद्य का नाम जवाहिरलाल था । ये जाति के जैन वैद्य अल्ल के थे । इनके पिता महाराजा जयपूर के यहाँ अच्छे पद पर नियुक्त हैं । इनका जन्म संवत् १९३७ में हुआ था । इन्होंने यूट्रैस तक ही अँगरेज़ी पढ़ी, परन्तु विद्यारसिक होने के कारण उसमें अच्छी उन्नति कर ली थी । आपने बंगला, उर्दू, मराठी, गुजराती, और मागधी का भी अभ्यास किया था । ये हिन्दी के बड़े रसिक थे और नागरी-प्रचार का सदैव यत्न करते रहते थे । इन्होंने जैनमतपोषक, उचितवक्ता, जैन और जैनगज़ट पत्र निकाले परन्तु वह चल न सके । समालोचक पत्र भी इन्होंने चार साल तक बड़े परिश्रम तथा व्यय से चलाया, जिसके कारण हिन्दी-संसार में इनकी बड़ी ख्याति हुई । छात्रावस्था में इन्होंने हिन्दी के “कमलमोहिनी भँवरसिंह नाटक, “व्याख्यानप्रबोधक” और “ज्ञानवर्णमाला” नामक तीन पुस्तके लिखीं । नागरीप्रचारिणी सभा के ये बड़े सहायक थे । समाजों एवं समाजों में ये सदैव योग देते रहते थे । इन्होंने जयपूर में एक नागरीभवन खोला था, जो अब तक अच्छे दशा में है । ये बड़े ही उदार, विद्याप्रेमी तथा मित्रवत्सल थे । थोड़ी अवस्था में मित्रों तथा कुटुम्बियों को शोक देकर ये संसार से चैत्र संवत् १९६६ में चल बसे ।

## (२७६२) सत्यदेव ।

ये महाशय अमेरिका से विद्या प्राप्त करके आज कल लौट कर भारत में आये हैं। आपका हिन्दीप्रेम बड़ा सराहनीय है। आप अमेरिका से उत्तम उत्तम गद्य लेख प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्रों में सदा छपवाते रहे और स्वदेशानुरागपूर्ण लेखों में अनेकानेक बातों का वर्णन करते रहे। आपके यहाँ आ जाने से हिन्दी-प्रयत्न की विशेष आशा है। आप जाति के खत्री हैं। आपकी अवस्था ३३ साल के लगभग है। आज कल आपने कई उत्कृष्ट ग्रन्थ रचे हैं। कुछ दिनों से आप देशभक्त संन्यासी हो गये हैं।

## (२७६३) पूर्णानन्द शास्त्री ।

ये जैनावाद ज़िला गुड़गाँव के रहनेवाले २३ वर्ष के ब्राह्मण हैं। आपने हिन्दी और संस्कृत की कविता की है। उत्सवतत्व, शिक्षाविधि और हिन्दीकविता नामक आपके छोटे छोटे ग्रन्थ हैं।

नाम—(२७६४) महेशचरणसिंह कायस्थ, लखनऊ, उमर

३५ साल ।

ग्रन्थ—(१) हिन्दी-केमिस्ट्री ।

समय—१९६५ । वर्तमान ।

विवरण—बड़ी ही उपादेय पुस्तक आपने बनाई है। हिन्दीसाहित्य को पेसी पेसी पुस्तकों की बड़ी ही आवश्यकता है। बाबू साहब ने एक बड़े अभाव की पूर्ति की। आपने अमेरिका तथा जापान जाकर विद्या पढ़ी थी।

## (२७६५) सोमेश्वरदत्त शुक्ल ।

ये बी० ए० पास हैं । इनका जन्म संवत् १९४४ में सीतापुर में हुआ था । आपने अपने मातामह से अच्छी सम्पदा उत्तराधिकार में पाई । आपने इतिहास एवं अन्य विषयों के कई अच्छे गद्य-ग्रन्थ लिखे हैं । आप एक होनहार लेखक हैं ।

## (२७६६) चन्द्रमनोहर मिश्र ।

ये सराय मीरां ज़िला फ़र्रुखाबाद के रहने वाले पंडित बतानू लाल मिश्र के पुत्र और हमारे जामाता हैं । ये कानपुर-कालेज में बी० ए० क्लास में पढ़ते हैं । इन्होंने स्पेन का इतिहास गद्य हिन्दी में उत्तम बनाया है । इनके पिता भी सुलेखक हैं ।

## इस समय के अन्य कविगण ।

समय सं० १९५८ ।

नाम—(२७६७) किशनलाल बी० ए० ओसवाल, दरबार जोधपुर ।

ग्रन्थ—मारवाड़ मरोड़ (साहित्य) ।

जन्मकाल—१९३३ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७६८) केशवप्रसाद ब्राह्मण, सिसैंड़ी, लखनऊ ।

जन्मकाल—१९३३ ( वर्त्तमान ) ।

नाम—(२७६९) गोकुलानन्दप्रसाद कायस्थ, मानपुरा मुजफ्फरपुर ।

ग्रन्थ—(१) कमला-सरस्वती, (२) पवित्रजीवन, (३) मोती, (४) गार्हस्थ्यजीवन ।

जन्मकाल—१९३३ ।

विवरण—आजकल बनैलीराज में हैं । सम्पादक आत्मविद्या ।

नाम—(२८००) गोविन्ददास (दास), खँगार, छतरपुर ।

ग्रन्थ—(१) वागकी सैर, (२) पेट-चपेट, (३) स्वदेशसेवा, (४) काव्य और लोकशिक्षा, (५) प्रेम, (६) बुँदेलखंडरत्नमाला, (७) समामाहात्म्य ।

जन्मकाल—१९३४ । वर्तमान ।

नाम—(२८०१) गोरेलाल (मंजुसुशील) कायस्थ, देउरी-सागर ।

ग्रन्थ—स्फुट समस्यापूर्ति ।

जन्मकाल—१९३८ । मृत्यु १९६२ ।

विवरण—पहले लक्ष्मी-पत्रिका गया के सम्पादक थे ।

नाम—(२८०२) गंगाप्रसाद एम० ए० डिप्टीकलेक्टर, गोरख-पुर ।

ग्रन्थ—(१) ज्योतिषचन्द्रिका, (२) सूर्यसप्तश्ववर्णन ।

जन्मकाल—१९३४ ।

नाम—(२८०३) ज्वालाप्रतापसिंह (लाल), पन्नाकोटा राज्य सिगरौली ।

ग्रन्थ—(१) पावसप्रेमतरंग, (२) वसंतविनोद, (३) प्रेमबिन्दु, (४) बैरनवसंत ।

जन्मकाल—१९३३ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८०४) द्वारिकाप्रसाद ब्राह्मण, बाँदा ।

ग्रन्थ—श्रीकृष्णचन्द्रिका ।

जन्मकाल—१९३४ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८०५) धनीराम शुक्ल सुकलनपुरवा, ज़िला लखनऊ ।

जन्मकाल—१९३३ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८०६) नारायणलाल ( रसलीन ) गोस्वामी, बारी,  
राज्य रीवा ।

ग्रन्थ—श्रीकृष्णाष्टक आदि ।

जन्मकाल—१९३३ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८०७) बनवारीलाल वैश्य, जबलपुर ।

ग्रन्थ—(१) बारहमासा, (२) बनवारीकला ।

जन्मकाल—१९३३ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८०८) ब्रजरत्न भट्टाचार्य, मुरादाबाद ।

ग्रन्थ—आपके प्रायः १०० अनुवाद एवं टीका-ग्रन्थ हैं ।

जन्मकाल—१९३२ ।

विवरण—आप बड़े परोपकारी एवं उदार महाशय हैं ।

नाम—(२८०९) शिवनरेशसिंह तालुकदार, जगतापुर, ज़िला  
बहराइच । वर्त्तमान ।

ग्रन्थ—शृङ्गारशिरोमणि (पृष्ठ २६) ।

नाम—(२८१०) शंभुराम ।

ग्रन्थ—प्रेममालिका ।

विवरण—सरयूप्रसाद आचारी ने भी शंभुराम के साथ यह ग्रन्थ रचा ।

नाम—(२८११) सरयूप्रसाद आचारी रईस, जगदीशपुर, ज़िला बस्ती ।

ग्रन्थ—प्रेममालिका (पृ० १२०) ।

विवरण—वर्तमान हैं । प्रति एक है । कर्त्ता दो हैं । शम्भुराम मभारी भी कर्त्ता हैं ।

समय सं० १६५६ ।

नाम—(२८१२) काशीप्रसाद जायसवाल एम० ए०, बैरिस्टर मिर्जापुर, हाल कलकत्ता ।

ग्रन्थ—(१) कलवारगज़ट, (२) कई स्फुट लेख ।

जन्मकाल—१९३८ ।

विवरण—आप बड़े मिलनसार सज्जन पुरुष हैं । पुरातत्त्व में आप ने अच्छा श्रम किया है ।

नाम—(२८१३) कैलाशनाथ वाजपेयी, कानपुर ।

ग्रन्थ—(१) आर्यगीतावली, (२) दयानन्दजीवनी, (३) पौराणिक भ्रान्तिहरण, (४) कृष्णलीला ।

जन्मकाल—१९३४ । मृत्यु १९६३ ।

नाम—(२८१४) ब्रह्मानन्द संन्यासी ।

ग्रन्थ—सुशीलादेवी ( उपन्यास ) ।

जन्मकाल—१९३४ । मृत ।



नाम—(२८१५) राजेन्द्र प्रतापनारायणसिंह, हल्दी ।

ग्रन्थ—पावस-प्रलाप ।

जन्मकाल—१९३४ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८१६) लालजी कायस्थ । काकोरी, लखनऊ ।  
वर्त्तमान ।

ग्रंथ—लक्ष्मीनारायण कवि का जीवनचरित्र (पृ० २०) ।

नाम—(२८१७) शीतलप्रसाद ब्राह्मण, भरसरा, जिला  
गोरखपुर ।

ग्रन्थ—(१) रामचरितावली नाटक गद्यपद्य, (२) विनयपुष्पा-  
वली, (१९६२) (पृ० ४६), (३) भारतोन्नतिसोपान,  
(१९६४), (पृ० १०२) ।

विवरण—आपमें साहित्यसेवा जैसी है वह काव्य से प्रकट होती  
है । परन्तु रामभक्ति के सिवाय आप में देशभक्ति भी है ।  
यह अनुपम गुण है ।

नाम—(२८१८) सीताराम ब्राह्मण, निजामाबाद, जिला  
आज़मगढ़ ।

ग्रन्थ—स्फुट कविता ।

जन्मकाल—१९३४ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८१९) सुन्दरलाल शर्मा द्विवेदी, कटरा, प्रयाग ।

ग्रंथ—(१) बालोपदेश, (२) बालपञ्चतन्त्र, (३) बालगीता-  
वलि, (४) बालस्मृतिमाला, (५) बालभोज-प्रबन्ध,

( ६ ) बालरघुवंश, ( ७ ) योगवाशिष्ठसार, ( ८ ) रामा-  
श्वमेध ।

जन्मकाल—१९३४ ।

विवरण—प्राचीन निवास-स्थान धनमऊ, ज़िला मैनपुरी है ।

नाम—( २८२० ) सुन्दरलाल, ( श्याम ), बाँदा ।

जन्मकाल—१९३४ । वर्त्तमान ।

नाम—( २८२१ ) हनुमानप्रसाद त्रिपाठी, शिउली, कानपूर ।

ग्रन्थ—( १ ) वेदशास्त्रतालिका, ( २ ) दशधर्मलक्षणव्याख्या,  
( ३ ) दृष्टान्तसागर, ( ४ ) पापप्रध्वंसिनी, ( ५ ) हनुमान-  
चालीसा, ( ६ ) मद्यदोषदर्पण, ( ७ ) छुआछूत ।

जन्मकाल—१९३४ ।

नाम—( २८२२ ) हरिराम चौधरी जाट, हिसार ।

ग्रन्थ—( १ ) कृषिविद्या, ( २ ) कृषिकोष ।

जन्मकाल—१९३४ ।

विवरण—आप इन्स्पेक्टर ज़िराअत प्रतापगढ़ हैं ।

नाम—( २८२३ ) देवीसहाय कायस्थ ।

ग्रन्थ—भजन ।

कविताकाल—१९६० के पूर्व ।

समय संवत् १९६० ।

नाम—( २८२४ ) अनन्यप्रधान ।

ग्रन्थ—ज्ञानपचासा ।

विवरण—महाराजा बिजावर के चचा हैं । वर्त्तमान ।

नाम—(२८२५) अनिरुद्ध दास । वर्त्तमान ।

ग्रन्थ—पद्मपचीसी ।

नाम—(२८२६) अक्षयवरप्रसाद साही क्षत्रिय ग्राम महुअवा,  
ज़िला गोरखपुर ।

ग्रन्थ—(१) पुरश्री नाटक (गद्य पृ० १३४), विडुला (पृ० १७४ गद्य) ।

विवरण—वेनिस के व्यापारी के आधार पर प्रथम ग्रन्थ है ।

नाम—(२५२७) ऋषिलाल साह कलवार, महोली, ज़िला  
सीतापुर ।

ग्रन्थ—(१) शृंगारदर्पण, (२) पिंगलादर्श, (३) विज्ञानप्रभाकर,  
(४) अलंकारभूषण, (५) निदानमंजरी ।

जन्मकाल—१९३६ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८२८) केदारनाथ, बस्तर स्टेट ।

ग्रन्थ—(१) विपिनविज्ञान, (२) बस्तरभूषण, (३) वसन्तविनोद,  
(४) मैथिलवंश वार्ता ।

जन्मकाल—१९३४ ।

नाम—(२८२९) खगेश कवि (श्यामलाल) ।

जन्मकाल—१९४५ ।

नाम—(२८३०) गजाधरप्रसाद शुक्ल (द्विज शुक्ल), पाता बोझ,  
सीतापुर ।

ग्रन्थ—रघुवंश भाषा ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२८३१) गुरदीन भाट, ईसानगर, खीरी ।

ग्रन्थ—(१) मुनेश्वरबख्शभूषण, (२) रणजीतविनोद, (३) पिंगल

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२८३२) चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, जयपूर ।

ग्रन्थ—समालोचक पत्र ।

जन्मकाल—१९४० ।

विवरण—अच्छे पंडित और बड़े ही नम्र एवं लिष्कपट पुरुष हैं ।

नाम—(२८३३) दामोदरसहाय, बांकीपूर ।

विवरण—आप की मौत हाल ही में हुई है । विशेष हाल ज्ञात नहीं है ।

नाम—(२८३४) देवीसहाय ब्राह्मण । मृत ।

ग्रन्थ—गद्यलेखक ।

नाम—(२८३५) प्रतिपालसिंह ठाकुर, पहरा, राज्य छतरपूर ।

ग्रन्थ—(१) वीरबाला, (२) स्फुट लेख ।

जन्मकाल—१९३८ ।

विवरण—ये अँगरेज़ी भी पढ़े हैं । भाषा की भी रचना करते हैं ।

नाम—(२८३६) बालमुकुंद पाँडे, बलुआ, सारन ।

ग्रन्थ—(१) गंगोत्तरीनाटक, (२) लेख सामयिक पत्रों में ।

जन्मकाल—१९३५ ।

- नाम—(२८३७) बाँकेलाल चौबे, मंगलपुर, जिला कानपुर ।  
 ग्रन्थ—(१) स्फुट छंद, (२) सतसई (अपूर्ण, बन रही है ४०० दोहे बने) ।  
 जन्मकाल—१९३८ ।
- नाम—(२८३८) वीरेश्वर उपाध्याय कान्यकुब्ज ब्राह्मण, जारी इलाका छोटा नागपुर ।  
 ग्रन्थ—(१) आल्हा रामायण, (२) अद्भुतावतार कांड, (३) आनंदसंजीवनी, (४) फागचित्तचोरचालीसा, (५) भक्ति-संजीवनी, (६) भजनप्रातचालीसी, (७) मदनमोहिनी उपन्यास (गद्य) ।  
 जन्मकाल—१९३८ ।
- नाम—(२८३९) ब्रजेश महापात्र, असनी, फतेहपुर ।  
 विवरण—साधारण श्रेणी ।  
 नाम—(२८४०) भैरववल्लभ ब्राह्मण ।  
 ग्रन्थ—पापविमोचन (शिवस्तुति) ।  
 नाम—(२८४१) माधौसिंहजी कविराज बूँदी ।  
 विवरण—ये कविराव रामनाथ के पुत्र हैं । कविता उत्तम करते हैं । इनका फ़ारसी में भी अच्छा दख़ल है ।  
 नाम—(२८४२) राधेश्याम मंत्री पडवर्डहिन्दीपुस्तकालय, हाथरस ।  
 ग्रन्थ—स्फुट छन्द एवं लेख ।  
 जन्मकाल—१९३५ ।

नाम—(२८४३) रामचरण भट्ट ब्राह्मण, पिहानी ज़िला  
हरदोई ।

ग्रन्थ—(१) सुरभीशतक, (२) गोविलाप, (३) अर्धमिलाप, (४)  
प्रेमामृततरंगिणी, (५) प्रेमामृतवर्षिणी, (६) मतामत-  
विचार ।

जन्मकाल—१९३७ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८४४) रामलालजी मनिहार, बलिया ।

ग्रन्थ—शम्भुपञ्चीसी ।

जन्मकाल—१९३५ ।

नाम—(२८४५) रामावतार द्विवेदी, फ़तेहपुर, ज़ि० बारह-  
बंकी ।

जन्मकाल—१९३६ ।

नाम—(२८४६) लालजी वन्दीजन, असनो, फ़तेहपूर ।

विवरण—साधारण श्रेणी । ये महाशय बैरीसाल के वंशधर हैं ।  
आप महाराजा रीवाँ के यहाँ नौकर हैं ।

नाम—(२८४७) शिवदास पाँडे, मौज़ा आँव, ज़ि० उन्नाव ।  
रघुवरदयाल के पुत्र ।

ग्रन्थ—(१) बृहद्विश्रामसागर, (२) चाणक्यनीति काव्य,  
(३) रघुवंश की भाषा टीका, (४) महाभारत का  
कविता में अनुवाद (अपूर्णा) ।

जन्मकाल—१९३९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८४८) शिवबालकराम पाँडे, (बालक) दिलवल-  
खानपुर, जि० कानपुर ।

ग्रन्थ—(१) धनुषयज्ञनाटक, (२) स्वदेशीकाव्यकल्पद्रुम, (३)  
स्फुटकाव्य गद्य तथा पद्य ।

जन्मकाल—१९३८ ।

नाम—(२८४९) शिवरत्न शुक्ल । बछरावाँ, रायबरेली ।  
वर्तमान ।

ग्रन्थ—(१) प्रभुचरित्र, (२) स्वामी विवेकानंद के लेखों का  
अनुवाद, (३) स्वामी शंकराचार्य का जीवनचरित्र,  
(४) उपदेशपुष्पांजलि, (५) परदा, (६) रामावतार,  
(७) कान्यकुब्जरहस्य, (८) ऋतु-कविता ।

जन्मकाल—१९३६ ।

नाम—(२८५०) सूर्यनारायण पाँडे, (रविदेव) पैंतेपुर, ज़िला  
बाराबंकी ।

जन्मकाल—१९४६ ।

नाम—(२८५१) हनुमानप्रसाद वैश्य, अहरौरा बाज़ार, ज़िला  
मिर्ज़ापुर ।

ग्रन्थ—(१) जानकीस्वयंवर, (२) दुर्गाप्रभाकर, (३) चन्द्रलता,  
(४) हनुमानहाँक, (५) चन्द्रकलाचन्द्रिका, (६)  
कवितासुधार, (७) स्फुट काव्य ।

जन्मकाल—१९३८ ।

समय संवत् १९६१ ।

नाम—(२८५२) गोवर्द्धनलाल, ( लाल ), बसौदा, ग्वालियर ।

ग्रन्थ ( १ ) पूर्त्तिप्रमोद भाग दो, ( २ ) साहित्यभास्कर, ( ३ ) नगदवन, ( नागदमन ) ।

जन्मकाल—१९३६ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८५३) चम्पालाल जौहरी, ( सुधाकर ), रामगंज, खंडवा ।

ग्रन्थ—( १ ) माधवीकङ्कण, ( २ ) वियोगिनी, ( ३ ) शिक्षकों का कर्तव्य, आदि ८ पुस्तकें आपने बनाई हैं ।

जन्मकाल—१९३६ ।

नाम—(२८५४) वजरंगसिंह, हथिया, सीतापुर ।

ग्रन्थ—( १ ) खदपचीसी, ( २ ) पटक्रन्दु, ( ३ ) वैद्यनाथलत्तीसी, ( ४ ) स्फुट कविता, ( ५ ) काशीकोतवालपचीसी ।

जन्मकाल—१९३६ । वर्त्तमान ।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(२८५५) महादेवप्रसाद मिश्र ।

ग्रन्थ—( १ ) आसावरदेवीमाहात्म्य, ( २ ) वजरंगपचासा, ( ३ ) रसिकपचीसी ।

जन्मकाल—१९४१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८५६) राघवेन्द्र त्रिपाठी, गोनी, ज़िला हरदोई ।



ग्रन्थ—ब्रजेन्द्रविनोद ।

जन्मकाल—१९४१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८५७) राजधरलाल, (राज), नृसिंहपुर, जिला  
नृसिंहपुर ।

ग्रन्थ—(१) विनयपञ्चीसी, (२) हनुमानपैंतीसा, (३) भगवद्-  
गीता का अनुवाद भाषा ।

जन्मकाल—१९३३ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८५८) रामअधीन कायस्थ, मैहर ।

ग्रन्थ—(१) सुन्दरकांड, (२) रामाष्टक, (३) मुहूर्तसर राम-  
यण ।

जन्मकाल—१९४१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८५९) लालविहारी ।

ग्रन्थ—विजयानंदचन्द्रिका ।

नाम—(२८६०) शुकदेवनारायण, कायस्थ, रामधारीसहाय  
के पुत्र डीही, जिला सारन ।

ग्रन्थ—नारदमोहवाटिका ।

जन्मकाल—१९३६ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८६१) सूर्यकुमारवर्मा, भदौरिया ।

ग्रन्थ—(१) अशोक का जीवनचरित्र, (२) बालभारत, (३) गार-  
फ्रील्ड, (४) धर्मपद, (५) मित्रलाभ ।

जन्मकाल—१९३५ ।

विवरण—ग्वालियर में राजकर्मचारी हैं ।

समय संवत् १६६२ ।

नाम—(२८६२) अमीरराय, भभुआ, साहाबाद ।

ग्रन्थ—रामायण बालकांड छप्पय में, (२) गुलिस्ता की आठवीं बाब कवित्त में ।

जन्मकाल—१९३७ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८६३) खंजनसिंह, करौंदी, ज़िला उन्नाव ।

जन्मकाल—१९४७ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८६४) गिरधारीलाल, भालरापाटन । वर्त्तमान ।

नाम—(२८६५) जगन्नाथसिंह, बरखेरवा, ज़िला हरदोई ।

ग्रन्थ—पत्नीवियोग ।

जन्मकाल—१९४२ (वर्त्तमान) ।

नाम—(२८६६) द्विजेश पांडे (दंडपाणि), पंडित पुरवा, ज़िला लखनऊ ।

जन्मकाल—१९३७ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८६७) भगवानवत्ससिंह, राज्य कटारी पो० गौरा ।

ग्रन्थ—बुद्धिप्रकाश, शतरुद्री भाषाटीका, लिङ्गार्चनसार भाषा-टीका, सीताविजय, भजनावली, विनयप्रकाश, सीताराम-रहस्य आदि १४ ग्रन्थ रचे हैं ।

जन्मकाल—१९३७ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८६८) भागीरथ स्वामी वैद्य, फर्रुखाबाद ।

ग्रन्थ—दुःखमञ्जनस्तोत्र, गंगास्तोत्र, नंदिनीनंदन नाटक आदि  
सात आठ पुस्तकें तथा सामयिक पत्रों में लेख ।

जन्मकाल—१९३८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८६६) मयूर मदारीसिंह, बाछिल, महसुई, ज़िल  
सांतापूर ।

जन्मकाल—१९३८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८७०) माधो तेवारी, जौनपूर ।

ग्रन्थ—अध्यात्मरामायण-सारसंग्रह ।

नाम—(२८७१) श्यामसुन्दरलाल कायस्थ एम० ए०, एल०  
बी०, मैनुपुरी ।

ग्रन्थ—(१) स्थावरजीवमीमांसा, (२) मानववर्णव्यवस्था ।

जन्मकाल—१९३७ ।

नाम—(२८७२) शिवनारायण कायस्थ (मित्र), संनिगर्वा, ज़िल  
कानपूर ।

ग्रन्थ—सुखदसंगीत, (२) स्फुट काव्य ।

जन्मकाल—१९४२ ।

नाम—(२८७३) सत्यनारायण पांडे ( सत्यदेव ) सरवरिया,  
विष्णुपूर, आजमगढ़ ।

ग्रन्थ—(१) सत्यदेवविनोद, (२) चौतालदिवाकर ८ भाग, (३)  
साहित्यशिरोमणिसंग्रह ।

जन्मकाल—१९४२ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८७४) हरिकृष्ण जौहर, कलकत्ता ।

ग्रन्थ—(१) जापानवृत्तान्त, (२) अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास, (३) भारत के देशी राज्य, (४) रूस जापान युद्ध, (५) पलासी की लड़ाई, (६) कुसुमलता ।

जन्मकाल—१९३७ ।

विवरण—आप हिन्दी-बङ्गवासी के सम्पादक हैं ।

समय संवत् १९६३ ।

नाम—(२८७५) गयाप्रसाद (माणिक), गया ।

जन्मकाल—१९३८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८७६) गोवर्द्धननाथ (लल्लूजी) वल्द पं० गोपीनाथ ।

जन्मकाल—१९३८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८७७) चतुर्भुजसहाय कायस्थ, छत्रपुर ।

ग्रन्थ—लंबे घूँघटवाली (पृ० १२२) (उपन्यास) गद्य, (२) बाबू ताराचंद (पृ० १७६) (१९६३) उपन्यास गद्य, (३) बीबी हमीदा (पृ० १८२) (१९६४) (उपन्यास) गद्य, (४) मंत्रो हरिश्चन्द्र (पृ० ६०) (१९६५) ।

जन्मकाल—१९३४ ।

विवरण—आपको हिन्दी बालकपन से ही अच्छी लगती थी । अब भी उसी की सेवा में आपका बहुत समय व्यतीत होता है ।

नाम—(२८७८) विश्वेश्वरप्रसाद ब्राह्मण, घुँघुचिहाई, राज्य रीवा ।

जन्मकाल—१९३८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८७६) राधाकृष्ण वाजपेयी, चौपटियाँ, लखनऊ ।

जन्मकाल—१९३८ ।

विवरण—ये द्विजराज कवि के जामातृ हैं और आज कल वैद्यक करते हैं ।

समय संवत् १९६४ ।

नाम—(२८८०) अखिलानन्द शर्मा, बदाऊँ ।

ग्रन्थ—(१) दयानन्दलहरी, (२) दयानन्ददिग्विजयार्क, (३) आर्य-शिक्षा, (४) आर्यविद्योदय (काव्य), (५) दयानन्ददिग्विजय ।

जन्मकाल—१९३९ ।

नाम—(२८८१) चन्द्रशेखर (द्विजचन्द्र) ब्राह्मण, रानीपुर, जिला आजमगढ़ ।

जन्मकाल—१९३९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८८२) ब्रजनाथ बी० ए०, एल्.एल्. बी०, मुपदा बाद ।

जन्मकाल—१९३९ ।

नाम—(२८८३) मोहनदास महन्त, गोरखपुर ।

ग्रन्थ—बृहत्सनातनधर्मसार (पृ० ३९८, गद्य) ।

नाम—(२८८४) रमेश पांडे ( रामेश्वर ), पंडित पुरवा, जि

लखनऊ ।

जन्मकाल—१९४३ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८८५) राधाकृष्ण (घनश्याम), जयेन्द्रगंज, ग्वालियर ।

ग्रन्थ—(१) भजनसार, (२) उपकार-बत्तीसी आदि ।

जन्मकाल—१९३९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८८६) रामचन्द्र शास्त्री, लाहौर ।

ग्रन्थ—(१) शुद्धि, (२) भारतगौरवादार्श ।

जन्मकाल—१९३९ ।

नाम—(२८८७) श्री लक्ष्मणसिंह क्षत्रिय, लोमामऊ ।

ग्रन्थ—कई ग्रन्थ रचे हैं ।

जन्मकाल—१९३९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८८८) शिवकरणप्रसाद, (सत्यदेव), ग्राम महा-राजगञ्ज, जिला आजमगढ़ ।

ग्रन्थ—(१) सत्यदेवविनोद, (२) पूर्ति-प्रमोद, (३) भक्तिशिरोमणि ।

जन्मकाल—१९४२ । वर्त्तमान ।

समय संवत् १३६५ ।

नाम—(२८८९) अशफ़ालाल कायस्थ, बलरामपुर ।

ग्रन्थ—बालविहार (कृष्णचरित्र) (पृ० ६४६) ।

नाम—(२८९०) इन्द्रदेवलाल कायस्थ, मनियार, बलिया ।

ग्रन्थ—स्फुट ।

जन्मकाल—१९४० ।

नाम—(२८९१) कदम्बलाल गोस्वामी, बूँदी ।

जन्मकाल—१८४३ । वर्त्तमान ।

विवरण—इनकी अवस्था इस समय २५ वर्ष की होगी । कविता भी कुछ कुछ करते हैं ।

नाम—(२८६२) कालीप्रसाद ( भट्ट ), उरई ।

ग्रन्थ—रसिकविनोद ।

विवरण—१९६६ में मृत्यु हुआ । पिता का नाम छविनाथ भट्ट ।

नाम—(२८६३) गिरिराजशरण, वृन्दावन ।

जन्मकाल—१९४० ।

नाम—(२८६४) चंद्रमती देवी ( इन्दुमती ), बनकटा, आज्जम-गढ़ ।

जन्मकाल—१९५० । वर्त्तमान ।

नाम—(२८६५) जगन्नाथ द्विवेदी ( जगदीश ), पैतैपुर, ज़िला बाराबंकी ।

जन्मकाल—१८४८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८६६) ज़ुगुलानंद ब्राह्मण, गोंडा । वर्त्तमान ।

ग्रन्थ—स्वभावसुधासिंधु, ( पृ० ४८ ) ।

नाम—(२८६७) धनुधर शर्मा । वर्त्तमान ।

ग्रन्थ—(१) रामकेईसम्वाद, (२) जनकमरणोत्ताप, (३) भीष्म भीष्मागमन, (४) भट्टि काव्य का पद्यानुवाद, (५) अन्योक्ति-पुष्पावली, (६) समस्यापूर्ति ।

जन्मकाल—१९४० ।

नाम—(२८६८) बचईलाल, माऊनपुर, इलाहाबाद ।

ग्रन्थ—बजरंगविनय आदि ।

जन्मकाल—१९४५ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८६९) वेणीमाधव, फिन्ना, राज्य रीवाँ ।

ग्रन्थ—आनन्दरामायण का छन्दोबद्ध अनुवाद ।

जन्मकाल—१९४० । वर्त्तमान ।

नाम—(२९००) भगवानदीन मिश्र, शाहपुरा, ज़िला मँडला ।

ग्रन्थ—(१) राजेन्द्रविलास, (२) श्रीरामरघुवंशविनय, (३) श्रीराम-  
धनुषयज्ञ, (४) शंभुविवाह, (५) रामरंजनी, (६) फूल-  
वाटिका ।

जन्मकाल—१९४० ।

नाम—(२९०१) भवानीचरण (लालन), फतेपुर ।

ग्रन्थ—(१) कालिकास्तुति, (२) विनयरसिकलहरी, (३) छवि-  
प्रिया, (४) अयोध्यामाहात्म्य, आदि ।

जन्मकाल—१९४० । वर्त्तमान ।

नाम—(२९०२) राधारमर्णप्रसादसिंह रईस । वर्त्तमान ।

ग्रन्थ—(१) महिम्नस्तोत्र भाषा (१९६५), (२) स्तोत्ररत्नावली,  
१९६६ ।

नाम—(२९०३) रामचन्द्र शुक्ल, मिर्जापूर ।

ग्रन्थ—(१) कल्पना का आनन्द, (२) मेगास्थिनीज़ का भारत  
वर्षीय विवरण, (३) राज्यप्रबन्ध-शिक्षा, (४) बाबू राधा-



कृष्णदास का जीवनचरित्र, (५) अमिताभ, (६) स्फुट  
गद्य और पद्य लेख ।

जन्मकाल—१९४१ ।

विवरण—उत्कृष्ट कवि एवं लेखक ।

नाम—(२६०४) रामनरेश ब्राह्मण ग्राम कोईरीपुर, ज़िला  
जौनपुर ।

ग्रन्थ—(१) बालकसुधारशिक्षा, (२) भर्तृहरिशतक भाषानुवाद,  
(३) वीराङ्गना, (४) वीरबाला, (५) वीरवृत्तान्त, (६) आर्य-  
संगीतमाला, (७) हिम्मतसिंह और मारवाड़ी, (८)  
पिशाचिनी ।

जन्मकाल—१९४५ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६०५) रामलोचन पांडे, पैकवली, बलिया ।

ग्रन्थ—(१) कर्मदिवाकर, (२) सच्चा सुधार ।

जन्मकाल—१९३० ।

नाम—(२६०६) लालदेव नारायणसिंह (लाल) सटवा, पो०  
बादशाहपुर ।

ग्रन्थ—रमेशमनोरञ्जनी ।

जन्मकाल—१९४३ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६०७) लालबहादुर, अनेई ग्राम, काशी ।

ग्रन्थ—हल्दीघाट का युद्ध ।

नाम—(२६०८) सत्यनारायण त्रिपाठी, मन्धना, ज़िला  
कानपुर ।

ग्रन्थ—गोविलाप ।

जन्मकाल—१९४१ । वर्त्तमान ।

समय संवत् १९६६ ।

नाम—(२९०६) उदयनारायण वाजपेयी ।

ग्रन्थ—(१) प्राचीन भारतवासियों की विदेशयात्रा और वैदेशिक व्यापार, (२) महाराज पञ्चम जार्ज, (३) विकाश सिद्धान्त, (४) कर्मक्षेत्र ।

जन्मकाल—१९४२ ।

नाम—(२९१०) गणेशदत्त ।

ग्रन्थ—सरवरिया-कुलदीपक ।

नाम—(२९११) नंदकिशोर ब्राह्मण, मुरारिमऊ ।

ग्रन्थ—संगीतविद्यारत्न आदि ।

जन्मकाल—१९४१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२९१२) विष्णुलाल पम० प० ।

ग्रन्थ—आर्थ्यसमाजपरिचय ।

नाम—(२९१३) वृन्दावन वैश्य, काशीपुर तराई ।

ग्रन्थ—भारतीय-शिष्टाचार ।

नाम—(२९१४) राजेश्वरप्रसाद (अवनोन्द्र), ग्राम सेगरौली ।

ग्रन्थ—सामन (श्रावण) सुहाग आदि ।

जन्मकाल—१९४८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६१५) शिवकुमार ब्राह्मण, ग्राम मच्छागर, पो०  
मंसूरगंज ।

जन्मकाल—१९४६ । वर्त्तमान ।

वर्त्तमान समय के कुछ अन्य कवि व गद्यकार ।

नाम—(२६१६) अमीरअली सैयद, देवरी कलाँ सागर ।

ग्रन्थ—(१) नीतिदर्पण की भाषा टीका, (२) बूढ़े का व्याह, (३)  
बच्चे का व्याह, (४) सदाचारी बालक ।

विवरण—कविता उत्तम ।

नाम—(२६१७) उदयनारायणसिंह जर्मोदार बिद्दूपुर, मुज-  
फ्फूरपुर ।

ग्रन्थ—(१) सर्वदर्शनसंग्रह, (२) सिद्धान्तशिरोमणि, (३) आर्य-  
भट्टीय सूर्यसिद्धान्त ।

नाम—(२६१८) अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, कानपुर, सम्पादक  
भारतमित्र ।

ग्रन्थ—शिक्षा ( अनुवाद ) ।

जन्मकाल—१९३७ ।

विवरण—नृसिंह, हिन्दी-बङ्गवासी एवं हितवार्त्ता का सम्पादन  
किया ।

नाम—(२६१९) इन्द्रदेवनारायण शर्मा ।

नाम—(२६२०) ईश्वरीप्रसाद मिश्र, आरा ।

ग्रन्थ—(१) सुशीलाशिक्षा, (२) सञ्ची मैत्री, (४) बालगल्पमाला, तथा  
११ उपन्यास और अनुवाद ।

जन्मकाल—१९५० ।

नाम—(२६२१) भोंकारनाथ वाजपेयी, प्रयाग ।

ग्रन्थ—(१) लक्ष्मी उपन्यास, (२) दो कन्याओं की बातचीत,  
(३) शान्ता ।

जन्मकाल—१९३८ ।

विवरण—अच्छे गद्य-लेखक हैं ।

नाम—(२६२२) कर्णसिंह (कर्ण), चहँडौली, अलीगढ़ ।

ग्रन्थ—(१) शुद्धिपथ, (२) यवनमतादर्श, (३) मेरामत, (४) कर्णा-  
मृत, (५) अमृतोदधि, (६) काव्यकुसुमोद्यान, (७) संगीत-  
रत्नप्रकाश ।

जन्मकाल—१९३८ ।

विवरण—गद्य-पद्य-लेखक ।

नाम—(२६२३) कैलाशरानी बाटल ।

ग्रन्थ—(१) जीवनचरित्र पं० मदनमोहन मालवीय ।

नाम—(२६२४) यशदा देवी, सम्पादिका स्त्रीधर्मशिक्षक ।

ग्रन्थ—(१) सञ्ची माता ।

नाम—(२६२५) कृष्ण ब्रह्ममट्ट, असनी ।

विवरण—महाराज डुमराव के यहाँ राजकवि हैं ।

नाम—(२६२६) गणेशप्रसाद कायस्थ, टीकमगढ़ ।

ग्रन्थ—मखिंद्रीपमंजरी ।

नाम—(२६२७) गणेश रामचन्द्र शर्मा, अजमेर ।

ग्रन्थ—स्वामीजी के मराठी तथा गुजराती व्याख्यानों का अनुवाद ।

नाम—(२६२८) गदाधरप्रसाद पाठक, दारानगर, इलाहाबाद ।

ग्रन्थ—(१) लेक्चर्स टीचर, (२) ब्रह्मकुल-परिवर्त्तन, (३) शिक्षा-कल्पद्रुम, (४) कर्तव्यदर्पण ।

नाम—(२६२९) गिरिजाकुमार घोष ।

ग्रन्थ—उत्तररामचरित्र (अनुवाद) ।

नाम—(२६३०) गोपालदास देवगण शर्मा, लाहौर ।

ग्रन्थ—दयानन्दजीवनचरित्र ।

नाम—(२६३१) गोपाल देवी ।

ग्रन्थ—उपसंपादिका गृहलक्ष्मी ।

नाम—(२६३२) चक्रपाणि त्रिपाठी, सुहागपुर, होशंगाबाद ।

ग्रन्थ—रामयशकल्पद्रुम ।

नाम—(२६३३) चतुरसिंह रूपाहेली, मेवाड़ राजपूताना ।

ग्रन्थ—(१) चतुरकुलचरित्र, (२) स्रगोल-विज्ञान ।

विवरण—आप एक प्रतिष्ठित लेखक हैं ।

नाम—(२६३४) चिरञ्जीलाल शर्मा, अलीगढ़ ।

विवरण—हिन्दी के चपल कवि और गद्य-लेखक ।

नाम—(२६३५) चंद्रशेखरधर मिश्र, चम्पारन ।

ग्रन्थ—(१) संपादक विद्याधर्मदीपिका, (२) रत्नमाला चंपारन ।

विवरण—उत्तम लेखक हैं । कई ग्रन्थ रचे ।

नाम—(२६३६) चंद्रावती देवी, बनकटा, आजमगढ़ ।

नाम—(२६३७) छबीले गोस्वामी, फ़तेहपुर ।

नाम—(२६३८) छेदालाल कायस्थ ।

ग्रन्थ—अबला-मन-रञ्जन ।

नाम—(२६३९) जगन्नाथ शुक्ल, खानजहाँचक, ज़िला मुज़फ़्फ़र-  
पुर ।

नाम—(२६४०) जगन्नाथ शुक्ल पुच्छरत, अमृतसर ।

ग्रन्थ—(१) स्त्रीशिक्षामणि, (२) व्याख्यानविधि ।

नाम—(२६४१) जयदेव उपाध्याय, ज़िला बलिया ।

नाम—(२६४२) ज्वालादत्त शर्मा, मुरादाबाद ।

ग्रन्थ—प्रायश्चित्तादर्श ।

नाम—(२६४३) ज्वालादेवी ।

ग्रन्थ—स्त्रीशिक्षासम्बन्धी कई पुस्तकें ।

विवरण—आप डाकूर रामचन्द्र की पत्नी हैं ।

नाम—(२६४४) जानकीप्रसाद द्विवेदी, मुड़वारा ।

ग्रन्थ—(१) शृङ्गारतिलक भाषा, (२) नर्मदामाहात्म्य ।

नाम—(२६४५) तोरनदेवी, प्रयाग (ब्राह्मणी) ।

ग्रन्थ—स्फुट लेख पत्रों में तथा समस्यापूर्ति रसिकमित्र इत्यादि में ।

विवरण—आप पंडित कन्हैयालाल प्रयागवाले की पुत्री हैं ।

नाम—(२६४६) दयाशङ्कर, मथुरा ।

ग्रन्थ—(१) शिशुबोध ।

नाम—(२६४७) दुर्गाशङ्कर पाँडे, उन्नाव ।

ग्रन्थ—(१) नटवरपचीसी, (२) लेख और लेखक, (३) पुस्तकावलोकन, (४) अभिषेक, (५) धर्मनीतिशिक्षा, (६) व्रजनाथशतक ।

जन्मकाल—१९४६ ।

नाम—(२६४८) दूधनाथ उपाध्याय ।

ग्रन्थ—गोरक्षा पर आपकी पुस्तकें हैं ।

नाम—(२६४९) देवदत्त वाजपेयी (पुरन्दर), लखनऊ ।

नाम—(२६५०) देवीप्रसाद उपाध्याय, (नैपाली) ।

ग्रन्थ—सुन्दरसरोजिनी उपन्यास ।

विवरण—आप राज्य रामनगर चम्पारन के दीवान हैं ।

नाम—(२६५१) देवीप्रसाद चौधरी मुंसिफ, आगरा प्रान्त ।

नाम—(२६५२) दौलतरामजी रिटायर्ड सब डिप्टी इन्स्पेक्टर ।

ग्रन्थ—गद्यपद्य में कई ग्रन्थ ।

नाम—(२६५३) द्विज श्याम द्विवेदी, ज़िला बाँदा ।

नाम—(२६५४) धर्मराज मिश्र, शिवपुर दियर ज़िला बलिया ।

ग्रन्थ—रसिकमोहन ।

नाम—(२६५५) नाथूराम प्रेमी, देवरी सागर ।

ग्रन्थ—कई ग्रंथ ।

जन्मकाल—१९३९ ।

विवरण—सम्पादक जैनहितैषी ।

नाम—(२६५६) पन्नालाल, घाटमपुर, ज़िला कानपुर ।

नाम—(२६५७) पुरुषोत्तमदास खत्री टंडन एम० ए०, एल०  
एल० बी०, प्रयाग ।

ग्रंथ—(१) राजपूतवीरता, (२) लेख सामयिक पत्रों में ।

विवरण—आप बड़े ही हिन्दी-प्रेमी और हिन्दी के एक उत्साही  
लेखक तथा प्रचारक हैं ।

नाम—(२६५८) पुरुषोत्तमप्रसाद पाण्डेय, बालपुर, विलासपुर ।

ग्रंथ—(१) लाल गुलाल अनन्तलेखावली ।

नाम—(२६५९) पूरनमल, भाँसी ।

नाम—(२६६०) प्यारेलाल कायस्थ, गौरहर ।

नाम—(२६६१) प्रभूदान ज्वारण (सांझू जाति) मारवाड़ ।

विवरण—आश्रयदाता महाराजा जसवंतसिंह ।

नाम—(२६६२) प्रयागनारायण मिश्र (मिश्र), लखनऊ ।

ग्रंथ—(१) वंशीशतक, (२) मनोरमा, (३) राघवगीत, (४) ऋतु-  
काव्य ।

विवरण—गद्य में कुछ नहीं लिखा ।



नाम—(२६६३) प्रीतम (देवीप्रसाद) कायस्थ बिजावर (बुन्देलखंड) ।

ग्रन्थ—बुन्देलखंड का अलबम ।

विवरण—विजावर में हैं । इतिहास-वर्णन ।

नाम—(२६६४) वचनेश, फ़तेहगढ़ ।

नाम—(२६६५) बद्रीसिंह वर्मा, अटिया, उन्नाव ।

ग्रन्थ—बीराङ्गनाचरित्र ।

जन्मकाल—१९४४ ।

नाम—(२६६६) बलदेव दास कायस्थ, खटवारा, जि० बाँदा ।

ग्रन्थ—(१) जानकीविजय, (२) रामायण विष्णुपदी ।

नाम—(२६६७) वामनाचार्य बामन गोस्वामी, मिर्जापुर ।

ग्रन्थ—पंचाननपचीसी ।

नाम—(२६६८) विन्ध्याचलप्रसाद कायस्थ हरपुरनाग चम्पारन ।

ग्रन्थ—१८ पूर्ण और ८ अपूर्ण छोटे छोटे ग्रन्थ ।

नाम—(२६६९) बीरसिंह उपदेशक आर्यसमाज फुलपुरा, हिसार ।

जन्मकाल—१९४४ ।

विवरण—आज कल राजपूत सभा की ओर से उपदेशक हैं ।

नाम—(२६७०) बैजनाथ शुक्ल पैंतैपुर, जि० बारहबंकी ।

नाम—(२६७१) भगवानदास, हालना ।

नाम—(२६७२) भगवानबख्श (श्रीकर) बाबू ।

विवरण—इटौजा, जि० लखनऊ ।

नाम—(२६७३) भीमसेन ब्राह्मण, गुरुकुल काँगड़ी ।

ग्रन्थ—योगशास्त्र भाषा ।

नाम—(२६७४) मधुसूदन गोस्वामी ।

ग्रन्थ—अभियनिमाईचरित्र । चैतन्य महाप्रभु का जीवनचरित्र वार्तिक २७२ सफ़ा रायल १२ पेजी में लिखा गया है । यह पहले बाबू शिशिर कुमार घोष ने बंगला में बनाया था । उसी का यह अनुवाद है । कहीं कहीं एकाध छंद भी है । यह पुस्तक हमें दरबार छतरपुर में देखने को मिली ।

नाम—(२६७५) महादेवप्रसाद (मदनेश) पटना मो०  
भाऊगंज ।

ग्रन्थ—(१) गंगालहरी, (२) नखशिख रामचन्द्रजी, (३) मदनेश मौजलतिका, (४) मदनेश कल्पद्रुम, (५) संकटमोचन आरसी, (६) मदनेश कोष, (७) तनतीव्रताला की तरह-दार कुञ्जी, (८) भैरवाष्टक ।

नाम—(२६७६) महादेवशरण पांडे, सारन ।

नाम—(२६७७) महावीरप्रसाद कायस्थ, रुद्रपुर ।

ग्रन्थ—ईश्वरभक्ति, स्त्रीजीवनसुधार ।

नाम—(२६७८) महेशबख्शसिंह, पन्हीना, उन्नाव ।

ग्रन्थ—महेशमनरंजन ।

नाम—(२६७६) माधवप्रसाद शुक्ल ।

नाम—(२६८०) मुकुटलाल उपनाम रंग कवि ।

ग्रन्थ—दुर्गा भाषा ।

नाम—(२६८१) मुख्तारसिंह जाट, गिरधरपुर, मेरठ ।

ग्रन्थ—हिन्दी वैज्ञानिक कल्पतरु बनाते हैं ।

नाम—(२६८२) मैथिल परमहंस ।

ग्रन्थ—१७ ग्रन्थ बनाये ।

नाम—(२६८३) मंगलीलाल कायस्थ, पँतैपुर, बाराबंकी ।

ग्रन्थ—(१) मंगलकोष, (२) विजयचन्द्रिका, (३) कृष्णप्रिया ।

नाम—(२६८४) रतनेश मिश्र ।

ग्रन्थ—रसकलस ।

विवरण—कुछ छन्द इनके हमने देखे हैं ।

नाम—(२६८५) यज्ञेश्वरसिंह जारंग, मुजफ्फरपुर ।

ग्रन्थ—यज्ञेश्वरविनोद, रामरहस्य नाटक, सीताराम नाटक ।

नाम—(२६८६) रमादेवी त्रिपाठी, प्रयाग ।

ग्रन्थ—(१) रमाविनोद (१९६६), (२) अबलापुकार, (३) स्फुट  
लेख तथा काव्य पत्रों में ।

विवरण—इसमें नीति और चेतावनी के १११ दोहे कहे गये हैं ।

आप पं० चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी प्रयाग की सहधर्मिणी हैं ।

नाम—(२६८७) राजदेवी कुँवरि ठकुरानी ( गया ) ।

ग्रन्थ—समस्यापूर्ति, रसिकमित्र, रसिकरहस्य ।

नाम—(२६८८) राधाकृष्ण महता, लाहौर ।

ग्रन्थ—स्वामी जी के जीवनचरित्र का अनुवाद ।

नाम—(२६८९) राजेन्द्रसिंह, कसमण्डा, सीतापूर ।

विवरण—आप ठाकुर श्रीपालसिंह के सुयोग्य पुत्र हैं ।

नाम—(२६९०) रामचरणलाल ब्राह्मण, कौच, जि० उरई ।

ग्रन्थ—( १ ) सनातनधर्मदण्ड, ( २ ) रामचरणपचासा ।

नाम—(२६९१) रामचीज पाँडे, अरवल, गया ।

ग्रन्थ—विहारीवीर ( गद्य ), मित्रवेष में शत्रु ( पद्य ) ।

जन्मकाल—१९४४ ।

नाम—(२६९२) रामनारायण, ( रमेश कवि ) फ़र्रुखाबाद ।

ग्रन्थ—( १ ) सीतास्वयंवर, ( २ ) गंगालहरी ।

नाम—(२६९३) रामप्रतापसिंह राजा, माड़ानरेश ।

नाम—(२६९४) रामभरोसे पाँडे ।

नाम—(२६९५) लक्ष्मीनारायण, बरेली-निवासी ।

ग्रन्थ—स्त्रीपुरुषधर्म ।

नाम—(२६९६) लक्ष्मीपति काँथा, उन्नाव ।

ग्रन्थ—( १ ) काव्यकांता, ( २ ) रसभास्कर, ( ३ ) अलंकारचन्द्रोदय, ( ४ ) सीतास्वयंवरसरोज, ( ५ ) विनोदकौमुदी, ( ६ ) गीतामृतशतक, ( ७ ) रामचन्द्राम्युदय, ( ८ ) यश-वन्तपीयूष ।

नाम—(२६६७) शम्भूनाथ, मभारी ।

ग्रन्थ—प्रेममालिका ।

विवरण—सरयूप्रसाद के साथ बनाया ।

नाम—(२६६८) शिवप्रसाद हेडपंडित, दरभंगा ।

नाम—(२६६९) शिवरत्न शुक्ल, बछरावाँ ।

ग्रंथ—प्रभुचरित्र ।

नाम—(३०००) शिवसागरराम शर्मा, रेना फ़तेहपुर ।

ग्रन्थ—सत्यनारायण भाषा ।

नाम—(३००१) श्यामविहारी ।

नाम—(३००२) सगुनचन्द्र कायस्थ ।

ग्रन्थ—साधारण धर्म ।

नाम—(३००३) सत्यव्रत शर्मा, मुरादाबाद ।

नाम—(३००४) सत्यानंद जोशी ।

ग्रंथ—सम्पादक अभ्युदय ।

विवरण—अच्छे लेखक हैं ।

नाम—(३००५) सत्यानंद संन्यासी ।

ग्रन्थ—पाखंडमतकुठार, कवीरपन्थ की समीक्षा ।

नाम—(३००६) सालिग्राम शर्मा, अजमेर ।

ग्रन्थ—न्यायदर्शन भाषाटीका ।

नाम—(३००७) सावित्री देवी, ब्राह्मणी ।

विवरण—पं० बालकृष्णजी भट्ट की पुत्री हैं ।

नाम—(३००८) सुभद्रा कुँवरि ।

नाम—(३००९) संतराम लाहोर ।

विवरण—आप 'आर्यप्रभा' पत्र का सम्पादन करते हैं ।

नाम—(३०१०) हरसहायलाल बी० ए० डिप्टी मजिस्ट्रेट,  
बाँकीपुर ।

ग्रन्थ—(१) अवतारपराभव, (२) कान्तावियोग, (३) शकुन्तला  
अनुवाद ।

नाम—(३०११) हरिदास जैन ।

विवरण—वृन्दावन, जैन कवि के पौत्र ।

नाम—(३०१२) हरिहरप्रसाद परिव्राजकाचार्य ।

ग्रन्थ—(१) तुलसीतत्त्व-भास्कर, (२) तिलकतत्त्व ।

## वर्तमान अन्य लेखकों की सूची ।

- ३०१३ अकरमफ़ैज़ क़ाज़ी ।  
 ३०१४ अक्षयवटसिंह ।  
 ३०१५ अखिलचंद पालित ।  
 ३०१६ अच्युतप्रसाद दुबे ।  
 ३०१७ अनोखेलाल त्रिपाठी, गाज़ि-  
 याबाद ।  
 ३०१८ अनंतबापू शास्त्री ।  
 ३०१९ अनंतराम त्रिपाठी ।  
 ३०२० अनंतराम पांडे, रायगढ़ ।  
 ३०२१ अनंतराम वाजपेयी माहूअली-  
 खां सराय, लखनऊ ।  
 ३०२२ अब्दुल्लाह ।  
 ३०२३ अमरनाथ शुक्ल, बंबई ।  
 ३०२४ अमरसिंह ।  
 ३०२५ अमृतलाल चक्रवर्ती, कई  
 पत्रों के संपादक रहे हैं ।  
 ३०२६ अम्बिकाप्रसाद गुप्त ।  
 ३०२७ अम्बिकाप्रसाद त्रिपाठी बेंदकी,  
 फ़तेहपूर ।  
 ३०२८ अम्बिकाप्रसाद मिश्र, नगर  
 भरतपूर ।  
 ३०२९ अयोध्याप्रसाद त्रिपाठी,  
 र्सीफ़क, कानपूर ।  
 ३०३० अयोध्याप्रसाद मधुबन  
 ( अनाम ) आजूमगढ़ ।
- ३०३१ अयोध्याप्रसाद मालवीय,  
 मिर्ज़ापूर ।  
 ३०३२ अर्जुननाथ रैना ।  
 ३०३३ अलःदाद ।  
 ३०३४ अवधबिहारीलाल, प्रताप-  
 गढ़ ।  
 ३०३५ अवंतिकाप्रसाद शुक्ल,  
 दुगावां, लखनऊ ।  
 ३०३६ आत्माराम ब्राह्मण ।  
 ३०३७ आदित्यनारायण औरंगा-  
 बाद, गया ।  
 ३०३८ आनंदीप्रसाद द्विवेदी,  
 बैरिष्टर ।  
 ३०३९ आरिफ़ ।  
 ३०४० आसियापीर ।  
 ३०४१ ओंकारप्रसाद मिश्र, कान-  
 पूर ।  
 ३०४२ ओंकारसिंह ।  
 ३०४३ औसेरीलाल त्रिपाठी,  
 नीमच ।  
 ३०४४ अंगमती, गया ।  
 ३०४५ अंजनीसहाय शुक्ल, खीरी ।  
 ३०४६ इच्छाराम कृष्णलाल,  
 बंबई ।  
 ३०४७ इजदानी, मुसल्मान, भक्त

- ३०४८ इंदुदत्त शर्मा ।  
 ३०४९ इंशा ।  
 ३०५० ईश्वरीप्रसाद गौतम, अमर-  
 पाटन, रीर्वा ।  
 ३०५१ उदयप्रतापसिंह, दलजीत-  
 पूर, बहरायच ।  
 ३०५२ उमापतिदत्त पांडे, चिल-  
 हरी, आरा ।  
 ३०५३ उमापतिदत्त शर्मा, बी०ए० ।  
 ३०५४ उमाशंकर दुबे ।  
 ३०५५ कतवारुराय, निज़ामाबाद,  
 आजमगढ़ ।  
 ३०५६ कन्हैयालाल गोस्वामी,  
 गोकुल ।  
 ३०५७ कन्हैयालाल शर्मा, राई,  
 पटना ।  
 ३०५८ कन्हैयालाल सेठ ।  
 ३०५९ कपिलनाथ पुजारी, लखने-  
 श्वर क्षेत्र, खरोद, विला-  
 सपूर ।  
 ३०६० कमलाकर त्रिपाठी ।  
 ३०६१ कमलाकिशोर, त्रिपाठी ।  
 ३०६२ कमलाप्रसाद शर्मा, जग-  
 न्नाथडीह, हज़ारीबाग ।  
 ३०६३ कमलावती, आगरा ।  
 ३०६४ करणकवि, चेंडौली ।  
 ३०६५ कलाधर शर्मा, बिसर्वा  
 सीतापूर ।
- ३०६६ कल्यानीश्वरी ।  
 ३०६७ कस्तूरी बाई, बरेली ।  
 ३०६८ कान्हूखाल, गयावाल,  
 गया ।  
 ३०६९ कामताप्रसाद, शिवगढ़,  
 रायबरेली ।  
 ३०७० कारेलालतुलसीराम, मित्र,  
 मथुरा ।  
 ३०७१ कालिकाप्रसाद त्रिपाठी,  
 कानपूर ।  
 ३०७२ कालीचरण मिश्र, सनिगर्वा  
 कानपूर ।  
 ३०७३ कालीशंकर अवस्थी, बद्-  
 रका ।  
 ३०७४ काशीदत्त पांडे ।  
 ३०७५ काशीप्रसाद ।  
 ३०७६ काशीप्रसाद शुक्ल, विलास-  
 पूर ।  
 ३०७७ किशोरीदत्त ।  
 ३०७८ किशोरीदयाल शुक्ल, कान-  
 पूर ।  
 ३०७९ किशोरीलाल रावत, अज-  
 मेर ।  
 ३०८० कुन्दनलाल साह ।  
 ३०८१ कुमुद बंधुमित्र ।  
 ३०८२ कुंजीलाल वर्मा ।  
 ३०८३ कुँवर कन्हैयाजू, छतरपूर ।



- ३०८४ केदारनाथ अग्रवाल, कान-  
पूर ।
- ३०८५ केदारनाथ पाठक ।
- ३०८६ केवलप्रसाद मिश्र, सिउनी,  
छपरा ।
- ३०८७ केशरीसिंह ।
- ३०८८ केशरीसिंह बारहट ।
- ३०८९ केशवदेव शास्त्री ।
- ३०९० केशवप्रसादसिंह ।
- ३०९१ कैलासनारायण शुक्ल,  
अजयगढ़ ।
- ३०९२ कृपाशंकर ।
- ३०९३ कृष्णादास ।
- ३०९४ कृष्णप्रसादसिंह, एतिकाद-  
पूर, गया ।
- ३०९५ कृष्णवक्सराय, पलामू,  
जयपूर ।
- ३०९६ कृष्णबिहारी मिश्र, गँधौली,  
सीतापूर ।
- ३०९७ कृष्णसहाय ।
- ३०९८ कृष्णानंद पाठक, गोपीगंज,  
मिर्जापुर ।
- ३०९९ चेत्रपाल शर्मा, सुखसंचारक-  
कंपनी, मथुरा ।
- ३१०० खड्गजीत मिश्र ।
- ३१०१ खानआलम ।
- ३१०२ खानसुल्तान ।
- ३१०३ खुन्नामल शर्मा मास्टर, सुरा-  
दाबाद ।
- ३१०४ खुसालचंद बेहेटी, सीतापूर ।
- ३१०५ खैरातीख़ाँ, देवरी, सागर ।
- ३१०६ गजराजसिंह ठाकुर, अहिरोरी,  
हरदोई ।
- ३१०७ गणपति जानकीराम दुबे ।
- ३१०८ गणपतिप्रसाद उपाध्याय,  
स्वर्गद्वार, अयोध्या ।
- ३१०९ गणपति राव खेर ।
- ३११० गणेशजी, भरतपूर ।
- ३१११ गणेशप्रसाद, चितईपुर ।
- ३११२ गणेशप्रसाद, तिलसहरी,  
कानपुर ।
- ३११३ गणेशसिंह, कोट डेगबस ।
- ३११४ गदाई शेख ।
- ३११५ गदाधरप्रसाद दुबे, नवाबगंज
- ३११६ गदाधरप्रसाद वाजपेयी,  
( गदाधर ) केसरीगंज,  
सीतापूर ।
- ३११७ गदाधरप्रसाद मिश्र ।
- ३११८ गयादीन पटवारी, तोंदमोढी,  
विलासपूर ।
- ३११९ गयाप्रसाद अक्थी, कानपुर ।
- ३१२० गयाप्रसाद जडिया, नया-  
गाँव ।
- ३१२१ गयाप्रसाद त्रिपाठी, सिवान-  
पूर, मंडला ।

- ३१२२ गयाप्रसाद माणिक, औरंगा-  
बाद, गया ।
- ३१२३ गवीश ।
- ३१२४ गायत्री देवी ।
- ३१२५ गार्गीदीन शुक्ल डाक्टर,  
कानपूर ।
- ३१२६ गिरिजादत्त वाजपेयी ।
- ३१२७ गिरिजाप्रसाद दुबे ।
- ३१२८ गिरिजाप्रसाद शर्मा, जग-  
न्नाथढीह, हज़ारीबाग ।
- ३१२९ गिरिधरलाल, गया ।
- ३१३० गिरिधर शर्मा, झालावार,  
झालरापाटन ।
- ३१३१ गिरिधारी कवि ।
- ३१३२ गिरिवरसिंह ठाकुर ।
- ३१३३ गुरुदत्त शुक्ल. कालार्काकर ।
- ३१३४ गुरुदयाल, मौरपूर, कानपूर ।
- ३१३५ गुरुवक्ससिंह, अबुध, कान-  
पूर ।
- ३१३६ गुलज़ारीलाल ( लाल )  
अकबरपूर, कानपूर ।
- ३१३७ गुलज़ारीलाल अवस्थी,  
बाँदा ।
- ३१३८ गुलज़ारीलाल तेवारी, घाटम-  
पूर, कानपूर ।
- ३१३९ गुलाबराम गुप्त. क़तरपूर ।
- ३१४० गुलाबसेठ, क़तरपूर ।
- ३१४१ गुलामी ।
- ३१४२ गुलालचंद चौबे ।
- ३१४३ गोकर्णनाथ, चौबेपूर, कान-  
पूर ।
- ३१४४ गोकर्णप्रसाद, केसरीगंज,  
सीतापूर ।
- ३१४५ गोकुलदास, बनारस ।
- ३१४६ गोकुलप्रसाद त्रिपाठी, नया-  
बाज़ार, अजमेर ।
- ३१४७ गोकुलप्रसाद त्रिपाठी, हेल्थ  
आफ़िसर, बनारस ।
- ३१४८ गोकुलप्रसाद शुक्ल ।
- ३१४९ गोपालदास ।
- ३१५० गोपालदास अस्सिस्टंट मंत्री,  
नागरीप्रचारिणी सभा,  
बनारस ।
- ३१५१ गोपालप्रसाद ।
- ३१५२ गोपालप्रसाद खत्री ।
- ३१५३ गोपालप्रसाद दुबे, डिप्टी  
इन्स्पेक्टर, काँकरे ।
- ३१५४ गोपीनाथ पुरोहित ।
- ३१५५ गोपीनाथ, बाँकीपूर ।
- ३१५६ गोवर्द्धनलाल, भेलसा ।
- ३१५७ गोवर्धननाथ नग, पटना ।
- ३१५८ गोविंददास, लखनऊ ।
- ३१५९ गोविंदप्रसाद घिरडयाल ।
- ३१६० गोविंदवल्लभ ।

- ३१६१ गोविन्दमाधव मिश्र ।  
 ३१६२ गोविन्दराव दिनकर दाजी  
 शास्त्री पदे ।  
 ३१६३ गोविन्दशरण ।  
 ३१६४ गोविन्दशरण त्रिपाठी ।  
 ३१६५ गौरीदत्त वाजपेयी ।  
 ३१६६ गौरीशंकर जी मिश्र, रंजीत-  
 पुरवा ।  
 ३१६७ गौरीशंकर व्यास, इन्द्रगढ़,  
 राजपुताना ।  
 ३१६८ गंगानारायण दुबे, लाहौर ।  
 ३१६९ गंगाप्रसाद अक्वस्थी, अली-  
 पूर ।  
 ३१७० गंगाप्रसाद वेदपाठी, राजा-  
 पुर ।  
 ३१७१ गंगाराम दीक्षित, औनहा,  
 कानपुर ।  
 ३१७२ गंगाराम, सोनपुर, सारन ।  
 ३१७३ गंगाराम, (रमेश), हसुवा,  
 गया ।  
 ३१७४ गंगाशंकर, पचौली ।  
 ३१७५ गंगासहाय ।  
 ३१७६ गंगोत्रीप्रसादसिंह ।  
 ३१७७ ग्यानेन्द्रदत्त त्रिपाठी ।  
 ३१७८ ग्यानेन्द्रप्रसाद ।  
 ३१७९ घनश्याम आचारी, मिर्जापूर ।  
 ३१८० घनश्याम शर्मा, मुल्तान ।  
 ३१८१ चतुर्भुज औदीच्य ।  
 ३१८२ चारवाक भट्ट ।  
 ३१८३ चिंतामणि पांडे ।  
 ३१८४ चैतन्य नारायण, नारुफगंज,  
 पटना ।  
 ३१८५ चंडिकाप्रसाद अक्वस्थी ।  
 ३१८६ चंद्रदेव शर्मा ।  
 ३१८७ चंद्रमाधव मिश्र ।  
 ३१८८ चंद्रशेखर अग्निहोत्री कानपुर ।  
 ३१८९ चंद्रशेखर झा, शारदा-सभा,  
 मेहर ।  
 ३१९० चंद्रशेखरप्रसाद ।  
 ३१९१ चंद्रशेखर मिश्र, कैलास आ-  
 जमगढ़ ।  
 ३१९२ चंद्रावती देवी बनकटा आ-  
 जमगढ़ ।  
 ३१९३ चंद्रिकाप्रसाद, चौडिया,  
 सीतापूर ।  
 ३१९४ चंद्रिकाप्रसाद तेवारी, निहा-  
 लपूर, प्रयाग ।  
 ३१९५ चंद्रिकाप्रसाद शुक्ल, बिसवा,  
 सीतापूर ।  
 ३१९६ छुबिलालराज कबिराव  
 पेंडरा, बिलासपूर ।  
 ३१९७ छेदालाल शर्मा, नागपूर ।  
 ३१९८ छेदासिंह बैरिस्टर, मंडला  
 मध्यदेश ।

- ३१६६ छेदीलाल ।
- ३२०० छेदीलाल मिश्र, कुम्भोज ।
- ३२०१ छोटेलाल वैश्य, (बघुलाल)  
अहरोरी, हरदोई ।
- ३२०२ जगदीशनारायणसिंह, गोर-  
खपुर ।
- ३२०३ जगदीश्वरी बाई, बरेली ।
- ३२०४ जगदेव उपाध्याय ।
- ३२०५ जगन्नाथ पुच्छरत ।
- ३२०६ जगन्नाथप्रसाद अक्खी,  
पिहानी, हरदोई ।
- ३२०७ जगन्नाथप्रसाद, डिप्टी-  
कलेक्टर, विलासपुर ।
- ३२०८ जगन्नाथप्रसाद त्रिपाठी ।
- ३२०९ जगन्नाथ मिश्र, समस्तीपुर,  
दरभंगा ।
- ३२१० जगन्नाथसिंह ठाकुर, बर-  
खेवा, हरदोई ।
- ३२११ जगेश्वरप्रसाद शुक्ल, अमेठी,  
लखनऊ ।
- ३२१२ जगन्नाथ श्रीनगर ।
- ३२१३ जनार्दन जोशी ।
- ३२१४ जनार्दन झा ।
- ३२१५ जनार्दन मिश्र, (परमेश्वर).  
सनौर, भागलपुर ।
- ३२१६ जमुनाप्रसाद पांडेय ।
- ३२१७ जयदेवप्रसाद, भदनपुर, मैहर ।
- ३२१८ जयदेवी द्वारा, हाट रानीखेत ।
- ३२१९ जवाहरलाल शास्त्री, जयपुर ।
- ३२२० जानकीप्रसाद त्रिपाठी ।
- ३२२१ जानकीप्रसाद रंगून ।
- ३२२२ जानकी बाई, डूंगरपुर ।
- ३२२३ जानेजाना ।
- ३२२४ जीतनसिंह ।
- ३२२५ जीतमल खत्री, कानपुर ।
- ३२२६ जीवनानन्द शर्मा ।
- ३२२७ जुराखनलाल सोनार, बगिया-  
मनीराम, कानपुर ।
- ३२२८ जुलकरनैन ।
- ३२२९ जैगोविन्द, श्रीनगर ।
- ३२३० जैदेवजी, अलवर ।
- ३२३१ जैदेवी, जसवन्तनगर ।
- ३२३२ जैनारायणप्रसाद वाजपेयी,  
कानपुर ।
- ३२३३ जैरामदास ब्राह्मण, बनारस ।
- ३२३४ जैशङ्करसाह ।
- ३२३५ जोतीप्रसाद देवबन्द ।
- ३२३६ जोधासिंह महता कुँवर ।
- ३२३७ ज्वालामुख शर्मा ।
- ३२३८ ज्वालामुखप्रसाद मस्तूरी, बिला-  
सपुर ।
- ३२३९ ज्वालामुखप्रसाद, मैहर ।
- ३२४० ज्वालामुखप्रसाद शुक्ल, नागपुर,  
जगदीश ।

- ३२४१ टोडरमल पूर्णमल कुंभुन-  
वाला ।
- ३२४२ टोहलराम गंगाराम, देराइस-  
माइल खां पंजाब ।
- ३२४३ ठाकुरप्रसाद दुबे, गोपालपुर  
जौनपुर ।
- ३२४४ ठाकुरप्रसाद शर्मा, मथुरा ।
- ३२४५ तकी खां मोहम्मद ।
- ३२४६ तनसुख, व्यावर, राजपूताना ।
- ३२४७ तरिपालसिंह, सुतिल्लापग  
हरदोई ।
- ३२४८ ताराचरण भट्ट, ( तारक )  
कृष्ण द्वारिक गया ।
- ३२४९ तिलोचनशर्मा बानू, छपरा ।
- ३२५० तुलसीदास ।
- ३२५१ तुलसीदास, जबलपुर ।
- ३२५२ तुलसीराम पांडे ।
- ३२५३ तुलसीराम वैद्य, छिबरामऊ,  
फरुखाबाद ।
- ३२५४ तुंगनारायण मिश्र, खेती  
कालेज, कानपुर ।
- ३२५५ तेगअली, (बदमाश दर्पण  
बनाया) ।
- ३२५६ तेजनारायण मिश्र, कानपुर ।
- ३२५७ तोषकुमारी ।
- ३२५८ त्रिलोचन झा ।
- ३२५९ दंनसिंह ठाकुर, भोगिया-  
पुर, हरदोई ।
- ३२६० दामोदर दुबे, गंजीपुर,  
जबलपुर ।
- ३२६१ दामोदरसहायसिंह ।
- ३२६२ दिग्पालसिंह ठाकुर, भोगि-  
यापुर, हरदोई ।
- ३२६३ दिग्विजयसिंह ठाकुर, डिको-  
लिया, सीतापुर ।
- ३२६४ दीनदयाल त्रिपाठी, इलाहा-  
बाद ।
- ३२६५ दीनदयाल शर्मा, नवीन-  
गर, सीतापुर ।
- ३२६६ दीनदरवेश ।
- ३२६७ दुर्गाप्रसाद त्रिपाठी, मम्ह-  
गवाँ, रायबरेली ।
- ३२६८ दुर्गाप्रसाद बी० ए० खत्री,  
काशी ।
- ३२६९ दुर्गाप्रसाद शुक्ल, गौरी,  
कानपुर ।
- ३२७० दुर्गाशंकर हेडमास्टर, स-  
पोल, विलासपुर ।
- ३२७१ देवदत्तरामकृष्ण, भंडारकर ।
- ३२७२ देवदत्त शर्मा ।
- ३२७३ देवदत्त शर्मा, रतुड़ी ।
- ३२७४ देवीदयाल, गठिगरा, हर-  
दोई ।
- ३२७५ देवीदयाल, त्रिपाठी ।
- ३२७६ द्वारिकाप्रसाद खत्री, बेहर्ट  
सीतापुर ।

- ३२७७ धनुषधारीसिंह, गोरखपुर ।  
 ३२७८ द्वारिकाप्रसाद वैश्य (रसिकेन्द्र)रामगंज, कालपी ।  
 ३२७९ नजबी ।  
 ३२८० नन्दकिशोर दीक्षित, मागध, शुभंकर प्रेस, गया ।  
 ३२८१ नन्दकिशोर मिश्र, पोस्ट-मास्टर, बेवर ।  
 ३२८२ नन्दकिशोर शर्मा, अमृतसर ।  
 ३२८३ नबी (नखशिख) ।  
 ३२८४ नयाज ।  
 ३२८५ नरनाथ झा ।  
 ३२८६ नरपतिसिंह राजा ।  
 ३२८७ नरेन्द्रनारायणसिंह, मैनेजर देवनागर, कलकत्ता ।  
 ३२८८ नरेशप्रसाद मिश्र ।  
 ३२८९ नर्मदाप्रसाद तेवारी, सिउनी, छपरा ।  
 ३२९० नर्मदाप्रसाद मिश्र, रायपुर ।  
 ३२९१ नवनीत चौबे, मथुरा ।  
 ३२९२ नवलसिंह चौधरी, मुजफ्फरनगर ।  
 ३२९३ नानकचन्द मुंशी ।  
 ३२९४ नानकप्रसाद ।  
 ३२९५ नारायणपति तेवारी, (महा-लक्ष्मी) काशी ।  
 ३२९६ नारायण पांडे ।  
 ३२९७ नारायणप्रसाद अरोड़ा ।  
 ३२९८ नारायणप्रसाद सारंगगढ़, रामपुर ।  
 ३२९९ निज़ामशाह ।  
 ३३०० निरंजनलाल शुक्ल ।  
 ३३०१ निशात ।  
 ३३०२ नोहरसिंह ठाकुर, (अनुरूप) बुदवन फ़तेहपुर ।  
 ३३०३ नंदलाल वर्मा महम्मदपुर, हरदोई ।  
 ३३०४ पद्मसिंह शर्मा ज्वालामुखी, हरद्वार ।  
 ३३०५ पद्मलाल मिश्र, अजमेर ।  
 ३३०६ पद्मलाल शर्मा ।  
 ३३०७ परमेश्वरदत्त, पण्डित ।  
 ३३०८ परमेश्वरीदीन शुक्ल ऊगू, उन्नाव ।  
 ३३०९ पहलवानसिंह, खमसेरपुर ।  
 ३३१० पार्वती देवी ।  
 ३३११ पार्वतीनंदनलाल ।  
 ३३१२ पीतमसिंह ठाकुर, बेहटा-कोट, हरदोई ।  
 ३३१३ पीर मुहम्मद पीर, उदौली, सीतापुर ।  
 ३३१४ पी० सी० भट्टाचार्य, इलाहाबाद ।  
 ३३१५ पुत्तनलाल सारस्वत संपादक मोहनी ।

- ३३१६ पुत्तिलाल तेरवा, फरुखा-  
बाद ।
- ३३१७ पुत्तिलाल शुक्ल, अटवा,  
कानपुर ।
- ३३१८ पुत्तिलाल मिश्र, पिहानी ।
- ३३१९ पुत्तिलाल वैद्य, पिहानी,  
हरदोई ।
- ३३२० पुरुषोत्तमप्रसाद पण्डित ।
- ३३२१ पुरुषोत्तमप्रसाद पांडे, संभल-  
पुर ।
- ३३२२ पुरुषोत्तमलालतेवारी, माला  
खेरी, होशंगाबाद ।
- ३३२३ पूर्णसिंह ।
- ३३२४ पृथ्वीपालसिंह राजा, बारा  
बंकी ।
- ३३२५ पंचानन ।
- ३३२६ पंथीमिरजा, रोशनज़मीर ।
- ३३२७ प्यारेलाल मिश्र ।
- ३३२८ प्रतापसिंह ठाकुर, हरौनी,  
लखनऊ ।
- ३३२९ प्रद्युम्नकृष्ण ।
- ३३३० प्रमथनाथ भट्टाचार्य ।
- ३३३१ प्रयागदत्त भाट, घासमंडी,  
कानपुर ।
- ३३३२ प्रयागनारायण ( संगम )  
लखनऊ ।
- ३३३३ प्रयागप्रसाद तेवारी, हड़हा,  
उन्नाव ।

- ३३३४ प्राणनाथ, ग्वालियर ।
- ३३३५ प्रसिद्धनारायणसिंह ।
- ३३३६ प्रेमनाथयोगेश्वर, इलाहाबाद
- ३३३७ फ़ज़ायलख़ाँ ।
- ३३३८ फ़तेहबहादुरलाल, लखनपुर ।
- ३३३९ फ़तेहसिंह वर्मा राजा,  
पुवार्या, शाहजहाँपुर ।
- ३३४० फ़रीद ।
- ३३४१ बच्चूलाल दुबे, गाज़ीपुर ।
- ३३४२ बच्चूलाल पंडित, धनवार,  
हज़ारीबाग़ ।
- ३३४३ बजरंगलाल शर्मा, झाला-  
वार, झालारापाटन ।
- ३३४४ बटुकप्रसाद मिश्र, काशी ।
- ३३४५ बटेश्वरदयाल अग्निहोत्री,  
( लालन ) मंगलपुर,  
कानपुर ।
- ३३४६ बतानूलाल मिश्र, सराय-  
मीरां ।
- ३३४७ बदरीदत्त शर्मा ।
- ३३४८ बदरीनारायण मिश्र ।
- ३३४९ बद्रीप्रसाद कायस्थ, कठि-  
गरा, हरदोई ।
- ३३५० बद्रीप्रसाद गुप्त, ( गुप्त )  
कानपुर ।
- ३३५१ बनमालीशंकर मिश्र,  
मुरादाबाद ।

- ३३५२ बनवारीलाल तेवारी ।  
 ३३५३ बरदाकांत लाहरी, दीवान,  
 फरीदकोट ।  
 ३३५४ बलदेवप्रसाद शुक्ल ।  
 ३३५५ बलभद्रप्रसाद ( बाल )  
 कानपूर ।  
 ३३५६ बलभद्र मिश्र, लखनऊ ।  
 ३३५७ बलभद्रसिंह बेहड़ा, बह-  
 रायच ।  
 ३३५८ बागीश्वर मिश्र, मऊनाट-  
 मंजन ।  
 ३३५९ बागेश्वरीप्रसाद मिश्र ।  
 ३३६० वाजिद ( अरेला बनाये ) ।  
 ३३६१ बाबादीन शुक्ल, यकहला,  
 फतेहपूर ।  
 ३३६२ बाबूराम शर्मा, इटावा ।  
 ३३६३ बाबूराव पराङ्कर ।  
 ३३६४ बालकृष्णदास पंडित ।  
 ३३६५ बालगोविंद ( गोविंद )  
 कानपूर ।  
 ३३६६ बालचंद शास्त्री, पंडित ।  
 ३३६७ बालमुकुंद पांडे, बलुवा-  
 सारन ।  
 ३३६८ बालमुकुंद शुक्ल, कसिया,  
 गोरखपूर ।  
 ३३६९ बालाजी माधव लघाटे ।  
 ३३७० बालूराम तेवारी, कानपूर ।  
 ३३७१ वासुदेव कवि, इस्माईलपूर,  
 गया ।  
 ३३७२ वासुदेवतेवारी, गिल्लिसर्गाज,  
 कानपूर ।  
 ३३७३ वासुदेव मिश्र ।  
 ३३७४ वासुदेवराव, सिंगानापुरकर ।  
 ३३७५ वाहिद ।  
 ३३७६ विद्याधर ।  
 ३३७७ विद्याधर दीक्षित, मऊ ।  
 ३३७८ विद्याधर शर्म, बालपूरा ।  
 ३३७९ विद्यानाथ ।  
 ३३८० विद्यापंडित, ग्वालियर ।  
 ३३८१ विद्यावती, सेठाणी ।  
 ३३८२ विद्यावती, हरद्वार ।  
 ३३८३ विनायक विश्वनाथ ।  
 ३३८४ विवेकानंद ब्राह्मण ।  
 ३३८५ विश्वनाथजी मिश्र, मिस-  
 रौली सुल्तांपूर ।  
 ३३८६ विश्वभरदत्त, टिकैतपूर,  
 बारहबंकी ।  
 ३३८७ विश्वभरनाथ दुबे ।  
 ३३८८ विश्वेश्वरप्रसाद अक्ली,  
 तिलोकपूर, बाराबंकी ।  
 ३३८९ विष्णुदत्त शर्मा ।  
 ३३९० विष्णुदेवसिंह, रीवा ।  
 ३३९१ विष्णुपद वाजपेयी, बिधूना,  
 कानपूर ।



- ३३६२ विष्णुप्रसाद, घाटमपूर,  
कानपूर ।
- ३३६३ बिहारीलाल चतुर्वेदी,  
प्रोफेसर ।
- ३३६४ बिहारीलाल जानी, भरत-  
पूर ।
- ३३६५ बिहारीलाल, बिदासरिया,  
आरा ।
- ३३६६ बिहारीलाल, हर्दुवागंज,  
अलीगढ़ ।
- ३३६७ विहारीसिंह ( रसराज )  
छपरा ।
- ३३६८ बीजा बारगी ।
- ३३६९ बीरलाल रेडडी, सागर ।
- ३४०० बुद्धलाल सरावक, बंबई ।
- ३४०१ बेनीप्रसाद पंडित ।
- ३४०२ बेनीप्रसाद बेनी, कानपूर ।
- ३४०३ बेनीमाधव मिश्र, पंडित ।
- ३४०४ बेनीमाधव शुक्ल ।
- ३४०५ वैकुण्ठनंदन शर्मा, ( द्विजेंद्र  
मारुफपुर ) प्रयाग ।
- ३४०६ बैजनाथ ।
- ३४०७ बैजनाथप्रसादसिंह, इख-  
लासपूर, शाहाबाद ।
- ३४०८ बैजनाथ मिश्र, लखनऊ ।
- ३४०९ बैजनाथसिंह शर्मा, श्रीकंठ-  
पूर, आज़मगढ़ ।
- ३४१० वैद्यनाथ ।
- ३४११ वैद्यनाथ नारायणसिंह ।
- ३४१२ वैद्यनाथ मिश्र, गौसगंज,  
हरदोई ।
- ३४१३ वैद्यनाथ शुक्ल ।
- ३४१४ वृंदावन बांदा ।
- ३४१५ वृंदावनलाल ।
- ३४१६ वृंदावनलाल वर्मा ।
- ३४१७ बंशीधर बेहटी, सीतापूर
- ३४१८ बंशीधर शर्मा, अयोध्याखीरी
- ३४१९ बंशीधर शर्मा, बालपूर ।
- ३४२० बंशीधर शुक्ल, मास्टर,  
सैलाना, मालवा ।
- ३४२१ बांकेबिहारी चौबे, ( बर्बं  
मंगलपूर ) कानपूर ।
- ३४२२ व्यंकटेशनारायण त्रिपाठी ।
- ३४२३ ब्रजचंद, बाबू बनारस ।
- ३४२४ ब्रजनाथ शर्मा, गोस्वामी ।
- ३४२५ ब्रजवल्लभ मिश्र, ( पद्यलेखक,  
सासनी, अलीगढ़ ।
- ३४२६ ब्रजबिहारीलाल शुक्ल ।
- ३४२७ ब्रजभूषनलाल गुप्त, नौपरा,  
कानपूर ।
- ३४२८ ब्रजमोहन म्हा, मैथिल ।
- ३४२९ ब्रजेश भाट, रीवा ।
- ३४३० ब्रह्मदत्त उपदेशक, आर्यप्रति-  
निधि समा, लाहौर ।

- ३४३१ भगवतीप्रसाद, पांडे ।  
 ३४३२ भगवानदास, बनारस ।  
 ३४३३ भगवानदीन दीक्षित, मल्लावां ।  
 ३४३४ भगवानदीन, वाजपेयी ।  
 ३४३५ भगवानवक्स, गौरा जामो,  
 ज़िला सुलतानपुर ।  
 ३४३६ भगवानसिंह, अध्यापक,  
 रायपुर ।  
 ३४३७ भगवानी मास्टर, छतरपुर ।  
 ३४३८ भवदेव शास्त्री, वैदिक पाठ-  
 शाला, नरसिंहपुर ।  
 ३४३९ भवान कवि, अलवर ।  
 ३४४० भवानीदत्त जोशी ।  
 ३४४१ भवानीप्रसाद तेवारी, कैल-  
 गढ़ ।  
 ३४४२ भवानीप्रसाद पटवारी, हस-  
 नापुर, लखनऊ ।  
 ३४४३ भागवतप्रसादजी पांडे, लख-  
 नऊ (मृत) ।  
 ३४४४ भागीरथ मिश्र, पेरवा, इटावा ।  
 ३४४५ भागीरथी मुदरिसिंह, पिल-  
 किछा, जवनपुर ।  
 ३४४६ भुजंगभूषण भट्टाचार्य ।  
 ३४४७ भूपसिंह, (भूप) कानपुर ।  
 ३४४८ भुवनेश्वरी देवी ।  
 ३४४९ भैयालाल लक्ष्मीप्रसाद,  
 शुक्र, येलिचपुर, बग्नेर-  
 गंगाई ।
- ३४५० भैयालाल शुक्र ।  
 ३४५१ भैरव झा, पीरपैती ।  
 ३४५२ भैरवप्रसाद, (बिप्र) कानपुर ।  
 ३४५३ भोलादत्त पांडे ।  
 ३४५४ भोलानाथ डाक्टर (रायबहा-  
 दुर) मिश्र, कानपुर ।  
 ३४५५ भोलानाथ फतेहपुर, होश-  
 गावा ।  
 ३४५६ भोंदूलाल अनंतराम, राय-  
 पूर ।  
 ३४५७ मन्खनलाल वकील, लख-  
 नऊ ।  
 ३४५८ मदनमोहन भट्ट, (हिन्दी-  
 महाभारत बनाया) ।  
 ३४५९ मदनलाल तेवारी ।  
 ३४६० मदनेश कवि, पटना ।  
 ३४६१ मधुसंगल मिश्र ।  
 ३४६२ मनमोहन, भागलपुर ।  
 ३४६३ मनराखनलाल शुक्र ।  
 ३४६४ मनोहरलाल बाबू ।  
 ३४६५ मनोहरलाल मिश्र, कानपुर ।  
 ३४६६ मनोहरसिंह कप्तान, तह-  
 सीलदार, रीवां ।  
 ३४६७ मन्नीलाल भाट, कानपुर ।  
 ३४६८ मन्नीलाल मिश्र (घनश्याम),  
 मौलगांज, कानपुर ।  
 ३४६९ मन्तूलाल उपनाम (मनु)  
 फरुखाबाद ।

- ३४७० मर्दनसिंह ठाकुर, नादन-  
टोला, रीवा ।
- ३४७१ महम्मदतकीखां, छतरपुर ।
- ३४७२ महादेव उपाध्याय, (शिवेश)  
माया-बिगहा, गया ।
- ३४७३ महादेवप्रसाद उपाध्याय,  
देवराजपुर, सुल्तांपुर ।
- ३४७४ महादेवप्रसाद शर्मा, श्रोयल,  
खीरी ।
- ३४७५ महादेवशरण पांडे, बलुवा,  
सारन ।
- ३४७६ महादेव शुक्ल, भगवंत-  
नगर ।
- ३४७७ महादेवी ।
- ३४७८ महावीरप्रसाद, टेढ़ा, उन्नाव ।
- ३४७९ महावीरप्रसाद, मधुप, कान-  
पुर ।
- ३४८० महावीरसिंह अध्यापक,  
वेतिया, चंपारन ।
- ३४८१ महावीरसिंह, मगरबारा,  
उन्नाव ।
- ३४८२ महींद्रिनारायणचन्द्र, सुख-  
सैना, विष्णुपुर ।
- ३४८३ महेशप्रसाद, मैहर ।
- ३४८४ माधवदत्त, कानपुर ।
- ३४८५ माधवदास, बनारस ।
- ३४८६ मानसिंह तैवारी, बाल-  
कर्ता, बाजार, मेरठ ।
- ३४८७ मालिकराम ।
- ३४८८ मांगीलाल, नीमच ।
- ३४८९ मियां ।
- ३४९० मीरननखशिख ।
- ३४९१ मीरमाधौ ।
- ३४९२ मुकुंदलाल भाट, कानपुर ।
- ३४९३ मुखराम चौबे ।
- ३४९४ मुन्नालाल दुबे, नागपुर ।
- ३४९५ मुन्नालाल मिश्र, नार्मल-  
स्कूल, रायपुर ।
- ३४९६ मुन्नी देवी, आसाम ।
- ३४९७ मुन्नीलाल, अलीगढ़ ।
- ३४९८ मुन्नीलाल बाबू ।
- ३४९९ मुन्नूलाल, ( छविनाथ )  
नौघरा, कानपुर ।
- ३५०० मुन्नूलाल, (भुवनेश) नौवा-  
गढ़ी, गया ।
- ३५०१ मुरलीधर बाबू बी० ए० ।
- ३५०२ मुरलीधर, लखनऊ ।
- ३५०३ मुरलीधर शर्मा, दासापुर,  
सीतापुर ।
- ३५०४ मुराद ।
- ३५०५ मुरारि वाजपेयी ।
- ३५०६ मुंशी कालीचरण (सेवक)
- ३५०७ मुंशीलाल लाला ।
- ३५०८ मूलचंद गोस्वामी ।
- ३५०९ मूलासिंह ठाकुर, मफिया,  
हरदोई ।

- ३५१० मेडीबाल त्रिवेदी, कोरौना,  
सीतापूर ।
- ३५११ मोहब्बतसिंह, दोनवार ।
- ३५१२ मंगलप्रसाद शर्मा, मथुरा ।
- ३५१३ मंगलप्रसाद शुक्ल, कानपूर ।
- ३५१४ मंगलानन्दपुरी, अफरीका,  
यहाँ अतरसुया, प्रयाग ।
- ३५१५ मंगलीप्रसाद मिश्र, मथुरा ।
- ३५१६ मंसाराम माडवारी, मंगल-  
पूर, (आनंद) कानपूर ।
- ३५१७ यमुनाप्रसाद पांडेय ।
- ३५१८ यशवंतसिंह ।
- ३५१९ यशोदा देवी, संपादिका स्त्री-  
धर्मशिक्षक ।
- ३५२० यशोदानंदन अखौरी ।
- ३५२१ यशोदानंदन शर्मा, पँच-  
महला टिकारी, गया ।
- ३५२२ युगुलकिशोर मंत्री, नागरी-  
प्रचारिणी सभा, काशी ।
- ३५२३ युगुलकिशोर मुख्तार, देव-  
वंद ।
- ३५२४ युगुलकिशोर वर्मा, अतरपूर ।
- ३५२५ युगुलकिशोर शुक्ल ।
- ३५२६ रघुनाथ, कटैया, मैहर ।
- ३५२७ रघुनाथप्रसाद तेंवारी, (त्रिभु-  
वन) ।
- ३५२८ रघुनाथप्रसाद, लखनऊ ।
- ३५२९ रघुनाथसिंह, भगवानपूर ।
- ३५३० रघुनंदनबाल, केसरीगंज,  
सीतापूर ।
- ३५३१ रघुनंदनबालमनी, गोइहा,  
दरभङ्गा ।
- ३५३२ रघुनंदनसिंह बर्मा, भास्की,  
लखनऊ ।
- ३५३३ रघुवर त्रिपाठी, संडीला ।
- ३५३४ रघुवरदयाल भाट, कानपूर ।
- ३५३५ रघुवरदयाल मिश्र, डिप्टी-  
कलेक्टर ।
- ३५३६ रघुवरदयाल शुक्ल, फतूहा-  
बाद ।
- ३५३७ रघुवरप्रसाद दुबे ।
- ३५३८ रमताराम, काशी ।
- ३५३९ रमेशदत्त पांडे ।
- ३५४० रसिकेश, कानपूर ।
- ३५४१ रसियानजीबख्ता ।
- ३५४२ रहमतुल्ला ।
- ३५४३ राजनारायण ( द्विजराज ),  
रानीसराय, आज्ञाम्माढ़ ।
- ३५४४ राजहंससिंह कुँवर 'भाला-  
वार, भालारापाटन ।
- ३५४५ राजाराम ( बनारस ) ।
- ३५४६ राजाराम दुबे ( अधीन ),  
फरूखाबाद ।
- ३५४७ राजाराम मिश्र, पदारथपूर,  
बाँदा ।

- ३५४८ राजेन्द्रप्रसाद, चाकरगंज, बाँकीपूर ।
- ३५४९ राधाबाई, जयपूर ।
- ३५५० राधारमन चौबे ।
- ३५५१ राधारमण मैत्र ।
- ३५५२ राधारमणलाल, हरदोई ।
- ३५५३ रामश्रवतार दुबे, संडीला (द्विजराज) ।
- ३५५४ रामकरण पं० ।
- ३५५५ रामकीर्ति सिंह वकील, औरंगाबाद, गया ।
- ३५५६ रामकुमार, गौयन का बाबू ।
- ३५५७ रामकृष्णरसिया, कानपूर ।
- ३५५८ रामगरीब चौबे ।
- ३५५९ रामचन्द्र उपाध्याय, छपरा ।
- ३५६० रामचन्द्र जैन, मथुरा ।
- ३५६१ रामचन्द्र दुबे ।
- ३५६२ रामचरण भाट, ( राम ) कानपूर ।
- ३५६३ रामचरित उपाध्याय ।
- ३५६४ रामचरित्र तेवारी, डुमराव ।
- ३५६५ रामचीज़सिंह, चक्रधरपुर ।
- ३५६६ रामजीलाल वैश्य, नौतनी-उन्नाव ।
- ३५६७ रामजीरत्न पाठक, निवाजी-पूर ।
- ३५६८ रामदहिन शर्मा ।
- ३५६९ रामदास कायस्थ, ( रस ) बड़ी पियरी, बनारस ।
- ३५७० रामदास गौड़ ( रस ), बना-रस ।
- ३५७१ रामदास ठाकुर, नहदा, गुड़र ।
- ३५७२ रामदीन भाट, कोंच ।
- ३५७३ रामदुलारे पांडे, माधव, कानपूर ।
- ३५७४ रामदुलारे मिश्र ।
- ३५७५ रामदुलारी दुबे ।
- ३५७६ रामदेवलाल, सूर्यपूर, आज्ञ-मगढ़ ।
- ३५७७ रामदेवी, कुँवरि, इलाहा-बाद ।
- ३५७८ रामदेवी सहारनपूर ।
- ३५७९ रामनजरसिंह ( अजित ), गोरखपूर ।
- ३५८० रामनाथ, ( राम ) मिर्ज़ापूर ।
- ३५८१ रामनारायण दूगड़ ।
- ३५८२ रामनारायण, भगवानगंज, लखनऊ ।
- ३५८३ रामनारायण मिश्र, मनि-यारपूर, आज्ञमगढ़ ।
- ३५८४ रामनारायण मिश्र, बाह-बाज़ार, छपरा ।
- ३५८५ रामनारायण मिश्र, श्रीनगर ।
- ३५८६ रामनारायण शर्मा, बरेली ।
- ३५८७ रामनारायणसिंह ।

- ३५८८ रामन्यारे शुक्ल, बलसिंहपुर,  
सीतापुर ।
- ३५८९ रामप्रसाद महाजन, क्वैरी-  
पुर, जवनपुर ।
- ३५९० रामप्रसाद मिश्र, गिलिस-  
बाज़ार, कानपुर ।
- ३५९१ रामप्रसाद शर्मा, पीपरपाती,  
गया ।
- ३५९२ रामबहादुरसिंह, उर्दू बाज़ार,  
गोरखपुर ।
- ३५९३ रामविलास शर्मा, (गद्यपद्य-  
लेखक) शाहाबाद, हर-  
दोई ।
- ३५९४ रामविलास शारदा, अजमेर ।
- ३५९५ रामबिहारी उपाध्याय, (रंगी-  
ले) गोरखपुर ।
- ३५९६ रामभजन मिश्र, नीमच ।
- ३५९७ रामभद्र ओम्का ।
- ३५९८ रामभरोसे जी सूर्या, गोरख-  
पुर ।
- ३५९९ रामभरोसे त्रिपाठी, (विप्र)  
कानपुर ।
- ३६०० रामभरोसे शर्मा, संपादक,  
काव्यसुधानिधि, काशी ।
- ३६०१ रामभूषणदास, अयोध्या ।
- ३६०२ राममिश्र शास्त्री, काशी ।
- ३६०३ रामरथविजयसिंह ।
- ३६०४ रामरतन सनाढ्य, कानपुर ।
- ३६०५ रामलगन पांडे, बलुवा, सा-  
रन ।
- ३६०६ रामलाल कायस्थ, (रंग)  
कानपुर ।
- ३६०७ रामलाल गयावाल, गया ।
- ३६०८ रामलाल वर्मा, उपन्यास-  
कार ।
- ३६०९ रामलाल मिश्र ।
- ३६१० रामशरण त्रिपाठी ।
- ३६११ रामशरण, रामरूपाडल,  
दानापुर ।
- ३६१२ रामसकल, बकसर, शाहा-  
बाद ।
- ३६१३ रामसरूप जी महाजन,  
क्वैरीपुर, जवनपुर ।
- ३६१४ रामसरूप पाठक ।
- ३६१५ रामसेवक शर्मा ।
- ३६१६ रामाधीन अक्वथी, मल्लारवा ।
- ३६१७ रामानंद ब्रह्मचारी, इमाम,  
गया ।
- ३६१८ रामावतार पंडित ।
- ३६१९ रामावतार पांडे ।
- ३६२० रामेश्वरप्रसाद त्रिपाठी ।
- ३६२१ रामेश्वर वाजपेयी ।
- ३६२२ रुक्मिणीनंदन पंडित ।
- ३६२३ रुद्रप्रसाद पांडे, पट्टी प्रताप-  
गढ़ ।

- ३६२४ रुद्रसिंह ठाकुर, बरखेरवा,  
हरदोई ।
- ३६२५ रूपसिंह त्रिपाठी, बकेवर,  
इटवा ।
- ३६२६ रंगखानि ।
- ३६२७ लक्खीराम, मथुरा ।
- ३६२८ लक्ष्मणगोविंद आठले ।
- ३६२९ लक्ष्मीदत्तशर्मा, आनंद-  
पूर, गया ।
- ३६३० लक्ष्मीधर दीक्षित, सीतापूर ।
- ३६३१ लक्ष्मीधर वाजपेयी ।
- ३६३२ लक्ष्मीनारायण पुरोहित ।
- ३६३३ लक्ष्मीनारायण मिश्र, कान-  
पूर ।
- ३६३४ लक्ष्मीनारायण रईस, सिकं-  
दरावाव ।
- ३६३५ लक्ष्मीनारायणलाल, व-  
कील ।
- ३६३६ लक्ष्मीनारायणसिंह ।
- ३६३७ लक्ष्मीशंकर द्विवेदी ।
- ३६३८ लक्ष्मीशंकर मिश्र, गोला-  
गंज, लखनऊ ।
- ३६३९ ललिताप्रसाद शर्मा, बरेली ।
- ३६४० लल्लीप्रसाद पांडे ।
- ३६४१ लालताप्रसाद सुरहुरपुर,  
फूजाबाद ।
- ३६४२ लालबहादुरसिंह ढेंगवसि,  
सुलतानपूर ।

- ३६४३ लालमनिराय ।
- ३६४४ लालसिंह ठाकुर, इन्दौर ।
- ३६४५ लालसिंह ठाकुर, बीकानेर ।
- ३६४६ लावण्यप्रभावसु ।
- ३६४७ लेखनाथ भ्मा मनीगाहरी,  
दुरभंगा ।
- ३६४८ लोकनाथ त्रिपाठी ।
- ३६४९ लोकमणि ।
- ३६५० शशिभूषण चटर्जी ।
- ३६५१ शारदाप्रसाद, कोसी, मथुरा ।
- ३६५२ शारदाप्रसाद, मैहर ।
- ३६५३ शाह मोहम्मद ।
- ३६५४ शाहशफ़ी ।
- ३६५५ शादहादी ।
- ३६५६ शांति देवी, बनारस ।
- ३६५७ शिवचन्द्रबलदेव ।
- ३६५८ शिवचंद्र शर्मा, जमालपूर,  
मैमनसिंह ।
- ३६५९ शिवदत्त पांडे, फूरुखाबाद ।
- ३६६० शिवदयाल शुक्ल ।
- ३६६१ शिवदासपांडे, मस्तूरी,  
विलासपूर ।
- ३६६२ शिवदुलारे त्रिपाठी, सिवनी,  
छुपरा ।
- ३६६३ शिवदुलारे पांडे, बलुवा,  
सारन ।
- ३६६४ शिवनाथ शर्मा, संपादक  
आनंद, लखनऊ ।

३६६५ शिवनारायण दुबे, जयपुर ।

३६६६ शिवनारायण शुक्ल ।

३६६७ शिवनारायणसिंह, हाजीपुर ।

३६६८ शिवनंदन त्रिपाठी, अजमेर ।

३६६९ शिवनंदनप्रसाद त्रिपाठी  
पदारथपुर, बाँदा ।

३६७० शिवप्रसाद कवीश्वर ।

३६७१ शिवप्रसाद, कानपुर ।

३६७२ शिवप्रसाद गुप्त, काशी ।

३६७३ शिवप्रसाद त्रिपाठी, उरई,  
कोंच ।

३६७४ शिवप्रसाद दलपतिराम ।

३६७५ शिवप्रसाद पांडे, महेंद्र,  
बाँकीपुर ।

३६७६ शिवप्रसाद मिश्र वकील,  
मंत्री कान्यकुब्ज प्रति-  
निधिसभा, फ़रूखाबाद ।

३६७७ शिवबालकराम पांडे, खान-  
पुर, कानपुर ।

३६७८ शिवभजनलाल त्रिवेदी ।

३६७९ शिवशेखरप्रसाद अक्स्थी,  
गनियारी, विलासपुर ।

३६८० शिवशंकर दीक्षित, विलास-  
पुर ।

३६८१ शिवशंकर भट्ट ।

३६८२ शिवसिंह नेरी, बदायूँ ।

३६८३ शिवाचार पांडे ।

३६८४ शिवाचार शुक्ल, बरेली ।

३६८५ शीतलाप्रसाद, त्रिपाठी, अज-  
मेर ।

३६८६ शुक्रदेवप्रसाद त्रिपाठी ।

३६८७ शेरसिंह कुमार, करणवास ।

३६८८ शंकरदत्त वाजपेयी ।

३६८९ शंकरप्रसाद, तमेर, विलास-  
पुर

३६९० शंकरप्रसाद दीक्षित, लखना,  
हटावा ।

३६९१ शंकरप्रसाद मिश्र, अहमदा-  
बाद ।

३६९२ शंकरसहाय, ज़िला हरदोई ।

३६९३ श्यामनाथ, जयपुर ।

३६९४ श्यामनाथ शर्मा ।

३६९५ श्यामलाल, कानपुर ।

३६९६ श्यामलाल वर्मा, सारङ्गाढ़,  
रायपुर ।

३६९७ श्यामलाल शर्मा, आहर,  
बुलंदशहर ।

३६९८ श्यामलाल सिंह, आगरा ।

३६९९ श्यामसुन्दर वैद्य कपूरिया ।

३७०० श्यामाबाई, उमरिया, रीवाँ ।

३७०१ श्रीकांत शर्मा, जहानाबाद,  
गया ।

३७०२ श्रीकृष्ण शास्त्री तैलंग ।

३७०३ श्रीकंठ शर्मा ।



- ३७०४ श्रीनारायण मिश्र ।  
 ३७०५ श्रीप्रकाश ।  
 ३७०६ श्रीलाल शालग्राम पांडे ।  
 ३७०७ सखाराम गणेश देउस्कर ।  
 ३७०८ सतगुरुशरण प्रसाद, गोंडा ।  
 ३७०९ सत्यनारायण, धाधूपूर,  
 आगरा ।  
 ३७१० सत्यनारायण शुक्ल, कानपूर ।  
 ३७११ सत्यबन्धुदास ।  
 ३७१२ सत्यवती देवी, सहारनपूर ।  
 ३७१३ सत्यशरण, रतूड़ी ।  
 ३७१४ सदाराम बाबुलिया, देव-  
 प्रयाग, जि० गढ़वाल ।  
 ३७१५ सनातन शर्मा सकलानी ।  
 ३७१६ सरयूनारायण त्रिपाठी ।  
 ३७१७ सरयूप्रसाद वाजपेयी, गौरी,  
 कानपूर ।  
 ३७१८ सहदेवप्रसाद ।  
 ३७१९ सहदेव सिंह ।  
 ३७२० सालार बख्श, छतरपूर ।  
 ३७२१ साहेब ।  
 ३७२२ साहेबप्रसादसिंह, बाँकी-  
 पूर ।  
 ३७२३ सिद्धिनाथ दीक्षित, नागपूर ।  
 ३७२४ सिद्धेश्वर शर्मा ।  
 ३७२५ सीतलप्रसाद बर्णी ।  
 ३७२६ सीताराम छोटेराम शुक्ल,  
 औरंगाबाद ।  
 ३७२७ सीताराम मिश्र, भवना,  
 छपरा ।  
 ३७२८ सीताराम सिंह ।  
 ३७२९ सुखदेवी, काशीपूर ।  
 ३७३० सुरेन्द्र शर्मा, बिसवाँ, सीता-  
 पूर ।  
 ३७३१ सुशीला देवी, गोरखपूर ।  
 ३७३२ सुंदरलाल मंडल, प्रानपट्टी,  
 पुर्निया ।  
 ३७३३ सुंदरलाल शर्मा, मंत्री कवि-  
 समाज, राजिम ।  
 ३७३४ सुंदरलाल शुक्ल वकील,  
 नीमच ।  
 ३७३५ सूरजभान वकील, देववंद ।  
 ३७३६ सूरतिसिंह ठाकुर, पुवायाँ,  
 हरदोई ।  
 ३७३७ सूर्यत्रिपाठी, लाहबाज़ार,  
 छपरा ।  
 ३७३८ सूर्यनाथ मिश्र, शाहदरा,  
 पटना ।  
 ३७३९ सूर्यनारायण कोठ, मिर्जापूर  
 ३७४० सूर्यनारायण दीक्षित, खीरी ।  
 ३७४१ सूर्यप्रसाद दीक्षित, तुर्तापूर ।  
 ३७४२ सूर्यप्रसाद, पिहानी, हरदोई ।  
 ३७४३ सूर्यमल, अध्यापक, बल-  
 रामपूर, गोंडा ।  
 ३७४४ सैखानीराम, रायपूर ।

- ३७४५ सोनईप्रसाद भाट, गोंडा ।  
 ३७४६ संकटाप्रसाद ।  
 ३७४७ स्वरूपलाल, जबलपूर ।  
 ३७४८ हज़ारीलाल त्रिपाठी, कान-  
 पूर ।  
 ३७४९ हनुमंतसिंह, जहंगीराबाद ।  
 ३७५० हरदयाल त्रिवेदी ।  
 ३७५१ हरदयाल बाबू एम० ए० ।

- ३७५२ हरनारायण एम० ए० ।  
 ३७५३ हरखालप्रसाद हेडमास्टर,  
 कुसीर, बिलासपूर ।  
 ३७५४ हरिदास माणिक ।  
 ३७५५ हरिप्रसाद सेठ ।  
 ३७५६ हरिपालसिंह, हरदोई ।  
 ३७५७ हरिवल्लभ शर्मा ।



## कवि-नामावली ।

—:०:—

( इस नामावली में पृष्ठ १५०० से १५१९ पर्यन्त लिखित कवियों के नाम नहीं हैं, किन्तु शेष ग्रन्थ में लिखित सभी कवियों के नाम नम्बर और पृष्ठ सहित लिखे जाते हैं । )

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१३६	अकबर ( शाह )	३६३	१३३३	अजीतसिंह ...	१०१८
१३१८	अकबर ख़ाँ ...	१०३०	१५६	अजीतसिंह महाराजा	६०६
७	अकरमफ़ैज़ ...	२२३	१८५०	अतीत ...	११३७
२८२६	अख्यबट ...	१४७२	१३३४	अधीन ...	१०१८
२५६५	अख्यबट मिश्र ...	१४११	६६८	अनवरख़ाँ ...	६७३
१३३१	अख्यराम ...	१०१७	४३६	अनन्य अच्छर ...	५४०
२८८०	अखिलानंद ...	१४८२	५३५	अनन्यअली ...	५७२
१६१	अगर ...	४०२	२८२४	अनन्य प्रधान ...	१४७१
१३३२	अग्निभू ...	१०१८	३६२	अनन्य शीलमणि	५००
२२६६	अग्रअली ...	३२६७	५२०	अनाथदास ...	५६३
१४२	अग्रदास ...	३३६	२८२५	अनिरुद्रराम ...	१४७२
१०५३	अग्रनारायण ...	८८८	२७८२	अनिरुद्रसिंह ...	१४५८
२०६३	अच्छेलाल ...	११६६	१८१५	अनीस ...	१११८
२०२३	अजबेश ...	११६१	२१३२	अनुनैन ...	१२१६
१६०८	अजितदास ...	११३६	६५५	अनूपदास ...	८४०
१८६६	अजिता ...	११३७	१०२३	अनेमानंद ...	८८२
२३१६	अजीतसिंह ...	१३००	१३३५	अनंगचूर ...	१०१८

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
४१६	अनंत ...	५१०	११८२	अमृतराम साधु ...	६४६
४८	अनंतदास ...	२५८	१७०	अमृतराय ...	३८७
२०३	अनंतदास ...	४०४	२३८५	अमृतलाल चक्र- वर्ती...	१३४२
२६५५	अनंतदास पांडे	१४३२	१२८६	अयसलदू नाथ ...	१००५
१५०	अनंतदास साधु	३७६	२६०७	अयोध्यानाथ ...	१४२३
१२०६	अनंतराम ...	६५०	१६६३	अयोध्याप्रसाद ...	११५५
६२४	अब्दुलजलील ...	६१६	२५३०	अयोध्याप्रसाद का- यस्थ ...	१३७३
५५४	अब्दुलरहमान ...	६०२	२१६७	अयोध्याप्रसाद स्वामी	१२७७
१३३६	अभय ...	१०१८	२५५८	अयोध्यासिंह उपा- ध्याय ...	१३८५
१३१	अभयराम ...	३६१	१३३८	अर्जुन ...	१०१८
३४४	अभिमन्यु ...	४७६	१२६५	अर्जुन ...	१०००
२१६	अभिराम ...	४०७	१३३६	अर्जुन चारण ...	१७१८
५५	अमू चौबे ...	५५१	२३१५	अर्जुनसिंह ...	१२६६
५५८२	अमरकृष्ण ...	१४०३	१३४०	अर्जुनसिंह ...	१०१६
१२६४	अमरजी ...	१०००	२०११	अलख सनेही नैन- दास ...	११५६
६०	अमरदास ...	३५४	७७१	अलाकुली ...	७५३
१०५८	अमरसिंह ...	८८६	३२३	अलिकृष्णावति...	४७२
४१७	अमरसिंह ...	५१०	४६	अलि भगवान ...	२५७
१८१	अमरेश ...	३६६	११३६	अलिरसिक गोविन्द	६३७
२५०७	अमानसिंह ...	१३६६	२३०३	अलीमन ...	१२६७
१३३७	अमीचंद यती ...	१०१८	६६०	अलीमुहिबुल्ला ...	६६३
२००१	अमीर ...	११५७	२००२	अवधबक्स ...	११५७
२६१६	अमीरअली ...	१४८८	१६८५	अवधेश ...	११५६
१६	अमीर खुसरो ...	२३६			
१३०२	अमीरदास ...	१००७			
२७१६	अमीरराय ...	१४४३			
२८६२	अमीरराय ...	१४७६			

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२८८६	अशरफ़ीलाल ...	१४८३	१६५४	इच्छाराम ...	११४७
२०६८	असकन्द गिरि ...	१२०६	५६५	इच्छाराम ...	६१४
३१८	अहमद ...	४७१	१०४७	इच्छाराम ...	८८७
४००	आचार्य ...	५०७	१३४७	इनायतसाह ...	१०३०
१८२३	आज़म ...	११३२	१०७	इबराहीम आदिल- शाह ...	३५७
१०३	आज़मख़ाँ ...	६७४	१६६	इबराहीम सैयद ...	४०३
१३४१	आड़ा किसना चारण ...	१०१६	१३४८	इंदु ...	१०३०
६६२	आतम ...	६७२	२७०४	इंद्रजीत कायस्थ ...	१४४१
१३४२	आत्मादास ...	१०१६	५२६	इंद्रजी त्रिपाठी ...	५६४
२६३५	आत्माराम ...	१४२८	२६१६	इंद्रदेवनारायण ...	१४८८
२०६४	आत्माराम ...	१२०७	२८६०	इंद्रदेवलाल ...	१४८३
६६६	आदिल ...	६७३	२२२८	इंद्रमलजी ...	१२८५
१२६	आनंद ...	३६१	४१८	ईश ...	५११
३६०	आनंद ...	५०६	६१७	ईश्वर ...	६१८
६२६	आनंद ...	८३४	२६२५	ईश्वरदत्त ...	१४२७
२०६२	आनंद दुर्गासिंह ...	१२०६	२०२५	ईश्वरीप्रसाद ...	११६२
७११	आनंदराम ...	६७६	४३३	ईश्वरीप्रसाद ...	५३८
१२५०	आनंदराम ...	६६७	२६२०	ईश्वरीप्रसादमिश्र ...	१४८८
२३६३	आर्यमुनि ...	१३२१	२३४५	ईश्वरीसिंह ...	१३१०
५४६	आलम ...	५८२	१३१२	ईसवीख़ाँ ...	१००६
१५५१	आस ...	११३७	११२४	उत्तमचंद ...	०६२१
१०२	आसकरन दास ...	३५७	१८३६	उत्तमदास ...	११३५
४६५	आसिफ़ ख़ाँ ...	५५८	२५३१	उदितनारायण ...	१३७३
१६१४	आसुतोष ...	११४०	२६५६	उदितनारायण ...	...
१०७१	इच्छागिरि ...	८६१	...	लाल वकील ...	१४३२
६३०	इच्छाराम ...	८३५			

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१३५०	उदितप्रकाश		८२६	ऋषिकेश	७६३
	सिंह	१०२०	१६५६	ऋषिजू	११४८
१०४०	उदेल भाट	८८६	६४७	ऋषिनाथ	६३६
१८५२	उदै	११३७	२०२७	ऋषिराम	११६२
१८२४	उदैचंद	११३२	२५२७	ऋषिलाल	१४७२
५५०	उदैनाथ	५२८	२७३३	ऋषिलाल	१४४६
५०१	उदैनाथ बंदीजन	५५६	१३४४	श्रीरीलाल कायस्थ	१०१६
२६०६	उदैनारायण	१४८८	२७५६	श्रीरीलाल शर्मा	१४११
२६१७	उदैनारायण	१४८७	१८८	श्रीलीराम	४०२
१३४६	उदैभानु	१०२०	४८८	श्रीसवाल	५५७
२२७	उदैराज	४०८	१३४३	श्रींकार	१०१६
२१७	उदैराय	४०७	१६२१	श्रींकारनाथ	१४८६
१७३	उदैसिंह राजा	३८८	१३४२	श्रीघड़	१०१६
१०४१	उमरावसिंह	८८६	२०२४	श्रीघड़	११६२
२३६६	उमादत्त	१३२८	२०८६	श्रीघ	११६३
१३५१	उमादत्त	१०२०	३२	श्रींगद	२५०
१७८६	उमादास	१०८३	१३४६	श्रींछ	१०१६
१६५५	उमापति	११४७	२४३६	श्रींबर	१३१८
३३	उमापति मैथिल	२५०	२३४२	श्रींबिकादत्त व्यास	१३०६
११६७	उमेद	६४३	२४३७	श्रींबिकाप्रसाद	१३१८
१२६६	उमेदसिंह	१०००	२६१८	श्रींबिकाप्रसाद	१४८८
१८७	उसमान	४०१	१६५३	श्रींतुज	११४६
१२२२	ऊधौ	६५३	२८८१	कदंबलाल	१४८३
१०६	ऊधौराम	३६०	६२५	कनक	६१६
१३५२	ऊमा	१०२०	१३५४	कनकसेन	१०२०
१३५३	ऋषदान चारण	१०२०	१३५५	कनीराम	१०२०
२०२६	ऋतुराज	११६२	२४६४	कन्हैयादास	१३६७
			२३००	कन्हैयालाल	१२६७

नम्बर	नाम	पृष्ठ
२६०८	कन्हैयालाल ...	१४२४
२४३८	कन्हैयालाल ...	१३५८
२४३९	कन्हैयालाल ...	१३६८
३२७	कपूरचंद ...	४७३
१३	कवि (कोई) ...	२३५
१२८०	कविराज ...	१००३
५३७	कविरानी लोकनाथ की स्त्री ...	५७३
६०७	कविराय ...	८३०
३५	कवीरदास ...	२५०
७६६	कवीन्द्र बुँ देलखंडी	७५३
२८६	कवींद्राचार्य सरस्वती	४५३
४८२	कमनेह ...	५५६
८४१	कमलनैन ...	७६५
७३०	कमलनैन हित ...	७२१
१६१५	कमलाकर ...	११४१
२१४६	कमलाकांत वकील	१२१८
१०६७	कमलाजन ...	८६०
१८३३	कमलानाथ ...	११३७
१६५७	कमलेश ...	११४८
२१४१	कमलेश्वर ...	१२१८
४१	कमाल ...	२५५
१३५६	कमोदसिंह ...	१०२१
३७६	कमंच ...	५०४
१६१६	करतलिया ...	११४१
१३५८	करताराम ...	१०२१

नम्बर	नाम	पृष्ठ
१११०	करन ...	६०५
६३६	करनभट्ट ...	८३६
२६२२	करनसिंह ...	१४८६
१८५४	करनी ...	११३७
७०४	करनीदान ...	६७४
८६५	करनीदान ...	८२८
१४३	करनेश ...	३६७
१२००	करनेश ...	६४६
५६२	करीम ...	६०८
१६१७	करुणानिधान ...	११४१
१३५७	करुणानिधि ...	१०२१
१३२२	कलस ...	१०१३
६६६	कलानिधि ...	६४६
३२८	कलानिधि ...	४७३
८२०	कलानिधि ...	७६२
१८५५	कलंक ...	११३७
४५१	कल्याण ...	५५०
१५२	कल्याणदास ...	३८४
१८५६	कल्याणपाल ...	११३७
७७२	कल्याण पुजारी ...	७५३
६४३	कल्याणसिंह ...	८३७
१६१८	कल्याणस्वामी ...	११४१
२३६	कल्याणी ...	४१०
५१५	काकरेजी ...	५६२
११५०	काजिमअली ...	६४०
३४६	काजीकदम ...	४७७
१८०	कादिरबख्श ...	३६५



नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१२३७	कान्ह	... ६७५	१२४४	काशिराज बलवान- सिंह महाराजा ...	६८६
२२३६	कान्ह	... १२८७	२०६४	काशी	... ११६६
२०४	कान्हरदास	... ४०५	१३६५	काशी	... १०२२
२६३६	कान्हलाल	... १४२८	२०५	काशीनाथ	... ४०५
२२३७	कामताप्रसाद	... १२८७	२२३६	काशीप्रसाद	... १२८७
२६७६	कामताप्रसाद	... १४३६	२८१२	काशीप्रसाद	... १४६६
१३५६	कामताप्रसाद	... १०२१	१३६६	काशीराज	... १०२२
२६६३	कामताप्रसाद गुरु	१४३६	२६८	काशीराम	... ४२२
३२६	कारे बेग	... ४७३	१०६३	काशीराम	... ८६५
२१६३	कार्तिकप्रसाद खत्री	१२७४	५०२	काशीराम	... ५५६
१३६२	कालिकादास	... १०२१	१३६७	कासिम	... १०२२
२६८०	कालिकाप्रसाद	... १४३७	१८००	कासिम शाह	... १०६६
२५३२	कालिकाप्रसाद	... १३७३	२४०८	किनाराम बाबा	... १३५३
१३६०	कालिकाप्रसाद	... १०२१	१३६८	किलोल	... १०२२
२३३३	कालिकाप्रसाद	... १२८६	१०२४	किशोर अली	... ८८२
१३६१	कालिका बँदीजन	१०२१	८७२	किशोर	... ७६१
४३१	कालिदास	... ५३३	७००	किशोर	... ६७३
२३६५	कालीचरण कायस्थ	१३५१	१७६२	किशोरदास	... १०८६
१६६४	कालीचरण वाज- पेयी	... ११५३	२७६२	किशोरसिंह	... १४५१
१३६३	कालीदीन	... १०२१	१०२५	किशोरी अली	... ८८३
२२३८	कालीप्रसाद	... १२८७	१३६६	किशोरीजी	... १०२२
२८६२	कालीप्रसाद भट्ट	१४८४	१३७०	किशोरीदास	... १०२३
२३६३	कालीप्रसाद त्रिवेदी	१३१४	१३७१	किशोरीलाल	... १०२३
२७६१	कालीशंकर व्यास	१४५१	२५६०	किशोरीलाल गो- स्वामी	... १३८६
२३६४	कालुराम	... १०२२	१६६७	किशोरीलाल राजा	१०५७

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२०४७	किशोरीशरण ...	११६६	१३८०	कृबो...	१०२४
१३७२	किशोरीशरण ...	१०२३	१३८७	कृपानाथ ...	१०२५
१३७३	किसनिया ...	१०२३	१७८	कृपानिवास ...	८६२
१००८	किंकर गोविंद ...	८७६	११११	कृपा मिश्र ...	११४१
५	कुतुब अली ...	२२२	६१	कृपाराम ...	२८८
५०	कुतुबन शेख ...	२६०	६७७	कृपाराम ...	६६६
७३८	कुमारमणि ...	७३६	७५०	कृपाराम ...	७४६
१३७	कुलपति ...	१०२३	८१५	कृपाराम ...	७६१
४२८	कुलपति मिश्र ...	५१६	२५०६	कृपाराम ...	१३६६
१३७५	कुलमणि ...	१०२३	६१६	कृपाराय गूदड़ ...	६१८
१३७६	कुवेर ...	१०२३	१८५७	कृपालचारण ...	११३७
२१२६	कुशलसिंह ...	१२१५	२०६५	कृपालदत्त ...	११७०
१३७७	कुशलसिंह ...	१०२४	१३८८	कृपासखी ...	१०२५
१४४	कुसाल ...	८३७	१३८९	कृपासखी सहचरी	१०२५
१८६	कुंज कुँवर ...	८७५	१६२०	कृपासिंधु ...	११४१
१३७८	कुंज गोपी ...	१०२४	६५२	कृष्ण ...	६५३
१३७९	कुंजबिहारी लाल	१०२४	२६२५	कृष्ण ...	१४८६
७७३	कुंजलाल ...	७५३	६६६	कृष्ण ...	६६७
२४४०	कुंजलाल ...	१३५८	१६५८	कृष्ण ...	११४८
५५८	कुंदन ...	६०८	२०६६	कृष्ण ...	११७०
२६५७	कुंदनलाल ...	१४३२	११२	कृष्णकलानिधि	६३१
४६१	कुंभकरण ...	५५२	३२४	कृष्णगिरिधर जी	४७२
२३	कुंभकरण महाराना	२४८	२०६	कृष्णजीवन ...	४०५
५५	कुंभनदास ...	२७७	२५३३	कृष्णदत्तसिंह ...	१३७३
५६४	कुँवर ...	६०६	५३	कृष्णदास ...	२७४
१०२८	कुँवर रानाजी ...	११६२	२१०६	कृष्णदास ...	१२११

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
४६०	कृष्णादास ...	५५१	१३८३	केशवमुनि ...	१०३४
६८८	कृष्णादास ...	८७४	५६१	केशवराज बुँदेलखंडी	६०८
१३००	कृष्णादेव ...	१००७	१३८४	केशवराम ...	१०२४
२५८०	कृष्णाबलदेव खत्री	१४०२	२३०४	केशवराम विष्णु- लाल पंड्या ...	१२६७
२५०८	कृष्णाराम ...	१३६६	२१६४	केशवरामभट्ट ...	१२७५
१२०६	कृष्णालाल ...	६५१	५६३	केशवराय बघेल- खंडी ...	६१३
२७६७	कृष्णालाल ...	१४६६	१३८५	केशवराय बुँदेल- खंडी ...	१०२४
१३६०	कृष्णालाल ...	१०२५	१५६	केहरि ...	३८५
२३१७	कृष्णसिंह राजा	१३००	२८१३	कैलाशनाथ ...	१४६६
२००७	कृष्णाकर ...	११५६	२६२३	कैलाशरानी ...	१४८६
२७१७	कृष्णानंद पाठक	१४४३	१०६७	कैवात ...	१८५४
१७६३	कृष्णानंद व्यास	१०६०	४८६	कौविद ...	५५७
१०	केदार ...	२२५	२४८६	कौलेश्वरलाल ...	१३६६
२६५८	केदारनाथ ...	१४३३	१५८	कंकाली ...	११३७
२२४०	केदारनाथ त्रिपाठी	१२८७	५६३	कंचन ...	६०६
२८२८	केदारनाथ बस्तर	१४७२	१८५६	कंजुली ...	११३७
१५३	केवलराम ...	३८४	११०८	क्रेमकर्ण ...	६०३
६५६	केशरीसिंह ...	८४०	१३२३	खगनिया ...	१०१४
१३८१	केशवकवि ...	१०२४	५६५	खगपति ...	६०६
१३८२	केशव गिरि ...	१०२४	२८२६	खगेश ...	१४७२
६६	केशवदास ...	३१०	२२४१	खड्ग बहादुर मल्ल महाराजकुमार ...	१२८८
१३८६	केशवदास ...	१०२५	३०२	खरगसेन ...	४६८
२६६	केशवदास चारण	४६७	२१४४	खान ...	१२१८
६५	केशवदासत्रजवासी	३५५			
२१८	केशव पुत्रबधू ...	४०७			
२७६८	केशवप्रसाद ...	१४६६			

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२८२	खीमराज	... ४५०	८६६	गणेश	... ७८७
१८४	खुमान	... ८६१	११०७	गणेश	... १०२
११२१	खुमान	... १२६	२२४२	गणेश	... १२८८
१३११	खुसाल पाठक	... १०२५	१६३	गणेश जी	... ३८६
२७११	खुसालीराम	... १४४४	२११०	गणेशदत्त	... १४८७
१३१२	खूवी	... १०२५	२५१०	गणेशदत्त वाजपेयी	१४०६
२१११	खूबचंद	... १२१०	१११२	गणेशप्रसाद	... १२८
१३१३	खूबचंद	... १०२५	१८४५	गणेशप्रसाद	... ११३६
१३१४	खेतल	... १०२६	१७१४	गणेशप्रसाद	... १०१०
१२५७	खेतसिंह	... १११	२११२	गणेशप्रसाद	... १२११
११८	खेमजी	... ४०३	२५११	गणेशप्रसाद	... १३७०
१११	खेमदास	... ४०४	२६१४	गणेशप्रसाद	... १४३१
१३१५	खेमराय	... १०२६	२१२६	गणेशप्रसाद	... १४८१
१३१६	खोजी	... १०२६	२७४३	गणेशप्रसाद मिश्र	१४४८
२८६३	खंजनसिंह	... १४७१	१८२१	गणेशबख्श	... ११३३
६१३	खंडन लुँ देलखंडी	६७२	२५६१	गणेशविहारी मिश्र	१३८८
१११८	गजराज	... ११५६	२२४३	गणेशभाट	... १२८८
२५०१	गजराजसिंह	... १३६१	२१२७	गणेशरामचंद्र	... १४१०
२६५१	गजराजसिंह	... १४३३	२४१०	गणेशीखाल	... १३६६
८३०	गजसिंह महाराज	७६३	२३४८	गदाधर	... १३१२
१८३०	गजाधरप्रसाद	... १४७२	२२८	गदाधरजी	... ४०८
१८६०	गजानन	... ११३७	१५४	गदाधरदास	... ३८४
१३१७	गजेंद्रशाह	... १०२६	१८४५	गदाधरदास	... ११३६
६३६	गडू ...	... ६२२	२७२८	गदाधरदास	... ११६३
२६७४	गणपति	... १४३५	२१२८	गदाधरप्रसाद	... १४१०
१२८२	गणेश	... १००३	११	गदाधरब्रज	... ३५६

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
४२७	गदाधरभट्ट	... ५१६	२४४१	गिरिधारी भाट	... १३५६
२२४४	गदाधरभट्ट	... १२८८	२८६४	गिरिधारीलाल	... १६८६
२०७८	गदाधरभट्ट	... ११८४	२६२६	गिरिराजकुमार घोष	१४६०
२१७३	गदाधरसिंह	... १२५५	२८६३	गिरिराजशरण	... १४८४
२५६७	गदाधरसिंह	... १३६१	१४०२	गिरिवरदान	... १०२६
२७४४	गदाधरसिंह	... १४४८	१४०३	गीध	... १०२७
२०६७	गयादीन	... ११७०	६८३	गुणदेव	... ६१०
२८७५	गयाप्रसाद	... १४८१	१४०४	गुणसागर जैन	... १०२७
१३६८	गयाप्रसाद	... १०२६	२०३०	गुणसिंधु	... ११६३
५६६	गयंद	... ६०६	२२४५	गुणाकर त्रिपाठी	१२८८
३६३	गरीबदास	... ५०१	२६३	गुणिसूरि जैनी	... ४२१
८४२	गरीबदास	... ७६६	२४६५	गुप्तानी बाई	... १३६७
१२८२	गडूराम	... १००४	१०३२	गुमान	... ८८४
२४१०	गिरिजादत्त शुक्ल	१३५४	७३६	गुमानमिश्र	... ७३३
१०५४	गिरिधर	... ८८८	१४०५	गुमानी	... १०२७
१३०५	गिरिधर	... १००८	७१४	गुरुदत्तसिंह (राजा)	६६५
१३६६	गिरिधर	... १०२६	१२४७	गुरुदत्तसिंह	... ६६२
७३१	गिरिधर कर्बराय	७२२	२०६६	गुरुदत्तसिंह	... ११७०
१४००	गिरिधर गोस्वामी	१०२६	२४४२	गुरुदयाल	... १३५६
१८०३	गिरिधरदास	... १०६८	२६६५	गुरुदयाल	... १४३६
२७४५	गिरिधरप्रसाद	... १४४८	१४०६	गुरुदास	... १०२४
१३०३	गिरिधरभट्ट	... १००७	२२४६	गुरुदीन	... १२८८
३६४	गिरिधरलाल	... ५०१	१४०७	गुरुदीन	... १०२७
२३७	गिरिधरस्वामी	... ४१०	१११८	गुरुदीन पांडे	... ६१५
३४५	गिरिधारी	... ४७६	२२४६	गुरुदीन भाट	... १२८८
१४०१	गिरिधारी ब्राह्मण	१०२६	२८३१	गुरुदीनभाट	... १४०३

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
११६	गुरुप्रसाद	... ६१४	१२१	गोपा	... ३६०
२०४६	गुरुप्रसाद	... ११६७	१६०	गोपाल	... ६०८
२४११	गुलाबदास	... १३६६	६०६	गोपाल	... ६१६
१४०८	गुलाबराम	... १०२७	६०४	गोपाल	... ८३०
२४११	गुलाबराम	... १३५४	१३०४	गोपाल	... १००८
१४०६	गुलाबलाल	... १०२७	१६६२	गोपाल	... ११४६
१०१०	गुलाबसिंह	... ८७६	१६६१	गोपाल कायस्थ	... ११४६
१८१७	गुलाबसिंह	... १११६	६०३	गोपालजी	... ८२६
१६५८	गुलाल	... ११४८	१४१२	गोपालदत्त	... १०२७
१०८५	गुलाललाल गो- स्वामी	... १०८३	४०२	गोपालदत्त प्राचीन	५०८
१५६	गुलालसिंह	... ६०८	३३०	गोपालदास	... ४७३
१४१०	गुलालसिंह	... १०२७	२६२६	गोपालदास	... १४२७
११२	गोसानंद	... ३६०	२६३०	गोपालदास	... १४६०
१६६०	गोकुल कायस्थ	... ११४६	२४१६	गोपालदास बल्लभ शरण	... १४२५
२२४७	गोकुलचंद्र	... १२८६	२६६६	गोपालदीन	... १४४०
२६६०	गोकुलनाथ	... १४३३	२६३१	गोपालदेवी	... १४६०
८४	गोकुलनाथ	... ३४८	१६२१	गोपाल नायक	... ११४२
८८०	गोकुलनाथ	... ८०२	१२८१	गोपाल बंदीजन	... १००३
३१०	गोकुलबिहारी	... ४७०	७५८	गोपाल भट्ट	... ७५१
२७६६	गोकुलानंद	... १४६६	२३८३	गोपालराम गहमर	१३४१
१४११	गोडीदास	... १०२७	१०६४	गोपालराय	... ८६५
१६७	गोध	... ६१४	१६६३	गोपालराय भट्ट	... ११४६
१६८	गोधूराम	... ६१४	२२१६	गोपाललाल	... १२८४
११५	गोप	... ३५८	१२६७	गोपाललाल	... १०००
३१६	गोपनाथ	... ४७१	२५६४	गोपाललाल खत्री	१३६०

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
६७०	गोपालशरण राजा	६६७	५६	गोविंद स्वामी ...	२८२
६१५	गोपालसिंह कुँवर	१७५८	२०६८	गोमतीदास ...	११७०
१४१३	गोपालसिंह ब्रज- वासी ...	१०२८	२१	गोरखनाथ ...	२४१
२१०७	गोपालहरी ...	१२१०	२८०१	गोरेलाल ...	१४६७
१४१४	गोपीचंद ...	१०२८	७०६	गोसाईं ...	६७५
८८१	गोपीनाथ ...	८०२	१४१७	गोसाईं ...	१०२८
१६२२	गोपीलाल ...	११४२	२०३१	गौरचरण गोस्वामी	११६३
३६५	गोवर्धन ...	५०१	१४१८	गौरी ...	१०२८
१४१५	गोवर्धनदास ...	१०२८	२१८६	गौरीदत्त ...	१२७१
२८७६	गोवर्धननाथ ...	१४८१	२७७६	गौरीशंकरप्रसाद...	१४५५
२७१८	गोवर्धनलाल ...	१४४३	२६७५	गौरीशंकर भट्ट ...	१४३६
२८५२	गोवर्धनलाल ...	१४७७	२३८७	गौरीशंकर हीराचंद	
२०५६	गोविंद ...	११६८		श्रीमता ...	१३४३
२१६६	गोविंद ...	१२७५	८०	गंग ...	३३६
३३१	गोविंद अटल ...	४७३	१६०	गंग ग्वाल ...	३८५
७६५	गोविंद कवि ...	७५२	१४१६	गंगन ...	१०२८
२१७६	गोविंद गिल्ला भाई	१२५८	८६	गंग भाट ...	३५०
१००६	गोविंद जी ...	८७६	१४२०	गंगल ...	१०२८
१६४	गोविंद दास ...	३८६	१४२१	गंगा ...	१०२८
२८००	गोविंद दास ...	१४६७	२१०४	गंगादत्त ...	१२१०
२१८१	गोविंदनारायण		२४४३	गंगादयाल ...	१३५६
	मिश्र ...	१२६३	११६४	गंगादास ...	६४८
१०८	गोविंद राम ...	३५६	१२६१	गंगादास ...	६६६
१४१६	गोविंदसहाय ...	१०२८	२४४४	गंगादास ...	१३५६
५४८	गोविंदसिंहगुरु...	५८६	१२६१	गंगादीन ...	१००५
			५००	गंगाधर ...	५५६

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१४२२	गंगाधर ...	१०२६	४१६	घनराय ...	५११
२५८६	गंगानाथ झा ...	१४०५	२२६	घनश्याम ...	४०६
६७५	गंगापति ...	६६६	४३८	घनश्याम ...	५४२
१०५५	गंगापति ...	८८८	२०५७	घनश्याम ...	११६८
१२२	गंगाप्रसाद ...	३६०	१८४०	घनश्यामदास ...	११३५
१२१७	गंगाप्रसाद ...	६५३	१२५८	घनश्यामराय ...	६६६
२८०२	गंगाप्रसाद ...	१४६७	१४२३	घमरीदास ...	१०२६
२५८५	गंगाप्रसाद अग्नि- होत्री ...	१४०५	१४२४	घमंडीराम ...	१०२६
२६०१	गंगाप्रसाद गुप्त...	१४१६	६४८	घाघ...	६३७
२४४५	गंगाप्रसाद गंग...	१३५६	१४२५	घाटमदास ...	१०२६
२६१७	गंगाबख्श ठाकुर...	१४२५	१४२६	घासीभट्ट ...	१०२६
४०१	गंगाराम ...	५०७	२५४	घासीराम ...	४१८
५२४	गंगाराम ...	५६४	१४२७	घासीराम उपाध्याय	१०२६
१०६३	गंगाराम ...	८६०	१८६१	चक्रधर ...	११३७
२०१३	गंगाराम ...	१२११	२६३२	चक्रपाणि ...	१४६०
६७	गंगा स्त्री ...	३५५	१४२८	चक्रपाणि ...	१०२६
६५६	गंजन ...	६५८	३१४	चतुरदास ...	४७१
१०४२	गंजनसिंह ...	८८६	१३४	चतुरविहारी ...	३६२
३६६	गंभीरराय ...	५०१	२६३३	चतुरसिंह ...	१४६०
२३४७	ग्रियर्सन साहब ...	१३११	४६२	चतुरसिंह राना	५५२
२५५१	ग्रीन्स ...	१३८०	२४६२	चतुर्भुज ...	१३६७
१२३६	ग्वाल ...	६७३	५६	चतुर्भुजदास ...	५७६
५०३	ग्वाल ...	५६०	२८०	चतुर्भुजदास ...	४४६
६४१	घनआनंद ...	६२३	१६६४	चतुरभुजदासमिश्र	११४६
६०७	घनराम ...	६१६	१४२६	चतुर्भुज मैथिल	१०२६
			२६४	चतुर्भुज साहब	४२१



नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१३१५	चतुर्भुज सहाय	१०१०	६३५	चैनराय	६२२
२८७७	चतुर्भुजसहाय	१४८१	२०३२	चैनसिंह खत्री	११६३
४५	चरणदास	२५७	१४३५	चोखे	१०३०
६५३	चरणदास	६५५	२२४८	चोवा	१२८६
२२१६	चरणदास	१२८३	२१४८	चंडीदत्त	१२१६
१४३०	चरपट	१०२६	२१४६	चंडीदान	१२१६
१४३१	चानी	१०३०	२३५१	चंडीदान	१३१३
१८६२	चामुंड	११३७	४०३	चंद	५०८
५२६	चारणदास	५६५	२००३	चंद	११५
१४३२	चालकदान	१०३०	१७८४	चंद	१०८३
१८६३	चिमन	११३७	८६६	चंद	७८६
२३३२	चिमनलाल	१३०२	६५१	चंद	८३६
५६७	चिरंजीव	६०६	१४३६	चंद	१०३०
१२०१	चिरंजीव	६४६	२५२६	चंद	१३७२
२६३४	चिरंजीवलाल	१४६०	२५७३	चंदकला बाई	१३६६
२६२	चिंतामणि	४५७	११७१	चंदघन	६४४
१४३३	चिंतामणि	१०३०	२४४६	चंद भा	१३५१
१४४०	चिंतामणिदास	१०३१	६३७	चंददास	८३१
४२०	चुत्रा	५११	६४१	चंददास	८३७
२३४	चूरामणि	४१०	१४३७	चंददास	१०३०
१७१	चेतनचंद	३८७	२८३२	चंदधर शर्मा	१४७३
१४३४	चेतनदासजी	१०३०	६६८	चंदन	८४२
१०३६	चेतसिंह	८८५	५४६	चंद पठान सुल्तान	५८७
१६६१	चैनदान	११५५	८	चंद बरदाई	२२३
११८३	चैनदास	६४६	२७७४	चंदभानुसिंह दीवान	१४५४
१२६२	चैनराम	१००५	२८६४	चंदमती	१४८८

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२७६६	चंद्रमनोहर मिश्र	१४६६	२६३७	छुबीले ...	१४६१
१४३८	चंद्रसकुंद ...	१०३०	२२४६	छितिपाल ...	१२८६
६३०	चंद्रलाल गोस्वामी	६२१	४६३	छीत...	५५२
१२३८	चंद्रशेखर ...	६७६	५७	छीत स्वामी ...	२८०
२८८१	चंद्रशेखर ...	१४८२	६७	छीहल ...	३२५
२६३५	चंद्रशेखरधर ...	१४६१	२६३८	छेदालाल ...	१४६१
१६१	चंद्रसखी ...	३८६	२२०४	छेदालाल ब्रह्मचारी	१२८१
१६२३	चंद्रसखी ...	११४२	२७६३	छेदा साह ...	१४५१
४५०	चंद्रसेन ...	५५०	६१	छेम ...	३५४
१०११	चंद्रहित ...	८८०	१४४३	छेम ...	१०३१
२६३६	चंदावती ...	१४६१	१४४४	छेमकरण ...	१०३१
२२०१	चंदिकाप्रसादतिवारी	१२८०	३०३	छेमराम ...	४६८
१४३६	चंद्रावल ...	१०३१	३३३	छैल ...	४७४
३६७	चंपादे रानी ...	५०१	१४४५	छोटालाल ...	१०३१
२८५३	चंपालाल ...	१४७७	१४४६	छोटाराम ...	१०३१
२४२७	छत्त ...	१३५७	२५१२	छोटाराम तिवारी	१३७०
१४४१	छत्तन ...	१०३१	२६२७	छोटेलाल ...	१४२७
६७६	छत्रकुँवरि बाई ...	८६२	२७०१	छोहनलाल ...	१४४०
२०५८	छत्रधारी ...	११६८	३४६	जगजीवन ...	४७६
१४४२	छत्रपति ...	१०३१	८६५	जगजीवनदास ...	७८६
१००१	छत्रसाल ...	८७८	२४२८	जगतनारायण ...	१३५७
४३४	छत्रसाल महाराजा	५३६	८७६	जगतसिंह ...	८०१
१०५६	छत्रसाल मिश्र ...	८८८	३०४	जगतसिंहराना ...	४६८
५३४	छत्रसिंह ...	५७१	१२३	जगदीश ...	३६०
३३२	छुबीले ...	४७४	२१६२	जगदीशलाल गो-	
५६८	छुबीले ...	६०६	स्वामी ...	१२७३	

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
११३	जगदेव ...	८३१	२३६६	जगन्नाथसहाय ...	१३५३
२६६	जगन ...	४२२	२७६४	जगन्नाथसिंह ...	१४५२
६	जगनिक भाट ...	२२५	२८६५	जगन्नाथसिंह ...	१४७६
१४४७	जगनेस ...	१०३२	२१७२	जगन्नाथसिंह ...	१२५४
३०५	जगनंद ...	४६६	२६०६	जगमोहन ...	१४२४
६७६	जगन्नाथ ...	६६६	१६२४	जगराज ...	११४२
१०५६	जगन्नाथ ...	८८६	१५५	जगामग ...	३८५
१३०६	जगन्नाथ ...	१००८	४०४	जगोजी ...	५०८
२६३६	जगन्नाथ ...	१४६१	२५५	जटमल ...	४१६
१४४८	जगन्नाथ ...	१०३२	१११४	जत्तनलाल गोस्वामी	६१०
२४४७	जगन्नाथ अक्वस्थी ...	१३५६	२३३३	जदुदानजी ...	१३०३
२५७०	जगन्नाथ चौबे ...	१३६५	३६१	जदुनाथ ...	५०६
६३२	जगन्नाथदास ..	६२१	११४०	जदुनाथ ...	६३८
३२५	जगन्नाथदास ...	४७२	२०३३	जदुनाथ ...	११६३
२५५२	जगन्नाथदास रत्नाकर ...	१३८०	४५२	जनअनाथ ...	५५०
२८६५	जगन्नाथ द्विवेदी	१४८४	२३१८	जनकधारी ...	१३००
२६४०	जगन्नाथ पुच्छरत	१४६१	१०३४	जनकनंदिनी दास	८८५
२३६६	जगन्नाथप्रसाद ...	१३२५	७२४	जनकराज किशोरी- शरण ...	७१५
२४४८	जगन्नाथप्रसाद ...	१३३०	१३१६	जनकराज किशोरी- शरण ...	१०१०
१४५०	जगन्नाथप्रसाद ...	१०३२	२००४	जनकलाडिलीशरण साधु ...	११५८
२६६१	जगन्नाथप्रसाद ...	१४३३	२३३४	जनकेस ...	१३०३
१४५१	जगन्नाथप्रसाद ...	१०३२	४३	जनगिरिधारी ...	२५६
२७४६	जगन्नाथ प्रसाद चौबे	१४४८	१४५२	जनगूजर ...	१०३२
२५३४	जगन्नाथ वैश्य ...	१३७३	६७०	जनगोपाल ...	८४७
१४४६	जगन्नाथ मिश्र ...	१०३२	२०७	जनगोपाल ...	४०५
२६६२	जगन्नाथशरण बाबू	१४३३			

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१४५३	जन छीतम	१०३२	१२८	जसवंतसिंह बुंदेला	८३४
१४५४	जन जगदेव	१०३२	२१५	जसवंतसिंह महा-	
१४५५	जन तुलसी	१०३२		राजा	४६२
१३०१	जनदयाल	१००७	२६७६	जागेश्वरप्रसाद	१४३६
६२३	जनभोला	६१६	२४५१	जान ईसाई	१३६०
३०६	जन सुकुंद	४६६	१८०१	जानकीचरण	१०६७
१२११	जन मोहन	६५१	११६५	जानकीदास	६४८
१४५६	जनहमीर	१०३२	२६७३	जानकीदास	१४३५
१४५७	जन हरजीबन	१०३३	११३१	जानकीप्रसाद	६२६
१६२५	जनाई न	११४२	१८१२	जानकीप्रसाद	१११५
२४४६	जबरेस बंदीजन	१३६०	२३५८	जानकीप्रसाद	१३१७
१३२	जमाल	३६२	२६४४	जानकीप्रसाद	१४६१
१६२	जमालुद्दीन	४०२	२६०४	जानकीप्रसाद	
२३२६	जमुनादास	१३०२		द्विवेदी	१४२२
६८	जमुना स्त्री	३५६	५४२	जानकी रसिक	
१४६२	जयानंद	१०३३		शरण	५७६
१६५	जलालुद्दीन	३८६	४१४	जानकी रसिक	
१२	जल्हन	२३१		शरण	५१०
१६६५	जवाहिर	११४२	१४६३	जानराय	१०३३
१०६०	जवाहिर	८८६	२२५०	जानी बिहारीलाल	१२८६
२४५०	जवाहिर	१३६०	२२५१	जानी सुकुन्दलाल	१२८६
८४३	जवाहिरसिंह	७६६	२३६२	जामसुताजाड़ेचीजी	१३२०
१२६७	जवाहिरसिंह	१००६	२३०५	जालिमसिंह	१२६८
८६६	जसराम	८२८	१६२६	जितऊ	११४२
१०३६	जसवंत	८८५	४४६	जिनचंद	५४६
११०५	जसवंतसिंह तेरवा	६००	५१६	जिनरंगसूरि	५६२

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२६६४	जीतसिंह	... १४३३	२१४०	जैगोविन्ददास	... १२१७
५६६	जीव	... ६०६	११७२	जैचंद	... ६४४
१५८	जीवन	... ३८५	१३५	जैतराम	... ३६२
६४५	जीवन	... ८३७	७५५	जैतराम	... ७५०
१४६४	जीवनदास	... १०३३	२५८१	जैदेव	... १४०२
६०८	जीवन मस्ताने	... ६१६	२६४१	जैदेव	... १४६१
२१८३	जीवनराम	... १२६६	६०६	जैदेव	... ६१६
१७८७	जीवनलाल नागर	१०८४	११५४	जैदेव	... ६४०
१२३३	जीवनसिंह	... ६५४	२६	जैदेव मैथिल	... २४६
६५७	जीवनाथ	... ८४०	४८७	जैनदी मोहम्मद	५५७
२५१३	जीवाराम	... १३७०	२७६१	जैन वैद्य	... १४६४
१४६५	जुगराज	... १०३३	१४६१	जैनारायण	... १०३३
६८४	जुगुल	... ६१०	११३८	जैनी साधु	... ६३७
१४६६	जुगुलकिशोर	... १०३३	१४५८	जैनंद	... १०३३
८०६	जुगुलकिशोर भट्ट	७५६	२६६३	जैनेंद्रकिशोर	... १४३३
१४६७	जुगुलदास	... १०३४	१४६८	जैमलदास	... १०३४
२८६६	जुगुलानंद	... १४८४	१४६०	जैमंगलप्रसाद	... १०३३
१२४८	जुगुलानन्य शरण	६६३	२६८१	जैमंगलसिंह	... १४३७
६६४	जुल्लिफ़कार खां	... ६७२	१४५६	जैराम	... १०३३
३८०	जैठामल	... ५०४	१२८८	जैरामदास	... १००५
२०५०	जैठामल	... ८८७	१८६७	जैलाल	... ११३७
२६८३	जैकवि	... ११५४	११३२	जैसिंह	... ६३०
६१८	जैकृष्ण	... ६६६	४६७	जैसिंह राना	... ५५६
१२६८	जैकेहरि	... १००१	८६१	जैसिंह राय रायां	८२७
११३५	जैगोपाल	... ६३३	६०३	जैसिंह सर्वाई	... ६१५
१२१८	जैगोपालसिंह	... ६५३	६३१	जोगाराम	... ८३५

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२७६५	जोतिस्वरूप ...	१४५२	२२५२	ठग मिश्र ...	१२८६
११६	जोध ...	३५८	७३३	ठाकुर ...	७२७
६५४	जोधराज ...	६५५	२२५३	ठाकुरदयालसिंह	१२८६
१४६६	जोध्या ...	१०३४	३३४	ठाकुरदयालसिंह	४७४
२६०	जोयसी ...	४५७	२०७०	ठाकुरदास ...	११७१
६१४	जोरावरमल ...	८३१	२३६८	ठाकुरदास ...	१३५२
७५१	जोरावरसिंह ...	७५०	१८१४	ठाकुरप्रसाद ...	१११६
२५६२	जंगलीलाल भट्ट...	१३८६	२०१३	ठाकुरप्रसाद ...	११५६
२६४२	ज्वालादत्त ...	१४६१	२१४१	ठाकुरप्रसाद ...	१२१७
२८४३	ज्वालादेवी ...	१४६१	२४५२	ठाकुरप्रसाद कायस्थ	१३६०
२८०३	ज्वालाप्रताप सिंह	१४६७	२५७७	ठाकुरप्रसाद खत्री	१३६६
२३७६	ज्वालाप्रसाद मिश्र	१३३६	२४५३	ठाकुरप्रसाद त्रिवेदी	१३६०
२३८४	ज्वाला बाजपेयी...	१३४१	१४७४	ठाकुरराम ...	१०३४
१४७०	ज्वालासहाय ...	१०३४	१६२७	ठंडी सखी ...	११४३
१४७१	ज्वालास्वरूप ...	१०३४	२०७७	ढालचन्द ...	८६२
६०८	भामदास ...	८३०	१४७५	ढाकन ...	१०३४
३४	भ्रीमाचारण ...	२५०	१६२	तस्तमल्ल ...	३८६
१४७२	टहकन ...	१०३४	३८१	तत्ववेत्ता ...	५०४
१४७३	टामसन ...	१०३४	२१५०	तपसीराम ...	१२१६
५७०	टीकाराम ...	६०६	२६७	ताज ...	४६५
१३२०	टीकाराम फीरोज़ा- बादी ...	१०११	८१	तानसेन ...	३४५
२११४	टेर ...	१२१२	१४७६	तार ...	१०३५
७६	टोडर मल ...	३३३	२४७७	तारपानि ...	१०३५
६०६	टोडर मल ...	८३१	१३१६	ताराचरन व्यास	१०११
२३६७	ठकुरेसजी ...	१३५२	२३०६	तारानाथ ...	१२६८
			६१५	तारापति ...	८३२

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
८०७	तालिबअली	... ७५६	६६५	तेही	... ६६७
७७४	तालिबशाह	... ७५४	१४८१	तैलंग भट्ट	... १०३५
२५२	ताहिर	... ४१७	२१७०	तोत्ताराम	... १२५१
२७२०	तिलकसिंह	... १४४४	२६४५	तोरनदेवी	... १४६१
२७२१	तिलकसिंह	... १४४४	७१५	तोषनिधि	... ६६८
१४७८	तीकम	... १०३५	१३०७	तोंबरदास	... १००८
६६४	तीखी	... ६६६	३१६	त्रिबिक्रमसिंह	राजा ४७१
७४१	तीर्थराज	... ७४३	५७१	त्रिलोक	... ६१०
८८६	तीर्थराज	... ८२२	४५६	त्रिलोकदास	... ५५१
५७२	तुरत	... ६१०	४२०	त्रिलोकसिंह	... ५१२
१४७६	तुलछुराय	... १०३५	२३४६	त्रिलोकीनाथ भुवनेश	१३१०
२२०५	तुलसी आम्हा	... १२८२	२७७६	त्रिलोचन भा	... १४५६
६५	तुलसीदास	... ३०४	६८३	थान	... ८६६
२७०	तुलसीदास	... ४२२	२००८	थानसिंह	कायस्थ ११५८
३६२	तुलसीदास	... ५०६	२०५६	थिरपाल	... ११६८
३३५	तुलसीदास	... ४७४	८११	दत्त	... ७६०
२०४३	तुलसीराम	... ११६५	१४८२	दत्त	... १०३५
२०७१	तुलसीराम	... ११७१	८७३	दत्त	... ७६२
२१६५	तुलसीराम शर्मा	१२७५	१४८३	दयाकृष्ण	... १०३५
१०७८	तुलाराम	... ८६२	१४८४	दयादास	... १०३६
२४२६	तुलाराम	... १३५७	५७४	दयादेव	... ६१०
४८३	तेगपाणि	... ५५६	१३२१	दयानाथ दुबे	... १०११
५७३	तेज	... ६१०	१०२१	दयानिधि	... ८८२
६४७	तेजसिंह	... ८३८	२३६३	दयानिधि	... १३५१
११७०	तेजसिंह	... ६४३	२०७६	दयानंदसरस्वती	११७२
१४८०	तेजसी	... १०३५	६८०	दयाराम	... ६७०

नम्बर	नाम	पृष्ठ
७५६	दयाराम	... ७५०
२३३०	दयाराम कायस्थ	१३०२
१३०८	दयाल	... १००८
१४८५	दयाल कायस्थ	१०३६
२६५	दयालदास	... ४२१
१०६६	दयालदास	... ८६६
२५१४	दयालदास	... १३७०
१८६४	दयालाल	... ११३७
२६४६	दयाशंकर	... १४६२
१४८६	दयासागर सूरि	१०३६
४७६	दरियाव	... ५५५
२४१२	दरियावदौवा	... १३५४
१२२४	दरियावसिंह	... ६५४
१२६६	दरियावसिंह	... १००१
६४८	दरिया साहब	... ८३८
१४८७	दर्शनलाल	... १०३६
२६१८	दलथम्भनासिंह	१४२५
२१४२	दलपतिराम	... १२१८
७१६	दलपतिराय	... ६६६
२२५४	दल्लेखसिंह	... १२६०
११०३	दशरथ	... ८६७
७५२	दशरथराय	... ७५०
१४८८	दसानंद	... १०३६
१४८६	दाक	... १०३६
२६६५	दाताप्रसाद	... १४३४
८५	दादूदयालजी	... ३४६

नम्बर	नाम	पृष्ठ
१८६५	दान	... ११३७
४६०	दानिशमंद	... ५५७
४२	दामो	... २५५
२६८२	दामोदर	... १४३७
१६३	दामोदर	... ४०३
६१८	दामोदर	... ६१८
४०८	दामोदर	... ५०६
२०५४	दामोदर	... ११६८
३५७	दामोदरदास दादू- पंथी	४८६
१३१७	दामोदर देव	१०१०
२२५५	दामोदर शास्त्री	... १२६०
२८३३	दामोदर सहाय	१४७३
२८५	दामोदर स्वामी	४५२
३८२	दाराशाह	... ५०४
७१३	दास	... ६८५
२०३४	दास	... ११६४
१४६०	दासअनंत	... १०३६
१४६१	दासगोविंद	... १०३६
१८२५	दासदलसिंह	... ११३२
१४६२	दासी	... १०३७
६०४	दिग्गज	... ६१५
११७३	दिनेश	... ६४४
२६०	दिलदार	... ४२०
६६७	दिलाराम	... ६६७
२०६६	दिलीप	... १२०६



नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२११५	दीनदयाल ...	१२१२	१२०२	दूलमदास ...	६४६
२२५६	दीनदयाल ...	१२६०	७३७	दूलह ...	७३५
१२४३	दीनदयाल गिरि	६८६	१००२	दूल्हाराम ...	८७८
२३७५	दीनदयाल शर्मा	१३३३	१८६६	देवक ...	११३७
१२२५	दीनदरवेश ...	६५४	७५६	देव कवि ...	७५१
१४६३	दीनदास ...	१०३७	१७६०	देवकाष्ट जिह्वा ...	१०८८
२०४४	दीनानाथ ...	११६६	२२५७	देवकीनंदन ...	१२६०
१६६६	दीनानाथ अध्वर्य	११५०	६७६	देवकीनंदन ...	८५५
५३०	दीपचंद ...	५६५	२५५६	देवकीनंदन ...	१३८३
१२६२	दीरघ ...	१०००	२३१६	देवदत्त ...	१३००
१००	दील्ह ...	३५६	५३३	देवदत्त ...	५६६
२४५४	दुखभंजनजी ...	१३६०	४६४	देवदत्त ...	५५२
१७५	दुरसाजी ...	३८८	६१०	देवदत्त ...	८३१
१२६३	दुर्गा ...	१००५	२६४६	देवदत्त बाजपेयी	१४६२
२२२१	दुर्गादत्त व्यास	१२८४	२४३०	देवन ...	१३५७
२२२६	दुर्गाप्रसाद ...	१२८६	१४६७	देवनाथ ...	१०३७
२४१३	दुर्गाप्रसाद ...	१३५४	२७८४	देवनारायण खत्री	१४५६
१४६४	दुर्गाप्रसाद ...	१०३७	२६०६	देवनारायणलाल	१४८६
२३५४	दुर्गाप्रसाद मिश्र	१३१५	१८६७	देवमणि ...	११३७
२६४७	दुर्गाशंकर ...	१४६२	१४६८	देवमणि ...	१०३७
१४६५	दुर्जनदास ...	१०३७	८२१	देवमुकुंदलाल ...	७६२
१६३७	दुर्बीचंद ...	११५०	२४१७	देवराज ...	१३५५
२५३५	दूधनाथ ...	१३७३	१५६६	देवराम ...	१०३७
२६४८	दूधनाथ ...	१४६२	२४५५	देवसिंह ...	१३६१
५७५	दूनाराय ...	६१०	१५६	देवा ...	३८५
१४६६	दूलनदास ...	१०३७	७५७	देबीचंद ...	७५१

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२०१६	देवीदत्त	... ११६०	२७१	दौलत	... ४२२
२६१६	देवीदत्त	... १४२६	२६५२	दौलतराम	... १४६२
१५००	देवीदत्त	... १०३८	११८४	दौलतराम	... ६४६
८५६	देवीदत्त	... ७७८	२१३०	दुंपताचार्य	... १२१५
१५०१	देवीदत्तराय	... १०३८	२०३५	द्रोणाचार्य	... ११६४
२६३७	देवीदयाल	... १४२६	२१३१	द्वारिकादास	... १२१५
५२१	देवीदास	... ५६३	१५०४	द्वारिकादास साधु	१०३८
१५०२	देवीदास	... १०३८	२४००	द्वारिकाप्रसाद	... १३५२
११७५	देवीदास	... ६४४	२६६६	द्वारिकाप्रसाद	... १४३४
२४५६	देवीदीन	... १३६१	२८०४	द्वारिकाप्रसाद	... १४६८
२१५१	देवीप्रसाद	... १२१६	१५०५	द्वारिकेश	... १०३८
२२५८	देवीप्रसाद	... १२६०	१०२२	द्विज	... ८८२
१५०३	देवीप्रसाद	... १०३८	१२४६	द्विज	... ६६२
२६८३	देवीप्रसाद	... १४३७	२२५६	द्विजकवि मन्नालाल	१२६०
२६५०	देवीप्रसाद	... १४६२	१५०६	द्विजकिशोर	... १०३८
२६५१	देवीप्रसाद चौबे	१४६२	२५७६	द्विजगंगा	... १३६६
२५५०	देवीप्रसाद पूर्ण	१३७८	६८६	द्विजचंद	... ६७१
२१७१	देवीप्रसाद सुं सिफु	१२५२	१०७२	द्विजछत्र	... ८६१
२७७८	देवीप्रसाद शुक्ल	१४५६	१२२१	द्विजदीनदास	... ६५३
६७१	देवी भाट	... ६६८	१७८३	द्विजदेव	... १०८१
६८५	देवीराम	... ६७१	१५०७	द्विजनदास	... १०३८
२८२३	देवीसहाय	... १४७१	१५०८	द्विजनंद	... १०३६
२८३४	देवीसहाय	... १४७३	१५०९	द्विजराम	... १०३६
२०५५	देवीसिंह	... ११६८	२६५३	द्विजव्याम	... १४६२
२३६६	देवीसिंह राजा	१३५२	२१६	द्विजेश	... ४०७
४४४	दौल	... ५४६	२८६६	द्विजेश	... १४७२

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
७१२	द्यानतिराय	... ६७६	२०१७	धीरसिंहमहाराजा	११६०
१८६८	धनपति	... ११३७	१६२८	धुरंधर	... ११४३
८४४	धनसिंह	... ७६६	१५१२	धोंधी	... १०३६
१८६६	धनसुख	... ११३७	३३६	धोंधे	... ४७४
३०	धना	... २५०	८१२	धौकलसिंह	... ७६०
२८०५	धनीराम	... १४६८	२०५३	ध्यानदास	... ११६७
११३०	धनीराम भट्ट	... ६२८	१५१३	ध्यानदास	... १०३६
२२०	धनुराय	... ४०७	२७६	ध्रुवदास	... ४४६
२३०७	धनुर्धर	... १२६८	२३५६	नकछेदी	... १३१६
२८६७	धनुर्धर शर्मा	... १४८४	१५१४	नकुल	... १०३६
२४३१	धनेश	... १३५७	१५१५	नजमी	... १०३६
१८७०	धनंजय	... ११३७	२०२	नजीर	... ४०४
१०१६	धनंतर	... ८८१	१६	नरपतिनाल्ह	... २३७
१५१०	धरणीधर	... १०३६	१५१६	नरपाल	... १०३६
४४	धरमदास	... २५६	१६६	नरबाहन	... ३८६
१०३	धरमदास	... ३५७	१५१७	नरमल	... १०४०
१५११	धरमपाल	... १०३६	१२४	नरमिया	... ३६०
१८७१	धराधर	... ११३७	१६२६	नरसिंहदयाल	... ११४३
५१७	धर्ममंदिर मणि	५६२	१३६	नरसीमहताजी	... ३६३
२६५४	धर्मराज	... १४६२	६६	नरहरि	... ३२६
१८७२	धर्मसिंह जती	११३७	२०५०	नरहरिदास	... ११६७
१२०३	धीर	... ६५०	१५१८	नरहरिदास बक्शी	१०४०
२००	धीरजनरिंद	... ४०४	३५३	नरहरिदास बारहट	४८३
१६१२	धीरजसिंह	... ११४०	६१६	नरिंद	... ८३२
८४५	धीरजसिंह	... ७६६	१५१६	नरिंद	... १०४०
५७६	धीरधर	... ६१०	२२०६	नरेश	... १२८२

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२०००	नरेंद्रसिंह	... ११५७	६४६	नागरीदास महा-	
२०६०	नरेंद्रसिंह महाराजा	११६६	राजा	... ६३७	
१२७०	नरोत्तम	... १००१	१८७४	नाज़िर	... ११३७
२११६	नरोत्तम	... १२१२	१३७	नाथ	... ३६३
७२	नरोत्तमदास	... ३२६	२३६	नाथ	... ४११
१८७३	नल	... ११३७	६१०	नाथ	... ६१७
१८३०	नल्लसिंह	... ११३३	८७६	नाथ	... ७६५
६१७	नवखान	... ८३२	६५८	नाथ	... ८४०
२२०७	नवनिधि	... १२८२	११३४	नाथूराम	... ६३२
१५२०	नवनिधि	... १०४०	२६५५	नाथूराम	... १४६३
२३८	नवल	... ४१०	२३४६	नाथूरामशंकर	... १३१३
१५२१	नवलकिशोर	... १०४०	४७	नानक बाबा	... २५७
१४	नवलदास	... २३६	१५२२	नापाचारण	... १०४०
७७६	नवलदास	... ७५४	१७६	नाभादास	... ३६०
६३६	नवलदास	... ८३६	३८	नामदेव	... २५४
२६६७	नवलदास	... १४३४	५७७	नायक	... ६११
१०२६	नवलराम	... ८८३	७७७	नारायण	... ७५४
११३३	नवलसिंह	... ६३१	२०४३	नारायण	... ८८६
१८३१	नवलसिंह प्रधान	११३३	१६७	नारायणदास	... ३८७
१७६५	नवीन	... १०६२	१२१५२	नारायणदास	... १२२०
२२२२	नवीन	... १२८४	२४०१	नारायणदास	... १३५२
२०६३	नवीनचंद्रराय	... १२०६	१५३३	नारायणदास साधु	१४४०
१७६	नागरीदास	... ३८६	२४	नारायण देव	... २४८
१७६	नागरीदास	... ३८६	२५३६	नारायणप्रसाद	...
८७०	नागरीदास	... ७८६		मिश्र	... १३७४
६६३	नागरीदास	... ६६६	१६४	नारायण भट्ट स्वामी	४०३

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१५२४	नारायनराव भट्ट...	१०४०	२१७८	नृसिंहदास ...	१२६०
२८०६	नारायनलाल ...	१४६८	४३५	नेणसीमूता ...	५४०
५७८	नाहर ...	६११	८३२	नेतसिंह ...	७६४
७७८	नित्यकिशोर ...	७५४	६५६	नेवाज ...	८४१
१५२५	नित्यनाथ ...	१०४०	८२२	नेवाज ...	७६२
५७६	नित्यानंद ...	६११	४३६	नेवाज ...	५४४
११५५	नित्यानंद ...	६४१	६३८	नेवलदास ...	८३६
२५१५	नित्यानंद ब्रह्मचारी	१३७०	६८६	नेह ...	८७३
८३१	निधान ...	७६३	१५२७	नेही ...	१०४१
३२२	निधान ...	४७२	१८३५	नैनयोगिनि ...	११३४
२०८	निधि ...	४०५	१६०	नैनसुख ...	४०२
७०	निपटनिरंजन ...	३२७	१५२८	नैनूदास ...	१०४१
७०१	निरंजनदास ...	६७४	२२६१	नैसुक ...	१२६१
४५२६	निर्गुण साधु ...	१०४१	२२६२	नेने ...	१२६१
२०७२	निर्भयानंद ...	११७१	११६६	नेनेशाह ...	६४३
१८७५	निर्मल ...	११३७	२६६७	नेहरसिंह ...	१४४०
२३०	निहाल ...	४०६	७६६	नैनेन्यास ...	७५२
१०७६	निहाल ...	८६१	१५२६	नौबतराय ...	१०४१
१७८६	निहाल ...	१०८७	२६११	नंदकिशोर ...	१४८०
२०६	नीलकंठ ...	४०५	१५३०	नंदकिशोर ...	१०४१
२६६	नीलकंठ ...	४६५	२३७७	नंदकिशोर शुक्ल	१३३५
१६३०	नीलमणि ...	११४३	१६६८	नंदकुमार कायस्थ	११५०
२२६०	नील सखी ...	१२६०	१८७६	नंदकेसरीसिंह ...	११३७
६७५	नील सखी ...	८५५	१२७१	नंददास ...	१००१
२१०	नीलाधर ...	४०६	५८	नंददास ...	६८१
७३२	नूरमहंमद ...	७२५	१६५	नंदन ...	४०३

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१२१	नंदनराम	... १६४	१८०	परम शुक्ल	... ६११
७६८	नंदब्यास	... ७१३	२००६	परमसुख	... १११८
३	नंद राजा	... २२२	२३०८	परमहंस	... १२६८
२१८६	नंदराम	... १२६८	२११७	परमानंद	... १२१२
१६८	नंदलाल	... ३८७	२२३४	परमानंद	... १२८६
७७१	नंदलाल	... ७१४	१८०२	परमानंद	... १०६७
११३१	नंदीपति	... १०४१	११४६	परमानंद किशोर	६३६
११३२	पखान	... १०४१	१४	परमानंददास	... २७६
११३३	पजनकुर्वारि	... १०४१	११३६	परमानंद भट्ट	... १०४२
२६१२	पजनसिंह	... १४३२	३३७	परमेश	... ४७४
१८०४	पजनेस	... १०६६	२७६६	परमेश	... १४१२
४६१	पतिराम	... ११३	१२६३	परमेशदास	... १०००
२४६३	पत्तनलाल	... १३६७	२११३	परमेशवंदीजन	... १२२०
६६०	पदमेश	... ८४१	१८२६	परमेश्वरीदास	...
२०१	पद्मचारिणी	... ४०४		कालिंजर	... १०३२
११७	पद्मनाभ	... ३८१	२४१८	परमेश्वरीदास बाँदा	१३१५
२४६	पद्मभगत	... ४१२	३११	परशुराम	... ४७०
१२३३	पद्माकर भट्ट	... ६१६	११३७	परशुराम महाराजा	१०४२
११३४	पनजी	... १०४१	३८३	परसाद	... १०४
२६३८	पन्नालाल	... १४२६	२२६३	परागीलाल	... १२६१
२६१६	पन्नालाल	... १४६३	११३८	परागीलाल कायस्थ	१०४२
२६८४	पन्नालाल	... १४३७	११३६	परिपूर्णादास	... १०४२
१३०	परवत	... ३६१	११४०	पलटूसाहि	... १०४२
४४१	परवत	... १४६	२६३६	पहलवानसिंह	... १४२६
११३५	परमल्ल	... १०४२	११८५	पहलवाद	... ६४६
१६६६	परमवंदीजन	... १११०	१२८४	पहारसैयद	... १००४

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
११७७	पहिलवान	... ६४५	१८१०	पूर्णमल	... १११४
११४१	पाङ्खान	... १०४२	२६५८	पूर्णमल	... १४६३
२२०८	पारस	... १२८२	२७६३	पूर्णानंदशास्त्री	... १४६५
११४२	पारस राम	... १०४२	११४७	पृथ्वीनाथ	... १०४३
५८१	पीत	... ६११	११४६	पृथ्वीप्रधान	... १०४३
२६६३	पीतम	... १४६४	११४८	पृथ्वीराज चारण	१०४३
८०१	पीतांबर	... ७५८	८२	पृथ्वीराज महाराजा	३४७
२५१	पीतांबर दास स्वामी	४०६	७६३	पृथ्वीराज साधु...	७५७
११४३	पीथो चारण	... १०४३	५३८	पृथ्वीसिंह दीवान	५७४
२६	पीपा जी	... २४६	२५१६	पंजदास	... १३७१
११४४	पीपा जी दादूपंथी	११४३	२४१४	पंचदेव	... १३१४
१८७७	पीरचारण	... ११३७	२४५८	पंचम	... १३६१
४७७	पीरदाम	... ५५५	३६८	पंचम	... ५०२
८७४	पुखी	... ७६३	६६५	पंचम	... ६७३
२६४०	पुत्तूबाल	... १४२६	२१४३	पंचम	... १२१८
१८७८	पुरान	... ११३७	६४६	पंचमसिंह	... ६७३
११७	पुरुषोत्तम	... ३५८	७७०	पंचमसिंह	... ७५३
२६५७	पुरुषोत्तमदास	... १४६३	१३२५	पंडित बिगहपूर	१०११
३६५८	पुरुषोत्तम प्रसाद	१४६३	६६०	प्यारेलाल	... ८७१
१	पुष्य	... २२१	२६६०	प्यारेलाल	... १४६३
२८६	पुहकर	... ४५५	२५००	प्रकाशानंद	... १३६८
१	पुंड	... २२१	११७६	प्रताप	... ६४१
७७६	पुंडरीक	... ७५५	१२४१	प्रताप (परताप)...	६८१
१४४५	पूरणचंद	... १०४३	१८०६	प्रतापकुँवारि	... ११०५
१४४६	पूरण मिश्र	... १०४३	२३६५	प्रतापनारायन मिश्र	१३२२
१३०६	पूर्णदास	... १००६	२८१५	प्रतापनारायनसिंह राजेन्द्र	... १४७०

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
३३८	प्रतापसहाय ...	४७५	१८४१	प्राणसिंह कायस्थ	११३५
६६३	प्रतापसिंह महाराजा	८७६	५५७	प्रियादास ...	६०७
१०१२	प्रतापसिंह महाराजा	८८०	१५५२	प्रियादास ...	१०४४
२८३५	प्रतिपालसिंह ...	१४७३	६३४	प्रियासखी ...	६२१
४६१	प्रद्युम्नदास ...	५५७	१५५१	प्रियासखी ...	१०४४
१६७०	प्रधान ...	११५१	१५५३	प्रेमकेश्वरदास ...	१०४४
१५५०	प्रधानकेशवराय	१०४३	७४८	प्रेमदास ...	७४६
७५	प्रपन्नगेशानंद ...	३३३	११४१	प्रेमदास ...	६३८
२४५६	प्रभूदयाल कायस्थ	१३६१	६४६	प्रेमनाथ ...	८३६
२६६१	प्रभूदान ...	१४६३	१५५४	प्रेमनाथईद्रावती...	१०४४
११६६	प्रयागदास ...	६४८	१२३६	प्रेमसखी ...	६८०
१२५१	प्रयागदास ...	६६८	२१५४	प्रेमसिंह ...	१२२०
२६६२	प्रयागनारायण ...	१४६३	६७१	प्रेमीयवन ...	८४८
१८४	प्रवीण ...	३६७	१२२६	फतेहराय ...	६५४
४२१	प्रवीण ...	५१२	८६३	फतेहसिंह ...	८२८
१८१४	प्रवीण ...	१११६	७८२	फतेहसिंह ...	७५५
१७७	प्रवीणरायपातुर ...	३८६	१५५५	फतेहसिंह ...	१०४४
१२५	प्रसिद्ध ...	३६०	२३७२	फतेहसिंह राजा...	१३३२
४६६	प्रह्लाद ...	५५३	२३३१	फरासीसी वैद्य ...	१३०२
२४३	प्राणचंद ...	४११	१०४	फहीम ...	३५७
५०४	प्राणनाथ ...	५६०	२००६	फाजिलसाह ...	११५८
३५४	प्राणनाथ ...	४८४	२२६४	फालकाराव ...	१२६१
११५१	प्राणनाथ कायस्थ	६४०	१२६७	फुत्तूरीलालमैथिल	१२६६
६२६	प्राणनाथ त्रिपाठी	६२०	२२३०	फूलचंद ...	१२८६
२०८०	प्राणनाथ बैसवाड़ा	८६३	१५५६	फूलीबाई ...	१०४४
			२०८२	फेरन ...	११८८



नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१५५७	फेरन	... १०४४	१५६२	बद्रीदास साधु	... १०४५
२३४१	फ्रेडरिक पिनकाट	१३०५	२३४३	बद्रीनारायण	
१५८५	बकसी	... १०४५		चौधरी	... १३०८
२५७४	बक्सराम पांडे,		२५६४	बद्रीप्रसाद वैश्य	१४११
	सुजान	... १३६७	२५१७	बद्रीप्रसाद शर्मा	१३७१
१०६८	बख्तकुँवरि	... ८६१	२६६५	बद्रीसिंह	... १४६४
८३३	बख्तराठौर	... ७६४	११०	बनचंद	... ३६०
१५५६	बख्ताजी	... १०४५	४०६	बनमालीदास	... ५०८
१५५६	बख्तावर	... ६४१	२६४	बनचारी	... ४६१
२१३५	बख्तावर खाँ	... १२१६	२८०७	बनचारीलाल	... १४६८
६३२	बख्तेश	... ८३५	१५६३	बनानाथ	... १०४५
६३३	बख्तेस जी	... ८३५	१८६	बनारसीदास	... ३६८
२८६८	बचईलाल	... १४८५	१५६४	बरगराय	... १०४५
२६२४	बचऊ चौबे	... १४२६	१५६५	बरजोर प्रधान	... १०४५
२६६४	बचनेश	... १४६४	२७२२	बरजोरसिंह	... १४४४
२५८४	बचनेश मिश्र	... १४०४	४६७	बलदेव	... ५५३
२४६०	बच्चू लाल	... १३६१	१०१३	बलदेव	... ८८०
१५६०	बजरंग	... १०४५	१८४६	बलदेवचरखारी	... ११३६
२८५४	बजरंगसिंह	... १४७७	२६६६	बलदेवदास	... १४६४
१५६१	बजहन	... १०४५	२३४०	बलदेवदास	... १३०४
८३४	बदन	... ७६४	२०३६	बलदेवदास माथुर	११६४
१२८५	बदनजी चारख	... १००४	२०८८	बलदेव द्विज	... ११६७
२६२८	बदलूप्रसाद	... १४२७	२७०३	बलदेवप्रसाद	... १४४१
२७०२	बद्रीदत्त	... १४४१	२३०६	बलदेवप्रसाद	... १२६८
२६४१	बद्रीदत्त	... १४२६	१५६६	बलदेवप्रसाद	
१०६१	बद्रीदास	... ८८६		कायस्थ	... १०४५

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२५५५	बलदेवप्रसाद मिश्र	१३८२	१२२७	बहादुरसिंह कायस्थ	६५४
२५१८	बलदेवसिंह ...	१३७१	१०४८	बहादुरसिंह महाराजा	८८७
१८१३	बलदेवसिंह ...	१११६	१३२६	बहाब ...	१०१७
५१८	बलबीर ...	५६२	१२२८	बाकीदास चारख	६५५
२२२३	बलभद्र ...	१२८४	५६६	बागीराम ...	६१४
१४५	बलभद्र मिश्र ...	३६६	१५६६	बाघाचारख ...	१०४६
२६४२	बलभद्रसिंह ...	१४३०	२६१०	बाक्स्पति ...	१४२४
२७५६	बलभद्रसिंह ...	१४४१	१५७०	बाज ...	१०४६
१२५६	बलभद्रसिंह ...	६६६	६३४	बाजराय ...	८३५
१२४४	बलवानसिंह महाराजा ...	६८६	१५७१	बाजाराम ...	१०४६
२३७३	बलवंतराय सेंधिया	१३३२	१५७२	बाजिदजी ...	१०४६
४४६	बल्लिजू ...	५४६	४८०	बाजोद ...	५५५
१५६७	बलिदास ...	१०४६	१०५२	बाजूराय ...	८८८
४७६	बलिराम ...	५५५	६६१	बाजेस ...	८७६
५३१	बलिराम ...	५६५	१६७६	बादेराय ...	११३६
१६७१	बलिरामदास ...	११५१	२५८	बानकवि ...	४२०
१२७२	बलदीराम ...	१००१	१५७३	बाबासाहब ...	१०४६
२२६५	बल्लभ ...	१२६१	२७४०	बाबासाहब मल्लभ-दार	१४४७
३००	बल्लभदास ...	४६८	१५७४	बाबूमट्ट ...	१०४६
३८४	बल्लभरसिक ...	५०५	२५३७	बाबूरामजी ...	१३७४
७८०	बल्लभरसिक ...	७५५	२७०५	बाबूलाल ...	१४४१
४६	बल्लभाचार्य ...	२५६	२६६७	बामनाचार्य ...	१४६४
१५६८	बल्लूचारख ...	१०४६	२७२	बारक ...	४२३
२२४६	बल्लूखाल ...	१२६१	६२७	बारख ...	६२०
५८२	बल्लूत ...	६११			

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
३६६	बारण ...	५०७	१००४	विक्रमाजीत महा- राजा ओढ़ड़ा ...	८७
११	बारदर बेग्या ...	२२६	११००	विक्रमादित्य महा- राजा चरखारी...	८६
४४३	बालअली ...	५४८	५०५	बिचित्र ...	५६
१५७५	बालकदास ...	१०४७	१२६०	बिजय ...	६६
१००३	बालकराम ...	८७८	२१३	बिजयदेव सूरि ...	४०
८६४	बालकृष्ण ...	८२८	८४६	बिजयसिंह महा- राजा ...	७६
१८३७	बालकृष्ण चौबे	११३४	४३७	बिजयहर्ष ...	५४
२११	बालकृष्ण त्रिपाठी	४०६	२२६८	बिजयानंद ...	१२६२
१५७६	बालकृष्णदास ...	१०४७	७६०	बिजयाभिनंदन ...	७५
२२२४	बालकृष्णदास	१२८५	१५८१	बिट्टल कवि ...	१०४७
४५३	बालकृष्णनायक	५५०	७१	बिट्टलनाथ ...	३२
२०६४	बालकृष्ण भट्ट ...	१२०७	७६	बिट्टल विपुल ...	३३
२५१६	बालकृष्ण सहाय	१३७१	२०८६	बिडदसिंह ...	१२०३
२६८५	बालगोविंद ...	१४३८	२६१	बिदुष ...	४२०
१५७७	बालगोविंद कायस्थ	१०४७	२४७	बिद्या कमल ...	४१२
१५७८	बालचंद जैन ...	१०४७	१५८२	बिद्यानाथ ...	१०४७
२०८०	बालदत्त मिश्र पूरन	११८५	२२	बिद्यापति ठाकुर	२४५
१०८१	बालनदास ...	८६३	२२०६	बिद्याप्रकाश ...	१२८२
२५५७	बालमुकुंद गुप्त	१३८४	११३	बिनय समुद्र ...	३५
२८३६	बालमुकुंद पांडे	१४७३	२३८८	बिनायक राव ...	१३४४
२७२३	बालमुकुंद शर्मा	१४४४	१५८३	बिनायकलाल ...	१०४८
२२६७	बालेश्वरप्रसाद ...	१२६१	११६७	बिनादीलाल ...	६४६
१५७६	बासुदेवलाल ...	१०४७	२६६८	बिन्ध्याचल प्रसाद	१४६४
१५८०	वाहिद ...	१०४७			
७२५	बांकावती महारानी	७१६			
२८३७	बांकेलाल ...	१४७४			

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२४१६	बिन्ध्येश्वरी ...	१३५५	२४१	बिष्णुविचित्र (श्री)	४११
८०२	विरजूबाई ...	७५८	२०१८	बिष्णु सिंह चारण	११६०
१८११	बिरंजीकुँवरि ...	१११४	१५८८	बिष्णु स्वामी बाल	
२३८६	विशाल (भैरवप्रसाद)	१३४४	कृष्ण ...	१०४८	
२७२	विश्वनाथ ...	४२३	१५८६	बिसंभर ...	१०४८
६६१	विश्वनाथ ...	६७३	८८	बिहारिनिदास ...	३५२
२४६१	विश्वनाथ ...	१३६१	६१८	बिहारिनिदास बनी	
२६४३	विश्वनाथ ...	१४३०	ठनी ...	८३२	
१५८४	विश्वनाथ बंदीजन	१०४८	३५१	बिहारी ...	४७७
६४४	विश्वनाथसिंह महा- राजा ...	६२६	४६६	बिहारी ...	५५८
१५८५	विश्वेश्वर ...	१०४८	६१६	बिहारी ...	८३३
१५८६	विश्वेश्वरदत्त पांडे	१०४८	३१७	बिहारीदास ...	४२१
२८७८	विश्वेश्वर प्रसाद	१४८१	२४६	बिहारीबल्लभ ...	४१२
२४६२	विश्वेश्वरानंद ...	१३६१	८४७	बिहारी बुँ देलखंडी	७६७
२६७७	विश्वंभरदत्त ...	१४३६	१८६८	बिहारी भोजराज	११३८
८०३	बिष्णुगिरि ...	७५८	८६६	बिहारीलाल ...	८२६
१८४२	बिष्णुदत्त ...	११३५	२५३८	बिहारीलाल चौबे	१३७४
१५८७	बिष्णुदत्त ...	१०४८	१८६६	बिहारीलाल त्रिपाठी	११३८
३६	बिष्णुदास ...	२५४	१५६०	बिंदा दत्त ...	१०४८
१०६२	बिष्णुदास ...	८६५	१५६१	बीट्टीजी चारण ...	१०४८
४५६	बिष्णुदास ...	५२१	६४५	वीरकायस्थ ...	६३१
२६००	बिष्णुप्रसाद कुँवरि बावेली ...	१४१८	८०४	वीरनकविया ...	७५८
२६१२	बिष्णुलाल ...	१४८७	७७	वीरबल (महाराजा ब्रह्म) ...	३३५
२६४४	बिष्णुलाल ...	१४३०	२४२०	वीरबल ...	१३५६
			१२५२	वीर बाजपेई ...	६६८

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
७६१	बीरभानु ...	७५१	६८७	बेचू ...	६७१
४०५	बीरभानु ब्रजवासी	५०८	३६६	बेदांग राय ...	५०२
२६६६	बीरसिंह ...	१४६४	२६३	बेनी ...	४५१
२८३८	बीरेश्वर ...	१४७४	६८५	बेनी ...	८७०
१५६२	बुद्धिसेन ...	१०४६	६०५	बेनी ...	८३०
१८४३	बुधजन जैन ...	११३५	२१३६	बेनी ...	१२१६
२७४७	बुधन ...	१४४६	११५७	बेनीदास ...	६४१
४४७	बुधराम ...	५४६	१८३२	बेनीदास बंदीजन	११३३
२१५५	बुधसिंह ...	१२२०	१२७३	बेनीप्रकट ...	१००२
१६००	बुधसिंह कायस्थ	११३८	११०४	बेनी प्रवीन ...	८६०
१५६३	बुधानंद ...	१०४६	२८६६	बेनीमाधव ...	१४८५
१५६४	बुलाकीदास ...	१०४६	२४६६	बेनीमाधव ...	१३६७
२७८६	बुंदेला बाला ...	१४६०	२१२	बेनीमाधवदास ...	४०६
२६६	बूटा ...	४२२	१५६५	बेनीमाधव भट्ट...	१०४६
४४२	बृन्द ...	५४६	६८१	बेनीरामदास ...	६७०
२४६३	बृन्दावन ...	१३६२	२१८४	बेनीसिंह ...	१२६७
२५०१	बृन्दावन ...	१३६८	१५६६	बेसाहूराम ...	१०४६
२५२०	बृन्दावन ...	१३७१	२६५४	बेकटेश स्वामी ...	१४३२
१६००	बृन्दावन कायस्थ	१०४६	४६२	बैकुंठमणि शुक्ल	५१८
११३७	बृन्दावन जैन ...	६३५	२६७०	बैजनाथ ...	१४६४
७२६	बृन्दावनदास ...	७१८	१५६७	बैजनाथ दीक्षित	१०४६
६०६	बृन्दावनदास ...	८३०	२४२१	बैजनाथप्रसाद ...	१३५६
२५००	बृन्दावन ब्रजवासी	४१२	५३६	बैताल ...	५७५
२६१३	बृन्दावन वैश्य ...	१४८७	१५६८	बैन ...	१०४६
२७२४	बृन्दावनराम ...	१४४५	८७१	बैरीसाल ...	७६०
२१७६	बृषभानु कुँवरि	१०६०			
	महारानी				

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१०५७	वैष्णवदास	... ८८६	७०२	ब्रजचंद	... ६७४
६७४	वैष्णवदास	... ८५४	२११८	ब्रजजन	... १२१३
१५६६	बोध	... १०४६	२२२	ब्रजजीवन	... ४७८
२६४५	बोधईराम	... १४३०	२०६१	ब्रजजीवन	... ११६६
८८७	बोध	... ८२२	६००	ब्रजदास	... ६१५
२४०६	बोधीदास	... २३५४	४७८	ब्रजनाथ	... ५५५
१८७६	बोरी	... ११३७	८४८	ब्रजनाथ	... ७६७
१६०१	बंका	... १०५०	१७६७	ब्रजनाथ	... १०६४
११६	बंदन	... ३५६	२८८२	ब्रजनाथ	... १४८२
२४६४	बंदन पाठक	... १३६२	१६०३	ब्रजनंद	... १०५०
२४६५	बंदीदीन	... १३६२	२५७६	ब्रजनंदन सहाय	१४००
१६७२	बंसगोपाल	... ११५१	२७४	ब्रजपति	... ४२३
१६८६	बंसरूप	... ११५५	१६०४	ब्रज बल्लभदास	... १०५०
६८८	बंती	... ६७१	८७८	ब्रजवासीदास	... ७६७
४४८	बंती	... ५४६	१३२४	ब्रजमोहन	... १०१५
२५६	बंतीघर	... ४२०	२८०८	ब्रजरत्न भट्टाचार्य	१४६८
६२८	बंतीघर	... ६२०	७८१	ब्रजराज बुंदेलखंडी	७५५
७१७	बंतीघर	... ६६६	३४२	ब्रजलाल	... ४७५
१६८७	बंतीघर बाजपेई	११५४	८२३	ब्रजलाल चौबे	... ७६२
१६८८	बंतीघर भाट	... ११५४	१२२६	ब्रजलाल भट्ट	... ६५५
२८१	ब्यासजी	... ४५०	२८३६	ब्रजेश	... १४७४
१०२०	ब्यासदास	... ८८२	१६०५	ब्रजेश बुंदेलखंडी	०१०५०
७८	ब्यास स्वामी	... ३३७	१११६	ब्रह्मदत्त	... ६१६
१६०२	ब्यंकटेशू	... १०५०	१६०६	ब्रह्मदास	... १०५०
२०६६	ब्रज	... १२०८	२७०७	ब्रह्मदेवनारायण	... १४४१
२२१	ब्रजचंद	... ४०७	८०८	ब्रह्मनाथ	... ७५६

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
११४	ब्रह्मरायमल	... ३५८	१४०	भगवानहित	... ३६५
१६०७	ब्रह्मज्ञानेंद्र	... १०५०	४२६	भगवानहित	... ५२४
२८१४	ब्रह्मानंद	... १४६६	७४२	भगवंतराय खीची	७४४
२७६०	भगत	... १४५१	२२२५	भगवंतलाल	... १२८५
१६०८	भगत	... १०५०	३६	भगोदासजी	... २५३
११६३	भगवतदास	... ६४८	१८८०	भगंड	... ११३७
१२१६	भगवतमुदित	... ६५२	१६१०	भड्डरी	... १०५१
१३३	भगवत रसिक	... ३६२	१६११	भद्र	... १०५१
४०६	भगवतीदास	... ५०६	१६१२	भद्रसेन	... १०५१
११८	भगवानदास	... ३५६	१८८१	भरतेश	... ११३७
५२२	भगवानदास	... ५६३	१६१३	भरथ	... १०५१
६०५	भगवानदास	... ६१६	१६३१	भरथरी	... ११४३
१६०६	भगवानदास	... १०५१	८७	भरथरी भट्ट	... ३५१
२३२०	भगवानदास	... १३००	३५५	भरमी	... ४८५
२६७१	भगवानदास	... १४६४	२६०१	भवानीचरण	... १४८५
२६२०	भगवानदास	... १४२६	१६१४	भवानीदत्त	... १०५१
२३५०	भगवानदास खत्री	१३१३	१६६५	भवानीदास	... ११५६
२६००	भगवानदीन	... १४८५	२५०२	भवानीप्रसाद का-	
२७२५	भगवानदीन	... १४४५	यस्थ	... १३६८	
२५४७	भगवानदीन मिश्र		१३२६	भवानीप्रसाद पाठक	१०१५
दीन	... १३७६	१२०७	भवानीशंकर	... ६५१	
२५५४	भगवानदीन लाला	१३८२	१०३५	भवानीसहाय	... ८८५
( व नं० ५५६३ )			२८	भवानंदस्वामी	... २४६
२६७२	भगवानबक्ससिंह		१६१५	भाऊदास	... १०५१
बाबू	... १४६५	२७४६	भागीरथ	... १४४६	
२८६७	भगवानवत्स	... १४७६	२८६८	भागीरथ स्वामी	१४७६

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१८८२	भागु	... ११३७	७४४	भूधर	... ७४५
२७४८	भाग्यवती देवी	... १४४६	६५१	भूधरदास	... ६५१
२	भाट (कोई)	... २२१	१६१८	भूधरमल्ल	... १०५२
६८१	भानु	... ८६४	१६१६	भूप	... १०५२
१२१०	भानुदास	... ६५१	१५	भूपति	... २३६
२०१४	भानुनाथ झा	... ११५६	२४४	भूपति	... ४११
२५२१	भानुप्रताप	... १३७१	६६२	भूपति	... ८७६
२१०५	भानुप्रताप महाराज	१२१०	१०६२	भूपनारायन	... ८६०
६६४	भारती	... ८७६	११५२	भूपनारायन	... ६४०
१६७३	भारतीदान	... ११५२	२०४५	भूमिदेव	... ११६६
७२६	भारथशाह	... ७१७	२१३६	भूरे	... १२१७
६१६	भावन	... ६१८	४२६	भूषण	... ५१३
१८३१	भावन पाठक	... ११३३	२०४६	भूसुर	... ११६६
७१३	भिसारीदास	... ६८५	५०६	भृंग	... ५६०
७८३	भीखचंद मथेनयती	७५५	१६२०	भंख	... १०५२
१६१६	भीखजन	... १०५१	१८८३	भैरव चारण	... ११३७
६६५	भीखनजी	... ८७६	२३२१	भैरवदत्त	... १३०१
३५६	भीखम	... ४८५	२०३७	भैरवप्रसाद	... ११६४
६६६	भीखम जैनी	... ८७७	१६६२	भैरवबल्लभ	... ११५५
२००५	भीखमदास	... ११५८	२८४०	भैरवबल्लभ	... १४७४
१६१७	भीखजी	... १०५२	१६२१	भैरौ कवि	... १०५२
२४३२	भीम	... १३५७	६७६	भोज मिश्र	... ६६६
१२१२	भीम कायस्थ	... ६५२	११४२	भोजराज	... ६३८
२६७३	भीमसेन	... १४६५	८२४	भोलान झा	... ७६२
२३३६	भीमसेन शर्मा	१३०४	२४१५	भोलानाथ	... १३५५
२७८१	भुवनेश्वर मिश्र	... १४५७	१६२२	भोलानाथ	... १०५२



नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१८४७	भोलासिंह	११३६	१०४६	मदनसिंह	८८७
१८७	भौन	८७३	१६२५	मदनसिंह	१०५३
२६७८	भौन	१४३६	२५२२	मदारीलाल	१३७१
११०१	भंजन	१०४	१८८५	मधुकर	११३७
१०४४	मकरंद	८८६	८१३	मधुनाथ	७६०
२०३८	मकरंद	११६४	१८८६	मधुप	११३७
११८६	मगजीसेवक	१४७	२७२६	मधुरप्रसाद	१४४५
५८३	मणिकंठ	६१२	३५०	मधुसूदन	४७७
८८२	मणिकंदेव	८०२	२६७४	मधुसूदन गोस्वामी	१४१५
२६१५	मणिमंडन मिश्र	१४२५	१७३	मधुसूदनदास	८५१
३५१	मतिराम	४८१	१०६६	मनजू	८१०
१६२३	मतिरामजी	१०५२	१६२६	मननिधि	१०५३
२२१०	मथुरादास	१२८२	१०४१	मनबोध	८८७
१०१४	मथुरानाथ	१८०	८६७	मनबोध का	७८७
२१५६	मथुराप्रसाद	१२२०	८८५	मनभावन	८२१
२४०२	मथुराप्रसाद	१३५३	१६२७	मनरस	१०५३
२५७५	मथुराप्रसाद मिश्र	१३१८	११६८	मनराखनदास का-	
१८८४	मदन	११३७	यस्थ	१४३	
६३३	मदनकिशोर	६२१	२०२	मनराज	११६१
१६७४	मदनगोपाल	११५१	१३२७	मनसा	१०१६
१६२४	मदनगोपाल चर-		६३७	मनसुख	६२२
	खारी	१०५२	१७७	मनियार	८५८
२२१६	मदनपाल	१२१६	५८३	मनिकंठ	६१२
१०८२	मदनमोहन	८१३	१०३८	मनीराम	८८५
२११६	मदनमोहन	१२१३	१२०४	मनीराम	१५०
२३८०	मदनमोहन माल-		२१२०	मनीराम	१२१३
	वीय	१३३६			

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
८८४	मनीराम	...	८१८		
२२३	मनोभव	...	४०८		
८३	मनोहर	...	३४७		
६११	मनोहर	...	६१७		
३७०	मनोहरदास	...	५०२		
११८७	मनोहरदास	...	६४७		
२६०२	मन्नन द्विवेदी	...	१४२०		
२४२२	मन्नूलाळ कायस्थ	१३५६			
१६२८	मन्य	...	१०५३		
२८६६	मयूर	...	१४८०		
६२	मलिक मुहम्मद				
	जायसी	...	२८६		
६४०	मलूकदास	...	८३६		
२८४	मलूकदास ब्राह्मण	४५१			
७४३	मल्ल	...	७४५		
४	मसजद बिनसाद	२२२			
७८४	महताव	...	७५६		
६५८	महलूख	...	६६१		
७१६	महाकवि	...	७७३		
१०१५	महादान	...	८८१		
२८५५	महादेवप्रसाद	...	१४७७		
२६७५	महादेवप्रसाद	...	१४६५		
२६७६	महादेवप्रसाद स-				
	रन	...	१४६५		
२२६६	महानंद	...	१२६२		
२६७७	महाबीरप्रसाद	...	१४६५		
२६६८	महाबीरप्रसाद	...	१४३४		
	यस्थ	...	१०५३		
२३७६	महाबीरप्रसाद द्वि-				
	वेदी	...	१३३३		
१२३४	महाराज	...	६७०		
१६३०	महासिंह	...	१०५३		
१६३१	महीपति मैथिल	१०५३			
२६२१	महीपतिसिंह	...	१४२६		
१०३३	महेवा प्रवीन	...	८८४		
११६६	महेश	...	६४३		
१२६४	महेश	...	१००६		
२३६४	महेश	...	१३२२		
२७६४	महेशचरनसिंह	१४६५			
२१५७	महेशदत्त शुक्ल	...	१२२१		
२०७३	महेशदास	...	११७१		
२७५०	महेशप्रसाद	...	१४४६		
२६७८	महेशवक्त्र	...	१४६५		
२५७८	महेदुलाल गंग	१४००			
७८५	मार्हदास	...	७५६		
११२०	माखन	...	१६१६		
१६७५	माखन	...	११५२		
२११०	माखन चौबे	...	१२११		
२१२१	माखन लखेरा	...	१२१३		
२३४२	मातादीन	...	१३०१		
१६३२	मातादीन कायस्थ	१०५३			

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२४६६	मातादीन मिश्र	१३६२	११२३	मानदास ...	६२०
२४६७	मातादीन शुक्ल	१३६२	३८५	मानदास ब्रज ...	५०५
२५२३	मातादीन शुक्ल ...	१३७२	१६३२	माननिधि ...	११४३
२३५५	मातादीन हरिदास	१३१५	१११	मानराय बंदीजन	३६०
२१५	माधव ...	४०७	६५४	मानसिंह ...	८४०
१७६६	माधव (रीवाँ)	१०६६	३१५	मानसिंह ...	४७१
२८७०	माधव तेवारी ...	१४८०	२१३७	मानसिंह ...	१२१७
१०२७	माधवदास कायस्थ	८८३	१७८३	मानसिंह ...	१०८१
२५६	माधवदास चारण	४२०	१०१६	मानसिंह ...	८८१
१०१	माधवदास ब्राह्मण	३५६	१२३०	मानसिंह ...	६५५
१६३५	माधव नारायण	१०५४	२६२	मानसिंह महाराजा	
१६३३	माधवप्रसाद ...	१०५३	जयपुर ...	४२१	
२७२७	माधवप्रसाद कायस्थ	१४४५	११२५	मानसिंह राजपूताना	
२३८१	माधवप्रसाद मिश्र	१३३८	जोधपुर ...	६२१	
२६७६	माधवप्रसाद शुक्ल	१४६६	२३६७	मानालाल ...	१३२६
७०५	माधवराम ...	६७४	१६६	मानिकचंद ...	३८७
१६३४	माधवराम ...	१०५४	२२७१	मानिकचंद ...	१२६२
२७७५	माधवराव सप्रै ...	१४५४	२७६०	मानिकचंद जैन	१४६३
२४६८	माधवसिंह ...	१३६३	१६२६	मानिकदास माथुर	१०५४
२८४१	माधवसिंह ...	१४७४	२४६६	मारकंडे चिरंजीवि	१३६३
२२७०	माधवानंद भारती	१२६२	११६८	मारकंडे मिश्र ...	६४६
२८७	माधुरीदास ...	४५४	२६४६	मालिकराम त्रिबेदी	१४३०
४१०	मान ...	५०६	२७६७	मितानसिंह ...	१४५२
५८४	मान ...	६१२	५८५	मित्र ...	६१२
६११	मान ...	८३१	२४३३	मिथिलेश ...	१३५७
१२५३	मान ...	६६८	११५८	मिर्जामदनायक ...	६४१

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
६३८	मिश्र	... ६२२	१६४०	मुनी	... १०५४
३७१	मिहीलाल	... ५०२	५८६	मुनीश	... ६११
२२७२	मिहीलाल	... १२६२	२६२६	मुनुआ	... १४२७
१६३३	मीठाजी	... ११४४	२२७४	मुन्नाराम	... १२६३
२६४७	मीठालाल	... १४३१	२४७०	मुन्नालाल	... १३६३
२२७३	मीतुदास	... १२६२	१७४	मुन्नीलाल	... ३८८
६६६	मीनराज	... ६७३	१८५	मुबारक	... ३६७
७८६	मीरअहमद	... ७५६	६३६	मुरली	... ६२२
४८४	मीररुस्तम	... ५५६	१६४१	मुरलीदास	... १०५४
६३	मीराबाई	... २६७	११२१	मुरलीधर भट्ट	... ६१७
४८५	मीरीमाधव	... ५५६	१६४२	मुरलीराम	... १०५५
३०७	मुकुटदास	... ४६६	१६४३	मुरलीराय	... १०५५
२६८०	मुकुटलाल	... १४६६	२५६८	मुरारिदान कवि	
४६८	मुकुंद	... ५५३	राजा	... १३६२	
२५७	मुकुंददास	... ४२०	१६३४	मुरारिदास	... ११४४
६६१	मुकुंदलाल	... ८४१	२०८४	मुरारिदास	... ११६१
१६३७	मुकुंदलाल जोहरी	१०५४	१६४४	मुरारिदास साधु	१०५५
२३२	मुकुंदसिंह	महा- राजा ... ४०६	२०	मुल्लादाऊद	... २४१
२५४४	मुकुंदीलाल	... १३७५	२६८६	मुसद्वीराम	... १४३८
१८२	मुक्तामणि दास	... ३६६	१६२०	मुहम्मद	... ६१८
२६८१	मुस्तारसिंह	... १४६६	२६६८	मुहम्मद अब्दुल	
१६३८	मुनि ब्राह्मण	... १०५४	सत्तार (प्यारे)	... १४४०	
१६३६	मुनिलाल	... १०५४	२१६८	मुंशीराम	... १२७७
२४८	मुनिलालवण्य	... ४१२	१६७२	मूकजी	... ६६८
			१११५	मून	... ६१०
			१६४५	मूरतिराम	... १०५५

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
७८७	मूरतिसिंह ...	७५६	४४०	मोहनबिजय ...	५४६
२१५८	मूलचंद कायस्थ ...	१२२१	५४५	मोहन भट्ट ...	५८१
२०५१	मृगेंद्र ...	११६७	२३५	मोहन माधुर ...	४१०
४११	मेघराज प्रधान ...	५०६	१२०	मोहनलाल ...	३५६
१६४६	मेघराज सुनि ...	१०५५	२३३५	मोहनलाल ...	१३०३
१६४७	मेणा भाट ...	१०५५	१६५१	मोहनलालकायस्थ ...	१०५६
२६८७	मेदिनीप्रसाद ...	१४३८	२१६०	मोहनलाल विष्णु लाल ...	१२७२
६५७	मेदिनीमल्ल कुँवर ...	६६१	४५४	मौनीजी ...	५५०
११८८	मेधा ...	६४७	१६५२	मंगद ...	१०५६
२४२३	मेलाराम ...	१३५६	२०३६	मंगलदास कायस्थ ...	११६५
१०७४	मेहरवानदास ...	८६२	२५३६	मंगलदीन ...	१३७४
२६८२	मैथिलपरमहंस ...	१४६६	२२११	मंगलदेव ...	१२८२
२७८८	मैथिलीशरण गुप्त ...	१४६३	८१६	मंगल मिश्र ...	७६१
१२६८	मोगजी ...	१००६	१६५३	मंगलराज ...	१०५६
५०७	मोतीराम ...	५६०	२३२३	मंगलसेन ...	१३०१
६२	मोतीलाल ...	३५४	२५२४	मंगलीप्रसाद ...	१३७२
१६४८	मोहकम ...	१०५५	१६५४	मंगलीप्रसाद कायस्थ ...	१०५६
५०८	मोहन ...	५६१	२६८३	मंगलीलाल ...	१४६६
२०८३	मोहन ...	११६०	६७२	मंचित द्विज ...	८४६
३०८	मोहनदास ...	४६६	१२५४	मंछ ...	६६८
८६१	मोहनदास ...	७८२	३५८	मंडन ...	४८१
१८६	मोहनदास ...	४०२	१६३५	मंदिनि श्रीपति ...	११४१
१६४६	मोहनदास ...	१०५५	११७४	मंसाराम ...	६४१
२८८३	मोहनदास ...	१४८२			
१६५०	मोहनदास मंडारी ...	१०५५			

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२६२४	यशोदा देवी ...	१४८६	२४०३	रघुनाथप्रसाद ...	२३५३
११०६	यशोदानंदन ...	६०१	२७२६	रघुनाथप्रसाद ...	१४४६
६००	यशोदानंदन दास	८२६	५०६	रघुनाथ प्राचीन...	५६१
२७२८	यज्ञराजदास ...	१४४५	५१६	रघुनाथराम ...	५६३
२६२२	यज्ञेश्वर ...	१४२६	३१३	रघुनाथराय ...	४७०
२६५५	यज्ञेश्वरसिंह ...	१४६६	२७७७	रघुनाथसिंह ...	१४५५
६७३	याकूबख़ाँ ...	६६८	२५२६	रघुनंदनप्रसाद ...	१३७२
२३८२	युगुलकिशोर(ब्रजराज)	१३३८	२१५६	रघुनंदनप्रसाद भट्टा- चार्य ...	१२२१
२१२२	युगुलप्रसाद ...	१२१३	२१६०	रघुनंदनलाल कायस्थ	१२२१
२४७१	युगुलप्रसाद ...	१३६३	२७३०	रघुपति सहाय ...	१४४६
१६५५	युगुलप्रसाद चौबे	१०५६	१६५७	रघुबर ...	१०५६
२६०६	युगुलमाधुरी ...	१४२३	१८२०	रघुबरदयाल ...	११२६
१६३६	युगुलमंजरी ...	११४४	२५४१	रघुबरदयाल पाँडे	१३७५
६२०	यूसुफ़ख़ाँ ...	८३३	२६११	रघुबरप्रसाद ...	१४२४
२४०	रघुनाथ ...	४११	१६५८	रघुबरशरण ...	१०५६
२४५	रघुनाथ ...	४१२	२४७३	रघुबीर ...	१३६३
२४७२	रघुनाथ ...	१३६३	२५०३	रघुबीरप्रसाद ...	१३६८
७२३	रघुनाथ ...	७१०	१६३७	रघुमहाशय ...	११४४
२७५१	रघुनाथदास ...	१४४६	१८०७	रघुराजसिंह महा- राजा ...	५१०६
१६५६	रघुनाथदास ...	१०५६	३४१	रघुराम ...	४७५
२५२५	रघुनाथदास ...	१३७२	४६३	रघुराम ...	५५८
१८१८	रघुनाथदास ...	११२१	६०१	रघुराय ...	८२६
१७६८	रघुनाथदास ...	१०६५	११५६	रघुराय ...	६४१
२२७५	रघुनाथप्रसाद ...	१२६३			
२३२४	रघुनाथप्रसाद ...	१३०१			
२६६६	रघुनाथप्रसाद ...	१४३४			

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१६५९	रघुलाल	... १०५७	१२१	रविनाथ	... ८३३
१६६०	रघुश्याम	... १०५७	२५४०	रमाकांत	... १३७५
१८८७	रच्छपाल	... ११३७	२३२५	रमादत्त	... १३०१
३३९	रज्जब जी	... ४७५	२९८६	रमादेवी	... १४९६
४९४	रणछोरे	... ५५८	५८७	रमापति	... ६१२
२६३०	रणजीत मल्ल	... १४२७	२८८४	रमेश पांडे	... १४८२
१९७६	रणजीतसिंह	... ११५२	२०१५	रमैया बाबा	... ११६०
२४७४	रणजीतसिंह राजा	१३६४	१६६१	रसकटक	... १०५७
२६८८	रणधीरसिंह	... १४३८	१५१	रसखानि	... ३८०
६२९	रतन	... ६२०	७८९	रसचंद्र	... ७५६
८७५	रतन	... ७९४	१२४०	रसजान	... ९८१
२३७८	रतन कुर्वरि	... १३३५	३७२	रसजानीदास	... ५०२
२२२६	रतनचंद्र	... १२८५	१६६२	रसद्रुक	... १०५७
२५०४	रतनचंद्र	... १३६९	१०८२	रसधाम	... ८९३
५२८	रतनजी भट्ट	... ५६४	८८९	रसनिधि	... ८२७
१०९५	रतनदास	... ८९५	१६६३	रसनेश	... १०५७
५२३	रतनपाल	... ५६३	७०६	रसपुंजदास	... ६७५
७८८	रतनबीरभानु	... ७५६	८४९	रसराज	... ७६७
६०१	रतनसागर	... ६१५	३०९	रसराम	... ४६९
१२९९	रतनसिंह महाराजा	१००७	२२४	रसरास	... ४०८
१७९१	रतनहरि	... १०८८	९५०	रसरासि जयपुर...	... ८३९
२६७	रतनेस	... ४२२	८५०	रसरूप	... ७६७
२९८४	रतनेस मिश्र	... १४९६	६५०	रसरग	... ६५०
२४३४	रतिनाथ	... १३५८	२२७६	रसरंग	... १२९३
६४०	रविदत्त	... ६२३	१७९६	रसरंग	... १०९३
२३३६	रविदत्त	... १३०३	६२१	रसखाल	... ६१९

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृ
७२१	रसलीन	... ७०७	१८३	राघवदास	... ३६
१६१३	रसानंद भट्ट	... ११४०	३७५	राघवदास	... ५०
२०४०	रसाल	... ११६५	२४१६	राघवदास साधू	... १३५
१२२०	रसाल गिरि	... ६५३	२८५६	राघवेंद्र	... १४७
१४१	रसिक	... ३६५	२६८७	राजदेवी	... १४६१
४४१	रसिक	... ५४६	२८५७	राजधरलाल	... १४७८
७४६	रसिकअली	... ७४७	५५२	राजसिंह महाराजा	५६१
११११	रसिकगोविन्द	... ६०७	१६६८	राजा मुसाहेब	... १०५८
३७३	रसिकदासजी	... ५०२	३८६	राजाराम	... ५०५
१६६४	रसिकनाथ	... १०५७	६१४	राजाराम	... ६१७
१६६५	रसिक प्रवीण	... १०५७	८१७	राजाराम	... ७६१
७२२	रसिक प्रीतम	... ७१०	६२२	राजाराम	... ८३३
३७४	रसिकबिहारिनिदास	५०३	२५८६	राजाराम शास्त्री	... १४०६
८५१	रसिकबिहारी	... ७६७	२६८६	राजेन्द्र सिंह	... १४६७
६५६	रसिकबिहारी बनी- ठनी	... ६६२	२६१४	राजेश्वरप्रसाद	... १४८७
१०३७	रसिकराय	... ८८५	५८८	राधाकृष्ण	... ६१२
३४७	रसिकशिरोमणि	... ४७६	१०६६	राधाकृष्ण	... ८६६
६५५	रसिकसुमति	... ६५८	२६३१	राधाकृष्ण अक्खी	१४२८
२०४८	रसिक सुंदर	... ११६६	२८८५	राधाकृष्ण घनश्याम	१४८३
७६०	रसिकानंदलाल	... ७५६	१०७६	राधाकृष्ण चौबे	८६२
२१७७	रसिकेश	... १२५६	२५५३	राधाकृष्ण दास	१३८१
२२१२	रसिया	... १२८३	२८७६	राधाकृष्ण बाजपेयी	१४८२
६८२	रहीम	... ६७०	२६८८	राधाकृष्ण महता	१४६७
१४७	रहीम खानखाना	३७१	१२५८	राधाकृष्ण मिश्र	१४०६
१६६६	राघवजन	... १०५७	२१३३	राधाचरण	... १२१६
			२४७५	राधाचरण	... १३६४



नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२१६१	राधाचरण गोस्वामी	१२७२	१६७१	रामचरन ब्राह्मण	१०५८
२६०२	राधारमणप्रसाद		२८४३	रामचरन भट्ट ...	१४७५
	सिंह ...	१४८५	२६६०	रामचरनलाल ...	१४६७
१०६६	राधिकानाथ बैनजी	८६१	२४०४	रामचरित्र ...	१३५३
१६६६	राधिकाप्रसाद ...	१०५८	२६६१	रामचीज पाँडे ...	१४६७
२४७६	राधेलाल ...	१३६४	४२३	रामचंद्र ...	५१२
२८४२	राधेश्याम ...	१४७४	१६६१	रामचंद्र ...	१०६०
२२७७	राम ...	१२६३	२८८६	रामचंद्र ...	१४८३
२८५८	रामअधीन ...	१४७८	२२६८	रामचंद्र ...	१२६७
१६७०	रामकरण ...	१०५८	६६७	रामचंद्र ...	८४२
१३२८	रामकवि ...	१०१६	२७३१	रामचंद्र ...	१४४६
२१६१	रामकुमार ...	१२२२	२७३२	रामचंद्र आनंदराव	
२५४२	रामकुमार ...	१३७५		देशपांडे ...	१४४६
५८६	रामकृष्ण ...	६१३	१२६	रामचंद्र मिश्र ...	३६१
२१२३	रामकृष्ण ...	१२१४	२६०३	रामचंद्र शुक्ल ...	१४८५
१८८८	रामकृष्ण की बधू	११३७	१६७२	रामचंद्र स्वामी ...	१०५८
२३५७	रामकृष्ण वर्मा	१३१६	१६३८	रामजस ...	११४४
७४७	रामकृष्ण हित ...	७४८	४३२	रामजी ...	५३७
२४२४	रामगयाप्रसाद ...	१३५६	२५८७	रामजीलाल शर्मा	१४०६
१६६०	रामगुलाम द्विवेदी	११५५	१६८४	रामजू ...	११५३
२७६८	रामगुलामराम ...	१४५२	१६७३	रामदत्त ...	१०५८
२२७८	रामगोपाल ...	१२६३	१६७४	रामदया ...	१०५८
१०७५	रामचरन ...	८६२	२४६७	रामदयाल ...	१३६८
२१३८	रामचरन ...	१२१७	२७०८	रामदयाल ...	१४४२
२३०१	रामचरन ...	१२६७	१६७५	रामदान ...	१०५६
१०२८	रामचरनदास ...	८८३	१०५	रामदास ...	३५७
			८६२	रामदास ...	८२७

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
११६०	रामदास ...	६४१	२७००	रामनारायण लाल	
११७८	रामदास ...	६४५		कायस्थ ...	१४४०
२६६६	रामदासराय ...	१४४०	२१७५	रामपाल सिंह राजा	१२५६
१६०१	रामदीन त्रिपाठी	११३८	२३२६	रामप्रकाश ...	१३०२
२१२४	रामदीनबंदीजन	१२१४	२१६२	रामप्रताप ...	१२२२
१६७६	रामदेव ...	१०५६	२५०५	रामप्रताप ...	१३६६
२७८७	रामदेवप्रोफेसर ...	१४६२	२६६३	रामप्रतापसिंह	
१६७७	रामदेवसिंह ...	१०५६		राजा ...	१४६७
२१८८	रामद्विज ...	१२७०	८०६	रामप्रसाद ...	७५६
२४२५	रामधारीसहाय का-		२०४१	रामप्रसाद ...	११६५
	यस्थ ...	१३५६	१६७८	रामप्रसाद कायस्थ	१०५६
२६०४	रामनरेश ...	१४८६	२५६२	रामप्रिया रानी ...	१४०७
१२७४	रामनाथ ...	१००२	५४१	रामप्रिया शरण	५७६
१२१६	रामनाथ ...	६५३	१६७६	रामबक्स ...	१०५६
१६७७	रामनाथ ...	११५२	२२७६	रामभजन ...	१२६४
१२४५	रामनाथ प्रधान ...	६६१	२१६३	रामभजन बारी ...	१२२२
२३७०	रामनाथ बूँदी के		६६२	रामभट्ट ...	८४१
	राव ...	१३२८	१६८०	रामभरोसे ...	१०५६
२०५२	रामनाथ मिश्र ...	११६७	२६६४	रामभरोसे ...	१४६७
२२१७	रामनाथसिंह राजा	१२८३	२६१२	रामरतन जू ...	१४२४
२६८६	रामनारायण ...	१४३८	२२२७	रामरसिक ...	१२८५
२६६२	रामनारायण ...	१४६७	६२२	रामराय ...	६१६
२४७७	रामनारायण कायस्थ	१३६४	१६८१	रामराय ...	१०५६
२७८३	रामनारायण पांडे	१४५८	१६३६	रामराय राठौर ...	११४५
२७८५	रामनारायण मिश्र	१४६०	२३६०	रामराव चिंचोलाकर	१३४६
२६४८	रामनारायण मिश्र	१४३१	१२७५	रामराव राठौर राजा	१००२

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
६६८	रामरूप ...	६६७	८१६	रामानंद ...	७६१
१६८२	रामरंग खान ...	१०५६	२५	रामानंदजी ...	२४८
२७६६	रामलखन लाल	१४५३	२३११	रामानंद संन्यासी	१२६६
२६१३	रामलाल ...	१४२५	४०	रामानंद स्वामी ...	२५५
२८४४	रामलाल ...	१४७५	२८४५	रामावतार ...	१४७५
२६५३	रामलाल शर्मा ...	१४३२	२७५३	रामावतार पांडे	१४५०
२४७८	रामलाल स्वामी	१३६४	२४७६	रामेश्वरदयाल का-	
२६०५	रामलोचन पांडे	१४८६	यस्थ ...		१३६४
११४३	रामशरण ...	६३८	२५६६	रामेश्वरबल्लसिंह	१३६३
२३६१	रामशंकर व्यास	१३२०	२७७०	रामेश्वरी नहरू	१४५३
६४२	रामश्याम ...	६२७	३२६	रायचंद ...	४७२
८६०	रामसखे ...	७८१	१६६१	रायचंद ब्राह्मण ...	१०६०
१०२६	रामसजन ...	८८४	१६६२	रायजू ...	१०६१
१६८३	रामसजनजी ...	१०५६	१६४०	रायमोहन ...	११४५
१६८४	रामसनेही ...	१०६०	१८७	रारधरीजी रानी	४०३
१६८५	रामसहाय ...	१०६०	२३५२	रावअमान ...	१३१४
१२३५	रामसहायदास ...	६७०	३७६	रावरतन ...	५०३
११४४	रामसिंह ...	६३८	१६०२	रावराना बंदीजन	११३८
१६८६	रामसिंहकायस्थ	१०६०	१६६३	राहिव ...	१०६१
६८०	रामसिंह महाराजा	८६३	११८६	रिभवार ...	६४७
१६८७	रामसिंह राव ...	१०६०	११६०	रिपुवार ...	६४७
१६८८	रामसेवक ...	१०६०	१६६४	रिवदान ...	१०६१
२३०२	रामसेवक शुक्ल ...	१२६७	२०६१	रुडालफ हार्नली	१२०५
१६८९	रामा ...	१०६०	२२०३	रुद्रदत्त ...	१२८१
१६९०	रामाकांत ...	१०६०	१२५५	रुद्रप्रतापसिंह ...	६६८
२७०६	रामाधीन शर्मा ...	१४४२	८५२	रुद्रमणि चौहान	७६८

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
७६२	रुद्रमणिमिश्र ...	७२१	१२७	ब्रह्मण्यशरण दास	३६१
१६६५	रूधा ...	१०६१	१७०१	ब्रह्मण्यसाधु ...	१०६२
१६६६	रूप ...	१०६१	११६१	ब्रह्मण्यसिंह ...	६४२
६६७	रूपदास ...	८७७	२१२५	ब्रह्मण्यसिंह ...	१२१४
५१०	रूपनारायण ...	५६१	१८२७	ब्रह्मण्यसिंह ...	११३२
२७८०	रूपनारायण पांडे	१४५७	२८८७	ब्रह्मण्यसिंह ...	१४८३
१६६७	रूपमंजरी ...	१०६१	२०७७	ब्रह्मण्यसिंह राजा	११७८
५४०	रूपरसिक ...	५७८	२७७१	ब्रह्मण्यचार्य ...	१४५३
१६६८	रूपसखी वैष्णव	१०६१	२२१३	ब्रह्मण्यानंद ...	१२८३
१६४१	रूप सनातन ...	११४५	१७०२	ब्रह्ममी ...	१०६२
८५८	रूपसाहि ...	७८०	१२८७	ब्रह्ममीनाथ ...	१००४
३१	रैदास ...	२५०	२२२०	ब्रह्ममीनाथ ...	१२८४
२७३४	रोशनसिंह ...	१४४७	२०८०	ब्रह्ममीनाथ ...	१२६४
१६६६	रंगखानि ...	१०६१	२१४	ब्रह्ममीनारायण ...	४०६
२७३५	रंगनारायणपाल	१४४७	२६६५	ब्रह्ममीनारायण ...	१४६७
८२५	रंगलाल ...	७६२	१७०३	ब्रह्ममीनारायण ...	१०६२
१६४२	रंगीलापीतम ...	११४५	२३४४	ब्रह्ममीनारायण सिंह ...	१३०६
१६४३	रंगीलीसखी ...	११४५	२६६६	ब्रह्ममीपति ...	१४६७
१६७८	ब्रह्मण्य ...	११५२	२०२१	ब्रह्ममीप्रसाद ...	११६१
२६१४	ब्रह्मण्य ...	१४२५	१७०४	ब्रह्ममीप्रसाद का- यस्थ ...	१०६२
१७००	ब्रह्मण्य ...	१०६२	२१८७	ब्रह्ममीशंकर मिश्र	१२७०
१२९६	ब्रह्मण्यदास ...	१००६	११६६	ब्रह्मनसेन ...	६४६
१६४४	ब्रह्मण्यदास ...	११४५	२०६०	ब्रह्मनसेन पांडे ...	१२०३
१६७६	ब्रह्मण्यप्रसाद क- पाय्याय ...	११५३	१७०५	ब्रह्मकेशव साधु ...	१०६२
१२१६	ब्रह्मण्यराव ...	६५२			

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१७०६	लघुमति	... १०६२	१२६०	लाहूनाथ	... १००५
१७०७	लघुराम	... १०६२	१७११	लाभ वर्द्धन	... १०६३
१७०८	लघुलाल	... १०६३	५५३	लाल	... ५५२
११०१	लच्छू	... ८६६	२०१७	लालकलानिधि	८८१
२०८७	लछिराम	... ११६५	६६६	लालगिरिधर	... ८७७
५६०	लछिराम	... ६१३	७६२	लालगिरिधर जी	७५७
१०८४	लछिराम	... ८६३	१७१२	लालगोपाल	... १०६३
२२८१	लछिराम होलपुर	१२६४	६८	लालचदास हल- वाई	... ३२६
२५४८	लज्जाराम	... १३७६	१४८	लालचंद	... ३७६
२३२७	लतीफ	... १३०२	२१०८	लालचंद	... १२११
४६६	लधराज	... ५५३	८३५	लालजी	... ७६४
११२७	ललकदास	... ६२३	२८१६	लालजी	... १४७०
७२७	ललितकिशोरी	... ७१७	२८४६	लालजी	... १४७५
८८८	ललितकिशोरी	... ८२६	१०३०	लालजी भ्मा	... ८८४
१८२१	ललितकिशोरीसाह	११२७	१०६०	लालजी मिश्र	... ८६४
१८२२	ललितमाधुरी साह	११२७	१८४४	लालदास	... ११३६
७२८	ललितमोहनीस्वामी	७१७	४८१	लालदास	... ५५५
२५४३	ललितराम	... १३७५	१४६	लालदास आगरा	३७६
२१८०	ललिता	... १२६१	१७८	लालनदास	... ३६०
१७०६	ललिता सखी	... १०६३	६६८	लाल बनारसी	... ८७७
२१०१	लल्लू पांडे	... १२०६	२६०७	लालबहादुर	... १४८६
१००५	लल्लूभाई	... ८७८	६०२	लालबिहारी	... ६१५
१११६	लल्लूलाल	... ६११	२८५६	लालबिहारी	... १४७८
२३६२	लाजपतिराय	... १३५१	२३५६	लालबिहारी मिश्र	१३१८
१७१०	लाजब	... १०६३	१७१३	लालबुभुक्कड़	... १०६३
१०५१	लाडिलीदास	... ८८८			

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२७५६	लालमणि	... १४५१	२६७०	शारदाप्रसाद	... १४३४
२२५	लालमणि	... ४०८	२७१०	शारदाप्रसाद	... १४४२
२६३२	लालमणि वैद्य	... १४२८	१८	शारंगधर	... २३६
७६१	लालमुकुन्द बनारसी	७५७	२०६२	शालग्राम	... १६६६
२४८०	लालसिंह	... १३६५	२०८५	शालग्राम	... ११६२
१७१४	लालसिंह भाट	१०६३	७५४	शाहजू पंडित	... ७५०
११६२	लाखापाठक	... ६४२	१०८६	शिरताज	... ८६४
२५१	लीलाधर	... ४१३	२६८	शिरोमणि ब्राह्मण	४६७
५६१	लीलापति	... ६१३	३२१	शिरोमणि मिश्र	४७२
१७१६	लुकमान	... १०६३	६२४	शिव	... ८३३
२६१	लूखसागर	... ४५७	७३४	शिव	... ७३२
२१२६	लेखराज	... १२१४	११४६	शिव	... ६३६
१८१६	लेखराज	... ११२४	२८८८	शिवकरणा	... १४८३
१७१७	लेखराज	... १०६४	७३५	शिवकवि भाट	... ७३३
५३६	लोकनाथ	... ५७३	२६१५	शिवकुमार	... १४८८
५६४	लोकमणि	... ६१४	१७२०	शिवचरन	... १०६४
२७८६	लोचनप्रसाद पांडे	१४६३	१६४५	शिवचंद्र	... ११४६
१०८५	लोचनसिंह	... ८६४	२४८१	शिवदत्त बनारसी	१३६५
५११	लोघे	... ५६१	२६६०	शिवदयाल	... १४३६
१६८०	लोनेबंदीजन	... ११५३	१८३६	शिवदयाल	... ११३४
२१२७	लोनेसिंह	... १२१४	२०६७	शिवदयाल	... १२०८
१७१८	लोरिक	... १०६४	८३७	शिवदास	... ७६५
६२३	शत्रुजीतसिंह	... ८३६	२८४७	शिवदास	... १४७५
२५४६	शरच्चंद्रसोम	... १३७७	६१४	शिवदास	... ६१७
४७०	शशिशेखर	... ५५३	२६६१	शिवदास पांडे	... १४३६
६१२	शारदापुत्र	... ६१७	२०७४	शिवदीन	... ११७३

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१७२१	शिवदीन ...	१०६४	२६६६	शिवरत्न ...	१४६८
१७२२	शिवदीन कायस्थ	१०६४	२८४६	शिवरत्न ...	१४७६
२६४८	शिवदुलारे पांडे	१४३१	१७२३	शिवराज ...	१०६४
२८०६	शिवनरेशसिंह	१४६८	१६०३	शिवराम ...	११३८
८८३	शिवनाथ ...	८१७	१०७०	शिवराम भट्ट ...	८६१
७६७	शिवनाथ ...	७५२	१७२४	शिवरास ...	१०६४
१२८६	शिवनाथ शुक्ल ...	१००४	११७६	शिवलाल दुबे ...	६४५
७१८	शिवनारायण ...	७०३	१२३१	शिवलाल पाठक	६५६
२८७२	शिवनारायण ...	१४८०	२५२७	शिवशंकर ...	१३७२
२७११	शिवनारायण भ्मा	१४४२	७४५	शिवसहायदास...	७४६
१०६४	शिवनंद ...	८६०	३०००	शिवसागर ...	१४६८
२३६८	शिवनंदनसहाय	१३२७	६२५	शिवसिंह ...	८३४
१८८६	शिवपाल ...	११३७	२१६६	शिवसिंह सेंगर	१२७८
२१६४	शिवप्रकाश कायस्थ	१२२२	२३६१	शिवसंपति सुजान	१३५०
२१२८	शिवप्रकाशसिंह	१२१५	१७२५	शिवानंद ...	१०६४
२४८२	शिवप्रसन्न ...	१३६५	२७७२	शीतलप्रसाद ...	१४५३
१२०२	शिवप्रसाद ...	८६०	२८१७	शीतलाप्रसाद ...	१४७०
६६३	शिवप्रसाद ...	८४२	२२८२	शीतलाप्रसाद तेवारी	१२६४
२२१४	शिवप्रसाद ...	१२८३	२५२८	शीतलाप्रसाद तेवारी	१३७२
२६६८	शिवप्रसाद ...	१४६८	२७५४	शीतलाबख्वासिंह	१४५०
२६७१	शिवप्रसाद ...	१४३५	२६३३	शीतलासिंह ...	१४२८
२६५०	शिवप्रसाद ...	१४३१	२८६०	शुकदेवनारायण	१४७८
१८१६	शिवप्रसाद सितारे- हिंदू ...	१११८	२५६७	शुकदेवबिहारी मिश्र	१४१४
२८४८	शिवबालकराम ...	१४७६	८१८	शुभकरन ...	७६१
२५६०	शिव बिहारी लाल मिश्र ...	१३८६	१७२८	शुभारचंद ...	१०६५
			५४७	शेखर ...	१५८३

नम्बर	नाम	पृष्ठ
२७५	शेखनबी	... ४२३
२२१५	शेखर	... १२८३
१७२६	शेखसुलेमान	१०६५
१०६५	शेरसिंह	... ८१०
२६३४	शैलजी	... १४२८
१७२७	शोभ	... १०६५
१७८८	शंकर	... १०८५
२५०६	शंकर	... १३६६
१७८८	शंकर कवि	... १०८५
१६४६	शंकर कायस्थ	... ११४६
२२८३	शंकरत्रिपाठी	... १२६४
१८३४	शंकरदयाल दरिया- बादी	... ११३४
१८३३	शंकरपांडे	... ११३४
२७७३	शंकरप्रसाद	... १४५४
४०७	शंकर मिश्र	... ५०८
२०७८	शंकरसहाय	... ११८२
२२८४	शंकरसिंह	... १२६४
१२१४	शंभूदत्त	... ६५२
११६१	शंभूनाथ	... ६४७
२२३५	शंभूनाथ	... १२८७
२६६७	शंभूनाथ	... १४६८
८२६	शंभूनाथ त्रिपाठी	७६३
१८०८	शंभूनाथ मिश्र	... १११२
७४०	शंभूनाथ मिश्र	... ७४२
३५२	शंभूनाथ सोलंकी	४८२

नम्बर	नाम	पृष्ठ
१७१६	शंभूप्रसाद	... १०६४
२८१०	शंभूराम	... १४६८
४७१	श्याम	... ५५४
२७३६	श्यामकरख	... १४४७
२१६५	श्यामकवि मिश्र	१२२३
६८६	श्यामदास	... ६७१
३००१	श्यामबिहारी	... १४६८
२५६६	श्यामबिहारी मिश्र	१४१३
१६४७	श्याममनोहर	... ११४६
६७४	श्यामराम	... ६६८
१७२६	श्यामराय	... १०६५
४७२	श्यामलाल	... ५५४
८२७	श्यामलाल	... ७६३
६६०	श्यामशरख	... ६७२
२७५५	श्यामशर्मा	... १४५०
११४५	श्यामसखा	... ६३६
१७३०	श्यामसनेही	... १०६५
२५६३	श्यामसेवक मिश्र	१३६०
१६४८	श्यामसुंदर	... ११४६
२५६८	श्यामसुंदरदास	
	स्वामी	... १४१६
२८७१	श्यामसुंदरलाल	१४८०
२५८३	श्यामसुंदर श्याम	१४०४
३६३	श्रीकवि	... ५०६
२२००	श्रीकृष्ण	... १२८०
२१३४	श्रीकृष्णचैतन्यदेव	१२१६



नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
७४६	श्रीकृष्ण भट्ट	७४६	२५७१	सकलनारायण	१३६६
४७३	श्रीगोविंद	५५४	८६३	सखीशरण	७८३
१२७६	श्रीगोविंद	१००२	१०१८	सखीसुख	८८१
३८७	श्रीधर	५०५	३००२	सगुनचंद्र	१४६८
५१२	श्रीधर	५६१	१६४६	सगुनदास	११४६
६०२	श्रीधर	८२६	१७३३	सतीदास	१०६५
५५१	श्रीधर	५६०	२४८३	सतीदास	१३६५
१२४२	श्रीधर	६८५	१७३४	सतीप्रसाद	१०६६
२३८६	श्रीधर पाठक	१३४२	१७३५	सतीराम	१०६६
१७३१	श्रीधरस्वामी	१०६५	२७६२	सत्यदेव	१४६५
६४६	श्रीनाथजी	८३८	२६०८	सत्यनारायण	१४८६
१६११	श्रीनिवास	११४०	२८७३	सत्यनारायण	१४८०
२१७४	श्रीनिवासदास	१२५६	३००३	सत्यव्रत	१४६८
६४३	श्रीपति	६२७	३००४	सत्यानंद जोशी	१४६८
४७५	श्रीपति भट्ट	५५४	३००५	सत्यानंद संन्यासी	१४६८
८७	श्रीभट्ट	३५१	३२०	सदलबच्छ	४७२
२२८५	श्रीमति	१२६४	१११७	सदलमिश्र	६१२
१७३२	श्रीराम	१०६५	२८३	सदानंद	४५१
१२३२	श्रीलाल गुजराती	६५६	३८८	सदानंददास	५०५
१२०८	श्रीसूर्य	६५१	१७३६	सदाराम	१०६६
७३	श्रीसेवकजू	३३२	४१२	सदाशिव	५०६
३६४	श्रीहठ	५०६	८३८	सनेहीराम	७६५
२३३७	श्रीहर्ष	१३०३	२४०५	सन्नूलाल	१३५३
१४४	श्रीहितरूप	३६७	१७३७	सबलजी	१०६६
३३७	श्रुतगोपाल	२५३	१७३८	सबलश्याम	१०६६
४२४	सकल	५१२	१३३०	सबलश्याम	१०१७
			३६०	सबलसिंह	४६६

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
११२	सबसुख	... ६१३	८६८	सहचरिशरणा	... ७८८
११६३	सबसुख	... १४२	२७४१	सहचरिशरणा	... १४४८
१६४	सवितादत्त	... ८४२	२१८२	सहज्राम	... १२६४
३४०	सभाचंद्र	... ४७५	१३	सहजसुंदर	... ३५४
१०८७	समनेश	... ८१४	८६२	सहजोबाई	... ७८२
२४३५	समाधान	... १३५८	१०७३	सहदेव	... ८११
१७३१	समीरल	... १०६६	४८६	सहीराम	... ५५६
१७४०	समुद्र	... १०६६	६	साईं दानचारणा	२२२
१११३	सम्मन	... १०१	११२८	सागर	... १२६
१८०१	सरदार	... १११३	१२१५	सागरदान चारणा	१५२
८१४	सरदारसिंह	... ७६०	१०८८	साजनराव	... ८१४
२८११	सरयूप्रसादआचारी	१४६१	१२७७	साधर	... १००२
२५४५	सरयूप्रसाद का- यस्थ	... १३७५	१७४५	साधुराम	... १०६७
७३१	सरयूराम पंडित	७४०	२५६५	साधुशरणाप्रसाद	१३११
१७४१	सरसदास	... १०६७	२३१०	साधोगिरि	... १२११
३६१	सरसदास गोस्वामी	५००	२३१४	साधोराम	... १३५१
१७४२	सरसराम	... १०६७	२४२६	साधोसिंह महाराजा	१३५७
२५११	सरस्वतीदेवी	... १४१७	४१८	सामंत	... ५५१
१८१०	सरूपदास	... ११३७	८२८	सारंग	... ७६३
१७४३	सरूपदास	... १०६७	२२८६	सालिक	... १२१४
१७४४	सरूपदास	... १०६७	३००६	सालिग्राम	... १४१८
१२८	सर्वजीत	... ३६१	७१४	सावंतसिंह	... ७५७
२७१३	सर्वसुखदास	... १४४२	३००७	सावित्रीदेवी	... १४१८
११११	सर्वसुखशरणा	... ११५७	१७४६	साह	... १०६७
१८११	सवाईराम	... ११३७	१३१३	साहिजू	... १९०१
			३३५	साहेब	... ५०७

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२०१६	साहेबदीनसाधु ...	११६०	७०८	सुखदेव ...	६७५
११०४	साहेबराम जोशी	११३६	४३०	सुखदेव मिश्र ...	५२५
११६०	सांवरीसखी ...	११४६	१७५०	सुखनिधान ...	१०६८
२२८७	सावलदास ...	१२६५	२३१२	सुख बिहारीलाल	१२६६
१७४७	सिकदार ...	१०६७	२०१२	सुखबिहारी साधु	११५६
४५७	सितिकंठ ...	५५१	२४८४	सुखरामदास ...	१३६५
३१६	सिद्धि ...	५०७	७६३	सुखलाल ...	७५२
१८१२	सिरा ...	११३७	११६६	सुखलाल भाट ...	११५६
१७४८	सिंगार ...	१०६७	१७५१	सुखशरण ...	१०६८
१७४६	सिंगीमेघराज ...	१०६७	१०११	शुखसखीजी ...	८६५
११६४	सिंह ...	६४२	८०५	सुखसागर ...	७५६
६४६	सीतल ...	६३२	६६६	सुखानंद ...	८४२
११०५	सीतल त्रिपाठी ...	११३६	१७५२	सुजान ...	१०६८
१८३८	सीतलराय ...	११३५	१७५३	सुधरा ...	१०६८
२४०६	सीताराम ...	१३५३	४५६	सुदर्शन ...	५५१
२७१४	सीताराम ...	१४४३	२२८६	सुदर्शनसिंह राजा	१२६५
२६५१	सीताराम ...	१४३१	२६७२	सुदर्शनाचार्य ...	१४३५
२८१८	सीताराम ...	१४७०	२१०२	सुदामाजी ...	१२१०
१३११	सीताराम दत्तिया	१००६	२३६०	सुधाकर द्विवेदी	१३१६
६६५	सीताराम दासवैश्य	८४२	३६७	सुबुद्धि ...	५०७
२३७१	सीताराम बीर ...	१३२६	२६०५	सुबंध ...	१४२३
२३३८	सीताराम वैश्य ...	१३०३	३८६	सुबंधराय ...	५०६
२०८१	सीतारामशरण ...	११८८	४१२२	सुबंध शुक्ल ...	६१८
१२७८	सुकवि ...	१००३	३००८	सुभद्राकुर्वरि ...	१४६६
२२८८	सुखदीन ...	१२६५	१७५६	सुमतगोपाल ...	१०६८
४१३	सुखदेव ...	५१०	८३६	सुमेरसिंह साहेबजादे	७६५

नम्बर	नाम	पृष्ठ
२४८५	सुमेरसिंह साहेबजादे सुमि- रेस हरी ...	१३६६
२८८	सुंदर ...	४५४
१७५४	सुंदरकली ...	१०६८
८६४	सुंदरकुँवरि ...	७८३
२५२	सुंदरदास ...	४१४
११४७	सुंदरदास ...	६३६
१७५५	सुंदरबंदीजन ...	१०६८
२८१६	सुंदरलाल ...	१४७०
२०२२	सुंदरलाल ...	११६१
२१०६	सुंदरलाल कायस्थ	१२१०
२८२०	सुंदरलाल शर्मा	१४७१
११२६	सुंदरसिंह महाराजा	६२२
१८६३	सुंदरिका ...	११३७
२२६०	सुखन ...	१२६५
४६६	सुजाबंदीजन ...	५५६
८५५	सूदन ...	७६८
८४०	सूरज ...	७६५
२८५०	सूरजनारायण पांडे	१४७६
२४८६	सूरजनारायणलाल कायस्थ ...	१३६६
१२४६	सूरजमल ...	६६५
५५५	सुरति मिश्र ...	६०३
६४	सुरदास ...	३५४
५२	सुरदास ...	२६६
१७५७	सुरसिंह ...	१०६८

नम्बर	नाम	पृष्ठ
२८६१	सूर्यकुमार वर्मा ...	१४७८
२२१८	सूर्य प्रसाद ...	१२८३
२३७४	सूर्यप्रसाद मिश्र ...	१३३३
५१	सेन कवि ...	२६०
२७	सेननाई ...	२४६
२७८	सेनापति ...	४३२
१८०५	सेवक ...	११०१
१६०६	सेवक ...	११३६
१३१४	सेवक ...	१०१०
७६५	सेवक गुलालचंद	७५७
७३	सेवकजी ...	३३२
७६६	सेवकप्रेमचंद ...	७५७
१७५८	सेवकराम परमहंस	१०६८
७६७	सेवक शिवचंद ...	७५६
१७५९	सेवादास ...	१०६६
१३८	सेनकुँवरि ...	३६३
१६५१	सेनादासी ...	११४७
१७६०	सोमदेव ...	१०६६
८३६	सोमनाथ ...	७६४
७२०	सोमनाथ ...	७०४
२७६५	सोमेश्वरदत्त ...	१४६६
१७६१	सोहनलाल ...	१०६६
३६८	संख ...	५०७
१२०५	संगम ...	६५०
१७६२	संग्रामदास ...	१०६६
११८०	संग्रामसिंह ...	६४५

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
२४१६	संतकवि रीवाँ ...	१३६८	२८५१	हनुमानप्रसाद वैश्य	१४७६
७६४	संतजीव ...	७५२	२२२१	हनुमंत ...	१२८६
२४६	संतदास ...	४२३	२६६२	हनुमंत ...	१४३६
८६८	संतदास ...	८२८	२२६१	हनुमंतसिंह ...	१२६५
५४४	संतन दुबे ...	५८१	२५६६	हनुमंतसिंह कुँवर	१३६१
५४३	संतन पांडे ...	५८०	७६८	हमीरदान ...	७५८
२४८७	संतबख्श भाट ...	१३६६	२४२	हरखचंद ...	४११
३००६	संतराम ...	१४६६	५१३	हरखचंद ...	५६२
१३१०	संतसिंह ...	१००६	२२६२	हरखनाथ भा ...	१२६५
१७६३	संतोष वैद्य ...	१०६६	१७६७	हरतालिकाप्रसाद	१०७०
१८२८	संतोषसिंह ...	११३३	१७६८	हरदयाल ...	१०७०
२७१२	संपति ...	१४४२	२४०७	हरदेवबक्श ...	१३५३
१६८१	संपति ...	११५३	२३१३	हरदेवबक्श ...	१२६६
१७६४	स्कंदगिरि ...	१०६६	११४८	हरदेव बनिया ...	६३६
११६२	स्वरूपमान ...	६४८	८५७	हरनारायण ...	७७६
१७६५	हकीम फरासीस	१०६६	१७६६	हरराज ...	१०७०
२७३८	हजारीलाल ...	१४४७	१०८६	हरलाल ...	८६४
२४८८	हजारीलाल त्रिवेदी	१३६६	१२६५	हरसहाय भाट ...	१००६
६८२	हठी ...	८६६	३०१०	हरसहायलाल ...	१४६६
२१८५	हनुमान ...	१२६८	१६६७	हरिआचार्य ...	११५६
२१४५	हनुमानदास ...	१२१८	८५३	हरिकवि ...	७६८
२१६६	हनुमानदीन मिश्र	१२२३	२८७४	हरिकृष्ण ...	१४८०
१७६६	हनुमानप्रसाद		६६१	हरिकेश ...	६६४
	कायस्थ ...	१०६६	२७५७	हरिगोविंद ...	१४५१
२८२१	हनुमानप्रसाद		८५६	हरिचरनदास ...	७८०
	तेवारी ...	१४७०	२६२३	हरिचरनसिंह ...	१४२६

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
५१४	हरिचंद	५६२	७४	हरिवंसअश्ली	३३३
१७७०	हरिचंद	१०७०	४१५	हरिवंस मिश्र	५१०
४२५	हरिजन	५१२	६३५	हरिवंसराय	८३६
१६८२	हरिजन	११५३	२०१०	हरिभक्तसिंह राजा	११५६
१२५६	हरिजीरानी	६६६	१७७२	हरिभानु	१०७०
१७७१	हरिजीवन	१०७०	१७०३	हरिया	१०७०
७५३	हरिजू	७५०	१७७४	हरिराम	१०७०
२७१५	हरिदत्त त्रिपाठी	१४४३	२३३	हरिरामदास	४०६
१६५२	हरिदत्तसिंह	११४७	१०६	हरिराय	३५७
८६०	हरिदास	८२७	१०३१	हरिलाल	८८४
१२७६	हरिदास	१००३	१७२	हरिशंकर	३८८
३०११	हरिदास	१४६६	२७३६	हरिशंकर	१४४७
२२६३	हरिदास	१२६६	२१६६	हरिश्चन्द्र भारतेंदु	१२४७
२०७५	हरिदास	११७२	११५३	हरिसहाय गिरि	६४०
१८४८	हरिदास पंना	११३६	३०१०	हरिसहायलाल	१४६६
६४	हरिदास स्वामी	३०२	१८६४	हरिसुख	११३७
८७७	हरिनाथ	७६६	६३१	हरिसेवक	६२१
३१२	हरिनाथ	४७०	३०१२	हरिहरप्रसाद	१४६६
१००७	हरिनाथ भा	८७६	२७५८	हरिहरलालजी	
२२६	हरिनाम	४०८	गोस्वामी	१४५१	
२५६१	हरिपालसिंह	१४०७	१२७६	हरीदास	१००३
१०००	हरिप्रसाद	८७७	२१६७	हरीदास भट्ट	१२२३
१६१०	हरिप्रसाद	११४४	३७७	हरीराम	५०३
१६०७	हरिप्रसाद पंना	११३६	२८२२	हरीराम	१४७१
११३६	हरिवल्लभ	६३४	६५२	हरीसिंह	८३६
२३१४	हरिविलास	१२६६	६२६	हरीहर	८३४

नम्बर	नाम	पृष्ठ	नम्बर	नाम	पृष्ठ
१६६७	हरीहर आचार्य्य	११५६	३७८	हुसैन	... ५०४
२०४२	हलधर ...	११६५	१८६५	हून	... ११३७
२१०३	हाजी ...	१२१०	१८६६	हृदयानंद	... ११३७
११८१	हितगुलाल लाल	६४६	२७७	हृदराम	... ४२३
१७७५	हितनंद ...	१०७१	८५४	हेमगोपाल	... ७६८
१००६	हितपरमानंद ...	८७८	१७७८	हेमचरण	... १०७१
११६५	हितप्रियादास ...	६४२	१७७६	हेमनाथ	... १०७१
७६६	हितराम ...	७५८	३०१	हेमराज	... ४६८
१४४	हितरूप गोस्वामी	३६७	२५७२	हेमंतकुमारी चौधरी	... १३६६
८००	हितलाल ...	७५८	२६०३	हेमंतकुमारी भट्टाचार्य्य	... १४२२
६०	हितहरिवंशजी ...	२८४	२२६५	होमनिधि	... १२६६
२२६४	हिमाचलराय ...	१२६६	१४६	होलराय	... ३७०
१६८३	हिमाचलसिंह ...	११५३	१७८०	हंसविजय जती	... १०७१
८१०	हिम्मतबहादुर ...	७६०	७१०	हंसराज	... ६७५
१७७६	हिम्मतराज ...	१०७१	६६२	हंसराज बकसी	... ६६५
६६६	हिम्मतसिंह ...	६६७	२५४६	हंसराम	... १३७५
२१६८	हिरदेश भट्ट कांसी	१२२३	२७४१	ज्ञानअली	... १४४८
१७७७	हीरसूरि ...	१०७१	१०४५	ज्ञानचंद यती	... ८८६
२३२८	हीराप्रधान ...	१३०२	१७८१	ज्ञानविजय जती	१०७१
३४८	हीरामणि ...	४७६	१७८२	ज्ञानिराम	... १०७२
३४३	हीरालाल ...	४७६	२२०२	ज्ञानी राय	... १२८०
२२३२	हीरालाल	१२८६			
२१०१	हीरालाल चौबे	१२०६			
६२७	हुकमीचंद ...	८३४			
४७४	हुलासराम ...	५५४			

## परिशिष्ट नम्बर २

हिन्दी के मुख्य ग्रन्थ ।\*

ग्रन्थ	पृष्ठ	ग्रन्थ	पृष्ठ
अधखिलाफूल	... १३८५	अलंकारदर्पण	... ८६३
अनन्ययोग	... ५४१	अलंकारदीपक	... ७४२
अनवरचन्द्रिका	... ६७३	अलंकाररत्नाकर	... ६६६
अनुरागवाग	... ६८७	अवधविलास	... १४१८
अन्धेरनगरी	... १२४६	अवधसागर	... ५७६
अन्योक्तिकल्पद्रुम	... ६८८	अवधूतभूषण	... ८५६
अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास	१४८१	अशोक का जीवनचरित्र	... १४७८
अभिमन्यु	... १३६१	अष्टयाम	... ५६६ व ११२६
अमरचन्द्रिका	... ६०३	अष्टांगयोग	... ६५५
अमरेशविलास	... ४६५	आदर्शदम्पति	... १३७७
अलकशतक	... ३६७	आदर्शपुरुष रामचन्द्र	... १४२२
अलंकारचन्द्रोदय	... ११८४	आदर्शमाला	... १३६६

\* अपने एक मित्र के आग्रह से हम, यह परिशिष्ट भी लिखते हैं। हिन्दी के हजारों ग्रन्थ अमुद्रित होने, तथा वर्तमान समय के सैकड़ों ग्रन्थ न देखने के कारण से हम इस नामावली में बहुत से ऐसे ग्रन्थ नहीं लिख सके हैं, जिनका लिखा जाना उचित था। इसीलिए हम यह परिशिष्ट लिखना ही नहीं चाहते थे, किन्तु अभाव से अधूरा अस्तित्व भी श्रेष्ठतर समझ कर अपने जाने हुए ग्रन्थों में से हम यह नामावली लिखते हैं।



ग्रन्थ	पृष्ठ	ग्रन्थ	पृष्ठ
आदर्श हिन्दूरमणी ...	१४०६	कवित्तरत्नाकर ...	४३३
आदिबानी ...	३५१	कविप्रिया ...	३१०
आदिरामायण ...	१०६६	कविविनोद ...	५६१
आनन्दचमन ...	६३३	कवीन्द्रकल्पलता ...	४५३
आनन्दरघुनन्दन ...	६३०	कादम्बरी ...	८८०
आनन्दाम्बुनिधि ...	१११०	काव्य और लोकशिक्षा ...	१४६७
इन्दिरा ... १३२५ व	१३६६	काव्यकलाधर... ..	७१०
इन्द्रावती ...	७२५	काव्यनिर्णय ...	६८६
इला ...	१२७४	काव्यप्रभाकर ...	१३२६
इश्कनामा ...	८२४	काव्यरसायन ...	५६६
उमरावकोष ...	६१८	काव्यविलास ...	६८३
जल्लवासी ...	२५२	काव्यसरोज ...	६२७
जषाहरण ...	१०८४	किशोरसंग्रह ...	७६१
ऋग्वेदभाष्य ...	११७४	कुमारपालचरित्र ...	२३५
ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका	११७४	कुशलविलास ...	५६६
ऋतुवर्णन ...	१०६०	कुंडलिया गिरिधर की ...	७२२
एकान्तवासी योगी ...	१३४२	कृष्णगीतावली ...	३०५
अंगदर्पण ...	७०८	कृष्णचरित्र ...	१२४८
कजलीकादम्बिनी ...	१३०८	कृष्णायन ...	८४६
कमरुद्दीनखान हुल्लास ...	६५८	केटोकृतान्त ...	१२५२
कलियुगप्रभाव नाटक ...	१३२५	त्रिभुवकुलतिमिरप्रकाश ...	१३६१
कलिराजकी सभा ...	१२०७	खटमलबाईसी ...	६६३
कल्पना का आनन्द ...	१४८५	खड़ीबोली ...	१२७७
कविकुलकल्पतरु ...	४५७	खुमानरासा ...	२२२
कविकुलकंठाभरण ...	७३५	गद्यकाव्यमीमांसा ...	१३०७
कवितावली रामायण ...	३०५	गारफ़िल्ड ...	१६७८

ग्रन्थ	पृष्ठ	ग्रन्थ	पृष्ठ
गीतावलीरामायण ...	३०६	छन्दलावनी ...	१०६०
गुटका ...	१११६	छन्दविचार ...	५२७
गुल्ज़ारचमन ...	६३३	छन्दशतक ...	६३६
गोरखसार ...	२४१	छन्दोर्णव पिंगल ...	६८६
गोराबादल की कथा ...	४१६	जगद्विनोद ...	६६१
गोविन्दचन्द्रिका ...	८८७	जनकफुलवाड़ी ...	१२६१
गौरीकोष ...	१२७२	जमुनालहरी ...	६७३
गंगाभूषण ...	१२२५	जया ...	१२७४
गंगालहरी ...	६६५	जरासिंधवध ...	१०६८
ग्रन्थसाहब ...	२५८	जसवन्तजसोभूषण ...	१३६२
घराऊघटना ...	१४५८	जातिविलास ...	५६६
चतुरचंचला ...	१३४१	जानकीसंगल ...	३०५
चन्दछन्दबरनन की महिमा	३५०	जापानदर्पण ...	१४००
चन्द्रकला भानुकुमार नाटक	१३७८	जासूस ...	१३४१
चन्द्रकान्ता ...	१३८४	जुगलरसमाधुरी ...	६०७
चन्द्रसेन ...	१२०७	जैमिनिपुराण ...	७४०
चन्द्रावली ...	१२४८	जंगनामा ...	५६०
चरखचन्द्रिका ...	८४३	टाड का जीवनचरित्र ...	१३४४
चित्रचन्द्रिका ...	६८६	टाड राजस्थान पर टिप्पणी	१३४४
चित्रावली ...	४०१	टिकैतरायप्रकाश ...	८७०
चीनदर्पण ...	१४००	टीका कविप्रिया ...	७८०
चीन में तेरहमास ...	१३६२	ठगवृत्तान्तमाला ...	१३१७
चौरासी वैष्णवों की वार्त्ता	३४८	ठाकुरशतक ...	७२४
छत्रप्रकाश ...	५६२	ठेठ हिन्दी का ठाठ ...	१३८५
छत्रसालदशक ...	५१४	डिंगलकोष ...	११११
छन्दछप्पनी ...	८१६	तांतियाभील ...	१३८३

ग्रन्थ	पृष्ठ	ग्रन्थ	पृष्ठ
तिल शतक ...	... ३६७	नीतिनिचोड़ ...	... १४१७
तृप्यन्ताम् ...	... १३२५	नीलदेवी ...	... १२४८
दयानन्दजीवनी ...	... १४६६	नूरकचन्दा ...	... २४१
दलेलप्रकाश ...	... ८६६	नैपाल का इतिहास ...	... १३८३
दशमस्कन्ध भाषा ...	... ४८३	नैपालियन का जीवनचरित्र	१२७८
दानलीला ...	... २७७	व १३२०	
दुर्गा भाषा ...	... १०२१	नैषध भाषा ...	... ७३३
दुर्गेशनन्दिनी ...	... १२५५	पत्नीविलास ...	४१८ व ६६२
देवचरित्र ...	... ५६६	पजनेसप्रकाश ...	... ११००
देवमायाप्रपंच नाटक ...	... ५६६	पदमावती ...	... १२०७
देवी उपन्यास ...	... १३८३	पदसागर ...	... ६४३
दो सौ बावन वैष्णवों की वात्ता	३४८	पदावली ...	२४६ व १०८८
दोहावली ...	... ३०६	पदावली रामायण ...	... ३०५
धम्म-पद ...	... ४७८	पद्माभरण ...	... ६६१
धर्म और विज्ञान ...	... १४०६	पद्मावत ...	... २८६
धाराधर धावन ...	... १३७८	पद्मा राज्य का इतिहास ...	... १४२०
नखशिख ...	... १३२६	परिहारों का इतिहास ...	... १२५३
नखशिख (शंभुनाथ) ...	... ४८२	पानीपत ...	... १३८३
नखशिख बलद्रुम कृत ...	... ३६६	पापविमोचन ...	... १३४८
नरसी जी का माथरा ...	... २६८	पारिजातहरण ...	... २४७
नरेन्द्रभूषण ...	... ८६४	पार्श्वपुराण ...	... ६५१
नवरस तरंग ...	... ८६८	पीपाप्रकाश ...	... ११०३
नहुष नाटक ...	... १२३०	पुलीसवृत्तान्तमाला ...	... १३१७
नाटक-समयसार ...	... ३६६	पूना में हलचल ...	... १४२०
नासकेतोपाख्यान ...	... ६१३	पृथ्वीराज रासो ...	... २२८
निबन्ध माला ...	... १४०५	प्रताप कुँवर रत्नावली ...	... १३२१-

ग्रन्थ	पृष्ठ	ग्रन्थ	पृष्ठ
प्रबोधपचासा ...	६६४	बरवै नाथिका भेद ...	३७३
प्रमिला ...	१२७४	बागमनोहर ...	६१५
प्रयागप्रदर्शिनी से लाभ	१४२२	बाग्विलास ...	११०३
प्रवचनसार ...	६३६	बात की करामात ...	१३२०
प्रवासी ...	१४६३	बानी ...	८५५
प्रह्लादचरित्र ...	१२६४	बानी गदाधर की ...	५१६
प्राकृत विचार ...	१२६४	बानी दाडू जी की ...	३४६
प्राचीन लिपिमाला ...	१३४४	बाप्पा रावळ ...	१३८१
प्रेम ...	१४६७	बामा मनरंजन	६२६ व १११६
प्रेम चन्द्रिका ...	५६६	बारहमासा ...	१०१७ व १०६०
प्रेमतरंग ...	५६६	बालमुकुन्दलीला ...	४८५
प्रेमप्रलाप ...	१२४८	बालाविचार ...	१४६१
प्रेमवाटिका ...	३८२	बालोपदेश ...	१४७०
प्रेमयोगिनी ...	१२४८	बिदुरप्रजागर ...	६६७
प्रेमरत्न ...	१३३५	बिरहबारीश ...	८२३
प्रेमसागर ...	६११	बिश्रामसागर ...	११२१
फतेहप्रकाश ...	७६४	बीबीहमीदा ...	१४८१
फ़ाज़िल अली-प्रकाश ...	५२७	बीरबल ...	१२५३
फ़ाहियान भाषा ...	१४०२	बीरबलविनोद ...	१३७७
फ़िरसाने चमन ...	१०६०	बीसल देव रासो ...	२३७
फूलों का गुच्छा ...	१४५७	बूढ़ा बर ...	१४०१
बघेलवंशचर्यन ...	११६१	बूढ़े का व्याह ...	१४८८
वनयात्रा ...	२५६	बूंदी राज चरितावली ...	१४२६
बनारसीविलास ...	३६६	बृद्ध बिलाप ...	१३०८
बरनियर की भारतयात्रा	१४२०	बृहत्वनिताभूषण ...	११२८
बर्बै नखशिख ...	११०३	बैतालपच्चीसी	७७८ व ७७६

ग्रन्थ	पृष्ठ
बंगबिजेता ...	१२५५
बंगाल का इतिहास ...	१३२७
ब्रजविलास ...	७६७
ब्रजराजविहार ...	१२०१
ब्रजलीला ...	६६५
भक्तनामावली ...	४४७
भक्तमाल ...	३६० व १११०
भक्तिभवानी ...	१४०६
भरतपुर का युद्ध ...	१३४२
भर्तृहरि नाटक ...	१४०२
भर्तृहरि नीतिशतक ...	१३६७
भवानीविलास ...	५६६
भागवत दशम स्कन्ध ...	२३६
भारत आरत नाटक ...	१२८८
भारत का इतिहास ...	१४६२
भारत के प्रसिद्ध पुरुष ...	१४२१
भारत के देशी राज ...	१४८१
भारतदुर्दशा ...	१२४८
भारतभ्रमण ...	१३६१
भारतवर्ष का इतिहास ...	१२७५
भारत विनय ...	१४१४
भारत सैनिक्य नाटक ...	१३०७
	व १३०८
भारतेन्दु हरिश्चंद्र की जीवनी	१३२७
भारतभ्रतिसोपान ...	१४७०
भावविलास ...	५६६

ग्रन्थ	पृष्ठ
भाषाभरण ...	७६०
भाषाभूषण ...	४६३
भुवनेशभूषण ...	१३११
भूषणग्रंथावली ...	१४१४
भंडौवासंग्रह ...	१३१६
भ्रमरगीत ...	२७५ व १११०
मनोविनोद ...	१३४२
मरहट्टा नाटक ...	१३०७
महाभारत भाषा ...	८०३ व १३७७
महाभारत सबलसिंहकृत ...	४६७
महावाणी ...	४५०
महिम्न भाषा ...	८५६
महिलासृष्टुवाणी ...	१२५३
माडर्न वनैक्युलर लिटरेचर	
आफ़ हिन्दुस्तान ...	१३१२
माधवानल काम कन्दला ...	५८२
	व ७७६
माधवीकंकण ...	१३४१
मालतीमाधव ...	१३३१ व १४०५
मालविकाग्निमित्र ...	१३३१
मिश्रभाष्य ...	१३३६
मुद्राराक्षस ...	१२४८
मूत्रनेणसी की ख्याति ...	५५७
मृगायाशतक ...	१११०
मृगावती ...	२६०
मृच्छकटिक ...	१३३१

ग्रन्थ	पृष्ठ	ग्रन्थ	पृष्ठ
मेगास्थनीज का भारतवर्षीय		रसवृष्टि ... ..	८१७
विवरण ... ..	१४८२	रसशृंगार ... ..	८७६
मेवाड़ का इतिहास ... ..	१३६१	रसिकप्रिया ... ..	३१०
मैं और मेरा दादा ... ..	१३४१	रसिकमोहन ... ..	७१०
यमलोक की यात्रा ... ..	१२७३	रसिकविलास ... ..	७३२
ययुर्वेद भाष्य ... ..	११७६	रसिकरसाल ... ..	७३६
युगुलांगुलीय ... ..	१३२५	रागगोविन्द ... ..	२६८
योगवाशिष्ठ ... ..	१३१३	रागमाला ... ..	३४५
रघुराजविलास ... ..	१११०	रागरत्नाकर ... ..	५६६
रणजीतसिंह का जीवनचरित	१४२१	रागसागरोद्भव ... ..	१०६०
रणधीर प्रेममोहनी ... ..	१२५६	राजनीति ... ..	५६३
रतनहजारा ... ..	५७४	राजपट्टन ... ..	५५८
रत्नावली ... ..	११४७	राजपूतवीरता ... ..	१४६३
रसकलोल ... ..	६०५	राजरत्नाकर ... ..	५१०
रसचन्द्रोदय ... ..	५८८	राजसिंह ... ..	१३२५
रसतरंग ... ..	१२०४	राजस्थान केसरी नाटक ... ..	१३८१
रसनिवास ... ..	८६३	राजा भोज का सपना ... ..	१११६
रसपीयूषनिधि ... ..	७०४	राठौर राजाओं की ख्याति ... ..	६५५
रसप्रबोध ... ..	७०८	राधाशतक ... ..	८६६
रसरतन ... ..	४५५	रामचन्द्रभूषण ... ..	११६६
रसरत्नाकर ... ..	८७४	रामचन्द्र शिखनख ... ..	६८२
रसरहस्य ... ..	५२०	रामचन्द्रिका ... ..	३१०
रसराज ... ..	४६१	रामचरितमानस ... ..	३०५
रसवाटिका ... ..	१४०५	रामदास स्वामी की जीवनी	१४५३
रसविनोद ... ..	८६३	रामरसायन ... ..	१२५
रसविलास ... ..	५६६ व ८७१	रामरावणयुद्ध ... ..	६१०

ग्रन्थ	पृष्ठ
रामविलास रामायण ...	५३८
रामसत्सई ...	३०६
रामस्वयम्बर ...	१११०
रामायण ... १२६४ व १३७६	
रामायण खीची कृत ...	७४४
रामान्धमेघ ...	५६१ व ८५१
रावणदिग्विजय ...	१२२०
रास पंचाध्यायी ...	२८१
रिपवान विंकल ...	१३८५
रुक्मिणीपरिणय १४७ व १११०	
रुठीरानी ...	१२५३
रूस-जापान युद्ध ...	१३६२
रंगतरंग ...	१०६२
खलनऊ की नवाबी ...	१४००
खलित-खलाम ...	४८६
खलित्यलता ...	७६२
खंका-कांड ...	१३६८
वर्तमाल ...	२२३
वाल्मीकीय रामायण श्लोकार्थ प्रकाश ...	६०२
विकटोरियाचरित्र ...	१३७७
विक्रम त्रिदुवाली ...	८६६
विक्रमसत्सई ...	८६६
विजयमुक्तावली ...	५७१
विद्वन्मोदतरंगिणी ...	६८५
विनयपत्रिका ...	३०६

ग्रन्थ	पृष्ठ
विहारचमन ...	६३३
विज्ञानगीता ...	३१०
वीरचत्राणी ...	१४०६
वीरबालक ...	१४०६
वीरेन्द्र वीर ...	१३८४
वीरोल्लास ...	१३१६
वृत्तविचार ...	५२७
वृन्द सत्सई ...	५४६
वृहद् व्यंग्यार्थचन्द्रिका ...	११२०
वेनिस का बांका १३२० व १३८५	
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ...	१२४८—४६
वैराग्यसागर ...	६४३
वंशभास्कर ...	६६५
व्यंग्यविलास ...	१११३
व्यंग्यार्थकौमुदी ...	६८२
व्यापारिक कोष ...	१४००
शकुन्तला नाटक ५४५ व ११७८	
शक्ति चिन्तामणि ...	८७३
शत प्रश्नोत्तरी ...	३४८
शब्दरसायन ...	५६६
शर्मिष्ठा ...	१२०७
शातृंगधर पद्धति ...	२३६
शिकारगाह ...	११६३
शिखा ...	१३३४
शिखनख ...	१०६८

ग्रन्थ	पृष्ठ	ग्रन्थ	पृष्ठ
शिव तांडव भाषा ...	१२८४	सत्सई रहीम ...	३७३
शिवपुराण ...	१११२	सनेहसागर ...	६६५
शिवराजभूषण ...	५१४	सबद दाढ़ू ...	३४६
शिवशम्भु का चिट्ठा ...	१३८४	समन्तसार ...	२२२
शिवसिंहसरोज ...	१२७५	समयप्रबन्ध ...	३५२ व ७१६
शिवा बावनी ...	५१४	समरसार ...	८४७
शृंगारचरित्र ...	८५६	सरसरस ...	१०६२
शृंगारदर्पण ...	१२६६	सरोजिनी ...	१२७३
शृंगारनिर्णय ...	६८६	सहजोप्रकाश ...	७८५
शृंगाररसमंडन ...	३२८	साखी ...	२५१
शृंगारलतिका ...	१०८१	सामयिक पत्रों का इतिहास	१३८१
शृंगारसत्सई ...	६७१	सारसंग्रह ...	३६७
शृंगारसौरभ ...	५३७	साहित्यरत्नाकर ...	१३८०
शृंगारसंग्रह ...	१११३	साहित्यलहरी ...	२७०
शंकराचार्य ...	१४०६	साहित्यसुधानिधि ...	८०१
श्रीरामचन्द्र नखशिख ...	१३१८	साहित्यसुधासागर ...	११६३
श्री हजूरानरी कथा ...	६५५	सिक्ख युद्ध ...	१३४२
षट ऋतु ... ६४५ व	१११३	सिरोही का इतिहास ...	१३४४
सतीविलास ...	१११४	सिं गारसागर ...	६४३
सत्य हरिश्चन्द्र ...	१२४८	सीताचरित्र ...	१४०६
सत्यार्थप्रकाश ...	११७४	सुखसागरतरंग ...	५६६
सत्योपाख्यान ...	६२३	सुजानचरित्र ...	७६६
सत्सई कृष्ण ...	६५३	सुजानरसखान ...	३८२
सत्सई चन्द ...	५८७	सुजानविनोद ...	५६६
सत्सई बिहारी ...	४७८	सुजानसागर ...	६२५
सत्सई भूपति ...	६६५	सुदामाचरित्र ...	३२६



ग्रन्थ	पृष्ठ	ग्रन्थ	पृष्ठ
सुधानिधि' ...	... ६१८	स्वरोदय ...	... ५४०
सुन्दर काव्य ...	... ४१४	हज़ारा ...	... ५३५
सुन्दर कांड ...	... ८५१	हनुमानचालीसा ...	... ३०५
सुन्दर सवैया ...	... ४१४	हनुमान नाटक ...	... १२७५
सुन्दर सांख्य ...	... ४१४	हनुमान बाहुक ...	... ३०५
सुन्दरी सिन्दूर ...	... ५६६	हमारा प्राचीन ज्योतिष ...	... १४००
सुरभी दानलीला ...	... ८४१	हम्मीर काव्य ...	... २३१ व ६५६
सुरीला देवी ...	... १४६१	हम्मीर रासो ...	... २३१
सूमसागर ...	... ६६८	हम्मीरहठ ...	... १७६
सूरसागर ...	... २७७	हरिवंश नाटक ...	... ७८७
सूरसारावली ...	... २७०	हितचौरासी ...	... २८५
सूर्यप्रकाश ...	... ६७४	हिततरंगिनी ...	... २८८
सोलांकियों का इतिहास ...	... १३४४	हितोपदेश भाषा ...	... ५५७
सौ अज्ञान का एक सुज्ञान ...	... १२०७	हिन्दी केमिस्ट्री ...	... १४६५
सौन्दर्यलहरी ...	... ८५१	हिन्दीकोविदरत्नमाला ...	... १४१६
संगीतसार ...	... ३४५	हिन्दी महाभारत ...	... १३३४
संजोगिता स्वयम्बर ...	... १२५६	हिन्दी वैज्ञानिक कोष ...	... १४१७
संसारचक्र ...	... १४४८	हिम्मत बहादुर बिरदावली ...	... १५८
संस्कृत कविपञ्च ...	... १४०५	हूयंसान ...	... १४०२
स्त्रीकर्त्तव्य ...	... १४२२	हंस जवाहिर ...	... १०९६
स्वतन्त्रता ...	... १३३४	ज्ञानस्वरोदय ...	... २५१ व २५७
स्वदेशसेवा ...	... १४६७		

## परिशिष्ट नम्बर ३

### शुद्धिपत्र ।

पृष्ठ	पंक्ति	लिखित	उचित
१०८१	६	डाड	उड़ा
१०९०	५	संग्रहीत	संगृहीत
११०४	८	कबूखों	कबूखो
१११०	२	मड़े	बड़े
१११६	११	उदाय	उदय
११२१	११	अ	अू
११५८	१६	फ़ाज़िल	फ़ाज़िल
११६५	२०	१६६०	१६११
११७७	२२	मूख	मूखँ
१२१८ व ११७६	१२ व १८	श्रेणी	श्रेणी
११८८	१७	भगवद्धचनामृत	भगवद्धचनामृत
११९४	१८	मितैया	मितैया
१२०३	२	जा	जो
१२१२	१५	पौराणिक	पौराणिक
१२१५	११	साधारण	साधारण
१२१८	१५	पूर्व	पूर्व
१२३७०	शिरोभाग	र्त्तमान	वर्त्तमान

१२६२

मिश्रबन्धुविनोद ।

[ शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	लिखित	उचित
१२४०	१२	१६४१	१६४२
१२४७	१२	मञ्जाक	मञ्जाक
१२५३	१२	राजसिंह, (जयपूर),	राजसिंह (जयपूर),
१२६०	२०	वष	वर्ष
१२६८	२१	लखनऊ	लखनऊ
१२७०	२१	विलास	विशाल
१२६०	६	दक्षिण	दक्षिण
१३०१	१३	१६७६	१६०६
१३०१व १३०२ १६ व ३		कविता	जन्म
१३०७	८	श्रद्धा	श्रेष्ठी
१३२५	१५	संप्रह	संप्रह
१३२८	७	उठै	उठै
१३२८	२३	बूंदीके	बूंदी
१३४३	१२	नव	नव
१३७८	६	द्रुपद	द्रुपद
१३८३	२०	बाबू	बाबू
१३८५	४	बण्डरिक	बराडरिक
१३९०	१७	रचनाकाल	रचना
१३९२	१२	द्रुम	द्रुम
१४०१	शिरोभाग	वर्तमान	वर्तमान
१४०३	२	१	२
१४४८	४	मंजवली	मंजावली

पृष्ठ	पंक्ति	लिखित	उचित
१४५१	६	तज्क	ताजिक
१४५६	६	लसे	रसे
१४६४	५	मिष्टर	मिस्टर
१४७२	६	२५२७	२८२७
१४८३	१५	१३६५	१६६५
१४८४	१	१८४३	१६४३
१४८४	१४	१८४८	१६४८
१५००	१	सची	सूची
१५३३	२७	साहय	सहाय
१५४१	२०	पलपति	दलपति